


इशभक्त्यादि संग्रहः

(सान्वयार्थः)



सम्पादकः—
सिद्धसेन जैन गोयलीय.




आचार्यवर्य श्रीपूज्यपाद आदि विरचित--

दशभक्त्यादि संग्रह

सम्पादक—

“जै० सि० रत्न०” पं० सिद्धसेन जैन गोयळीय सा० रत्न, शास्त्री



प्रकाशक—

आखिल विश्व जैन मिशन

(गुजरात प्रान्तीय केन्द्र)

मलाल (साबरकांठा)

गुजरात

प्रकाशक—
पं० सिद्धसेन गोयलीय
अखिल विश्व जैन मिशन
(गुजरात प्रान्तीय केन्द्र)
सलाल (साबरकांडा)
गुजरात

१००० प्रतियां : मूल्य सदुपयोग

मुद्रक—
वीरेन्द्र प्रसाद जैन
हावीर मुद्रणालय (प्रेस)
अलीगञ्ज (एटा)
उ० प्र०

* दो शब्द *

श्री १०८ तपोनिधि, अध्यात्मयोगी, प्रातःस्मरणीय, परमकृपालु, दिगम्बर जैन मुनिराज श्रीजयसागरजी महाराजका विहार पांच वर्षसे गुर्जर देशमें हो रहा है। आपके सद्गुणदेशामृतसे गुजरातमें अनेकों स्थानोंपर जैन पाठशालाओं और श्रौषधालयोंकी स्थापना हुई। मिथ्यात्व तथा उसकी पोषक रूढ़ियोंको आपके उपदेश से अनेक श्रावक-श्राविकाओं ने त्याग कर आत्मलाभ किया है। यम-नियमादि से तो शायद ही कोई जीव बचा हो—जो महाराज श्री के दर्शन को आया, वह किसी न किसी रूपमें कुछ लेकर अवश्य गया है।

आप तथा सभी मुनि व अन्य त्यागीगण इन दशभक्त्यादि को प्रतिदिन पढ़ते हैं, कितनी ही विशेष २ समय पर पढ़ी जाती है। इन भक्तियों को पढ़ते समय यदि इनका अर्थज्ञान हो तो फिर और भी विशेष आनन्द आता है। इसीलिये श्री १०८ मुनि जयसागर जी महाराज की आज्ञा व आग्रहसे यह प्रयास किया गया है। यद्यपि पं. लालाराम जी शास्त्री “धर्मरत्न” तथा नातेपुते के दि० जैन सरस्वतीभवन द्वारा हिन्दी टीकायें प्रकाशित हुई हैं परन्तु उनमें भावानुवाद है, अन्वयार्थ नहीं। अतः एक २ शब्द, विभक्ति आदि का परिज्ञान हो जावे—तदर्थ यह एक नवीन प्रकाशन किया है।

इन भक्तियों में अधिकतर भक्तियां पूज्यपाद आचार्य श्री १०८ पूज्यपाद स्वामीकी लिखी हुई हैं। आचार्य पूज्यपादस्वामी कितने प्रौढ और प्राचीन उद्भूट विद्वान् आचार्य थे यह बात प्रायः समाजके समस्त जनसाधारण तक जानते हैं।

इन भक्तियोंकी एक संस्कृत टीका है जो आचार्य प्रभाचन्द्र स्वामीकी बनाई हुई है। उस टीकामें चैत्यालयकी टीकाके प्रारंभमें लिखा है कि—

श्री वर्द्धमानस्वामिनं प्रत्यक्षीकृत्य गौतमस्वामी “जयति भगवान्” इत्यादि स्तुतिमाह।

अर्थ—गौतमस्वामीने भगवान् महावीर स्वामीके प्रत्यक्ष दर्शन कर “जयति भगवान्” इन शब्दसे प्रारंभ करते हुये स्तुति की।

बृहद्ब्रह्मसंग्रहकी संस्कृतटीकामें भी लिखा है।

ततश्च जयति भगवान् इत्यादि नमस्कारं कृत्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा कचलोचनानन्तरमेव चतुर्ज्ञानसप्तार्द्धिसम्पन्नास्त्रयोपि (गौतम अग्निभूत वायुभूत नामानः) गणधरदेवाः संजाताः। गौतमस्वामी भव्योपकारार्थं द्वादशांग श्रुतरचनांकृतवान्।

तदनन्तर गौतम अग्निभूति वायुभूति इन तीनों विद्वानोंने “जयति

भगवान्” इत्यादि शब्दोंसे स्तुति करते हुये भगवान् महावीरस्वामीको नमस्कार किया। जिनदीक्षाग्रहणकी और केशलोच करनेके अनन्तर ही मति-ज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान चारों ज्ञान उनको प्रगट हो गये तथा सातों प्रकार की ऋद्धियां प्रगट हो गईं। इसप्रकार वे तीनों ही मुनि उसीसमय भगवान् महावीर स्वामी के गणघर हुये। उनमें से गौतम स्वामी ने भव्य जीवोंका उपकार करनेकेलिये द्वादशांग श्रुतज्ञानकी रचनाकी।

इन दोनों कथनोंसे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि इन भक्तियों में से चैत्यभक्ति भगवान् महावीर स्वामीके मुख्य गणघर भगवान् गौतमस्वामीकी बनाई हुई है। इससे इसकी प्राचीनता और प्रौढ प्रमाणता भी स्वयं सिद्ध हो जाती है।

इस स्तुतिमें कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयोंका भी वर्णन है जिसमें भवन-वासी व्यंतर ज्योतिषी कल्पवासी आदि सब देवोंके चैत्यालयोंका तथा मध्य-लोकके अकृत्रिम चैत्यालयोंका भी वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि यह मूर्ति पूजा जैनियोंने ब्राह्मणोंसे नहीं ली है किंतु अनादि कालसे चली आरही है। जो लोग मूर्तिपूजा आदिको ब्राह्मणोंसे ली हुई बतलाते हैं उनको इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। साथमें जो लोग जैनभूगोलको अप्रमाण और टीलों पर बैठकर लिखे हुये बतलाते हैं उन्हें भी अपने नेत्र खोल लेने चाहिये।

इस ऊपरके कथनसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि यह चैत्यभक्ति महा-वीरस्वामीके केवलज्ञानके समयकी बनी हुई है, अर्थात् चतुर्थकालमें जब तेतीस वर्ष साढ़े आठ महीना शेष रह गये थे उस समयकी यह रचना है। ऐसी ऐसी चतुर्थकालकी रचनायें न जाने कितनी हैं जो अज्ञानताके कारण हमें मालूम नहीं हैं। बहुतसे लोग कहा करते हैं कि “वर्तमानके समस्त शास्त्र पंचमकालके बने हुये हैं इसलिये उनमें कहा हुआ विषय भगवान् महा-वीर स्वामीका कहा हुआ नहीं माना जा सकता” ऐसे लोगोंको भी अनर्गल बोलना बंद कर कुछ दिन तक जानकार विद्वानोंसे अध्ययन करना चाहिये।

यह सान्त्वयार्थ हिंदी टीका मैंने संस्कृत टीकाके आधारसे तथा पं. लालारामजी जैन शास्त्री व जिनवाणी संग्रह नातेपुते की सहायतासे की है।

यह प्रकाशन आजतक उपलब्ध सभी प्रतियोंके आधार से किया है तथापि प्रमाद व अज्ञानवश इसमें जो भूल हो—उसे विद्वान सुधार कर पढ़ें।

सलाल (गुजरात) }
टीपावली वी०नि०सं० २४८१ }


जिनवचनसेवक—
शिद्धसेन जैन शोधलीय

आभार-प्रदर्शन

दशभक्त्यादि संग्रह के प्रकाशन में निम्नलिखित महानुभावों ने दान देकर जो ज्ञान प्रसार के महती धर्म-कार्य में सहयोग दिया है उसके लिए मिशन उनका अत्यन्ताभारी है:—

१५१ रु०	श्री दिगम्बर जैन समाज	जाम्बुडी
१०१ रु०	श्री दिगम्बर जैन समाज	नवा
१०१ रु०	श्री दिगम्बर जैन समाज	हिम्मतनगर
१०१ रु०	श्री दिगम्बर जैन समाज	भद्रेश्वर
१०१ रु०	"	कोटडा
१०१ रु०	"	पोशीना
१०१ रु०	"	मऊ
१०१ रु०	"	टाकाटुका
१०१ रु०	स्व० सेठ भोगीलाल नानचंद	ईडर
१०० रु०	दिगम्बर जैन समाज	साबली
५१ रु०	कोटडिया कांतिलाल छवालाल	हिम्मतनगर
५१ रु०	को० मोतीचंद रायचंद	हिम्मतनगर
५१ रु०	दिगम्बर जैन समाज	मुनाई
५१ रु०	"	भीलोडा
५८ रु०	बंधु चतुष्टक्य	गोरल
२५ रु०	दिगम्बर जैन समाज	मुडेटी

—संयोजक



महान् तपस्वी मुनिराज १०८ श्री जयसागर जी महागज

संज्ञा —

परमपूज्य महानतपस्वो
श्री १०८ श्री जयसागरजी भुनिराजके
करकमलोर्ध्वे
सादर समर्पित ।

—सिद्धसेन जैन

अनुक्रमणिका-

१ धीजिनसहस्रनामस्तोत्रम्	पृ० सं० १
२ सुप्रभातस्तोत्रम्	११
३ भूतकालतीर्थङ्कराः	१२
४ वर्तमानकालतीर्थङ्कराः	१२
५ भविष्यतकालतीर्थङ्कराः	१२
६ विदेहक्षेत्रस्थविंशतितीर्थङ्कराः	१३
७ भक्तामरस्तोत्रम्	१३
८ कल्याणमंदिरस्तोत्रम्	१६
९ एकीभावस्तोत्रम्	२१
१० विषापहारस्तोत्रम्	२३
११ जिनचतुर्विंशतिका	२४
१२ तत्त्वार्थसूत्रम्	२६
१३ बृहत्स्वयंभूस्तोत्रम्	३९
१४ द्वात्रिंशतिका	५१
१५ अकलंकस्तोत्रम्	५४
१६ मङ्गलाष्टकम्	५६
१७ महावीराष्टकस्तोत्रम्	५७
१८ नमस्कारमंत्राः	५८
१९ कौनसी भक्ति कहाँ करनी चाहिये ?	५९
दशभक्ति संग्रह-	
२० ईर्यापथशुद्धिः	७५
२१ श्रीसिद्धभक्तिः	८६
२२ श्रीसिद्धभक्तिः (प्राकृता)	११३
२३ श्रीश्रुतभक्तिः	११५
२४ श्रीश्रुतभक्तिः (प्राकृता)	१३८
२५ श्रीचारित्र्यभक्तिः	१३९
२६ श्रीचारित्र्यभक्तिः (प्राकृता)	१५१
२७ श्रीयोगिभक्तिः	१५२
२८ श्रीयोगिभक्तिः (प्राकृता)	१५७
२९ श्रीआचार्यभक्तिः	१५८
३० श्रीआचार्यभक्तिः (प्राकृता)	१६५
३१ श्रीपञ्चगुरुभक्तिः	१६६

३२ श्रीपंचगुरुभक्तिः	१६६
३३ श्रीतीर्थङ्करभक्तिः	१७०
३४ श्रीशांतिभक्तिः	१७४
३५ श्रीसमाधिभक्तिः	१८३
३६ श्रीनिर्वाणभक्तिः	१८६
३७ श्रीनिर्वाणभक्तिः (प्राकृता)	२०२
३८ श्रीनन्दीश्वरभक्तिः	२०४
३९ श्रीचैत्यभक्तिः	२२६
४० कल्याणालोचना	२४३
४१ चतुर्दिशिवन्दना	२५७
४२ सर्वदोषप्रायश्चित्तविधिः	२५७
४३ सामायिकपाठः (सिद्धवस्तु•)	२५६
४४ आ• शांतिसागरस्तुतिः	२५६
४५ दैवसिकरात्रिकप्रतिक्रमणम्	२६१
४६ मुनिप्रतिक्रमणम्	२६६
४७ प्रतिक्रमणदण्डकः (पाक्षिक)	२७४
४८ वीरभक्तिः	२८८
४९ निर्वाणकाण्ड (प्राकृता)	२८६
५० गणधरबलयः	२९२
५१ श्रीवीतरागस्तोत्रम्	२९३
५२ श्रीतीर्थंकरस्तुतिः	२९४
५३ रत्नकरण्ड श्रावकाचार	२९५
५४ द्रव्यसंग्रहः	३०३
५५ अद्याष्टकस्तोत्रम्	३०६
५६ दृष्टाष्टकस्तोत्रम्	३०७
५७ परमानन्दस्तोत्रम्	३०८
५८ श्रावकप्रतिक्रमणम्	३०९
५९ दीक्षा नक्षत्राणि	३२१
६० दीक्षा ग्रहणक्रिया	३२१
६१ लोचक्रिया	३२२
६२ बृहद् दीक्षाविधिः	३२२
६३ तुल्यक दीक्षाविधिः	३२६
६४ उपाध्याय दीक्षादानविधिः	३२७
६५ आचार्यपदास्थापनविधिः	३२७

* श्रीवीतरागाय नमः *



दशभक्त्यादि संग्रह

श्री जिनसेनाचार्यकृतं

॥ श्रीजिनसहस्रनामस्तोत्रम् ॥

स्वयंभुवे नमस्तुभ्यमुत्पाद्यात्मानमात्मनि । स्वात्मनैव तथोद्भूतवृत्त-
येऽर्चित्यवृत्तये ॥ १ ॥ नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मीभर्त्रे नमोऽस्तु ते ।
विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतांवर ॥ २ ॥ कामशत्रुहणं देवमामनन्ति
मनीषिणः । त्वामानुमः सुरेणमौलिभालाभ्यर्चितविक्रमम् ॥ ३ ॥ ध्या-
नद्रुघणनिर्भिन्नघनघातिमहातरुः । अनन्तभवसन्तानजयादासीदनन्तजित्
॥ ४ ॥ त्रैलोक्यनिर्जयावाप्तदुर्दम्यमतिदुर्जयम् । मृत्युराजं विजित्यासी-
ज्जिन मृत्युंजयो भवान् ॥ ५ ॥ विधृताशेषसंसारबन्धनो भव्यवांधवः ।

त्रिपुरारिस्त्वमेवासि जन्ममृत्युजरान्तकृत् ॥ ६ ॥ त्रिकालविषयाशेषतत्त्व-
 भेदात्त्रिधोत्थितम् । केवलाल्यं दधच्चक्षुस्त्रिनेत्रोऽसि त्वमीशितः ॥ ७ ॥
 त्वामन्धकान्तकं प्राहुर्मोहान्धासुरमर्दनात् । अर्द्धं ते नारयो यस्मादर्धनारी-
 श्वरोऽस्यतः ॥ ८ ॥ शिवः शिवपदाध्यासाद् दुरितारिहरो हरः । शंकर
 कृतशं लोके शंभवस्त्वं भवन्सुखे ॥ ९ ॥ वृषभोऽसि जगच्छ्रेष्ठः पुरुः
 पुरुगुणोदयैः । नाभेयो नाभिसंभूतेरिच्चाकुकुलनन्दनः ॥ १० ॥ त्वमेकः
 पुरुषस्कंधस्त्वं द्वे लोकस्य लोचने । त्वं त्रिधा बुद्धसन्मार्गस्त्रिज्ञानधा-
 रकः ॥ ११ ॥ चतुश्शरणमांगल्यमूर्तिस्त्वं चतुरः सुधीः । पञ्चब्रह्ममयो
 देव पावनस्त्वं पुनीहि माम् ॥ १२ ॥ स्वर्गावतरणे तुभ्यं सद्यो जातात्मने
 नमः । जन्माभिषेकवामाय वामदेव नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥ सुनिःष्क्रान्ता-
 वघोराय पदं परममीयुषे । केवलज्ञानसंसिद्धावीशानाय नमोऽस्तु ते
 ॥ १४ ॥ पुस्तत्पुरुषत्वेन विमुक्तिपदभागिने । नमस्तात्पुरुषावस्था
 भाविनीं तेऽद्य विभ्रते ॥ १५ ॥ ज्ञानावरणनिर्हासान्नमस्तेऽनन्तचक्षुषे ।
 दर्शनावरणोच्छेदान्नमस्ते विश्वदृश्वने ॥ १६ ॥ नमो दर्शनमोहघ्ने
 क्षायिकामलदृष्टये । नमश्चारित्रमोहघ्ने विरागाय महौजसे ॥ १७ ॥
 नमस्तेऽनन्तवीर्याय नमोऽनन्तसुखात्मने । नमस्तेऽनन्तलोकाय लोका-
 लोकावलोकिते ॥ १८ ॥ नमस्तेऽनन्तदानाय नमस्तेऽनन्तलब्धये ।
 नमस्तेऽनन्तभोगाय नमोऽनन्तोपभोगिने ॥ १९ ॥ नमः परमयोगाय
 नमस्तुभ्यमयोनये । नमः परमपूताय नमस्ते परमर्षये ॥ २० ॥ नमः
 परमविद्याय नमः परमतच्छिदे । नमः परमतत्त्वाय नमस्ते परमात्मने
 ॥ २१ ॥ नमः परमरूपाय नमः परमतेजसे । नमः परममार्गाय नमस्ते
 परमेष्ठिने ॥ २२ ॥ परमर्द्धिजुषे धाम्ने परमज्योतिषे नमः । नमः पारेत-
 मःप्राप्तधाम्ने परतरात्मने ॥ २३ ॥ नमः क्षीणकलंकाय क्षीणबंध नमो-
 ऽस्तुते । नमस्ते क्षीणमोहाय क्षीणदोषाय ते नमः ॥ २४ ॥ नमः सुगतने
 तुभ्यं शोभनां गतिमीयुषे । नमस्तेऽतीन्द्रियज्ञानसुखायानि
 ॥ २५ ॥ कायबन्धननिर्मोक्षाद्कायाय नमोऽस्तु ते ।
 योगिनामधियोगिने ॥ २६ ॥ अवेदाय नमस्तुभ्यमकषायाय ते नमः

नमः परमयोगीन्द्रवन्दितांघ्रिद्वयाय ते ॥ २७ ॥ नमः परमविज्ञान नमः
परमसंयत । नमः परमदृग्दृष्टपरमार्थाय ते नमः ॥ २८ ॥ नमस्तुभ्यमलेश्याय
शुक्लेशांशकस्पृशे । नमो भव्येतरावस्थाव्यतीताय विमोक्षिणे ॥ २९ ॥
संज्ञ्यसंज्ञिद्वयावस्थाव्यतिरिक्तामलात्मने । नमस्ते वीतसंज्ञाय नमः द्वायिक-
दृष्टये ॥ ३० ॥ अनाहाराय तृप्ताय नमः परमभाजुषे । व्यतीताशेषदोषाय
भवाब्धेः पारमीयुषे ॥ ३१ ॥ अजराय नमस्तुभ्यं नमस्ते स्तादजन्मने ।
अमृत्यवे नमस्तुभ्यमचलायाक्षरात्मने ॥ ३२ ॥ अलमास्तां गुणस्तोत्रमनन्ता-
स्तावका गुणाः ॥ त्वां नामस्मृतिमात्रण पर्युपासिसिषामहे ॥ ३३ ॥ एवं
स्तुत्वा जिनं देवं भक्त्या परमया सुधीः । पठेदष्टोत्तरं नाम्नां सहस्रं
पापशांतए ॥ १ ॥

॥ इति पीठिका ॥

प्रसिद्धाष्टसहस्रेद्धलक्षणं त्वां गिरां पतिम् । नाम्नामष्टसहस्रेण तोष्टुमो-
ऽभीष्टसिद्धये ॥ १ ॥ श्रीमान्स्वयंभूर्वृषभः शंभवः शंभुरात्मभूः । स्वयंप्रभः
प्रभुर्भोक्ता विश्वभूरपुनर्भवः ॥ २ ॥ विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः ।
विश्वविद्विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनश्वरः ॥ ३ ॥ विश्वदृशा विश्वर्धाता
विश्वेशो विश्वलोचनः । विश्वव्यापी विधिर्वेधाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ।
॥ ४ ॥ विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः विश्वदृग्विश्वभूतेशो
विश्वज्योतिरनीश्वरः ॥ ५ ॥ जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशो जग-
त्पतिः । अनन्तचिदचिन्त्यात्मा भव्यबन्धुरबन्धनः ॥ ६ ॥ युगादिपुरुषो
ब्रह्मा पञ्चब्रह्ममयः शिवः । परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्ठी सनातनः ॥ ७ ॥
स्वयंज्योतिरजोऽजन्मा ब्रह्मयोनिरयोनिजः । मोहारिविजयी जेता धर्मचक्री
इयाध्वजः ॥ ८ ॥ प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वरार्चितः । ब्रह्मवि-
द्ब्रह्मतत्वज्ञो ब्रह्मोद्याविद्यतीश्वरः ॥ ९ ॥ शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः
सिद्धशासनः । सिद्धः सिद्धांतविद्ध्येयः सिद्धसाध्यो जगद्धितः ॥ १० ॥
सहिष्णुरच्युतोऽनन्तः प्रभविष्णुर्भवोद्भवः । प्रभूष्णुरजरोऽजर्यो आजिष्णुर्धो
श्वराऽव्ययः ॥ ११ ॥ विभावसुरसंभूष्णुः स्वयंभूष्णुः पुरातनः । परमात्मा

परंज्योतिस्त्रिजगत्परमेश्वरः ॥ १२ ॥

॥ इति श्रीमदादिशतम् ॥ १ ॥

दिव्यभाषापतिर्दिव्यः पूतवाक्पूतशासनः । पूतात्मा परमज्योतिर्धर्माध्यक्षो
दमीश्वरः ॥ १ ॥ श्रीपतिर्भगवानर्हन्नरजा विरजाः शुचिः । तीर्थकृत्के-
वलीशानः पूजार्हः स्नातकोऽमलः ॥ २ ॥ अनन्तदीप्तज्ञानात्मा स्वयंबुद्धः
प्रजापतिः । मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः ॥ ३ ॥ निरञ्जनो
जगज्योतिर्निरुक्तोक्तिर्निरामयः । अचलस्थितिरक्षोभ्यः कूटस्थः स्थाणुरक्षयः
॥ ४ ॥ अग्रणीर्ग्रामणीर्नेता प्रणेता न्यायशास्त्रकृत् । शास्ता धर्मपतिर्धर्म्यो
धर्मात्मा धर्मतीर्थकृत् ॥ ५ ॥ वृषध्वजोवृषाधीशो वृषकेतुर्वृषायुधः । वृषो
वृषपतिर्भर्ता वृषभाङ्गो वृषोद्भवः ॥ ६ ॥ हिरण्यनाभिर्भूतात्मा भूतभृद्भूत
भावनः । प्रभवो विभवो भास्वान् भवो भावो भवान्तकः ॥ ७ ॥ हिरण्य
गर्भः श्रीगर्भः प्रभूतविभवोद्भवः । स्वयंप्रभुः प्रभूतात्मा भूतनाथोजगत्प्रभुः
॥ ८ ॥ सर्वादिः सर्वदृक् सार्वः सर्वज्ञः सर्वदर्शनः । सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्व
वित्सर्वलोकजित् ॥ ९ ॥ सुगतिः सुश्रुतः सुश्रुक् सुवाक् सूरिर्वहुश्रुतः ।
विश्रुतो विश्वतः पादो विश्वशीर्षः शुचिश्रवाः ॥ १० ॥ सहस्रशीर्षः क्षेत्रज्ञः
सहस्राक्षः सहस्रपात् । भूतभव्यभवद्भर्ता विश्वविद्या महेश्वरः ॥ ११ ॥

॥ इति दिव्यादिशतम् ॥ २ ॥

स्थविष्ठः स्थविरो ज्येष्ठ पृष्ठः प्रेष्ठोः वरिष्ठधीः । स्थेष्ठोः गरिष्ठो बंहिष्ठः श्रेष्ठो
निष्ठो गरिष्ठगीः ॥ १ ॥ विश्वमुट् विश्वस्रट् विश्वेट् विश्वभुग्विश्वनायकः
विश्वाशीर्विश्वरूपात्मा विश्वजिद्धिजितान्तकः ॥ २ ॥ विभवो विभवो वीरो
विशोकौ विजरो जरन् । विरागो विरतोऽसङ्गोवित्रिक्तो वीतमत्सरः ॥ ३ ॥
विनेयजनताबन्धुर्विलीनाशेषकत्मषः । वियोगो योगविद्विद्वान्विधाता सु
सुविधिः सुधीः ॥ ४ ॥ शान्तिभाक्पृथिवीमूर्तिः शान्तिभाक् सलिलात्मकः ।
वायुमूर्तिरसङ्गान्मा वाह्निमूर्तिरधर्मधृक् ॥ ५ ॥ सुयज्वा यजमानान्मा सुत्वा
स्रत्रामपूजितः । ऋत्विग्यज्ञपतिर्यज्ञो यज्ञाङ्गममृतं हविः ॥ ६ ॥ व्योममूर्ति-

रमूर्तात्मा निर्लेपो निर्मलोऽचलः ; सौममूर्तिः सुमौम्यात्मा सूर्यमूर्तिर्महा-
 प्रभः ॥ ७ ॥ मन्त्रविन्मन्त्रकृन्मन्त्री मन्त्रमूर्तिरनन्तगः । स्वतन्त्रस्तन्त्रकृत्स्वा-
 न्तः कृतान्तान्तः कृतान्तकृत् ॥ ८ ॥ कृती कृतार्थः सत्कृत्यः कृतकृ-
 त्यक्रितकृतुः । नित्यो मृत्यूजयोऽमृत्यूरमृतात्माऽमृतोद्भवः ॥ ९ ॥ ब्रह्म
 निष्ठः परंब्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्मसम्भवः । महाब्रह्मपतिर्ब्रह्मेष्ट महाब्रह्मपदेश्वरः
 ॥ १० ॥ सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानधर्मदमप्रभुः । प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा
 पुराणपुरुषोत्तमः ॥ ११ ॥

॥ इति स्थविष्ठादिशतम् ॥ ३ ॥

महाशोकध्वजोऽशोकः कः स्रष्टा पद्मविष्टरः । पद्मेशः पद्मसंभृतिः
 पद्मनाभिरनुत्तरः ॥ १ ॥ पद्मयोनिर्जगद्योनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः ।
 स्तवनाहो हृषीकेशो जितजेयः कृतक्रियः ॥ २ ॥ गणाधिपो गणज्येष्ठो
 गण्यः पुण्यो गणाग्रणीः । गुणाकरो गुणांभोधिर्गुणज्ञो गुणनायकः ॥ ३ ॥
 गुणाकरी गुणोच्छेदी निर्गुणः पुण्यगीर्गुणः । शरण्यः पुण्यवाक्पूतो वरेण्यः
 पुण्यनायकः ॥ ४ ॥ अगण्यः पुण्यधीर्गण्य पुण्यकृत्पुण्यशासनः । धर्मरामो
 गुणाग्रामः पुण्यापुण्यनिधरोकः ॥ ५ ॥ पापापेतो विपापात्मा विपाप्मा
 वीतकल्मषः । निर्द्वन्द्वो निर्मदः शांतो निर्मोहो निरुपद्रवः ॥ ६ ॥ निर्नि-
 मेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपप्लवः । निष्कलंको निरस्तैना निर्धूतांगो
 निराश्रयः ॥ ७ ॥ विशालो विपुलज्योतिरतुलोऽर्चित्यवैभवः । सुसंवृतः
 सुगुप्तात्मा सुभृत्सुनयतत्त्ववित् ॥ ८ ॥ एकविद्यो महाविद्यो मुनिः परिवृढः
 पतिः । धीशो विद्यानिधिः साक्षी विनेता विहतांतकः ॥ ९ ॥ पिता पिता-
 महः पाता पवित्रः पावनो गतिः । त्राता भिषग्वरो वर्यो वरदः परमः पुमान्
 ॥ १० ॥ कविः पुराणपुरुषो वर्षीयान्वृषभः पुरुः । प्रतिष्ठाप्रसवो हेतुर्धुवनैक
 पितामहः ॥ ११ ॥

॥ इति महाशोकध्वजादिशतम् ॥ ४ ॥

श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो लक्ष्ण्यः शुभलक्षणः । निरक्षः पुन्डरीकाक्षः

पुष्कलः पुष्करेक्षणः ॥ १ ॥ सिद्धदः सिद्धसंकल्पः सिद्धात्मा सिद्धसा-
 धनः । बुद्धबोध्यो महाबोधिवर्द्धमानो महर्द्धिकः ॥ २ ॥ वेदांगो वेदविद्वे-
 द्यो जातरूपो विदांवरः । वेदवेद्यः स्वसंवेद्यो विवेदो वदतांवरः ॥ ३ ॥
 अनादिनिधनो व्यक्तो व्यक्तवाग्व्यक्तशासनः । युगादिकृद्युगाधारो युगा-
 दिर्जगदादिजः ॥ ४ ॥ अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो महेन्द्रोऽतीन्द्रियार्थदृक् ।
 अनिन्द्रियोऽहमिन्द्राचर्यो महेन्द्रमहितो महान् ॥ ५ ॥ उद्भवः कारणं कर्ता
 पारगो भवतारकः । अगाह्यो गहनं गुह्यं परार्ध्यः परमेश्वरः ॥ ६ ॥ अनंत-
 द्विरमेयद्विरचित्यद्विः समग्रधीः । प्राग्रयः प्राग्रहरोऽभ्यग्रयः प्रत्यग्रोऽग्रयोऽग्नि-
 मोऽग्रजः ॥ ७ ॥ महातपा महातेजा महोदको महोदयः । महायशा महा-
 धामा महासत्त्वो महाधृतिः ॥ ८ ॥ महाधैर्यो महावीर्यो महासंपन्महाबलः ।
 महाशक्तिर्महाज्योतिर्महाभूतिर्महाद्युतिः ॥ ९ ॥ महामतिर्महानीतिर्महाक्षां-
 तिर्महोदयः । महाप्राज्ञो महाभागो महानंदो महाकविः ॥ १० ॥ महामहा
 महाकीर्तिर्महाकांतिर्महावपुः । महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः
 ॥ ११ ॥ महामहपतिः प्राप्तमहाकल्याणपंचकः । महाप्रभुर्महाप्रहातिर्या-
 धीशो महेश्वरः ॥ १२ ॥

॥ इति श्रीबृहत्पञ्चमस्तोत्रम् ॥ ५ ॥

महामुनिर्महामौनी महाध्यानी महादमः । महाक्षमो महाशीलो महायज्ञो
 महामखः ॥ १ ॥ महाव्रतपतिर्महो महाकांतिधरोऽधिपः । महामैत्रीमयोऽ-
 मेयो महोपायो महोमयः ॥ २ ॥ महाकारुणिको मता महामंत्रो महामतिः ।
 महानादो महाघोषोमहेज्यो महसां पति ॥ ३ ॥ महाध्वरधरो धुर्यो महौदा-
 र्यो महेश्वाक् । महात्मा महसां धाम महर्षिर्महितोदयः ॥ ४ ॥ महाक्लेशां-
 कुशः शूरो महाभूतपतिर्गुरुः । महापराक्रमोऽनंतो महाक्रोधरिपुर्वशी ॥ ५ ॥
 महाभवाब्धिसंतारी महामोहाद्रसूदनः । महागुणाकरः क्षांतो महायोगीश्वरः
 शमी ॥ ६ ॥ महाध्यानपतिर्ध्याता महाधर्मो महाव्रतः । महाकर्मारिहात्म-
 ज्ञो महादेवो महेशिता ॥ ७ ॥ सर्वकल्लेशापहः साधुः सर्वदोषहरो हरः ।
 असंख्येयोऽग्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥ ८ ॥ सर्वयोगीश्वरोऽचित्यः

श्रुतात्मा विष्टरश्रवाः । दांतात्मा दमतीर्थेशो योगात्मा ज्ञानसर्वगः ॥ ९ ॥
 प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोदयः । प्रक्षीणबंधः कामारिः क्षेमकृत्क्षेम-
 शासनः ॥ १० ॥ प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेश्वरः । प्रमाणं प्रणि
 धिर्दक्षो दक्षिणोऽध्वर्युरध्वरः ॥ ११ ॥ आनंदो नंदनो नंद्यो वद्योऽनि-
 द्योऽभिनंदनः । कामहा कामदः काम्यः कामधेनुररिंजय ॥ १२ ॥

॥ इति महामुन्यादिशतम् ॥ ६ ॥

असंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वै कृतांतकृत् । अंतकृत्कांतिगुः कांत-
 श्रितामणिरभीष्टदः ॥ १ ॥ अजितो जितकामारिरमितोऽमितशासनः ।
 जितक्रोधो जितामित्रो जितक्लेशो जितांतकः ॥ २ ॥ जिनेंद्रः परमानंदो
 मुनींद्रो दुंदुभिस्वनः । महेंद्रवंद्यो योगींद्रो यतींद्रो नाभिनंदनः ॥ २ ॥
 नामेयो नाभिजोऽजातः सुव्रतोमनुरुत्तमः । अमेद्योऽनत्ययोऽनाश्वानधिको-
 ऽधिगुरुः सुधीः ॥ ४ ॥ सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षो निरुत्सुकः ।
 विशिष्टः शिष्टभुक् शिष्टः प्रत्ययः कामनोऽनघः ॥ ५ ॥ चेमी क्षेमंक्र-
 रोऽक्षम्यः क्षेमधर्मपतिः क्षमी । अग्राह्यो ज्ञाननिग्राह्यो ध्यानगम्यो निरुत्तरः
 ॥ ६ ॥ सुकृती धातुरिज्यार्हः सुनयश्चतुराननः । श्री निवासश्चतुर्वक्त्रश्च-
 तुरास्यश्चतुर्मुखः ॥ ७ ॥ सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक्सत्यशासनः ।
 सत्याशीः सत्यसंधानः सत्यः सत्यपरायणः ॥ ८ ॥ स्थेयान्स्थवीयान्नेदी-
 यान्द्वीयान्दूरदर्शनः । अणोरणीयाननणुर्गुरुराद्यो गरीयसाम् ॥ ९ ॥
 सदायोगः सदाभोगः सदातृप्तः सदाशिवः । सदागतिः सदासौख्यः सदा-
 विद्यः सदोदयः ॥ १० ॥ सुघोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुहृत् ।
 सुगुप्ता गुप्तिभृद्गोप्ता लोकाध्यक्षो दमीश्वरः ॥ ११ ॥

॥ इति असंस्कृतादिशतम् ॥ ७ ॥

बृहन्बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः । मनीषी धिषणो धीमाञ्छे-
 मुशीषो गिरांपतिः ॥ १ ॥ नैकरूपो नयस्तुंगो नैकात्मा नैकधर्मकृत् ।
 अविज्ञेयोऽप्रतर्क्यात्मा कृतज्ञः कृतलक्षणः ॥ २ ॥ ज्ञानगर्भो दयागर्भो

रत्नगर्भः प्रभास्वरः । पद्मगर्भो जगद्गर्भो हेमगर्भः सुदर्शनः ॥ ३ ॥ लक्ष्मी
 वाञ्छिदशाऽध्यक्षो दृढीयानिन ईशिता । मनोहरो मनोज्ञांगो धीरो गभीर-
 शासनः ॥ ४ ॥ धर्मयूपो दयायागो धर्मनेमिर्मुनीश्वरः । धर्मचक्रायुधो
 देवः कर्महा धर्मघोषणः ॥ ५ ॥ अमोघवागमोघाज्ञो निर्मलोऽमोघशासनः ।
 सुरूपः सुभगस्त्यागी समयज्ञः समाहितः ॥ ६ ॥ सुस्थितः स्वास्थ्यभा-
 वस्वस्थो नीरजस्को निरुद्धवः । अलेपो निष्कलंकात्मा वीतरागो गतस्पृहः
 ॥ ७ ॥ वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रियः । प्रशांतोऽनन्त-
 धामार्षिर्मगलं मलहाऽनघः ॥ ८ ॥ अनीदृगुपमाभूतो दिष्टिर्देवमगोचरः ।
 अमूर्तो मूर्तिमानेको नैको नानैकतत्त्वदृक् ॥ ९ ॥ अध्यक्ष'त्मगम्योऽगम्या-
 त्मा योगविद्योगिवन्दितः । सर्वत्रग, सदाभावी त्रिकालविषयार्थदृक् ॥ १० ॥
 शंकरः शंखदो दान्तो दमी क्षांतिपरायणः । अधिपः परमानन्दः परात्मज्ञः
 परात्परः ॥ ११ ॥ त्रिजगद्ब्रह्मोऽभ्यर्च्यस्त्रिजगन्मगलोदयः । त्रिजग-
 त्पतिपूज्यांघ्रिस्त्रिलोकाग्रशिखामणिः ॥ १२ ॥

॥ इति बृहदादिशतम् ॥ ८ ॥

त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता दृढव्रतः । सर्वलोकातिगः पूज्यः
 सर्वलोकैकसारथिः ॥ १ ॥ पुराणपुरुषः पूर्वः कृतपूर्वांगविस्तरः । आदि-
 देवः पुराणाद्यः पुरुदेवोऽधिदेवता ॥ २ ॥ युगमुत्प्यो युगज्येष्ठो युगा-
 दिस्थितिदेशकः । कल्याणवर्ण, कल्याणः कल्यः कल्याणलक्षणः ॥ ३ ॥
 कल्याणप्रकृतिर्दीप्तकल्याणात्मा विकल्मषः विकलकः कलातीतः कलि-
 लज्ञः कलाधरः ॥ ४ ॥ देवदेवो जगन्न,थो जगद्गन्धुर्जगद्विभुः । जगद्वि-
 तैषी लोकज्ञः सर्वगो जगदग्रजः ॥ ५ ॥ चराचरगुरुर्गोप्यो गूढात्मा
 गूढगोचरः सद्योजातः प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्वलनसप्रभः ॥ ६ ॥ आदित्य-
 वर्णो भर्माभः सुप्रभः कनकप्रभः । सुवर्णवर्णो रुक्माभः सूर्यकोटिस-
 समप्रभः ॥ ७ ॥ तपनीयनिभस्तुंगो बालार्काभोऽनलप्रभः । संध्याभवभ्रु-
 र्हेमाभस्तप्तचामीकरप्रभः ॥ ८ ॥ निष्टप्तकनकच्छायः कनत्काञ्चनसन्निभः ।
 हिरण्यवर्णः स्वर्णाभः शांतकुम्भनिभप्रभः ॥ ९ ॥ धुम्नाभो जात रूपाभो

तप्तजाम्बूनदद्युतिः । सुधौतकलधौतश्रीः प्रदीप्तो हाटकद्युतिः ॥ १० ॥
 शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरक्षमः । शत्रुघ्नोऽप्रतिघोऽमोघः प्रशा-
 स्ता शासिता स्वभूः ॥ ११ ॥ शांतिनिष्ठो मुनिज्येष्ठः शिवतातिः
 शिवप्रदः । शांतिदः शांतिकृच्छान्तिः कांतिमान्कामितप्रदः ॥ १२ ॥ श्रे-
 योनिधिरधिष्ठानमप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । सुस्थितः स्थावरः स्थाणुः प्रथीया-
 न्प्रथितः पृथुः ॥ १३ ॥

॥ इति त्रिकालदर्श्यादिशतम् ॥ ६ ॥


दिग्वासा वातरशनो निर्ग्रन्थेशो निरम्बरः । निष्किञ्चनो निराशंसो
 ज्ञानचक्षुरमोमुहः ॥ १ ॥ तेजोराशिरनन्तौजा ज्ञानाब्धेः शीलसागरः ।
 तेजोमयोऽमितज्योतिर्ज्योतिर्मूर्तिस्तमोऽपहः ॥ २ ॥ जगच्चूडामणिर्दीप्तः
 सर्वविघ्नविनायकः । कलिघ्नः कर्मशत्रुघ्नो लोकालोकप्रकाशकः ॥ ३ ॥
 अनिद्रालुरतन्द्रालुर्जागरूकः प्रमामयः । लक्ष्मीपतिर्जगज्योतिर्धर्मराजः प्र-
 जाहितः ॥ ४ ॥ मुमुक्षुर्बन्धमोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मथः । प्रशांतरसशै-
 ल्लषो भव्यपेटकनायकः ॥ ५ ॥ मूलकर्ताखिलज्योतिर्मूलधनो मूलकारणः ।
 आप्तो वागीश्वरः श्रेयोञ्छायसोक्तिर्निरुक्तवाक् ॥ ६ ॥ प्रवक्ता वचशा-
 मीशो मारजिद्विश्वभाववित् । सुतनुस्तनुनिर्मुक्तः सुगतो हतदुर्नयः ॥ ७ ॥
 श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो वीतभीरभयंकरः । उत्सन्नदोषो निर्विघ्नो निश्चलो
 लोकवत्सलः ॥ ८ ॥ लोकोत्तरो लोकपतिर्लोकचक्षुरपारधीः । धीरधीर्बु-
 द्धसन्मार्गः शुद्धः सूनृतपूतवाक् ॥ ९ ॥ प्रज्ञपारमितः प्राज्ञां यतिर्नियमि-
 तेन्द्रियः । भन्दतो भद्रकृद्भद्रः कल्पवृक्षो वरप्रदः ॥ १० ॥ सुमुन्मूलित-
 कर्मारिः कर्मकाष्ठाशुशुक्षणिः । कर्मण्यः कर्मठः प्रांशुर्हेयादेयविचक्षणः
 ॥ ११ ॥ अनन्तशक्तिरच्छेद्यास्त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः । त्रिनेत्रस्त्र्यंबकस्त्र्यक्षः
 केवलज्ञानवीक्षणः ॥ १२ ॥ समंतभद्रः शांतारिर्धर्माचार्यो दयानिधि । सू-
 क्ष्मदर्शी जितानंगः कृपालुर्धर्मदेशकः ॥ १३ ॥ शुभंयुः सुखसाद्भूतः
 पुण्यराशिरनामयः । धर्मपालो जगत्पालो धर्मसाम्राज्यनायकः ॥ १४ ॥

॥ इति दिग्वासादिशतम् ॥ १० ॥

॥ इत्यष्टाधिकसहस्रनामावली समाप्ता ॥

धाम्नांपते तवामृनि नामान्यागमकोविदैः । समुच्चितान्यनुध्यायन्पु-
 मान्पूतस्मृतिर्भवेत् ॥ १ ॥ गोचरोऽपि गिरामासां त्वमवाग्गोचरो मतः ।
 स्तोता तथाप्यसंदिग्धं त्वत्तोऽभीष्टफलं लभेत् ॥ २ ॥ त्वमतोऽसि जग-
 द्बन्धुस्त्वमऽतोसि जगद्धिषक् । त्वमतोसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः
 ॥ ३ ॥ त्वमेकं जगतां ज्योतिस्त्वं द्विरूपोपयोगभाक् । त्वं त्रिरूपैकमुक्त्यंगं
 स्वोत्थानंतचतुष्टयः ॥ ४ ॥ पंचब्रह्मतत्त्वात्मा पंचकल्याणनायकः । षड्भे-
 दभावतत्त्वज्ञस्त्वं मप्तनयसंग्रहः ॥ ५ ॥ त्वं दिव्याष्टगुणमूर्तिस्त्वं नवकेवल-
 विधकः । दशावतारनिर्धार्यो मां पाहि परमेश्वरः ॥ ६ ॥ युष्मन्नामावलीदब्धा-
 विलसत्स्तोत्रमालया । भवंतं वरिवस्यामः प्रसीदानुग्राहाण नः ॥ ७ ॥ इदं
 स्तोत्रमनुष्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः । यः स पाठं पठत्येनं स स्यात्कल्याण-
 भाजनम् ॥ ८ ॥ ततः सदेदं पुण्यार्थीपुमान्पठति पुण्यधीः । पौरुहूतीं श्रियं
 प्राप्तुं परमामभिलाषुकः ॥ ९ ॥ स्तुत्वेति मघवां देवं चराचरजगद्गुरुं ।
 ततस्तीर्थविहारस्य व्यधात्प्रस्तावनामिमाम् ॥ १० ॥ स्तुतिः पुण्यगुणोत्की-
 र्तिः स्तोता भव्यः प्रसन्नधीः । निष्ठितार्थो भवांस्तुत्यः फलं नैश्रेयसं सुखं
 ॥ ११ ॥ यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् ॥
 ध्येयो योगिजनस्य यश्च नितरां ध्याता स्वयं कस्यचित् ॥ यो नेतृन् नयते
 नमस्कृतिमल नन्तव्यपक्षेक्षणः । स श्रीमान् जगतां त्रयस्य च गुरुर्देवः पुरुः
 पावनः ॥ १२ ॥ तं देवं त्रिदशाधिपार्चितपदं ध्यातिक्षयानन्तरं । प्रोत्थानन्त
 चतुष्टयं जिनमिमं भव्याब्जिनीनामिनम् । मानस्तंभविलोकनानतजगन्मान्यं
 त्रिलोकीपतिं । प्राप्ताचित्यवहिर्विभूतिमनघं भक्त्या प्रवंदामहे ॥ १३ ॥

॥ इति श्रीब्जिनसहस्रनामस्तवनं समाप्तम् ॥



॥ सुप्रभातस्तोत्रम् ॥

यत्स्वर्गावतरोत्सवे यदभवज्जन्माभिषेकोत्सवे । यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे
 यदखिलज्ञानप्रकाशोत्सवे ॥ यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपतेः पूजाद्भुतं तद्भवैः ।
 संगीतस्तुतिमंगलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः ॥ १ ॥ श्रीमन्नतामरकिरीट-
 मणिप्रभाभिरालीढपादयुग ! दुर्द्धरकर्मदूर । श्रीनाभिनन्दन ! जिनाजित !
 शम्भवाख्य ! त्वद्ब्रह्मानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् ॥ २ ॥ छत्र-
 यप्रचलचामरवीज्यमानदेवाभिनन्दनमुने सुमते जिनेन्द्र । पद्मप्रभारुणमणि-
 द्युतिभासुरांग; त्व० ॥ ३ ॥ अर्हन् सुपार्श्व कदलीदलवर्णगात्र प्रालेय-
 तारगिरीमौक्तिकवर्णगौर । चन्द्रप्रभस्फटिकपाण्डुरपुष्पदन्त ! त्व०
 ॥ ४ ॥ संतप्तकांचनरुचे जिनशीतलाख्य श्रेयान्विनष्टदुरिताष्टकलंकपंक ।
 वन्धूकवन्धुररुचे जिनवासपूज्य; त्व० ॥ ५ ॥ उदण्डदर्पकरियो विमला-
 मलांग स्थेमन्नंतजिदनंतसुखांबुराशे । दुष्कर्मकल्मषविवर्जित धर्मनाथ;
 त्व० ॥ ६ ॥ देवामरीकुसुमसन्निभ शांतिनाथ कुंथो दयागुणविमूषणभूषि-
 तांग । देवाधिदेव भगवन्नरतीर्थनाथ; त्व० ॥ ७ ॥ यन्मोहमल्लमदभंजन-
 मल्लिनाथ क्षेमंकरावितथशासनसुव्रताख्य । यत्संपदा प्रशमितो नमिनाम-
 धेय; त्व० ॥ ८ ॥ तापिच्छगुच्छरुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ घोरोपसर्गविज-
 यिन् जिनपार्श्वनाथ । स्याद्वादसूक्तिमणिदर्पणवर्द्धमान; त्व० ॥ ९ ॥ प्रा-
 लेयनीलहरितारुणपीतभासं, यन्मूर्तिमव्ययसुखावसथं मुनीन्द्राः । ध्यायंति
 सप्ततिशतं जिनवल्लभानां; त्व० ॥ १० ॥ सुप्रभातं सुनक्षत्रं मांगल्यं परि-
 कीर्तितम् । चतुर्विंशतितीर्थानां सुप्रभातं दिने दिने ॥ ११ ॥ सुप्रभातं
 सुनक्षत्रं, श्रेयः इत्यभिनंदितम् । देवता ऋषयः सिद्धाः सुप्रभातं दिने दिने
 ॥ १२ ॥ सुप्रभातं तवैकस्य वृषभस्य महात्मनः । येन प्रवर्तितं तीर्थं
 भव्यसच्चसुखावहम् ॥ १३ ॥ सुप्रभातं जिनेन्द्राणां ज्ञानोन्मीलितचक्षुषाम् ।
 अज्ञानतिमिरांधानां नित्यमस्तमितो रविः ॥ १४ ॥ सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य
 वीरः कमललोचनः । येन कर्माटवी दग्धा शुक्लध्यानोग्रवह्निना ॥ १५ ॥

सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुसंगलम् । त्रैलोक्यहितकर्तृणां जिनानामेव
शासनम् ॥ १६ ॥

॥ इति सुप्रभातस्तोत्रम् ॥

भूतकालतीर्थङ्कराः ।

१ श्रीनिर्वाण २ सागर ३ महासाधु ४ विमलप्रभ ५ श्रीधर
६ सुदत्त ७ अमलप्रभ ८ उद्धर ९ अंगिर १० सन्मति ११ सिंधु १२ कुसु-
मांजलि १३ शिवगण १४ उत्साह १५ ज्ञानेश्वर १६ परमेश्वर
१७ विमलेश्वर १८ यशोधर १९ कृष्णमति २० ज्ञानमति २१ शुद्धमति
२२ श्रीभद्र २३ अतिक्रान्त २४ शांताश्चेतिभूतकालसंबन्धिचतुर्विंशति-
तीर्थङ्करेभ्यो नमो नमः ॥

वर्तमानकालतीर्थङ्कराः ।

१ ऋषभ २ अजित ३ शंभव ४ अभिनंदन ५ सुमति ६ पद्मप्रभ
७ सुपार्श्व ८ चंद्रप्रभ ९ पुष्पदत्त १० शीतल ११ श्रेयान् १२ वासुपूज्य
१३ विमल १४ अनंत १५ धर्म १६ शांति १७ कुशु १८ अर
१९ मल्लि २० मुनिसुव्रत २१ नमि २२ नेमि २३ पार्श्व २४ वर्द्धमानाश्चेति
वर्तमानकालसंबन्धिचतुर्विंशतितीर्थङ्करेभ्यो नमो नमः ॥

भविष्यत्कालतीर्थकेराः ।

१ श्रीमहापद्म २ सुरदेव ३ सुपार्श्व ४ स्वयंप्रभ ५ सर्वात्मभूत
६ देवपुत्र ७ कुलपुत्र ८ उदंक ९ प्रोष्ठिल १० जयकीर्ति ११ मुनिसुव्रत
१२ अर (अप्तम) १३ निष्पाप १४ निष्कषाय १५ विमल १६ निर्मल
१७ चित्रगुप्त १८ समाधिगुप्त १९ स्वयंभू २० अनिवृत्तिक २१ जय
२२ विमल २३ देवपाल २४ अनन्तवीर्याश्चेति भविष्यत्कालसंबन्धिचतु-

विंशतितीर्थङ्करेभ्यो नमो नमः ॥ ११ ॥

विदेहक्षेत्रस्थविंशतितीर्थङ्कराः।

१ सीमंधर २ युगमंधर ३ वाहु ४ सुवाहु ५ सुजात ६ स्वयंप्रभु
७ वृषभानन ८ अनंतवीर्य ९ सुरप्रभ १० विशालकीर्ति ११ वज्रधर
१२ चंद्रानन १३ भद्रवाहु १४ भुजंगम १५ ईश्वर १६ नेमप्रभ (नेमि)
१७ वीरसेन १८ महाभद्र १९ देवयश २० अजितवीर्याश्चेति विदेहक्षे-
त्रस्थविंशतितीर्थङ्करेभ्यो नमो नमः ॥

भक्तामरस्तोत्रम् ।

भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् ।
मम्यङ्क प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालंबनं भवजले पततां जनानां
॥ १ ॥ यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधदुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोक-
नाथैः । स्तोत्रैर्जगत्त्रैतयचित्तहरैरुदारैः स्तोप्ये किलाहमपि तं प्रथमं
जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥ बुद्ध्या विनापि विबुधांचितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमति-
विगतत्रपोऽहं । बालं विहाय जलसंस्थिमिदुर्विवमन्यः क इच्छति जनः
सहसा गृहीतुं ॥ ३ ॥ वक्तुं गुणान्गुणममुद्र शशांक्रकांतां कस्ते क्षमः
सुगुरप्रतिमोऽपि बुद्ध्या । कल्पांतकालपवनोधतनक्रचक्रं को वातरीतुम-
लमंबुनिधिं भुज्याभ्यां ॥ ४ ॥ सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं
स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः । प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्यमृगोमृगेंद्र नाभ्येति
किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ॥ ५ ॥ अल्पश्रुत श्रुतवतां परिहासधाम
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बालान्माम् । यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं
विरौति तच्चाप्रचारुकलिकानिकरकहेतुः ॥ ६ ॥ त्वत्संस्तवेन भवसंतति-
सनिवद्धं पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम् । आक्रांतलोकमलिनीलमशेष-
माशु सूर्याशुभिन्नमिव शार्वरमंधकारम् ॥ ७ ॥ मत्वेति नाथ तव संस्तवनं

मयेदमारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् । चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-
दलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदर्विदुः ॥ ८ ॥ आस्तां तव स्तवनमस्त-
समस्तदोषं, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति । दूरे सहस्रकिरणः कुरुते
प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि ॥ ९ ॥ नात्यद्भुतं भुवनभूष-
णभूत नाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवंतमभिष्टुवन्तः । तुल्या भवंति भवतो ननु
तेन किं वा, भृत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥ १० ॥ दृष्ट्वा भवंतम-
निमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्यचक्षुः । पीत्वा पयः शशि-
करद्युतिदुग्धसिन्धोः, क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् ॥ ११ ॥ यैः
शांतरागरुचिभिः परमाणुमिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत । तावंत
एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥ १२ ॥
वक्त्रं कृते सुरनरोरगनेत्रहारि, निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् । विम्बं
कलङ्कमलिनं क निशाकरस्य यद्भासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥ १३ ॥
सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलापशुभ्रा, गुणास्त्रिभुवनं तत्र लङ्घयन्ति । ये
संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् ॥ १४ ॥
चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनामिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् ।
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन, किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्
॥ १५ ॥ निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोपि ।
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः
॥ १६ ॥ नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्वष्टीकरोपि सहसा युग-
पञ्जगन्ति । नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सुर्यातिशायिमहिमासि मुनीन्द्र
लोके ॥ १७ ॥ नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न
वारिदानाम् । विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योत्तयज्ञगदपूर्वश-
शाङ्कविम्बम् ॥ १८ ॥ किं शर्षरीषुशशिनाहि विवस्वता वा युष्मन्मुखे-
न्दुदलितेषु तमःसुनाथ । निष्पन्नशालित्रनशालिनि जीवलोके कार्यं किय-
ञ्जलधरैर्जलभारनम्रैः ॥ १९ ॥ ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं
तु कांचशकले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥ मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा

दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोपमेति । किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः
 कश्चिन्मनोः हरति नाथ भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥ स्त्रीणां शतानि शतशो
 जनयन्ति पुत्रान्भान्या स्रुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता । सर्वा दिशो दधति
 भानि सहस्ररश्मि प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥ २२ ॥ त्वामा-
 मनन्ति मुनयः परमं पुमांसमादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् । त्वामेव
 सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथाः ॥ २३ ॥
 त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गक्रेतुम् ।
 योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्त सन्तः ॥ २४ ॥
 बुद्धस्त्वमेव विबुधांचितबुद्धिवोधाद्यं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् ।
 धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानाद्भयङ्गं त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोऽसि
 ॥ २५ ॥ तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभू-
 षणाय । तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधि-
 षणाय ॥ २६ ॥ को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो
 निरवकाशतया मुनीश । दोषरूपात्तविबुधाश्रयजातगर्वैः स्वमान्तरेऽपि न
 कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥ उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूखमाभाति रूप-
 ममलं भवतो नितान्तम् । स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं विम्बं रवेरिव
 पयोधरपार्ष्ववर्ति ॥ २८ ॥ सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे विभ्राजते
 तव वपुः कनकावदातम् । विम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रि-
 शिरसीव सहस्ररश्मे ॥ २९ ॥ कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं विभ्राजते
 तव वपुः कलधौतकान्तम् । उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधारमुच्चैस्तटं सुर-
 गिरेरिव शातकौम्भम् ॥ ३० ॥ छत्रत्रय तव विभाति शशाङ्ककान्तमुच्चैः
 स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् । मुक्ताफलप्रकरजालविष्टुद्धशोभं प्रख्यापय-
 त्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥ गम्भीरतारारवपूरितदिग्विभागस्रैलोक्य-
 लोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः । सद्गर्भराजजयघोषणघोषकः सन्खे दुन्दुभिर्ध्वनति
 ते यशसः प्रवादी ॥ ३२ ॥ मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसु-
 मोत्करवृष्टिरुद्धा । गन्धोदविन्दुशुभमन्दमरुत्प्रयाता दिव्या दिवः पतति ते
 वयसां ततिर्वा ॥ ३३ ॥ शुम्भत्प्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते लोकत्रये

द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती । प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या दीप्त्या जय-
 त्यपि निशामपि सोमसौम्याम् ॥ ३४ ॥ स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्टः
 सद्गर्भतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याः । दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्वभाषा-
 स्वभावपरिणामगुणप्रयोज्यः ॥ ३५ ॥ उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ती
 पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ । पादौ पदानि तत्र यत्र जिनेन्द्र धत्तः
 पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३६ ॥ इत्थं यथा तत्र विभृतिर-
 भृज्जिनेन्द्र । धर्मोपदेशनविधौ न तथापरस्य । यादृक्प्रभा दिनकृतः ग्रह-
 तान्धकारा तादृक्कृतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ॥ ३७ ॥ श्च्योतन्मदा-
 विलविलोलकपोलमूलमत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् । ऐरावताभमिभमु-
 द्भूतमापतन्तं दृष्ट्वाभयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥ ३८ ॥ भिन्नेभकु-
 म्भगल दुज्ज्वलशोणितान्मुक्ताफलप्रकरभूपितभूमिभागः । वद्धक्रमः
 क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥ ३९ ॥
 कल्पान्तकालपवनोद्भूतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गम् ।
 विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम्
 ॥ ४० ॥ रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्भूतं फणिनमुत्फणमापत-
 न्तम् । आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य
 पुंसः ॥ ४१ ॥ वल्गात्तुरंगगजगर्जितभीमनादमाजौ बलं बलवतामपि भू-
 तीनाम् । उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति
 ॥ ४२ ॥ कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहवेगावतारतरणातुरयोधभीमे ।
 युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षास्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥ ४३ ॥
 अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रपाठीनपीठभयदोल्बणवाडवाग्नौ । गङ्गात्त-
 रङ्गशिखरस्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्ब्रजन्ति ॥ ४४ ॥
 उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्नाः शोच्यां दशामुगताश्च्युतजीविताशाः ।
 त्वत्पादपङ्कजरजोमृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतल्यरूपाः ॥ ४५ ॥
 आपादकण्ठमृत्सृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिघृष्टजङ्घाः । त्वन्ना-
 ममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ ४६ ॥
 मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहिसंग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्थम् ॥ तस्याशु

नाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४७ ॥
 स्तोत्रसृजं तव जिनेद्र गुणैर्निबद्धं भक्त्या मया विविधवर्णविविधपुष्पाम्
 धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः ॥ ४८ ॥

॥ इति श्रीमानतुङ्गाचार्यविरचितं भक्त्यामरस्तोत्रम् ॥

श्रीसिद्धसेनद्विवाकरप्रणीत कल्याणामन्दिरस्तोत्रम् ।

कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदि भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिप्रज्ञम् ।
 संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तुपोतायभानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ॥ १ ॥
 यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् ।
 तीर्थेश्वरस्य कमठस्ययधूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥ २ ॥
 (युग्मम्) सामान्यतोऽपि तव वर्णयतुं स्वरूपमस्मादृशाः कथमधीश भव-
 न्त्यधीशाः । धृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा द्विवान्धो रूपं प्ररूपयति किं
 किल धर्मरश्मेः ॥ ३ ॥ मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्यो नूनं गुणान्गण-
 यितुं न तव क्षमेत । कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान्मीयेत केन जलधे-
 र्ननु रत्नराशिः ॥ ४ ॥ अभ्युद्यतोऽसि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लस-
 दसंख्यगुणाकरस्य । बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां
 कथयति स्वधियाम्बुराशेः ॥ ५ ॥ ये योगिनामपि नयन्ति गुणास्तवेश
 वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः । जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं
 जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि ॥ ६ ॥ आस्तामचिन्त्यमहिमा
 जिन संस्तवस्ते नासापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । तीव्रातयोपहतपान्थ-

जनाब्निदाघे ग्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥ ७ ॥ हृद्रतिनि त्वयि
विभो शिथिलीभवन्ति जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्मबन्धा । सद्यो
भुजंङ्गममया इव मध्यभागमभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥ ८ ॥
मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रोद्रेरुपद्रवशतैस्त्ववि र्वक्षितेऽपि ।
गोवामिनी स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे चौरै र्वाशु पशवः प्रपलायमानैः ॥ ९ ॥
त्वं तारको जिन कथं भविनां त एव त्वामुद्रहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः । यद्वा
दृतिस्तरति यञ्जलमेष नूनमन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः ॥ १० ॥
यस्मिन्ह्रप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः सोऽपि त्वाया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन ।
विध्यत्पिता हुतभुजः पयसाथ येन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन
॥ ११ ॥ स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नस्त्वां जन्तवः कथमहो हृदये
दधानाः । जन्मोदधिं लघु तरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि
वा प्रभावः ॥ १२ ॥ क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तस्तदा
वद कथं किल कर्मचौराः । प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नील-
दुमाणि विपिनानि न किं हिमानी ॥ १३ ॥ त्वां योगिनो जिन सदा
परमात्मरूपमन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोषदेशे । पूतस्य निर्मलरुचेर्यद् वा किम-
न्यदक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकायाः ॥ १४ ॥ ध्यानाज्जिनेश भवतो
भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति । तीव्रानलादुपलभावमपास्य
लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥ १५ ॥ अन्तः सदैव जिन यस्य
विभाव्यसे त्वं भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् । एतत्स्वरूपमथ मध्य-
विवर्तिनो हि यद्भिग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥ १६ ॥ आत्मा मनीषि-
भिरयं त्वदभेदबुद्ध्या ध्यातौ जिनद्र भवतीह भवत्प्रभावः । पानीयमप्य-
मृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नाप नो विषविकारमपाकरोति ॥ १७ ॥ त्वा-
मेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः । किं
काचकामलिमिरीश सितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णाधिपर्ययेण
॥ १८ ॥ धर्मोपदेशसमये सविधानुभावादास्तां जनो भवति ते तरुरप्य-
शोकः । अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न
जीवलोकः ॥ १९ ॥ चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विष्वक्पतत्यविरला

सुरपुष्पवृष्टिः । त्वद्गोचरै सुमनसां यदि वा मुनीश ! गच्छन्ति नूनमथ एव
 हिवन्धनानि ॥ २० ॥ स्थाने गभीरहृदयोदधिसम्भवायाः पीयूषता तव
 गिरः समुदीरयन्ति । पीत्वा यतः परमसंमदसङ्गभाजो भव्या व्रजन्ति तरसा-
 प्यजरामरत्वम् ॥ २१ ॥ स्वामिन्सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति
 शुचयः सुरचामरौघाः । येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वग-
 तयः खलु शुद्धभावाः ॥ २२ ॥ श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्नसिंहास-
 नस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् । आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैश्चामी-
 कराद्रिशिरसीवनवाम्बुवाहम् ॥ २३ ॥ उद्गच्छता तव शितिधुतिमण्डलेन
 लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्बभूव । सांनिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग !
 नीरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि ॥ २४ ॥ भो भोः प्रमादमवधूय
 भजध्वमेनमागत्य निर्वृतिपुरीं प्रतिसार्थवाहम् । एतन्निवेदयति देव जगत्त्र-
 याय मन्ये नदन्नमिनभः सुरदुन्दुभिस्ते ॥ २५ ॥ उद्द्योतितेषु भवता भुव-
 नेषुनाथ तारान्वितो विधुरयं विहतान्धकारः । मुक्ताकलापकलितोरुसिता-
 तपत्रव्याजात्त्रिधाधृतधनुर्ध्रुवमभ्युपेतः ॥ २६ ॥ स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपि-
 ण्डितेन कांतिप्रतापयशसामिव सञ्जयेन । माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन
 सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥ २७ ॥ दिव्यस्रजो जिन नमत्त्रिदशा-
 दिपानामुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् । पादौ श्रयन्ति भवता यदि
 वापरत्र त्वत्सङ्गमे सुपनसो न रमन्त एव ॥ २८ ॥ त्वं नाथ जन्मजलधे-
 विपराङ्मुखोऽपि यत्तारयस्यसुमतो निजपृष्ठलग्नान् । युक्तं हि पार्थिवनिष्य
 सतस्तत्रैव चित्रं विभो यदसि कर्मविपाकशून्यः ॥ २९ ॥ विश्वेश्वरोऽपि
 जनपालक दुर्गतस्त्वं किंवाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश । अज्ञानवत्यपि
 सदैव कथंचिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतु ॥ ३० ॥ प्राग्भार-
 सम्भृतनभांसि रजांसि रोषादुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि । छायापि
 तैस्तव न नाथ हता हताशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥ ३१ ॥
 यद्गर्जदूर्जितघनौघमदभ्रभीमभ्रश्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारम् । दैत्येन मुक्त-
 मथ दुस्तरवारि दत्रेतेनैव तस्य जिन दुस्तरवारिकृत्यम् ॥ ३२ ॥ ध्वस्तो-
 र्ध्वकेशविकृताकृति मर्त्यमुण्डप्रालम्बभृद्भयदवक्त्रविनिर्यदग्निः । प्रेतव्रजः

प्रतिभवन्तमपीरितो यः सोऽस्याभवत्प्रतिभवं भवदुःखहेतुः ॥ ३३ ॥ धन्यास्त
 एव भुवनाधिप ये त्रिसन्ध्यमाराधयन्ति विधिवद्विधुतान्यकृत्याः । भक्त्योल्ल-
 सत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशाः पादद्वयं तत्र विभो भुवि जन्मभाजः ॥ ३४ ॥
 अस्मिन्नपारभववारिनिधौ मुनीश मन्ये नमे श्रवणगोचरतां गतोऽसि ।
 आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमन्त्रे किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति
 ॥ ३५ ॥ जन्मातरेऽपि तव पादयुगं न देव मन्ये मया महितमीहितदान-
 दक्षम् । तेनेह जन्मनि मुनीश ! पराभवानां जातो निकेतनमहं मथिताश-
 यानम् ॥ ३६ ॥ नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रवि-
 लोक्तोऽसि मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथ-
 मन्यथैते ॥ ३७ ॥ आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न
 चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या । जातोऽसि तेन जनवान्धव दुःखपात्रं
 यस्मात्क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ॥ ३८ ॥ त्वं नाथ दुःखिजन-
 वत्सल हे शरण्य कारुण्यपुण्यवसते वशिनां वरेण्य । भक्त्या न ते मयि महेश
 दयां विधाय दुःखाङ्कुरोद्दल नतत्परतां विधेहि ॥ ३९ ॥ निःसख्यसार-
 शरणं शरणं शरण्यमासाद्य सादितरिपुप्रथितावदानम् । त्वत्पादपङ्कजमपि
 प्रणिधानवन्ध्यो वन्ध्योऽस्मि तद्भवनपावन हा हतोऽस्मि ॥ ४० ॥ देवे-
 न्द्रवन्द्य विदिताखिलवस्तुसार संसारतारक विभो भुवनाधिनाथ । त्रायस्व
 देव करुणाहृद् मां पुनीहि सीदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराशेः ॥ ४१ ॥
 यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रिसरोरुहाणां भक्तेः फलं किमपि सन्ततसञ्चितायाः ।
 तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य मूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि
 ॥ ४२ ॥ इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चुकि-
 ताङ्गभागाः । त्वद्विम्बनिर्मलमुखाम्बुजवद्दलक्ष्म्या ये संस्तवं तव विभो
 रचयन्ति भव्याः ॥ ४३ ॥ जननयनकुमुदचन्द्र प्रभास्वराः स्वर्गसम्पदो
 भुक्त्वा । ते विगलितमलनिचया अचिरान्योक्षं प्रपद्यन्ते ॥ ४४ ॥

॥ इति सिद्धसेनदिवाकरप्रणीतं कल्याणमंदिरस्तोत्रम् ॥

श्रीवादिराजप्रणीतम् एकीभावस्तोत्रम् ।



एकीभावं गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं भवभवगतो दुर्नि-
वारः करोति । तस्याप्यस्य त्वयि जिनवरे भक्तिरुन्मुक्तये चेज्जेतुं शक्यो
भवति न तथा कोऽपरस्तापहेतुः ॥ १ ॥ ज्योतीरूपं दुरितनिवहध्वान्त-
विध्वंसहेतुं त्वामेवाहुर्जिनवर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः । चेतोवासे भवसि
च मम स्फारमुद्भासमानस्तस्मिन्नहः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे ॥ २ ॥
आनन्दाश्रुस्रपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन्यश्चायेत त्वयि दृढमनाः स्तोत्र-
मन्त्रैर्भवन्तम् । तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान्निष्कायन्ते
त्रिविधविषमव्याधयः काद्रवेयाः ॥ ३ ॥ प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेष्यता
भव्यपुरयात्पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देव निन्ये त्वयेदम् । ध्यानद्वारं मम
रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस्तत्किं चित्रं जिन वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोपि
॥ ४ ॥ लोकस्यैकस्तमसि भगवन्निर्निमित्तं वन्धुस्त्वय्येत्रासौ सकलविषया
शक्तिरप्रत्यनीका । भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन्मामिकां चित्तशय्यां मय्यु-
त्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथाः ॥ ५ ॥ जन्माटव्यां कथमपि मया
देव दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव नयकथा स्फारपीयूषत्रापी । तस्या मध्ये
हिमकरहिमव्यूहशीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापाः
॥ ६ ॥ पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकी हेमाभासो भवति
सुरभिः श्रीनिवासश्च पन्नः । सर्वाङ्गेण स्पृश्यति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे
श्रेयः किंतत्स्वयमहरह्यन्न मामभ्युपैति ॥ ७ ॥ पश्यन्तं त्वद्गचनममृतं
भक्तिपात्र्या पिवन्तं कर्मरण्यात्पुरुषमसमानन्दधाम प्रविष्टम् । त्वां दुर्वारस्स-
रमदहरं त्वत्प्रसादैकभूमिकूराकाराः कथमिव रुजाकण्टका निर्लुठन्ति
॥ ८ ॥ पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर्मानस्तम्भो भवति च

परस्तादृशो रत्नवर्गः । दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां प्रत्या-
सतिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः ॥ ९ ॥ हृद्यः प्राप्तो मरुदपि
भवन्मूर्तिशैलोपग्राही सद्यः पुंसां निरवधिरुजाधुलिवन्धं धुनोति । ध्याना-
हृतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस्तस्याशक्यः क इह भुवने देव लोकोप-
कारः ॥ १० ॥ जानासि त्वं मम भवभवे यच्च यादृक्च दुःखं जातं यस्य
सारणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि । त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वासुपेतोऽस्मि
भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिह विषये देव एव प्रमाणम् ॥ ११ ॥ प्रापद्वैवं तव
नुतिपदैर्जीवक्रेनोपदिष्टैः पापाचारी मरणममये सारमेयोऽपि सौख्यम् । कः
संदेहो यदुपलभते वासवधीप्रभुत्वं जल्पञ्जायैर्मणिभिरमलैस्त्वन्मस्कारचक्रम्
॥ १२ ॥ शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नो चेदनव-
धिसुखावश्विका कुश्विक्रेयम् । शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो
मुक्तिद्वारं परिदृढमहामोहमुद्राकवाटम् ॥ १३ ॥ प्रच्छन्नः खल्वयमघमयै-
रन्धकारैः समन्तात्पन्था मुक्तेः स्थपुटितपदः क्लेशगर्तेरगाधैः । तत्कस्तेन-
व्रजति सुखतो देव तत्रागभासी यद्यग्रेऽग्रे न भवति भवद्भारतीरत्नदीपः
॥ १४ ॥ आत्मज्योतिर्निधिरनत्रधिर्द्रष्टुगानन्दहेतुः कर्मक्षोणीपहिलपिहितो
योऽनवाप्या परेषाम् । हस्ते कुर्वन्त्यनतिचिरतस्तं भवद्भक्तिभाजः स्तौत्रे-
र्वन्धप्रकृतिपुरुषोद्दामधात्रीखनित्रेः ॥ १५ ॥ प्रत्युत्पन्नानयहिमगिरेरायता
चामृताब्धेर्यादेव त्वत्पदकमलयोः सङ्गता भक्तिगङ्गा । चेतस्तस्यां मम
रुचिवशादाप्लुनं ज्वालितान्हः कल्माषं यद्भवति किमियं देव संदेहभूमिः
॥ १६ ॥ प्रादुर्भूत स्थिरपदसुख त्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं स इति मति
रुत्पद्यते निर्विकल्पा । मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपां दोषात्मानोऽ
प्यभिमतफलास्त्वत्प्रसादाद्भवन्ति ॥ १७ ॥ मिथ्यावाद मलमपनुदन्सप्तभ-
ङ्गीतरङ्गैर्गागम्भोधिर्भुवनमखिलं देव पर्येति यस्ते । तस्यावृत्तिं सपदि विबु-
धाश्चेतसैवाचलेन व्यातन्वन्तः सुचिरममृतासेवया तृप्नुवन्ति ॥ १८ ॥
आहार्येभ्यः स्पृहयति परं यः स्वभावादहृद्यशस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा
यश्च शक्यः । सर्वाङ्गेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्यः परेषां तर्किक भूषावसनकुसुमै
किं च शस्त्रैरुदस्रैः ॥ १९ ॥ इन्द्रः सेवां तव सुकुरतां किं तथा श्लाघनं ते

तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यतामातनोति । त्वं निरुतारी जननजलधेः
 सिद्धिकान्तामतिस्त्वं त्वं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्
 ॥ २० ॥ वृत्तिर्वाचामपरसदृशी न त्वमन्येन तुल्यस्तुत्युद्धाराः कथमिव
 ततस्त्वय्यमी न क्रमन्ते । मैत्रं भूत्रंस्तदपि भगवन्भक्तिपीयूषपुष्टास्ते भव्या
 नामभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति ॥ २१ ॥ कोपावेशो न तव न तव
 कापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस्तव हि परमोपेक्षयैवानपेक्षम् । आज्ञावश्यं
 तदपि भुवनं संनिधिवैरैहारी क्वैवंभूतं भुवनतिलक ! प्राभवं त्वत्परेषु ॥ २२ ॥
 देव स्तोतुं त्रिदिवगणिकामण्डलीगीतकीर्तिं तोतूतिं त्वां सकलविषय-
 ज्ञानमूर्तिं जनो यः । तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जाहूतिं पन्थास्तत्त्रग्रन्थ-
 स्मरणविषये नैष मोमूर्तिं मर्त्यः ॥ २३ ॥ चित्ते कुर्वन्निरवधिसुखज्ञानदग्वी-
 र्यरूपं देव त्वां यः समयनियमादादरेण स्तवीति । श्रेयोमार्गं स खलु सुकृती
 तावता पूगयित्वा कल्याणानां भवति विषयः पञ्चधापञ्चितानाम् ॥ २४ ॥
 भक्तिप्रह्वमहेन्द्रपूजितपदत्वत्कीर्तने न क्षमाः सूक्ष्मज्ञानदृशोऽपिसंयमभृतः
 के हन्तमन्दा वयम् । अस्माभिः स्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते स्वा-
 त्माधीनसुखैषिणां स खलु न कल्याणकल्पदुमः ॥ २५ ॥ वादिराजमनु
 शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः । वादिराजमनु काव्यकृतस्ते
 वादिराजमनु भव्यसहायः ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीवादिराजकृतमेकीमावस्तोत्रम् ॥

अथ श्रीधनञ्जयकविप्रणीतम् विषापहारस्तोत्रम् ।

सात्मस्थितः सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्तसङ्गः । प्रवृद्धका-

लौऽप्यजरोत्ररेण्यः पायादपायात्पुरुषः पुराणः ॥ १ ॥ परैरचिन्त्यं युगभा-
रमेकः स्तोतुं वह्न्योगिभिरप्यशक्यः । स्तुत्योऽघ मेऽसौ वृषभो न भानो
किमप्रवेशे विशति प्रदीपः ॥ २ ॥ तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं
त्यजामि स्तवनानुबन्धम् । स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनेव निरू-
पयामि ॥ ३ ॥ त्वं विश्वदृश्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निसिलैरवेद्यः ।
वक्तुं कियान्कीदृशमित्यशक्यः स्तुस्तिस्ततोऽशक्तिकथा तवास्तु ॥ ४ ॥
व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैरुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम् । हिताहितान्वेषण-
मान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः ॥ ५ ॥ दाता न हर्ता दिवसं
विवस्वामद्यश्च इत्यच्युतदर्शिताशः । सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन
दत्सेऽभिमतं नताय ॥ ६ ॥ उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभा-
वाद्भिमुखश्च दुःखम् । सदावदातद्युतिरेकरूपरतयोस्त्वमादर्श इवाऽऽवभासि
॥ ७ ॥ अगाद्यताऽब्धेः स यतः पयोधिर्मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र ।
द्यावापृथिव्योः पृथुता तथैव व्याप त्वदीया भुवनान्तराणि ॥ ८ ॥ तवा-
नवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च । दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैपी-
र्विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम् ॥ ९ ॥ सरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन्नुद्भू-
लितात्मा यदि नाम शम्भुः । अशेत वृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते
येन भवानजागः ॥ १० ॥ स नीरजा स्यादपरोऽघवान्वा तद्दोषकीर्त्यैव न
ते गुणित्वम् । स्वताऽम्बुराशेर्महिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य
॥ ११ ॥ कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य । त्वं नेतृ
भावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्र नौनाविकयोरिवाख्यः ॥ १२ ॥ सुखाय
दुःखानि गुणाय दोषान्धर्माय पापानि समाचरन्ति । तैलाय बालाः सिक-
तासमूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः ॥ १३ ॥ विषापहारं मणिमौषधानि
मान्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च । भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति सरन्ति पर्यायना-
मानि तवैव तानि ॥ १४ ॥ चित्ते न किञ्चित्कृतवानसि त्वं देवः कृत-
श्वेतसि येन सर्वम् । हस्ते कृतं तेन जगद्भिचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्त-
वाह्यः ॥ १५ ॥ त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकीस्वामीति संख्यानियतेरमी-
पाम् । बोधाधिपत्यं प्रति ना भविष्यंस्तेऽन्येऽपि चेद्द्रव्याप्यदमूनपीदम्

॥ १६ ॥ नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्यरूपस्य तत्रोपकारि । तस्यैव
 हेतुः स्वसुखस्य भानोरुद्धिभ्रतश्छत्रमिवादरेण ॥ १७ ॥ क्रोपेक्षकस्त्वं
 कसुखोपदेशः स चेत् किमिच्छाप्रतिकूलवादः । कासौ क वा सर्वजगत्प्रि-
 यत्वं तन्नो यथातथ्यमवेविजं ते ॥ १८ ॥ तुङ्गात्फलं यत्तदकिञ्चनाश्च
 प्राप्यं समृद्धान् धनेश्वरादेः । निरम्भसोऽप्युच्चतमादिवाट्रेनैकापि निर्याति
 धुनी पयोधेः ॥ १९ ॥ त्रैलोक्यसेवानियमाय दण्डं दध्रे यदिन्द्रो विनयेन
 तस्य । तत्प्रातिहार्यं भवतः कृतस्त्वं तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु ॥ २० ॥
 श्रिया परं पश्यति साधु निःस्वः श्रीमान्न कश्चित्कृपणं त्वदन्यः । यथा
 प्रकाशस्थितमन्धकार स्थायीक्षतेऽसौ न तथा तमःस्थम् ॥ २१ ॥ स्ववृद्धिनिः
 श्वासनिमेषभाजि प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः । किं चाखिलज्ञेयविवर्तिबो-
 धस्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः ॥ २२ ॥ तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वां
 येऽवगायंति कुलं प्रकाश्य । तेऽद्यापि नन्वाश्मनमित्यवश्यं पाणौ कृतं
 हेमपुनस्त्यजंति ॥ २३ ॥ दत्तस्त्रिलोक्यां पटहोऽभिभूताः सुरासुरास्तस्य
 महान्स लाभः । मोहस्य मोहस्त्वयि को विरोद्धुर्मूलस्य नाशो बलबद्धिरोधः
 ॥ २४ ॥ मार्गस्त्वयैको ददृशे विमुक्तेश्चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया
 दृष्टमिति सयेन त्वं मा कदाचिद्भुजमालुलोके ॥ २५ ॥ स्वर्भानुरर्कस्य
 हविर्भुजोऽम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः । संसारभोगस्य वियोगभावो
 विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये ॥ २६ ॥ अजानतस्त्वां नमतः फलं यत्तज्जान-
 तोऽन्यं न तु देवतेति । हरिन्मणिं काचधिया दधानस्तं तस्य बुद्ध्या बहतो
 न रिक्तः ॥ २७ ॥ प्रशस्तवाचश्चतुराः कषायैर्दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः ।
 गतस्य दीपस्य हि नन्दित्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम् ॥ २८ ॥ नाना-
 र्थमेकार्थमदस्त्वदुक्तं हितं वचस्ते निशमय्य वक्तुः । निर्दोषतां के न विभा-
 वयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण ॥ २९ ॥ न कापि वाञ्छा ववृते च
 वाक्ते काले क्वचित्कोऽपि तथा नियोगः । न पूर्याम्यम्बुधिमित्युदंशुः
 स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति ॥ ३० ॥ गुणा गभीराः परमाः प्रसन्ना बहु-
 प्रकारा बहवस्तवेति । दृष्टोऽयमन्तः स्तवने न तेषां गुणो गुणानां किमतः
 परोऽस्ति ॥ ३१ ॥ स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च

ततो भजामि । स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम्
 ॥ ३२ ॥ ततस्त्रिलोकीनगराधिदेव नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् । अपु-
 ण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम् ॥ ३३ ॥ अशङ्कमस्पर्शम-
 रूपगन्धं त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम् । सर्वस्य मातारममेयमन्यैर्जिनेन्द्रमस्मा-
 र्यमनुस्मरामि ॥ ३४ ॥ अगाधमन्यैर्मनसाऽप्यलङ्घ्यं निर्ष्किंचनं प्रार्थित-
 मर्थवद्भिः । विश्वस्य पारं तमदृष्टपारं पतिं जिनानां शरणं व्रजामि ॥ ३५ ॥
 त्रैलोक्यदीक्षागुरवे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतोऽभूत् । प्राग्गण्डशैलः
 पुनरद्रिकल्पः पश्चान्नमेरुः कुलपर्वतोऽभूत् ॥ ३६ ॥ स्वयंप्रकाशस्य दिवा
 निशा वा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम् । न लाघवं गौत्रमेकरूपं वन्दे
 विभुं कालकलामतीतम् ॥ ३७ ॥ इति स्तुतिं देव विधाय दैन्याद्भरं न
 याचे त्वमुपेक्षकोऽसि । छायातरुं संश्रयतः स्वतः स्यात्कञ्छायया याचित-
 यात्मलाभः ॥ ३८ ॥ अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधस्त्वय्येव सक्तां दिश
 भक्तित्तुद्विम् । करिष्यते देव तथा कृपां मे को वात्मपोष्ये सुमुखो न स्ररिः
 ॥ ३९ ॥ वितरति विहिता यथाऋयंचिज्जिन विनताय मनीपितानि
 भक्तिः । त्वयि नुतिविषया पुनर्विशेषाद्दिशति सुखानि यशो धनं जयं च
 ॥ ४० ॥

॥ इति श्रीधनंजयकृतं विष्णुपहारस्तोत्रम् ॥

श्रीभूपालकविप्रणीता जिनचतुर्विंशतिका

श्रीलीलायतनं महीकुलग्रहं कीर्तिप्रमोदास्पदं वाग्देवीरतिकेतनं जय-
 रमाक्रीडानिधानं महत् । नः स्यात्सर्वमहोत्सर्वैकभवनं यः प्रार्थितार्थपदं प्रातः
 पश्यति कल्पपादपदलच्छ्रायं जिनाङ्घ्रिद्वयम् ॥ १ ॥ शान्तं त्रयुः श्रवण-

हारि वचश्चरित्रं सर्वोपकारि तव देव ततः श्रुतज्ञाः । संसारभारवमहत्स्थ-
 लरुद्रसान्द्रच्छायामहीरुह भवन्तमुपाश्रयन्ते ॥ २ ॥ स्वामिन्नद्य विनिर्गतो-
 ऽस्मि जननीगर्भान्धकूपोदरादघोद्वाटितदृष्टिः स्मि फलवज्जन्मास्मि चाद्य
 स्फुटम् । त्वामद्राक्षमहं यदक्षयपदानन्दाय लोकत्रयीनेत्रेन्दीवरकाननेन्दु-
 ममृतस्यन्दिप्रभाचन्द्रिकम् ॥ ३ ॥ निःशेषत्रिदशेन्द्रशेखरशिखारत्नप्रदी-
 पावली-सान्द्रीभूतमृगेन्द्रविष्टरतटीमाणिक्यदीपावलिः । केयं श्रीः क्व च
 निःस्पृहत्वमिदमित्यूहातिगस्त्वाद्दशः सर्वज्ञानदृशश्चरित्रमहिमा लोकेऽ
 लोकोत्तरः ॥ ४ ॥ राज्य शासनकारिनाकपति यत्त्यक्तं तृणावज्ञया, हेला-
 निर्दलितत्रिलोकमहिमा यन्मोहमल्लो जितः । लोकालोकमपि स्वबोधमुकुर-
 स्यान्तः कृतं यत्त्वया, सैपाऽऽश्चर्यपरम्परा जिनवर कान्यत्र संभाव्यते ॥ ५ ॥
 दान ज्ञानधनाय दत्तमसकृत्पात्राय सद्बृत्तये चीर्णान्युग्रतपांसि तेन सुचिरं
 पूजाश्च बह्व्यः कृताः । शीलानां निचयः सहामलगुणैः सर्वः समासादितो
 दृष्टस्त्वं जिन येन दृष्टिसुभगः श्रद्धापरेण क्षणम् ॥ ६ ॥ प्रज्ञापारमितः
 स एव भगवान्पारं स एव श्रुतरकन्धाब्धेर्गुणरत्नभूषण इति श्लाघ्यः स एव
 ध्रुवम् । नीयन्ते जिन येन कर्णहृदयालंकारतां त्वद्गुणाः संसाराहिविषा-
 पहारमणयस्त्रैलोक्यचूणामणेः ॥ ७ ॥ जयति दिविजवृन्दान्दोलितैरिन्दुरो-
 चिर्निचयरुचिभिरुच्चैश्चामरैर्वीज्यमानः । जिनपतिरनुज्यन्मुक्तिसाम्राज्यल-
 क्ष्मीयुवतिनवकटाक्षपलीलां दधानैः ॥ ८ ॥ देवः श्वेतातपत्रत्रयचमा-
 रिरुहाशोकभाश्चक्रभाषापुष्पौघासारसिंहासनसुरपटहैरष्टभिः प्रातिहार्यैः ।
 साश्चर्यैर्भ्राजमानः सुरमनुजसभाम्भेजिनीभनुमाली पायान्नः पादपी-
 ठीकृतसकलजगत्पादमौलिर्जिनेन्द्रः ॥ ९ ॥ नृत्यत्स्वर्दन्तिदन्ताम्बुरुहवन-
 नटन्नाकनारीनिकायः सद्यस्त्रैलोक्ययात्रोत्सवकरनिनदातोद्यमाद्यन्निलिम्पः ।
 हस्ताम्भोजातलीलाविनिहितसुमनोद्दामरम्यामरस्त्रीकाम्यः कल्याणपूजा-
 विधिषु विजयते देव देवागमस्ते ॥ १० ॥ चक्षुष्पानहमेव देव भुवने
 नेत्रामृतस्यन्दिनं त्वद्भक्त्रेन्दुमतिप्रसादसुभगैस्तेजोभिरुद्भासितम् ।
 तेनालोक्यता मयाऽनतिचिराच्चक्षुः कृतार्थीकृतं द्रष्टव्यावधिवीक्षणव्यतिक-
 रव्याजृम्भमाणोत्सवम् ॥ ११ ॥ कःतोः सकान्तमपि मल्लमवैति कश्चि-

न्मुग्धो मुकुन्दमरविन्दजमिन्दुमौलिम् । मोर्धीकृतत्रिदशयोपिदपाङ्गपातस्तस्य
 त्वमेव विजयी जिनराजमल्लः ॥ १२ ॥ किसलयितमनल्पं त्वद्विलोका-
 मिलपात्कुसुमितमतिसान्द्रं त्वत्समीपप्रयाणात् । मम फलितममन्दं त्वन्मु-
 खेन्दोरिदानीं नयनपथमवाहाद्देव पुण्यदुमेण ॥ १३ ॥ त्रिभुवनवनपुष्प्य-
 त्पुष्पकोदंडदर्पप्रसरदवनवाम्भोमुक्तिस्रक्तप्रसृतिः । स जयति जिनराजत्रा-
 तजीमूतमङ्गः शतमखशिखिनृत्यारम्भनिर्वन्धवन्धुः ॥ १४ ॥ भूपालः
 स्वर्गपालप्रमुखनरसुरश्रेणिनेत्रालिमालालीलाचैत्यस्य चैत्यालयमखिलजग-
 त्कौमुदीन्दोर्जिनस्य । उत्तंसीभूतसेवाङ्गलिपुटनलिनीकुञ्जलास्त्रिः परीत्य श्रीपा-
 दच्छाययापस्थितभवदवधुः संश्रितोऽस्मीव मुक्तिम् ॥ १५ ॥ देश त्व-
 दङ्घ्रिनखमण्डलदर्पणेऽस्मिन्नर्घ्ये निसर्गरुचिरे चिरदृष्टवक्त्रः । श्रीकीर्ति-
 कान्तिधृतिसङ्गमकारणानि भव्यो न कानि लभते शुभमङ्गलानि ॥ १६ ॥
 जयति सुरनरेन्द्रश्रीसुधानिर्झरिण्याः कुलधराणिधरोऽयं जैनचैत्याभिरामः ।
 प्रविपुलफलधर्मानोकहाग्रप्रवालप्रसरशिखरशुम्भत्केतनः श्रीनिकेतः ॥ १७ ॥
 विनमदमरकान्ताकुन्तलाक्रान्तकान्तिस्फुरितनखमयूखद्योतिताशान्तरालः ।
 दिविजमनुजराजत्रातपूज्यक्रमाब्जो जयति विजितकर्मारतिजालो जिनेन्द्रः
 ॥ १८ ॥ सुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमङ्गलाय द्रष्टव्यमस्ति यदि मङ्गलमेव
 वस्तु । अन्येन किं तदिह नाथ तवैव वक्त्रं त्रैलोक्यमङ्गलनिकेतनमीक्ष-
 णीयम् ॥ १९ ॥ त्वं धर्मोदयतापसाश्रमशुकस्त्वं काव्यवन्धक्रमक्रीडान-
 न्दनकोकिलस्त्वमुचितः श्रीमल्लिकाषट्पदः । त्वं पुन्नागकथारविन्दसरसी-
 हंसस्त्वमुत्तंसकः कैर्भूपाल न धार्यसे गुणमणिस्रञ्जालिमिमौलिभिः ॥ २० ॥
 शिवसुखमजरश्रीसङ्गमं चाभिलष्य स्वपभिनिगमयन्ति क्लेशपाशेन केचित् ॥
 वयमिह तु वचस्ते भूपतेर्भावयन्तस्तदुभयमपि शश्वल्लीलया निर्विशामः
 ॥ २१ ॥ देवेन्द्रास्तव मञ्जनानि विदधुर्देवाङ्गना मङ्गलान्यापेठुः शरदिन्दु-
 निर्मलयशो गन्धर्वदेवा जगुः । शेषाश्चापि यथानियोगमखिलाः सेवां
 सुराश्चकिरे तर्कि देव वयं विदध्व इति नश्चितं तु दोलायते ॥ २२ ॥
 देव त्वज्जननाभिषेकसमये रोमाश्वसत्कञ्चुकैर्देवेन्द्रैर्यदनर्ति नर्ततविधौ
 लब्धप्रभावैः स्फुटम् । किं चन्यत्सुरसुन्दरीकुचतटप्रान्तावनद्धोत्तमप्रेङ्खद्र-

लुकिनादभङ्कृतमहो तत्केन संवर्ष्यते ॥ २३ ॥ देव त्वत्प्रतिविम्बमम्बुज-
दलस्मेरेक्षणं पश्यतां यत्रास्माकमहो महोत्सवरसो दृष्टेरियान्वर्तते । साक्षा-
त्तत्रभवन्तमीक्षितवतां कल्याणकाले तदा देवानामनिमेषलोचनतया वृत्तः
स किं वर्ष्यते ॥ २४ ॥ दृष्टं धाम रसायनस्य महतां दृष्टं निधीनां पदं
दृष्टं सिद्धरसस्य पद्म सदनं दृष्टं च चिन्तामणेः । किं दृष्टेरथवानुषङ्गि-
कफलैरेभिर्मयाद्य ध्रुवं दृष्टं मुक्तिविवाहमङ्गलगृहं दृष्टे जिनधीगृहे
॥ २५ ॥ दृष्टत्वं जिनराजचन्द्र विक्रसद्भूपेन्द्रनेत्रोत्पलैः स्नातं त्वन्नुति-
चन्द्रिकाम्भसि भवद्विद्वच्चकोरोत्सवे । नीतश्चाद्य निदाघजः क्लमभरः शार्ति
मया गम्यते देव त्वद्गतचेयसैव भवतो भूयात्पुनर्दर्शनम् ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीभूपालकविप्रणीता जिनचतुर्विंशतिका ॥

आचार्यश्रीमदुमास्वामिविरचितं तत्त्वार्थसूत्रम् ।

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥ तत्त्वार्थश्रद्धानं मम्य
ग्दर्शनम् ॥ २ ॥ तन्निसर्गादिधिगमाद्वा ॥ ३ ॥ जीवाजीवास्रवबन्धसंवर-
निर्जरामोक्षास्तत्वम् ॥ ४ ॥ नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्यासः ॥ ५ ॥
प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥ निर्देशस्वामित्वसाधनाऽधिकरणस्थितिविधानतः
॥ ७ ॥ सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च ॥ ८ ॥ मतिश्रु-
तावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ९ ॥ तत्प्रमाणे ॥ १० ॥ आद्ये परो-
क्षम् ॥ ११ ॥ प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥ मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभि-
निर्बोध इत्यनर्थान्तरम् ॥ १३ ॥ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥
अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥ बहुबहुविधचिप्राऽनिःसृताऽनुक्तध्रुवाणां

सेतराणाम् ॥ १६ ॥ अर्थस्य ॥ १७ ॥ व्यञ्जनम्यावग्रहः ॥ १८ ॥ न
 चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥ १९ ॥ श्रुतं मतिपूर्वं द्रव्यनेकद्रादशभेदम् ॥ २० ॥
 भवप्रत्ययोऽवधिदेवनारकाणाम् ॥ २१ ॥ क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः
 शेषाणाम् ॥ २२ ॥ ऋतुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥ विशुद्धचप्रति-
 पाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २४ ॥ विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः
 ॥ २५ ॥ मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २६ ॥ रूपिष्ववधेः
 ॥ २७ ॥ तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य ॥ २८ ॥ सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य
 ॥ २९ ॥ एकादीनि भाज्यानि युगपदेकरिमन्नाचतुर्भ्यः ॥ ३० ॥ मति-
 श्रुतावधयो विपर्ययश्च ॥ ३१ ॥ सदसतोरविशेषाद्यद्दृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्
 ॥ ३२ ॥ नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसममिरूढैवंभूता नयाः ॥ ३३ ॥

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणा-
 मिक्कौ च ॥ १ ॥ द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् ॥ २ ॥
 सम्यक्त्वचारित्रे । ३ ॥ ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥
 ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमाश्च ॥ ५ ॥
 मतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाऽज्ञानाऽसंयताऽसिद्धलेख्याश्चतुश्चतुस्त्र्येकैकैकै-
 कषड्भेदाः ॥ ६ ॥ जीवभव्याऽभव्यत्वानि च ॥ ७ ॥ उपयोगो लक्षणम्
 ॥ ८ ॥ स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ९ ॥ संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥
 समनस्काऽमनस्काः ॥ ११ ॥ संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥ १२ ॥ पृथिव्यप्ते-
 जोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ दीन्द्रियादयस्त्रसाः ॥ १४ ॥ पञ्चे-
 न्द्रियाणि ॥ १५ ॥ द्विविधानि ॥ १६ ॥ निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्
 ॥ १७ ॥ लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥ १८ ॥ स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रो-
 त्राणि ॥ १९ ॥ स्पर्शरसगन्धवर्गशब्दास्तदर्थाः ॥ २० ॥ श्रुतमनिन्द्रिय-
 स्य ॥ २१ ॥ वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥ २२ ॥ कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्या-
 दीनामेकैकवृद्धानि ॥ २३ ॥ संज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥ विग्रहगतौ
 कर्मयोगः ॥ २५ ॥ अनुश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥ अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥

विग्रहवती च संमारिणः प्राक् चतुर्भ्यः ॥ २८ ॥ एकसमयाऽविग्रहा
 ॥ २९ ॥ एकं द्वौ त्रीन्वानाहारकः ॥ ३० ॥ सम्मूर्छनगर्भोपपाद जन्म
 ॥ ३१ ॥ सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः ॥ ३२ ॥
 जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥ ३३ ॥ देवनाग्काणामुपपादः ॥ ३४ ॥
 शेषाणां सम्मूर्छनम् ॥ ३५ ॥ औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकर्मणानि
 शरीराणि ॥ ३६ ॥ परं परं सूक्ष्मम् ॥ ३७ ॥ प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्
 तैजसात् ॥ ३८ ॥ अनन्तगुणे परे ॥ ३९ ॥ अप्रतीघाते ॥ ४० ॥
 अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ सर्वस्य ॥ ४२ ॥ तदादीनि भाज्यानि युग-
 पदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ४३ ॥ निरुभोगमन्त्यम् ॥ ४४ ॥ गर्भसम्मूर्छ-
 नजमाद्यम् ॥ ४५ ॥ औपपादिकं वैक्रियिकम् ॥ ४६ ॥ लब्धिप्रत्ययं च
 ॥ ४७ ॥ तैजसमपि ॥ ४८ ॥ शुभं विशुद्धमव्याधाति चाहारकं प्रमत्तसं-
 यतस्यैव ॥ ४९ ॥ नारकसम्मूर्छिनीं नपुंसकानि ॥ ५० ॥ न देवाः ॥ ५१ ॥
 शेषास्त्रिवेदाः ॥ ५२ ॥ औपपादिकचरमोत्तमदेहाः संख्येयवर्षायुषोऽनपव-
 त्यायुषः ॥

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

रत्नशर्कराबालुकापङ्कधूमनप्रोमहातमः प्रभाभूमयो घनाम्बुजाताकाशप्र-
 तिष्ठाः सप्ताधोऽधः ॥ १ ॥ तासु त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशत्रिपञ्चो नैकनर-
 कशतमहस्राणि पञ्च चैत्र यथाक्रमम् ॥ २ ॥ नारका नित्याशुभतरलेश्या-
 परिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥ परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ संक्लि-
 ष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्याः ॥ ५ ॥ तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वा-
 विंशतित्रयस्त्रिंशत्प्रागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः ॥ ६ ॥ जम्बूद्वीपलवणो-
 दादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ ७ ॥ द्विद्विद्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरि-
 क्षेपिणो बलयाकृतयः ॥ ८ ॥ तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रवि-
 ष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥ ९ ॥ भरतहैमवतहरिविदेहरण्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः
 क्षेत्राणि ॥ १० ॥ तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनील-
 रुक्मिशिलरिणो वर्षधरपर्वताः ॥ ११ ॥ हेमार्जुनतपनीयवैडूर्यरजतहेममयाः

॥ १२ ॥ मणिविचित्रपाश्र्वा उपरिमूले च तुल्यविस्ताराः ॥ १३ ॥ पद्म-
 महापद्मतिगिञ्जकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषामुपरि ॥ १४ ॥
 प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदर्द्धविष्कम्भो हृदः ॥ १५ ॥ दशयोजनावगाहः
 ॥ १६ ॥ तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥ १७ ॥ तद्द्विगुणद्विगुणा हृदाः
 पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः
 पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः ॥ १९ ॥ गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहिता-
 स्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्तासुपर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाः
 सरितस्तन्मध्यगाः ॥ २० ॥ द्वयोर्द्भयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥ २१ ॥ शेषा-
 स्त्वपरगाः ॥ २२ ॥ चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गङ्गासिन्धवादयो नद्यः
 ॥ २३ ॥ भरतः षड्विंशतिपञ्चयोजनशतविस्तारः षट्चैकोनविंशतिभागा
 योजनस्य ॥ २४ ॥ तद्द्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः
 ॥ २५ ॥ उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २६ ॥ भरतैरावतयोर्वृद्धिहामौ षट्स-
 मयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम् ॥ २७ ॥ ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः
 ॥ २८ ॥ एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदैवकुरवकाः ॥ २९ ॥
 तथोत्तराः ॥ ३० ॥ विदेहेषु सदख्येयकालाः ॥ ३१ ॥ भरतस्य विष्कम्भो
 जम्बुद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥ ३२ ॥ द्विर्द्वातकीखण्डे ॥ ३३ ॥ पुष्करार्द्धे
 च ॥ ३४ ॥ प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ ३५ ॥ आर्या म्लेच्छाश्च ॥ ३६ ॥
 भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥ ३७ ॥ नृस्थिती
 परावरे त्रिपल्योपमान्तमूहूर्ते ॥ ३८ ॥ तिर्यग्योनिजानां च ॥ ३९ ॥

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

देवाश्चतुर्णिकायाः ॥ १ ॥ आदितस्त्रिषु पीतान्तलेभ्याः ॥ २ ॥ दशा-
 ष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ३ ॥ इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रि-
 शपारिपदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकशः ॥ ४ ॥
 त्रायस्त्रिशलोकपालवज्र्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥ पूर्वयोर्द्वान्द्राः ॥ ६ ॥
 कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥ ७ ॥ शेषः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः
 ॥ ८ ॥ परेऽप्रवीचाराः ॥ ९ ॥ भवनत्रासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवा-

तस्तनितोदधिद्वीपदिकुमाराः ॥ १० ॥ व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहोरगग-
 न्धर्वयक्षराक्षमभूतपिशाचाः ॥ ११ ॥ ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रह-
 नक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च ॥ १२ ॥ मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १३ ॥
 तत्कृतः कालविभागः ॥ १४ ॥ वहिरवस्थिताः ॥ १५ ॥ वैमानिकाः
 ॥ १६ ॥ कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ १७ ॥ उपर्युपरि ॥ १८ ॥ सौध-
 मशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तधकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसह-
 स्रारेष्वानतप्राणतयोशरणाच्युतर्योनवसु ग्रैवेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्ताप-
 राजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥ १९ ॥ स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्या विशुद्धी-
 न्द्रियावधिविषयतोऽधिकाः ॥ २० ॥ गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः
 ॥ २१ ॥ पीतपद्मशुक्लेश्या त्रिभिर्शेषेषु ॥ २२ ॥ प्राग्ग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः
 ॥ २३ ॥ ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ॥ २४ ॥ सारस्वतादित्यबह्वचरुण-
 गर्दतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्च ॥ २५ ॥ विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २६ ॥
 औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥ २७ ॥ स्थितिरसुरनागसुपर्ण-
 द्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्द्धहीनमिताः ॥ २८ ॥ सौधमेशानयोः
 सागरोपमे अधिके ॥ २९ ॥ सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥ ३० ॥ त्रिसप्त-
 नवैकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥ आरणाच्युतादूर्ध्वमे-
 कैकेन नवसुग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥ ३२ ॥ अपरा पल्यो-
 पममधिकम् ॥ ३३ ॥ परतः परतः पूर्वापूर्वानन्तराः ॥ ३४ ॥ नारकाणां
 च दितीयादिषु ॥ ३५ ॥ दसवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ३६ ॥ भवनेषु
 च ॥ ३७ ॥ व्यन्तराणां च ॥ ३८ ॥ परा पल्योपममधिकं ॥ ३९ ॥
 ज्योतिष्काणां च ॥ ४० ॥ तदष्टभागोऽपग ॥ ४१ ॥ लौकान्तिकानामष्टौ
 सागरोपमाणि सवेषाम् ॥ ४२ ॥

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥ १ ॥ द्रव्याणि ॥ २ ॥ जीवाश्च
 ॥ ३ ॥ नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥ आ-
 आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥ निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥ असङ्ख्येयाः प्रदेशाः

प्रदेशाः धर्माधर्मैर्जीवानाम् ॥ ८ ॥ आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥ सङ्ख्ये
 यासङ्ख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥ नाणोः ॥ ११ ॥ लोकाकाशेऽवगाहः
 ॥ १२ ॥ धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥ एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्
 ॥ १४ ॥ असङ्ख्येयभाग,दिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥ प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां
 प्रदीपयत् ॥ १६ ॥ गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोः रूपकारः ॥ १७ ॥ आकाश-
 स्यावगाहः ॥ १८ ॥ शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १९ ॥
 सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥ परस्परौपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥
 वर्तनापरिणामक्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥ स्पर्शरसगन्धवर्ण-
 वन्ताः पुद्गलाः ॥ २३ ॥ शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमञ्छायाऽऽ-
 तपोद्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥ अणवस्कन्धाश्च ॥ २५ ॥ भेदसङ्घातेभ्य
 उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ भेदादणुः ॥ २७ ॥ भेदमङ्घाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥
 सद्द्रव्यलक्षणम् ॥ २९ ॥ उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥ तद्भाव-
 व्ययं नित्यम् ॥ ३१ ॥ अपितानपितसिद्धेः ॥ ३२ ॥ स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्धः
 ॥ ३३ ॥ न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४ ॥ गुणमाम्ये सदृशानाम् ॥ ३५ ॥
 द्व्यधिकादिगुणानां तु ॥ ३६ ॥ बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥ ३७ ॥
 गुणपर्यायवद्द्रव्यम् ॥ ३८ ॥ कालश्च ॥ ३९ ॥ सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥
 द्रव्याश्रयानिर्गुणा गुणाः ॥ ४१ ॥ तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

॥ इति तन्त्रार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥ १ ॥ स आस्रवः ॥ २ ॥ शुभःपुण्यस्या-
 शुभः पापस्य ॥ ३ ॥ सकषायाकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ४ ॥
 इन्द्रियकषायाम्रतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चमश्चत्रिंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः
 ॥ ५ ॥ तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥ ६ ॥
 अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥ आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारि-
 तानुमतकषायविशेषं स्निग्धस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥ ८ ॥ निर्जर्तनानिक्षेपसंयोग-
 निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् ॥ ९ ॥ तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासा-
 दनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥ १० ॥ दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरि-

देवनान्यात्मपरोभयस्थानान्यमद्वेद्यस्य ॥ ११ ॥ भूतवृत्त्यनुकम्पादानसरा-
 गसंयमादिभोगः क्षान्ति शौचमिति सद्देद्यस्य ॥ १२ ॥ केवलिश्रुतमङ्गध-
 र्मदेवावर्गवादो दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥ कषायोदयाचीत्रपरिणामश्चारित्र-
 मोहस्य ॥ १४ ॥ बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुपः ॥ १५ ॥ माया तैर्य-
 ग्योनस्य ॥ १६ ॥ अल्पागम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७ ॥ स्वभावमार्दवं
 च ॥ १८ ॥ निःशीलव्रतित्वं च सर्वेषाम् ॥ १९ ॥ सगगसंयमसंयमासं-
 यमाकामनिर्जरात्रालतपांसि दैवस्य ॥ २० ॥ सम्यक्त्वं च ॥ २१ ॥ योग-
 चक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥ तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥
 दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतीचारोऽभीक्षणज्ञानोपयोगसंवेगौ
 शक्तिरतस्त्यागतपसी साधुमभाधिवैयावृत्त्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचन-
 भक्तिरावश्यकापरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य
 ॥ २४ ॥ परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य
 ॥ २५ ॥ तद्विपर्ययौ नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २६ ॥ विघ्नकरण-
 मन्तरायस्य ॥ २७ ॥

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

हिंसानृतस्तेयात्रह्यपरिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम् ॥ १ ॥ देशसर्वतोऽणुमह-
 ती ॥ २ ॥ तत्स्थैयार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ३ ॥ बाह्यनोगुप्तीर्यादान-
 निक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥ क्रोधलोभभीरुत्वहा-
 स्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचीभाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥ शून्यागारविमोचितावा-
 सपरोपरोधाकरणभैक्ष्यशुद्धिसधर्माविसंवादाः पञ्च ॥ ६ ॥ स्त्रीरागकथा-
 श्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कार त्यागाः
 पञ्च ॥ ७ ॥ मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जजानि पञ्च ॥ ८ ॥ हिंसा-
 दिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनं ॥ ९ ॥ दुःखमेव वा ॥ १० ॥ मैत्रीप्रमोदकारु-
 ष्यमाध्यस्थानि च मत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु ॥ ११ ॥ जगत्काय-
 स्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥ १२ ॥ प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा
 ॥ १३ ॥ असदभिधानमनृतम् ॥ १४ ॥ अदत्तादानं स्तेयम् ॥-१५ ॥

मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥ मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७ ॥ निःश्लयो वृत्ती ॥ १८ ॥
 अगार्यनगारश्च ॥ १९ ॥ अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥ दिग्देशानर्थदण्डविर-
 तिसामार्थिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभागात्रतसम्पन
 ॥ २१ ॥ मारणान्तिकीं सहेखनां जोपिता ॥ २२ ॥ शङ्काकाङ्क्षात्रिचिकित्सा-
 न्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतीचाराः ॥ २३ ॥ वृत्तशीलेषु पञ्च पञ्च
 यथाक्रमम् ॥ २४ ॥ बन्धबधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २५ ॥
 मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥
 स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धरज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्य-
 वहाराः ॥ २७ ॥ परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्ग-
 क्रीडाकामतीव्राभिनिवेशाः ॥ २८ ॥ क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासी-
 दासकुप्यप्रमाणोतिक्रमाः ॥ २९ ॥ ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्य-
 न्तराधानानि ॥ ३० ॥ आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः
 ॥ ३१ ॥ कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थ-
 क्यानि ॥ ३२ ॥ योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ अप्र-
 त्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥
 सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवदुःपक्काहाराः ॥ ३५ ॥ सचित्तनिक्षेपापिधान-
 परव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥ जीवितमरणाशंसासित्रानुराग-
 सुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥
 विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥ ३९ ॥

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥ सकषाय-
 त्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते स बन्धः ॥ २ ॥ प्रकृतिस्थित्य-
 न्तुभागप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ३ ॥ आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीया-
 युर्नामगोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥ पञ्चनवद्व्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्वि-
 पञ्चभेदा यथाक्रमम् ॥ ५ ॥ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥ ६ ॥
 चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्यश्च

॥ ७ ॥ मदसद्वेद्ये ॥ ८ ॥ दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीया-
ख्यास्त्रिद्विनत्रषोडशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौहास्य-
रत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुन्नपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या-
ख्यानसञ्ज्वलनविकल्पाश्चक्रशः क्रोधमानमायालोभाः ॥ ९ ॥ नारक-
तैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ १० ॥ गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धस-
ङ्घातसंस्थानसंहननस्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूत्घातपरघातातपोद्योतो-
च्छ्वासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेय-
यशःकीर्तिसेतराणि तीर्थकरत्वं च ॥ ११ ॥ उच्चैर्नीचैश्च ॥ १२ ॥
दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥ १३ ॥ आदितस्त्रिसृणामन्तरायस्य च
त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥ १४ ॥ सप्ततिर्मोहनीयस्य
॥ १५ ॥ विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥ १६ ॥ त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाख्यायुषः
॥ १७ ॥ अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥ नामगोत्रयोरष्टौ
॥ १९ ॥ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता ॥ २० ॥ विपाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥ स यथानाम
॥ २२ ॥ ततश्च निर्जरा ॥ २३ ॥ नामप्रत्ययाःसर्वतो योगविशेषात्सूक्ष्मै-
कक्षेत्रावगाहस्थिताःसर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥ सद्वेद्यः
शुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २५ ॥ अतोऽन्यत्पापम् ॥ २६ ॥

॥ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

आस्रवनिरोधः संवरः-॥ १ ॥ स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजय-
चारित्रैः ॥ २ ॥ तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥ सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः
॥ ४ ॥ ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥ उत्तमक्षमामा-
र्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥
अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिर्जरालोकबोधिदुर्लभ धर्म
स्वाख्याततत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥ मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिषोढ-
व्याः परीषहाः ॥ ८ ॥ क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्या
निषद्याशय्याक्रोशवधयाञ्चालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञाना-
दर्शनानि ॥ ९ ॥ सूक्ष्मसाम्परायल्लवस्थवीतलगयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥ एका-

दश जिने ॥ ११ ॥ वादरसाम्पराये सर्वे ॥ १२ ॥ ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने
 ॥ १३ ॥ दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ ॥ १४ ॥ चारित्रमोहे ना-
 ग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाश्वासत्कागपुरस्काराः ॥ १५ ॥ वेदनीये शेषाः
 ॥ १६ ॥ एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविंशतिः ॥ १७ ॥ सामा-
 यिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिर्ब्रह्मसाम्परायण्यथाख्यातमिति चारित्रम्
 ॥ १८ ॥ अनशनात्रमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-
 कायक्लेशा चाह्यं तपः ॥ १९ ॥ प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्ग
 ध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥ नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्
 ॥ २१ ॥ आलोचनाप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपञ्चेदपरिहारोप-
 स्थापनाः ॥ २२ ॥ ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः ॥ २३ ॥ आचार्योपा-
 ध्यायतपस्विशैच्यग्लानगणकुलसङ्घसाधुमनोज्ञानाम् ॥ २४ ॥ वाचनापृ-
 च्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥ बाह्याभ्यन्तरोपधयोः ॥ २६ ॥ उत्त-
 मसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात् ॥ २७ ॥ आर्तगौद्रध-
 र्म्यशुक्लानि ॥ २८ ॥ परे मोक्षहेतू ॥ २९ ॥ आर्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे
 तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३० ॥ विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥
 वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥ निदानं च ॥ ३३ ॥ तद्विगतदेशविरतप्रमत्तसंयता-
 नाम् ॥ ३४ ॥ हिंसानृत्तस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविगतदेशविरतयोः
 ॥ ३५ ॥ आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥ ३६ ॥ शुक्ले चाद्ये
 पूर्वविदः ॥ ३७ ॥ परे केवलिनः ॥ ३८ ॥ पृथक्त्वैकत्ववितर्कब्रह्मक्रिया-
 प्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तानि ॥ ३९ ॥ त्रैकयोगकाययोगायोगानाम्
 ॥ ४० ॥ एकाश्रये सवितर्कत्रीचारे पूर्वे ॥ ४१ ॥ अवीचारं द्वितीयम्
 ॥ ४२ ॥ वितर्कः श्रुतम् ॥ ४३ ॥ त्रीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः
 ॥ ४४ ॥ सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोप-
 शान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ॥ ४५ ॥
 पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः ॥ ४६ ॥ संयमश्रुतप्रतिसेव-
 नातीर्थलिङ्गलेश्योपपादस्थानविकल्पतः साध्याः ॥ ४७ ॥

॥ इति तत्त्वार्थाधिगने मोक्षशास्त्रे नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥ १ ॥ बन्धहे-
 त्वाभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २ ॥ औपशमिकादिभव्य-
 त्वानां च ॥ ३ ॥ अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥
 तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छन्त्यालोकान्तात् ॥ ५ ॥ पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्बन्धच्छे-
 दात्तथागतिपरिणामाच्च ॥ ६ ॥ आविद्धकुलालचक्रवद्बन्धपगतलेपालांबु-
 वदेरण्डबीजवदग्निशिखावच्च ॥ ७ ॥ धर्मास्तिकायाभावात् ॥ ८ ॥ क्षेत्र-
 कालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकंबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तरसंख्याल्पबहु-
 त्वतः साध्याः ॥ ९ ॥

अक्षरमात्रपदस्वरहीनं व्यञ्जनसन्धिविवर्जितरेफम् । साधुभिरत्र मम
 क्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्रममुद्रे ॥ १ ॥ दशाध्यायपरिच्छिन्ने
 तत्त्वार्थे पठिते सति । फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः ॥ २ ॥
 तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपिच्छोपलक्षितम् । वन्दे गणीन्द्रसंयातमुमास्वामिमुनी-
 श्वरम् ॥ ३ ॥

इति तत्त्वार्थसूत्रम् समाप्तम् ॥

श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्यविरचितम्

बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रम्

स्वयम्भुवा भूतहितेन भूतले, समञ्जमज्ञानविभूतिचक्षुषा । विराजितं
 येन विधुन्वता तमः, क्षमाकरेणेव गुणोत्कर्षः करैः ॥ १ ॥ प्रजापतिर्यः
 प्रथमं जिजीविषुः, शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः । प्रबुद्धतत्वः पुनरद्-
 भुतोदयो, ममत्वतो निर्विदिदे विदांवरः ॥ २ ॥ विहाय यः सागरवारिवा-
 ससं, बधूमिवेमां वसुधावधूं सतीम् । मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान्, प्रभुः

प्रव्रजः सहिष्णुरत्युक्तः ॥ ३ ॥ स्वदेशमूलं स्वसमाधितेजसा, निनास्य यो
निर्दयभस्मसात्क्रियाम् । जगाद् तत्त्वं जगतेऽर्थिनेऽज्ञसा, बभूव च ब्रह्म-
पदामृतेश्वरः ॥ ४ ॥ स विश्वज्ञुर्वृषभोऽर्चितः सत्वां, समग्रविद्यात्मवपु-
र्विज्ञानः । पुत्रातु, वेतो सम, नाशिनान्नो, जिजो, शिवज्ञुर्हृत्क्रवादिशमनः ।
॥ ५ ॥

इत्यादिजिनस्तोत्रम् ॥ ६ ॥

यस्य प्रभावात्त्रिदिवंच्युतस्व, कीडास्वपि क्षीयन्मुखारविन्दः । अजे-
यशक्तिभुवि बन्धुवर्ग, श्रकार नामाजित इत्यवन्ध्यम् ॥ ६ ॥ अद्यापि
यस्याजितशंसिनस्य, सत्तां प्रणीतुः प्रतिमङ्गलार्थम् । अगृह्यते नाम परं पवित्रं
स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके ॥ ७ ॥ यः प्रादुरासीत्प्रभुशक्तिभूषणा, भव्या
श्यालीनकलङ्कशान्त्ये । महामुनिर्मुक्तधर्मोपदेही, यथारविन्दाभ्युदयार्थं
भास्वान् ॥ ८ ॥ येन अणीतिं पृथुधर्मतीर्थे, उषेष्टं जनेन प्राप्य जयन्ति
दुःखम् । गाङ्ग हृदं चन्दनपङ्कशीत, गजप्रवेका इव घर्मतप्ताः ॥ ९ ॥
स ब्रह्मनिष्ठः सममित्रशत्रुविद्याविनिर्वातुकषायदोषः । लब्धात्मलक्ष्मीरजि-
तोऽजितात्मा, जिनः श्रियं मे भगवान् विधत्ताम् ॥ १० ॥

॥ इत्यजितजिनस्तोत्रम् ॥

त्वं शम्भवः संभवतर्षरोगैः, संतप्यमानस्य जनस्य लोके । आसीरि-
हाकस्मिक एव त्रैलोक्ये, वैको यश्च नृप राजां प्रशास्यै ॥ १ ॥ अनित्य-
मत्राणमहंक्रियाभिः, प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोषम् । इदं जगज्जन्मजरान्त
कार्तं, निरञ्जनां शान्तिप्रज्ञां गमस्त्वम् ॥ २ ॥ शत्रोहदोषेषु च लं हि सौख्यं,
तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः । तृष्णाभिर्वृद्धिश्च तपत्यजसं, तापस्तदायासय-
तीत्युवाही ॥ ३ ॥ वृषभ, मोक्षश्च तस्योश्च हेतुर्नद्रश्च मुक्तश्च फलं च
मुक्तेः । स्याद्वादिनो, नाशः तवैव सुकरं, त्रैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्त्रा-
॥ ४ ॥ शक्रोऽप्यशक्तस्त्वपुण्यकीर्त्तः, स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु माहृशोऽज्ञः ।
तथापि भक्त्या, स्तुतपादपद्मो, मामार्य देव्यः शिवनातिमुत्तमैः ॥ ५ ॥

इति शम्भुजिनस्तोत्रम् ॥

१. सुखमिति नन्दनमिति नन्दनो भवान्, दयावधुं न्क्षान्तिं सखीं पशिश्रमत्तुम्
 समाधितन्त्रस्तदुपोमपत्तये, इत्येव । नैर्घन्त्यगुणेन चायुजत ॥ १६ ॥
 अज्ञेत्ने, तत्कृतवत्कृतेऽपि, प्रमेदमित्याभिनिवेशकग्रहात् । प्रभङ्गुरे स्था-
 वरनिश्चयेन च, क्षतं जगत्त्वमजिद्राहद्द्वयम् ॥ १७ ॥ स्तुदाविदुः स्वप्रति-
 कारतः स्थितिर्न चेन्द्रियार्थप्रभवात्पुत्रौख्यत्वः । ततो गुणो नास्ति च
 देहदेहिनो, रितीदमित्थं भगवान् वृजिज्ञपत् ॥ १८ ॥ जतोऽतिलोलोऽ-
 प्यनुबन्धदोषतां, भयादकार्येष्वहं न प्रवृत्तैः । इहाप्यमुत्राप्यनुबन्धदोषवि-
 त्कथं सुखे संसर्जतीति चात्रवीत् ॥ १९ ॥ सचानुबन्धोऽस्य जनस्य वाप-
 कृत्वपोऽभिबृद्धिः सुखतो न च स्थितिः । इति प्रभो लोकहितं यतो मतं,
 ततो भवानेव गतिः सतां मतः ॥ २० ॥

१. अन्वर्धसंज्ञः सुमतिर्मुनिस्त्वं, स्वयं मतं येन सुधुक्वितनीतम्, यतश्च
 शेषेषु ज्ञानेषु नास्ति, सर्वक्रियाकास्करतत्त्वसिद्धिः ॥ २१ ॥ अथैकमेकं च
 तदेव तच्छ्रुत्वा, भेदात्प्रज्ञानमिदं द्वितसत्त्वम्, मृषोर्पञ्चाशोऽन्यतस्त्व्यल्लेषैः
 तच्छेषलोपोऽपि ततोनुपाख्यम् ॥ २२ ॥ सतः कथञ्चित्तदसत्त्वशक्तिः,
 खे नास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम् । सर्वैस्वमेव च्युतमप्रमाणं, स्ववाग्विरुद्धं
 तव हृष्टितोऽन्यत् ॥ २३ ॥ न, सर्वथा नित्यमुदेत्येति, न च क्रियाका-
 रकमूत्रस्युक्तम् । न्वासतो ज्ञानसतो न नाशो, न्दीपस्तम्भोद्गुल्बभायतोऽने-
 स्ति ॥ २४ ॥ विभिर्निषेधश्च कथञ्चिदिष्टो, विवक्षया मुख्यगुणव्यवस्थां न
 इति प्रणीतिः सुमतेस्तत्वेसं, मतिप्रवेकः । स्तुमतोऽस्तु जन्म ॥ २५ ॥

१. पद्मपत्रः पद्मपलाशलेखः, पद्मालयालिङ्गितं चारुमूर्तिः । यमौ भवौ
 भवप्रयोरुहाणः, पद्मकाशणमिव पद्ममन्धुः ॥ २६ ॥ यमैरि पद्मी च
 सररुक्ती च अत्रानपुरस्तात्प्रतिबुक्तिं लक्ष्म्याः । सरस्वतीमेव संघग्रशीर्षी,
 सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां त्रिभुक्तः ॥ २७ ॥ शरीररश्मिप्रसरः प्रभोस्ते, शोकी-
 र्करश्मिच्छविरालिलेप । नरप्रसक्तीर्णसभां अभावच्छैलस्य पद्मामरणेः

खसानुम् ॥ २८ ॥ नभस्तलं पल्लवयन्निव त्वं, सहस्रपत्राम्बुजगर्भचारैः ।
पादाम्बुजैः पातितमोहदर्पो, भूमौ प्रजानां विजहर्ष भूत्यै ॥ २९ ॥ गुणा-
म्बुधेर्विप्लुषमप्यजस्रं, नाखण्डलः स्तोतुमलं तवर्षे । प्रागेव मादृक्किमुता-
तिभक्तिर्माबालमालापयतीदमित्थम् ॥ ३० ॥

॥ इति पद्मप्रभस्तोत्रम् ॥

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुंसां, स्वार्थो न भोगः परिभङ्गुरात्मा ।
तृषोऽनुषङ्गान्न च तापशान्तिरितीदमाख्यद्भगवाननुसुपार्श्वः ॥ ३१ ॥
अजङ्गमं जङ्गमनेययन्त्रं, यथा तथा जीवधृतं शरीरम् । वीभत्सु पूति क्षयि
तापकं च, स्नेहो वृथात्रेति हितं त्वमाख्यः ॥ ३२ ॥ अलंघ्यशक्तिर्भवि-
तव्यतेयं, हेतुद्रयाविष्कृतकार्यलिङ्गा । अनीश्वरो जन्तुरहंक्रियार्त्तः, संहत्य
कार्येष्विति साध्ववादीः ॥ ३३ ॥ विभेति मृत्योर्न ततोऽस्ति मोक्षो, नित्यं
शिवं वाञ्छति नास्य लाभः । तथापि वालो भयकामवश्यो, वृथा स्वयं
तप्यत इत्यवादीः ॥ ३४ ॥ सर्वस्य तत्त्वस्य भवान्प्रमाता, मातेव बालस्य
हितानुशास्ता । गुणावलोकस्य जनस्य नेता, मयापि भक्त्या परिगूयसेऽद्य
॥ ३५ ॥

॥ इति सुपार्श्वजिनस्तोत्रम् ॥

चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं, चन्द्रं द्वितीयं जगतीव कान्तम् । वन्दे-
ऽभिवन्द्यं महतामृपीन्द्रं, जिनं जितस्वान्तकषायवन्धम् ॥ ३६ ॥ यस्याङ्क-
लक्ष्मीपरिवेषभिन्नं, तमस्तमोरेरिव रश्मिन्नाभिम् । ननाश चाह्यं बहुमानसं
च, ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम् ॥ ३७ ॥ स्वपक्षसौस्थित्यमदावलिप्ता,
वाक्सिंहनादैर्विमदा बभूवुः । प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगण्डा, गजा यथा के-
शरिणो निनादैः ॥ ३८ ॥ यः सर्वलोके परमेष्ठितायाः पदं बभूवाद्भुत-
कर्मतेजाः । अनन्तधामाक्षरविश्वचक्षुः, समेतदुःखक्षयशासनश्च ॥ ३९ ॥
स चन्द्रमा भव्यकुमुद्रतीनां, विपन्नदोषाभ्रकलङ्कलेपः । व्याकोशवाङ्म्या-
यमयूखमालः पूयात्पवित्रो भगवान्मनो मे ॥ ४० ॥

॥ इति चन्द्रप्रभजिनस्तोत्रम् ॥

एकान्तदृष्टिप्रतिषेधि तत्त्वं प्रमाणसिद्ध तदतत्त्वभावम् । त्वया प्रणीतं
सुविधे स्वधाम्ना नैतत्समालीढपदं त्वदन्यैः ॥ ४१ ॥ तदेव च स्यान्न तदेव च
स्यात्तथा प्रतीतेस्तव तत्कथञ्चित् । नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेर्निषेधस्य
च शून्यदोषात् ॥ ४२ ॥ नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेर्न नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसि-
द्धेः । न तद्विरुद्धं बहिरन्तरङ्गनिमित्तनैमित्तिकयोगतस्ते ॥ ४३ ॥ अनेकमेकं च
पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत्प्रकृत्या । आकाङ्क्षिणः स्यादिति वै
निपातो गुणानपेक्षे नियमेऽपवादः ॥ ४४ ॥ गुणप्रधानार्थमिदं हि वाक्यं
जिनस्य ते तद्विपतामपध्यम् । ततोऽभिवन्धं जगदीश्वराणां ममापि साधो-
स्तव पादपद्मम् ॥ ४५ ॥

॥ इति सुविधिजिनस्तोत्रम् ॥

न शीतलाश्चन्दनचन्द्ररश्मयो न गाङ्गमम्भो न च हारयष्टयः । यथा
मुनेस्तेऽनघवाक्यरश्मयः शमाम्बुगर्भाः शिशिरा विपश्चितां ॥ ४६ ॥
सुखाभिलाषानलदाहमूर्च्छिं मनो निजं ज्ञानमयामृताम्बुभिः । विदिध्य-
पस्त्वं विपदाहमोहितं यथा भिषगमन्त्रगुणैः स्वविग्रहं ॥ ४७ ॥ स्वजीविते
कामसुखे च तृष्णया दिवा श्रमार्ता निशि शेरते प्रजाः । त्वमार्य नक्तंदि-
वमप्रमत्तवानजागरेवात्मविशुद्धवर्त्मनि ॥ ४८ ॥ अपत्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया
तपि वनः केचन कर्म कुर्वते । भवान्पुनर्जन्मजराजिहासया त्रयीं प्रवृत्तिं
शमधीरवारुणत् ॥ ४९ ॥ त्वमुत्तमज्योतिरजः क्व निर्वृतः क्व ते परे बुद्धि-
लवाद्भवत्तताः । ततः स्वनिःश्रेयसभावनापरैर्बुधप्रवेकैर्जिनशीतलेड्यसे
॥ ५० ॥

॥ इति शीतलजिनस्तोत्रम् ॥

श्रेयान् जिनः श्रेयसि वर्त्मनीमाः श्रेयः प्रजाः शासदजैयवाक्यः ।
भवांश्चकासे भुवनत्रयेऽस्मिन्नेको यथा वीतघनो विगस्वान् ॥ ५१ ॥
विधिर्विषक्तप्रातेषेधरूपः प्रमाणमत्रान्यतरत्प्रधानम् । गुणो परो मुख्यनिया-
महेतुर्नयः सदृष्टान्तसमर्थनस्ते ॥ ५२ ॥ विवाचितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो

गुणोऽ विवक्षो न निरात्मकस्ते । तथारिमित्रानुभयादिशक्निर्द्वावधिः
कार्यकरं हि वस्तु ॥ ५३ ॥ दृष्टान्तसिद्धावुभयोर्विवादे साध्यं प्रसिद्धे-
न्न तु तादृगस्ति । यत्सर्वथैकान्तनियामदृष्टं त्वदीयदृष्टिर्विभवत्यशेषे
॥ ५४ ॥ एकान्तदृष्टिप्रतिषेधसिद्धिन्यायेषुभिर्माहुरिपुं निरस्य । असि स्र
कैवल्यविभूतिसम्राट् ततस्त्वमर्हन्नासिमे स्तत्रार्हः ॥ ५५ ॥

॥ इति श्रेयाञ्जिनस्तोत्रम् ॥

शिवासु पूज्योऽभ्युदयक्रियासु त्वं वासुपूज्यस्त्रिदशेन्द्रपूज्यः । मयापि
पूज्योऽल्पधिया मुनीन्द्र दीपार्चिषा किं तपनो न पूज्यः ॥ ५६ ॥ न
पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे । तथापि ते पुण्य-
गुणस्मृतिर्नः पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः ॥ ५७ ॥ पूज्यं जिनं त्वार्चयतो
जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ । दोषाय नालं कणिका विषस्य न दूषिका
शीतशिवाम्बुराशौ ॥ ५८ ॥ यद्वस्तु बाह्यं गुणदोषसूतेर्निमित्तमभ्यन्तरमू-
लहेतोः । अध्यात्तवृत्तस्य तदङ्गभृतमभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते ॥ ५९ ॥
बाह्येतरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः । नैवान्यथा मोक्षवि-
धिश्च पुंसां तेनाभिवन्द्यस्त्वमृपिर्बुधानाम् ॥ ६० ॥

॥ इति वासुपूज्यस्तोत्रम् ॥

य एव नित्यक्षणिकादयो नया मिथोऽनपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः । त
एव तत्त्वं विदलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥ ६१ ॥ यथै-
कशः कारकमर्थसिद्धये समीच्य शेषं स्वसहायकारकम् । तथैव सामान्य-
विशेषमातृका नयास्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पतः ॥ ६२ ॥ परस्परेक्षान्वयभेद-
लिङ्गतः प्रसिद्धसामान्यविशेषयोस्तव । समग्रतास्ति स्वपरावभासकं यथा
प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम् ॥ ६३ ॥ विशेषवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो
दिशेष्यं विनियम्यते च यत् । तयोश्च सामान्यमतिप्रसज्यते विवक्षितान्सा-
दिति तेऽन्यवर्जनम् ॥ ६४ ॥ नयास्तव स्यात्पदसत्यलाञ्छिता रसोपविद्धा
इव लीहधातवः । भवन्त्यभिप्रेतगुणा यतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणता हितै-

पिणः ॥ ६५ ॥

॥ इति त्रिमलजिनस्तोत्रम् ॥

अनन्तदोषाशयविग्रहो ग्रहो विपङ्गवान्मोहमयश्चिरं हृदि । यतो जित-
स्तत्त्वरुचौ प्रसीदता त्वया ततोऽभूर्भगवाननन्तजित् ॥ ६६ ॥ कषायनाम्नां
द्विषतां प्रमाथिनामशेषयन्नाम भवानशेषवित् । विशोषणं मन्मथदुर्मदामयं
समाधिभैषज्यगुणैर्व्यलीनयन् ॥ ६७ ॥ परिश्रमाम्बुर्भयवीचिमालिनी त्व-
या स्वतृष्णासरिदार्यं शोषिता । असंगघर्माकगभस्तितेजसा परं ततो निर्वृ-
तिधाम तावकम् ॥ ६८ ॥ सुहृत्वयि श्रीसुभगत्वमश्नुते द्विणंस्त्वयि प्रत्य-
यवत्प्रलीयते । भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितम्
॥ ६९ ॥ त्वमीदृशस्तादृश इत्ययं मम प्रलापलेशोऽल्पमतेर्महामुने । अशो-
षमाहात्म्यमनीरयन्नपि शिवाय संस्पर्श इवामृताम्बुधेः ॥ ७० ॥

॥ इत्यनन्तजिनस्तोत्रम् ॥

धर्मतीर्थमनघं प्रवर्त्तयन् धर्म इत्यनुमतः सतां भवान् । कर्मकक्षमद्-
हृत्तपोऽग्निभिः शर्मं शाश्वतमवाप शङ्करः ॥ ७१ ॥ देवमानवनिकायसत्तमै
रेजिषे परिवृतो वृतो बुधैः । तारकापरिवृतोऽतिपुष्कलो व्योमनीव शश-
लाञ्छनोऽमलः ॥ ७२ ॥ प्रातिहार्यविभवैः परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो
भवानभूत् । मोक्षमार्गमशिषन्नगरामरान्नापि शासनफलैषणातुरः ॥ ७३ ॥
कायवावयमनसां प्रवृत्तयो नाऽभवस्तव मुनेश्चिकीर्षया । नासमीक्ष्य भवतः
प्रवृत्तयो धीर तावकमचिन्त्यमीहितम् ॥ ७४ ॥ मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीत-
वान् देवतास्वपि च देवता यतः । तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिन-
चृष प्रसीद नः ॥ ७५ ॥

॥ इति धर्मजिनस्तोत्रम् ॥

विधाय रक्षां परतः प्रजानां गजा चिरं योऽप्रतिमप्रतापः । व्यधा-
त्पुरस्तात्स्वत एव शान्तिर्मुनिर्दयामूर्तिरिवाघशान्तिम् ॥ ७६ ॥ चक्रेण यः

शत्रुभयंकरेण जित्वा नृपः सर्वतरेन्द्रचक्रम् । समाधिचक्रेण पुनर्जिगाय
महोदयो दुर्जयमोहचक्रम् ॥ ७७ ॥ राजश्रिया राजसु राजसिंहो रजाज यो
राजसुभोगतन्त्रः । अर्हन्त्यलक्ष्म्या पुनरात्मतन्त्रो देवासुरोदारसभे रराज
॥ ७८ ॥ यस्मिन्नभूद्राजनि राजचक्रं मुनौ दयादीधितिधर्मचक्रम् । पूज्ये
मुहुः प्राञ्जलि देवचक्रं ध्यानोन्मुखे ध्वंसि कृतान्तचक्रम् ॥ ७९ ॥ स्वदो-
षशान्त्याविहितात्मशान्तिः शान्तेर्विधाता शरणं गतानाम् । भूयान्द्रक्तेश-
भयोपशान्त्यै शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः ॥ ८० ॥

॥ इति शान्तिजिनस्तोत्रम् ॥

कुन्थुप्रभृत्यखिलसत्त्वदयैकतानः कुन्थुर्जिनो ज्वरजरामरणोपशान्त्यै ।
त्वं धर्मचक्रमिह वर्त्तयसि स्म भृत्यै भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वर चक्रपाणिः
॥ ८१ ॥ तृष्णाचिषः परिद्दन्ति न शान्तिरासामिष्टेन्द्रियार्थविभवैः परि-
वृद्धिरेव । स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्तमित्यात्मवन्निवषयसौख्यपरा-
ङ्मुखोऽभूत् ॥ ८२ ॥ बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरंस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसः
परिश्रंणार्थम् । ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरेऽस्मिन् ध्यानद्वये त्रवृतिषेऽ-
तिशयोपपन्ने ॥ ८३ ॥ हुत्वा स्वकर्मककटुकप्रकृतीश्वतस्रो रत्नत्रयातिशय-
तेजसि जातवीर्यः । विभ्राजिषे सकलवेदविधेर्विनेता व्यभ्रे यथा वियति
दीप्तरुचिर्विवस्वान् ॥ ८४ ॥ यस्मान्मुनीन्द्र तव लोकपितामहाद्या विद्या-
विभूतिकणिकामपि नाप्नुवन्ति । तस्मान्द्रवन्तमजमप्रतिमेयमार्याः स्तुत्यं
रुतुवन्ति सुधियः स्वहितैकतानाः ॥ ८५ ॥

॥ इति कुन्थुजिनस्तोत्रम् ॥

गुणस्तोकं सदुल्लस्य तद्बहुत्वकथा स्तुतिः । आनन्त्यात्ते गुणा वक्तु-
मशक्यास्त्वयि सा कथम् ॥ ८६ ॥ तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि
कीर्तितम् । पुनाति पुण्यकीर्तेर्नस्ततो ब्रूयाम किञ्चन ॥ ८७ ॥ लक्ष्मी-
विभवसर्वस्वं मुमुक्षोश्चक्रलाञ्छनम् । साम्राज्यं सार्वभौम ते जरत्तृणमि-
वाभवत् ॥ ८८ ॥ तव रूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् । द्रव्यक्षः

शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहुविस्मयः ॥ ८९ ॥ मोहरूपो रिपुः पापः कषा-
 यभटसाधनः । दृष्टिसम्पदुपेक्षास्त्रैस्त्वया धीर पराजितः ॥ ९० ॥ कन्द-
 र्पस्योद्गरो दर्पस्त्रैलोक्यविजयार्जितः । हेपयामास तं धीरे त्वयि प्रतिहतो-
 दयः ॥ ९१ ॥ आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिर्निरुत्तरा । तृष्णा नदी
 त्वयोत्तीर्णा विद्यानावा विविक्तया ॥ ९२ ॥ अन्तकः क्रन्दको नृणां
 जन्मज्वरसखा सदा । त्वामन्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः
 ॥ ९३ ॥ भूपावेपायुध्रत्यागि विद्यादमदयापरम् । रूपमेव तवाचष्टे धीर-
 दोषविनिग्रहम् ॥ ९४ ॥ समन्नतोऽङ्गभासां ते परिवेषेण भूयसा । तमो
 बाह्यमपाकीर्णमध्यात्मध्यानतेजसा ॥ ९५ ॥ सर्वज्ञोत्तेपोद्भूतस्तावको
 महिमोदयः । कं न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्त्वं नाथ सचेतनम् ॥ ९६ ॥ तव
 वागमृतं श्रीमत्सर्वभाषास्वभावकम् । प्रणीयत्यमृतं यद्गत प्राणिनो व्यापि
 संसदि ॥ ९७ ॥ अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्ययः । ततः सर्वं
 मृपोक्तं स्यात्तदयुक्तं स्वघातनः ॥ ९८ ॥ ये परस्वलितोन्निद्राः स्वदोषेभ-
 निमीलिनः । तपस्विनस्ते किं कुर्युरपात्रं त्वन्मतश्रियः ॥ ९९ ॥ ते तं
 स्वघातिनं दोषं शमीकर्तुमनीश्वराः । त्वद्द्विषः स्वहनो बालास्तत्त्वावक्त-
 व्यतां श्रिताः ॥ १०० ॥ सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्भिषक्षाश्च ये नयाः ।
 सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितिहिते ॥ १०१ ॥ सर्वथा नियमत्यागी
 यथादृष्टमपेक्षकः । स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम्
 ॥ १०२ ॥ अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । अनेकान्तः प्रमा-
 णात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्नयात् ॥ १०३ ॥ इति निरुपमयुक्तिशासन प्रि-
 यहितयोगगुणानुशासनः । अरजिनदमतीर्थनायकस्त्वमिव सतां प्रतिबोध-
 नायकः ॥ १०४ ॥ मतिगुणविभवानुरूपतस्त्वयि वरदागमदृष्टिरूपतः ।
 गुणकृशमपि किञ्चनोदितं मम भवता दुरिताशनोदितम् ॥ १०५ ॥

॥ इत्यरजिनस्तीव्रम् ॥

यस्य महर्षेः सकलपदार्थप्रत्यवबोधः सपजनि साक्षात् । सामरमर्त्या जग-
 दापि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपतति स्म ॥ १०६ ॥ यस्य च मूर्तिः कनक-

मयीव स्वस्फुरदाभाकृतपरिवेषा । वागपि तत्त्वं कथयितुकामा स्यात्पद-
पूर्वा-रमयति साधून् ॥ १०७ ॥ यस्य पुरस्ताद्विगलितमाना न प्रतिती-
थ्या भुवि विवदन्ते । मूरपि रम्या प्रतिपदमासीज्जातविकोशाम्बुजमृदुहासा
॥ १०८ ॥ यस्य समन्ताज्जिनशिशिरांशोःशिष्यकसाधुग्रहविभवोऽभूत् ।
तीर्थमपि स्वं जननसमुद्रत्रासितसर्चोत्तरणपथोऽग्रम् ॥ १०९ ॥ यस्य च
शुक्लं परमतपोऽग्निर्ध्यानमनन्तं दुरितमधाक्षीत् । तं जिनसिंहं कृतकरणीयं
मल्लिमशल्यं शरणमितोऽस्मि ॥ ११० ॥

॥ इति मल्लिजिनस्तोत्रम् ॥

अधिगतमुनिसुव्रतस्थितिर्भुनिवृषभो मुनिसुवृतोऽनघः मुनिपरिषदि
निर्बभौ भवानुडुपरिषत्परिवीतसोमवत् ॥ १११ ॥ परिणतशिखिकण्ठरा-
गया कूर्तमदनिग्रहविग्रहाभया । तत्र जिन तपसः प्रसूतया ग्रहपरिवेषरुचेव
शोभितम् ॥ ११२ ॥ शशिरुचिशुचिशुक्ललोहितं सुरभितरं विरजो निजं
वपुः । तत्र शिवमतिविस्मयं यते यदपि च बाह्यनसोऽयमीहितम्
॥ ११३ ॥ स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरमचरं च जगत्प्रतिक्षणम् । इति
जिनसकलज्ञलाञ्छनं वचनमिदं वदतां वरस्य ते ॥ ११४ ॥ दुरितमलक-
लंकमष्टकं निरुपमयोगबलेन निर्दहन् । अभवदभवसौख्यवान् भवान् भवतु
ममापि भवोपशान्तये ॥ ११५ ॥

॥ इति मुनिसुव्रतजिनस्तोत्रम् ॥

स्तुतिस्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा । भवेन्मां वा स्तुत्यः
फलमपि ततस्तस्य च सतः ॥ किमेवं स्वाधीनाज्जगति सुलभे श्रायसपथे ।
स्तुयान्नत्वा विद्वान्सततमपि पूज्यं नमिजिनम् ॥ ११६ ॥ त्वया धीमन्
ब्रह्मप्रणिधिमनसा जन्मनिगलं । समूलं निर्भिन्न त्वमसि विदुषां मोक्षपदवी ॥
त्वयि ज्ञानज्योतिर्विभवकिरणैर्भाति भगव- । न्नभूवन् खद्योता इव शु-
चिरवाधन्यमतयः ॥ ११७ ॥ विधेयं वार्यं चानुभयमुभयं मिश्रमपि तत् ।
विशेषैः प्रत्येकं नियमविषयैश्चापरिमितैः ॥ सदान्योन्यापेक्षैः सकलभुवन-

ज्येष्ठगुरुण । त्वया गीतं तत्त्वं बहुनयविवक्षेतरवशात् ॥ ११८ ॥ अहिंसा
भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं । न सा तत्तारम्भोस्त्यगुरपि च यत्रा-
श्रमविधौ ॥ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं । भवानेवात्याचीन
च विकृतवेषोपधिरतः ॥ ११९ ॥ वपुर्भूषावेषव्यवधिरहितं शांतिकरणं ।
यतस्ते संचष्टे स्मरशरविपातंरुविजयम् ॥ विना भीमैः शस्त्रैरदयहृदयामर्ष-
विलयं । ततस्त्वं निर्मोहः शरणमसि नः शांतिनिलयः ॥ १२० ॥

॥ इति नमिजिनस्तोत्रम् ॥

भगवानृषिः परमयोगदहनहुतकल्मषेन्धनम् । ज्ञानविपुलकिरणैः
सकलं प्रतिबुध्य बुद्धः कमलायतेक्षणः ॥ १२१ ॥ हरिवंशकेतुरनवद्यविनय-
दमतीर्थनायकः । शीलजलधिरभवो विभवस्त्वमरिष्टनेमिजिनकुञ्जरोऽजरः
॥ १२२ ॥ त्रिदशेन्द्रमौलिमणिरत्नकिरणविसरोपचुम्बितम् । पादयुगलम-
मलं भवतो विकसत्कुशेशयदलारुणोदरम् ॥ १२३ ॥ नखचन्द्ररश्मिकव-
चातिरुचिरशिखराङ्गुलिस्थलम् । स्वार्थनियतमनसः सुधियः प्रणमन्ति
मन्त्रमुखरा महर्षयः ॥ १२४ ॥ द्युतिमद्रथाङ्गरविविम्बकिरणत्रटिलांशुमण्ड-
लः । नीलजलजदलराशिवपुः सहवन्धुभिर्गरुडकेतुरीश्वरः ॥ १२५ ॥ हल-
भृच्च ते खजनभक्तिमुदितहृदयौ जनेश्वरौ । धर्मधिनयरसिकौ सुतरां चरणा-
रविन्दुयुगलं प्रणेमतुः ॥ १२६ ॥ ककुदं भुवः खचरयोषिदुषितशिखरैर्लं-
कृतः । मेघपटलपरिवीततटस्तत्र लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा ॥ १२७ ॥
बहतीति तीर्थमृषिभिश्च सततमभिगम्यतेऽद्य च । प्रीतिविततहृदयैः परितो
भृशमूर्ज्जयन्त इति ि श्रुतोऽचलः ॥ १२८ ॥ बहिरन्तरप्युभयथा च
करणभविधाति नार्थकृत् । नाथ युगपदखिलं च सदा त्वमिदं तलामलक-
वद्विवेदिथ ॥ १२९ ॥ अथ एव ते बुधनुतस्य चरितगुणमद्भुतोदयम् ।
न्यायविहितप्रवधार्य जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयं ॥ १३० ॥

॥ इत्यरिष्टनेमिजिनस्तोत्रम् ॥

तमालनीलैः सधनुस्तडिद्गुणैः प्रकीर्णभीमाशनिवायुवृष्टिभिः । बला-

हकैर्वैरिवशैरुषद्रुतो महामना यो न चचाल योगतः ॥ १३१ ॥ बृहत्फ-
णामण्डलमण्डपेन यं स्फुरत्तडित्पिङ्गरुचोपसर्गिणम् । जुगूह नागो धरणो
धराधरं विरागसन्ध्यातडिदम्बुदो यथा ॥ १३२ ॥ स्वयोगनिस्त्रिंशनिशा-
तधारया निशात्य यो दुर्जयमोहविद्विषम् । अवापदार्हन्त्यमर्चित्यमद्भुतं
त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम् ॥ १३३ ॥ यमीश्वरं वीक्ष्य विधूतकल्पपं
तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषवः । वनौकसः स्वश्रमत्रन्ध्यबुद्धयः शमोपदेशं
शरणं प्रपेदिरे ॥ १३४ ॥ स सत्यविद्यातपसां प्रणायकः समग्रधीरुग्र हुला-
म्बरांशुमान् । मया सदा पार्श्वजिनः प्रणम्यते विलीनमिथ्यापथदृष्टिवि-
भ्रमः ॥ १३५ ॥

॥ इति पार्श्वजिनस्तोत्रम् ॥

कीर्त्या भुवि भासि तथा वीर त्वं गुणसमुच्छ्रया भासितया । भासो-
डुसभासितया सोम इव व्योम्नि कुन्दशोभासितया ॥ १३६ ॥ तव जिन
शासनविभवो जयति कलावपि गुणानुशासनविभवः । दोषकशासनविभवः
स्तुवंति चेनं प्रभाकृशासनविभवः ॥ १३७ ॥ अनवद्यः स्याद्द्रादस्तव दृष्टे-
ष्टाविरोधतः स्याद्द्रादः । इतरो न स्याद्द्रादो सद्वितयविरोधान्मुनीश्वराऽस्या-
द्द्रादः ॥ १३८ ॥ त्वमसि सुरासुरमहितो ग्रन्थिकसन्वाशयप्रणामामहितः ।
लोकत्रयपरमहितोऽनावरणज्योतिरुज्ज्वलधामहितः ॥ १३९ ॥ सभ्याना-
मभिरुचितं दधासि गुणभूषणं श्रिया चारुचितम् । मग्नं स्वस्थां रुचिरं ज-
यसि च मृगलाञ्छनं स्वकान्त्या रुचितम् ॥ १४० ॥ त्वं जिन गतमदमा-
यस्तव भावानां मुमुक्षुकामदमायः । श्रेयान् धीमदमायस्त्वया समादेशि
सप्रयामदमायः ॥ १४१ ॥ गिरिमित्यवदानवतः श्रीमत इव दन्तिनः
स्रवदानवतः । तव शमवादानवतो गतमूर्जितमपैगतप्रमादानवतः ॥ १४२ ॥
बहुगुणसंपदसकल परमतमपि मधुरवचनविन्यासकलम् । नयभवत्य
वतसकलं तव देव मतं समन्तभद्रं सकलम् ॥ १४३ ॥

॥ इति वीरजिनस्तोत्रम् ॥

यो निःशेषजिनोक्तधर्मविषयः श्रीगीतमाद्यैः कृतः । सूक्तार्थैरमलैः स्तवोयमसमः स्वल्पैः
प्रसन्नैः पदैः ॥ तद्व्याख्यानमदो यथा हृद्यवगतः किञ्चित्कृतं लेशतः । स्थेयाच्चन्द्रदिव्याक-
रावधि बुधप्रह्लादचेतस्यलम् ॥ १४४ ॥^३

॥ इति बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रं समाप्तम् ॥

श्री अमितगतिसूरिविरचिता द्वात्रिंशतिका ।

(१७)

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् । माध्यस्थ्यभावं
विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ १ ॥ शरीरतः कर्तुमनन्तशक्तिं
विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम् । जिनेन्द्र ! कोषादिव खड्गयष्टिं तव प्रसादेन
ममास्तु शक्तिः ॥ २ ॥ दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे योगे विवोगे भुवने
वने वा । निराकृताशेषममत्वबुद्धेः समं मनो मेऽस्तु सदापि नाथ ॥ ३ ॥
मुनीश ! लीनाविव कीलिताविव स्थिरौ निशाताविव बिंबिताविव । पादौ
त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तभोधुनानौ हृदि दीपकाविव ॥ ४ ॥ एकेन्द्रि-
याद्या यदि देव देहिनः प्रमादतः संचरता इतस्ततः । क्षता विभिन्ना मि-
लिता निपीडिता, तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा ॥ ५ ॥ विमृक्तिमार्गप्र-

पूर्वपृष्ठस्य टिप्पणः

१ प्रकष्टा मा हिंसा प्रमा, अपगता नष्टा प्रमा अपगतप्रमा अहिंसा, तस्या दानमभय-
दानम् । तदस्यास्तीति तस्य ।

२ नया नैगमादयः । तेषा भक्तयो मङ्गास्यादस्तीत्यादयः । त एवाऽवतंसकं कर्षुभूषणं
तन्नातीति ।

३ अन्तिमः श्लोकः स्वयम्भूस्तोत्रस्य नास्ति किन्तु टीकाकारस्य ।

तिकूलवर्तिना मया कषायाक्षवशेन दुधिया । चारित्रशुद्धैर्यदकारि लोपनं
 तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो ॥ ६ ॥ विनिन्दनालोचनगर्हणैरहं मनो-
 वचःकायकषायनिर्मितम् । निहन्मि पापं भवदुःखकारणं मिषग्विषं मन्त्रगु-
 णैरिवाखिलम् ॥ ७ ॥ अतिक्रमं यद्विमतेर्व्यतिक्रमं जिनातिचारं सुचरित्र-
 कर्मणः । व्यधामनाचारमपि प्रमादतः प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये ॥ ८ ॥
 क्षतिं मनःशुद्धिविधेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्विलंघनम् । प्रभोऽतिचारं
 विषयेषु वर्तनं वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम् ॥ ९ ॥ यदर्थमात्रापदवा-
 क्यहर्शनं मया प्रमादाद्यदि विश्वनोक्तम् । तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी
 सरस्वती केवलबोधलब्धिम् ॥ १० ॥ बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः
 स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यरिद्धिः । चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां
 वंद्यमानस्य ममास्तु देवि ॥ ११ ॥ यः स्मर्यते सर्वभुनीन्द्रवृन्दैर्यः स्तूयते
 सर्वनरामरेन्द्रैः । यो गीयते वेदपुगणशास्त्रैः स देवदेवो हृदये ममास्ताम्
 ॥ १२ ॥ यो दर्शनज्ञानसुखस्वभायः समस्तसंसारविकारबाह्यः । समाधि-
 गम्यः परमात्मसंज्ञः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥ १३ ॥ निषूदते यो
 भवदुःखजालं निरीक्षते यो जगदन्तरालं । योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीयः
 स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥ १४ ॥ विमुक्तिमार्गप्रतिपादको यो यो
 जन्ममृत्युव्यसनाद्यतीतः । त्रिलोकलोकी विकलोऽकलङ्कः स देवदेवो हृदये
 ममास्तम् ॥ १५ ॥ क्रोडीकृताशेषशरीरिवर्गा रागादयो यस्य न संति दोषाः
 निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥ १६ ॥ यो
 व्यापको विश्वजनीनवृत्तेः सिद्धो विबुद्धो धृतकर्मबन्धः । ध्यातो धुनीते
 सकलं विकारं स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥ १७ ॥ न रपृश्यते कर्मव-
 लङ्कदोषैर्यो ध्वान्तसंधैरिव तिग्मरश्मिः । निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं तं देव-
 माप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ १८ ॥ विभासते यः मरीचिमाली न विद्यमाने भुव-
 नावभासि । स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ १९ ॥
 विलोक्यमाने सति यत्र दिश्वं विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम् । शुद्धं शिवं
 ज्ञान्तमनाद्यनन्तं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ २० ॥ येन क्षता मन्मथना
 नमूर्च्छा विपादनिद्राभयशोकचिन्ता । क्षयोऽनलेनेव तरुप्रपञ्चस्तं देवमाप्तं

शरणं प्रपद्ये ॥ २१ ॥ न संस्तरोऽश्वा न तृणं न मेदिनी विधानतो नो
 फलको विनिर्मितः । यतो निरस्ताक्षकपायविद्विषः सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो
 पतः ॥ २२ ॥ न संस्तरो भद्रसमाधिसाधनं न लोकपूजा न च संवमेल-
 नम् । यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिंशं विमुच्य सर्वापि बाह्यवासनाम्
 ॥ २३ ॥ न सन्ति ब्राह्मा मम केचनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् ।
 इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य ब्राह्मं स्वस्थः सदा त्वं भव भद्रमुक्त्यै ॥ २४ ॥
 आत्मानमात्मन्यत्रलोकमानस्त्वं दर्शनज्ञानमयो विशुद्धः । एकाग्रचित्तः खलु
 यत्र तत्र स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम् ॥ २५ ॥ एकः सदा शाश्वतिको
 ममात्मा विनिर्मलः साधिगमस्वभावः । बहिर्भवाः सन्त्यपरे समस्ता न
 शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः ॥ २६ ॥ यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्द्धं
 तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः । पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपाः कुतो हि तिष्ठ-
 न्ति शरीरमध्ये ॥ २७ ॥ संयोगतो दुःखमनेकभेदं यतोऽञ्जुते जन्मवने
 शरीरी । तत्रस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो यियासुना निर्वृतिमात्मनीनाम् ॥ २८ ॥
 मर्त्तं निराकृत्य विकल्पजालं संसारकान्तारनिपातहेतुम् । विविक्तमात्मान-
 मवेक्षमाणो निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे ॥ २९ ॥ स्वयं कृतं कर्म यदात्मना
 पुग फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् । परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं
 कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥ ३० ॥ निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोपि
 कस्यापि ददाति किंचन । विचारयन्नेवमनन्यमानसः परो ददातीति विमुंच
 शेषुपीम् ॥ ३१ ॥ यैः परमात्माऽमितगतिबन्धः सर्वविविक्तो भृशमनव-
 द्यः । शश्वदधीनो मनसि लभन्ते क्तिनिकेतं विभववरं ते ॥ ३२ ॥ इति
 द्वात्रिंशत्तित्तैः परमात्मानमीक्षते । योऽनन्यगतचेतस्को यात्यतौ पदम-
 च्ययम् ॥ ३३ ॥

॥ इत्यमितगतिस्त्रिविचिता द्वात्रिंशत्तिका समाप्ता ॥

अकलंकस्तोत्रम् ।

[शार्दूलविक्रीडितछंदः]

त्रैलोक्यं सकलं त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं । साक्षाद्येन यथा
स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुलि ॥ रागद्वेषभयामयान्तकजरालोलत्वलोभा-
दयो । नालं यत्पदलंघनाय स महादेवो मया बंधते ॥ १ ॥ दग्धं येन पुर-
त्रयं शरभवा तीव्राचिषा वह्निना । यो वा नृत्यति मत्तत्रत्पितृत्रने यस्या-
त्मजो वा गुहः ॥ सोऽयं किं मम शंकरो भयतृपारोषार्तिमोहक्षयं । कृत्वा
यः स तु सर्ववित्तनुभृतां क्षेमंकरः शंकरः ॥ २ ॥ यत्नाद्येन विदारितं
कररुहैर्देत्येन्द्रवक्षःस्थलं । सारथ्येन धनंजयस्य समरे योऽमारयत्कौरवान् ॥
नासौ विष्णुरनेककालविषयं यज्ज्ञानमन्याहतं । विश्वं व्याप्य विजृम्भते स
तु महाविष्णुः सदेष्टो मम ॥ ३ ॥ उर्वश्यामुदपादि रागबहुलं चेतो यदीयं
पुनः । पार्त्रिदडकमंडलुप्रभृतयो यस्याकृतार्थस्थितिम् ॥ आविर्भावयितुं
भवन्ति स कथं ब्रह्मा भवेन्मादृशां । क्षुत्तृष्णाश्रमरागरोगरहितो ब्रह्मा कृता-
र्थोऽस्तु नः ॥ ४ ॥ यो जग्ध्वा पिशितं समत्स्यकवलं जीवं च शून्यं
वदन् । कर्त्ता कर्मफलं न भुक्त इति यो वक्ता स बुद्धः कथम् ॥ यज्ज्ञानं
क्षणवर्ति वस्तु सकलं ज्ञातुं न शक्तं सदा । यो जानन्युगपजगत्त्रयमिदं
साक्षात्स बुद्धो मम ॥ ५ ॥

[स्रग्धरा छंदः]

ईशः किं छिन्नलिङ्गो यदि विगतभयः शूलपाणिः कथं स्यात् ।
नाथः किं भैक्ष्यचारी यतिरिति स कथं सांगनः सात्मजश्च ॥ आर्द्राजः
किन्त्वजन्मा सकलविदित किं वेत्ति नात्मान्तरायं । संक्षेपात्सम्यगुक्तं
पशुपतिमपशुः कोऽत्र धीमानुपास्ते ॥ ६ ॥ ब्रह्मा चर्माक्षसूत्री सुरयुवति-
रसावेशत्रिभ्रान्तचेताः । शम्भुः खट्वाङ्गधारी गिरिपतितनयापाङ्गलीला-

[५४]

नुविद्धः ॥ विष्णुश्चक्राधिपः सन्दुहितरमगमद्रोपनाथस्य मोहा- । दर्हन्वि-
 ध्वस्तरागो जितसकलभयः कोऽयमेष्वाप्तनाथः ॥ ७ ॥ एको नृत्यति
 विप्रसार्य कुकुभां चक्रे सहस्रं भुजा- । नेकः शेषभुजंगभोगशयने व्यादाय
 निद्रायते ॥ द्रष्टुं चारुतिलोत्तमामुखमगादेकश्चतुर्वक्त्रता- । मेते मुक्तिपथं
 वदंति विदुषामित्येतदत्यद्भुतम् ॥ ८ ॥ यो विश्वं वेद वेद्यं जननजल-
 निधेर्भगिनः पारदृश्वा । पौर्वापर्याविरुद्धं वचनमनुपमं निष्कलंकं यदी-
 यम् ॥ तं वन्दे साधुबंधं सकलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विगंतं । बुद्धं वा वर्द्धमानं
 शतदलनिलयं केशत्रं वा शिवं वा ॥ ९ ॥ माया नास्ति जटा कपाल मुकुटं
 चन्द्रो न मूर्धावली । खट्वाङ्गं न च वासुकिर्न च धनुः शूलं न चोग्रं
 मुखं ॥ कामो यस्य न कामिनी न च वृषो गीतं न नृत्यं पुनः । सोऽ-
 स्सान्पातु निरंजनो जिनपतिः सर्वत्र सूक्ष्मः शिवः ॥ १० ॥ नो ब्रह्मांकित-
 भूतलं न च हरेः शम्भोर्न मुद्रांकितं । नो चन्द्रार्ककरांकितं सुरपतेर्व-
 ज्रांकितं नैव च ॥ षड्वक्त्रांकितबौद्धदेवहुतभुग्यक्षोरगैर्नांकितं । नग्नं
 पश्यत वादिनो जगदिदं जैनेन्द्रमुद्रांकितम् ॥ ११ ॥ मौञ्जीदंडकर्मण्डलु-
 प्रभृतयो नो लाञ्छनं ब्रह्मणो । रुद्रस्यापि जटाकपालमुकुटं कौपीनखट्वां-
 गनाः ॥ विष्णोश्चक्रगदादिशंखमतुलं बुद्धस्य रक्ताम्बरं । नग्नं पश्यत
 वादिनो जगदिदं जैनेन्द्रमुद्रांकितम् ॥ १२ ॥ नाहंकारवशीकृतेन मनसा
 न द्वेषिणा केवलं । नैरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्यबुद्ध्या मया ॥
 राज्ञः श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो । बौद्धौघान्सकलान्
 विजित्य स घटः पादेन विस्फालितः ॥ १३ ॥ खट्वांगं नैव हस्ते न च
 हृदि रचिता लम्बते मुंडमाला । भस्मांगं नैव शूलं न च गिरिदुहिता नैव
 हस्ते कपालं । चन्द्रार्धं नैव मूर्धन्यपि वृषगमनं नैव कंठे फणीन्द्रः । तं
 वन्दे त्यक्तदोषं भवभयमथनं चेश्वरं देवदेवं ॥ १४ ॥ किं वाद्यो भगवान-
 मेयमहिमा देवोऽकलंकः कलौ । काले यो जनतासुधर्मनिहितो देवोऽ-
 कलंको जिनः ॥ यस्य स्फारविवेकमुद्गलहरीजाले प्रमेयाकुला । निर्मभा
 तनुतेतरां भगवती तारा शिरःकम्पनम् ॥ १५ ॥ सा तारा खलु देवता
 भगवतीमन्यापि मन्यामहे । षण्मासावधिजाड्यसांख्यभगवद्भ्रष्टाकलंकप्रभोः ।

वाक्कुल्लोलपरम्पराभिरमते नूनं मनोमञ्जन- । व्यापारं सहते स विस्मित-
मतिः सन्ताडितेतस्ततः ॥ १६ ॥

॥ इति श्रीश्रकलङ्कस्तोत्रम् समाप्तम् ॥

मंगलाष्टकम्

श्रीमन्नमसुरासुरेन्द्रमुकुटप्रद्योतरत्नप्रभा । भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवच-
नांभोर्धीद्वः स्थायिनः ॥ ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः ।
स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शन-
बोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं । मुक्तिश्रीनगराधिनाथजिनपत्युक्तोऽपवर्ग-
प्रदः ॥ धर्मः सक्तिः सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्र्यालयं । प्रो च
त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ २ ॥ नाभेयादिजिनाधिपा-
स्त्रिभुवनख्याताश्चतुर्विंशतिः । भीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वा-
दश ॥ ये विष्णुप्रतिविष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशतिः । सैकाल्ये प्रथि-
तास्त्रिपष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ३ ॥ देव्योऽष्टौ च जयादिका
द्विगुणिता विद्यादिका देवताः । श्रीतीर्थङ्करमातृकाश्च जनका यक्षाश्च य-
च्च्यस्तथा ॥ द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपास्त्रिथिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधाः । दिक्पाला
दश चेत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ४ ॥ ये सर्वोपधक्कद्वयः लु-
तपसो वृद्धिं गताः पञ्च ये । ये चाष्टांगमहानिमित्तकुशला येऽष्टा विधा-
श्चारणाः ॥ पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिकृद्गीश्वराः । सप्तैते
सकलार्चिता गणभृतः कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ५ ॥ कैलासे वृषभस्य निर्वृति-
मही वीरस्य पावापुरे । चम्पायां वसुपूज्यसज्जिनपतेः सम्मेदशैलेऽर्ह-
ताम् ॥ शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो । निर्वाणावनयः प्रसि-

द्विविधाः कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ६ ॥ स्योतिर्व्यन्तरभावनामरगृहे मेरौ
कुलाद्रौ तथा । जंवूशाल्मलिचैशाखिषु तथा वक्षारूप्याद्रिषु । इष्वाकार-
गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहाः
कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ७ ॥ यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्स-
वो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानभाक् । यः कैवल्यपुर-
प्रवेशमहिमा संभाविनः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु
ते मंगलम् ॥ ८ ॥

इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु
सुधियस्तीर्थङ्कराणां सुपः । ये श्रृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता
लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि ॥ ९ ॥

इति मंगलाष्टकम् ।

महावीराष्टकस्तोत्रम्

[शिखरिणी]

यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्रिदचितः । समं भांति ध्रौव्यव्यय-
जनिलसंतोंतरहिताः ॥ जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो भानुरिव यो । महा-
वीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ॥ १ ॥ अताम्रं यच्चक्षुः कमल-
युगलं स्पंदरहितं । जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यंतरमपि ॥ स्फुटं मू-
र्तिर्यस्य प्रशमितमयी वातिविमला । महावीर० ॥ २ ॥ नमन्नाकेद्राली-
मुकुटमणिभाजालजटिलं । लसत्पादांभोजद्वयमिह यदीयं तनुभृतां ॥ भव-
ज्वालाशांत्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि । महावीर० ॥ ३ ॥ यदर्चाभा-
वेन प्रमुदितमना दर्दुर इह । क्षणादासीत्स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः ॥
लभन्ते सद्भक्ताः शिवसुखसमाजं किमु तदा । महावीर० ॥ ४ ॥ कनत्स्व-

[५७]

र्णाभासोऽप्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो । विचित्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्थ-
तनयः ॥ अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगतिः । महावीर० ॥ ५ ॥
यदीया वाग्गङ्गा विविधनयकल्लोलविमला । बृहज्ज्ञानांभोभिर्जगति जनतां
या स्तपयति ॥ इदानीमप्येषा बुधजनमरालैः परिचिता । महावीर०
॥ ६ ॥ अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवनजयी कामसुभटः । कुमारावस्थायामपि नि-
ज्वलाद्येन विजितः ॥ स्फुरन्नित्यानंदप्रशमपदराज्याय स जिनः । महा-
वीर० ॥ ७ ॥ महामोहातङ्कप्रशमनपराकसिकभिषग् । निरापेक्षो बंधुर्वि-
दितमहिमा मङ्गलकरः ॥ शरण्यः साधूनां भवभयभृतामुत्तमगुणो । महा-
वीर० ॥ ८ ॥ महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं । यः पठेच्छ्र-
णुयाच्चापि स याति परमां गतिम् ॥ ९ ॥

॥ इति ॥

अथ नमस्कारमन्त्राः

णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरियाणं । णमो उवञ्जा-
याणं । णमो लोए सन्वसाहूणां ॥ १ ॥ मन्त्रं संसारसारं त्रिजगदनुपमं
सर्वपापारिमन्त्रं । संसारोच्छेदमन्त्रं । मविषहरं कर्मनिर्मूलमन्त्रम् ॥ मन्त्रं
सिद्धिप्रदानं शिवसुखजननं केवलज्ञानमन्त्रं । मन्त्रं श्रीजैनमन्त्रं जप जप
जपितं जन्मनिर्वाणमन्त्रम् ॥ २ ॥, आकृष्टिं सुरसंपदां विदधते मुक्तिश्रियो
वश्यता- । मुच्चाटं विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मैनशाम् ॥ स्तम्भं दुर्ग-
मनं प्रति प्रयततो मोहस्य संमोहनं । पायात्पञ्चनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना
देवता ॥ ३ ॥ अनन्तानन्तसंसारसन्ततिच्छेदकारणम् । जिनराजपदा-
म्भोजस्मरणं शरणं मम ॥ ४ ॥ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ।
तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥ ५ ॥ न हि त्राता न हि त्राता
न हि त्राता जगत्त्रये । वीतरागात्परो देवो न भूतो न भविष्यति ॥ ६ ॥
जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्दिने दिने । सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु
सदा मेऽस्तु भवे भवे ॥ ७ ॥

कौन कौनसी भक्ति कहां कहां करनी चाहिये ?

—:०*०:—

देववंदना गुरुवंदना स्वाध्याय आदि कार्योंके करनेमें कौन कौनसी भक्ति करनी चाहिये, इसका बर्णन इस प्रकार है:

जिनेन्द्र वंदन

सर्वव्यासंग निर्मुक्तः संशुद्धकरणत्रयः ।

धौतहस्तपदद्वन्द्वः परमानन्द मन्दिरम् ॥ १ ॥

चैत्य चैत्यालयादीनां स्तवनादौ कृतोद्यमः ।

भवेदनन्तसंसारसन्तानोच्छित्तये यतिः ॥ २ ॥

अर्थ—जिन्होंने अन्य समस्त कार्य और चिन्ताओंका त्याग कर दिया है जिनके मन वचन काय तीनों शुद्ध है और जिन्होंने दोनों हाथ तथा दोनों पैर धोकर शुद्ध कर लिये हैं ऐसे मुनियों को बड़े आनंदके साथ चैत्य अथवा चैत्यालय आदि की स्तुति वंदना आदि करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । जो मुनि-राज इस प्रकार स्तुति वंदना करते हैं उनकी अनंत संसारकी परंपरा अथवा जन्ममरणरूप संतति बहुत शीघ्र नष्ट हो जाती है ।

यथा निश्चेतनाश्चिन्तामणिकल्पमहीरुहाः ।

कृत पुण्यानुसारेण तदभीष्टफलप्रदाः ॥ ३ ॥

तथार्हदादयश्चास्तरागद्वेषप्रवृत्तयः ॥

भक्तभक्त्यनुसारेण स्वर्गमोक्षफलप्रदाः ॥ ४ ॥

अर्थ—जिसप्रकार चिन्तामणिरत्न तथा कल्पवृक्ष आदि अचेतन हैं तो भी पुण्यवान् पुरुषोंको उनके पुण्योदयके अनुसार अनेक प्रकारके इच्छानुसार फल देते हैं । उसी प्रकार भगवान् अरहंत देव वा सिद्ध भगवान् यद्यपि राग द्वेष रहित है तथापि वे भक्त पुरुषोंको उनकी भक्तिके अनुसार स्वर्ग और मोक्षके अनुपम फल देते हैं ।

गराय हारिणी मुद्रा गरुडस्य यथा तथा ।
 जिनस्याप्येनसो हंत्री दुरिताराति पातिनः ॥ ५ ॥
 सुमनः संगपादंगतीह सूत्र पवित्रताम् ।
 पिष्टः प्रकृष्टमाधुर्यं प्रकृष्टेक्षुरसाद्यथा ॥ ६ ॥
 चंपापात्रादिनिर्वाण क्षेत्रादीनि पवित्रताम् ।
 बंधतां च ब्रजन्त्येव बन्धसंगपतस्तथा ॥ ७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार गारुडी मुद्रा (गरुड की मुद्रा) विषको दूर कर देती है उसी प्रकार पापरूपी शत्रुओंको नाश करनेवाले भगवान् जिनेन्द्रदेवकी मुद्रा वा मूर्ति भी भव्य जीवोंके समस्त पापोंको दूर कर देती है । जिस प्रकार इस संसारमें पुष्पोंके संबंधसे सूत भी (मालामें लगा हुआ सूत वा डोरी) पवित्र हो जाता है, अथवा जिस प्रकार उत्तम इक्षुरसके संबंधसे आटा भी अत्यंत मीठा हो जाता है उसी प्रकार अत्यंत वंदनीय ऐसे तीर्थकर अथवा अन्य मोक्षगामी पुरुषोंके संबंधसे चंपापुर, पावापुर आदि निर्वाणभूमियां भी अत्यंत पवित्र और वंदनीय हो जाती हैं ।

मत्वेति जिनगेहादिं त्रिःपरीत्य कृतांजलिः ।
 प्रकुर्वास्तच्चतुर्दिक्षु सन्यावर्ता शिरोनतिम् ॥ ८ ॥
 घोरसंसार गंभीर वारिराशौ निमज्जताम् ।
 दत्तहस्तावलम्बस्य जिनस्यार्चार्थमाविशेत् ॥ ९ ॥

अर्थ—यही समझकर जिनमन्दिर जिनप्रतिमा व निर्वाण क्षेत्र आदिकी तीन प्रदक्षिणा देनी चाहिये, हाथ जोड़ना चाहिये, उन जिन मंदिर वा जिन प्रतिमाके चारों ओर तीन तीन आवर्त करने चाहिये प्रत्येक दिशाकी ओर उनके लिये शिरोनति करना चाहिये ।

इस प्रकार उनके लिये चारों ओरसे बारह आवर्त और चार नमस्कार करने चाहिये । तदनंतर भयंकर व गंभीर ऐसे संसार रूपी समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंको बचानेके लिये हस्तावलंबन (हाथका सहारा) देनेवाले ऐसे भगवान् जिनेन्द्र-देवकी पूजा करनेके लिये मंदिरमें प्रवेश करना चाहिये ।

मंदिरमें प्रवेश करते समय “णिसही णिसही” कहना चाहिये । भगवान्के

समीप पहुचकर “पडिकम्मामि भत्ते इरिया वहियस्स” इत्यादि ईर्यापथ प्रतिक्रमणाकी विधि करना चाहिये । तदनंतर “इच्छामि भंते आलोचं ईरिया वहियस्य” इत्यादि ईर्यापथ आलोचना पाठ बोलना चाहिये । फिर चैत्यभक्ति और पञ्चगुरु भक्ति बोलनी चाहिये । इस प्रकार जिनप्रतिमा वंदन विधि करनी चाहिये । सो ही लिखा है ।

देवतास्तवने भक्ती चैत्यपंचगुरुभयोः ॥

अर्थात्—जिन प्रतिमा वंदनके समय चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति करनी चाहिये ।

आचार्यवंदनविधि

लघ्व्या सिद्धगणिस्तुत्या गणी वंदो गवासनात् ।

सैद्धान्तोऽन्त श्रुतस्तुत्या तथान्यस्तन्नुतिं विना ॥ १० ॥

अर्थ—आचार्यकी वंदना करते समय मुनियोको गवासनसे बैठकर लघुसिद्ध भक्ति और लघुआचार्यभक्ति पढ़कर वंदना करनी चाहिये । यदि आचार्य सिद्धांतशास्त्रके जानकार हों तो उनकी वंदना करनेके पहले लघुसिद्धभक्ति, लघु श्रुतभक्ति और लघु आचार्य भक्ति पढ़नी चाहिये । आचार्यको छोड़कर अन्य मुनियोकी वंदना करते समय मुनियोको लघुसिद्धभक्ति पढ़कर वंदना करनी चाहिये । यदि वे मुनि सिद्धांतके जानकार हो तो सिद्धभक्ति और लघुश्रुतभक्ति दोनों पढ़कर वंदना करनी चाहिये ।

स्वाध्याय करते समय कौनसी भक्ति करनी चाहिये ।

स्वाध्याय लघुभक्त्या नं श्रुतसूर्योरहर्निशे ।

पूर्वेऽपरेऽपि चाराध्य श्रुतस्यैव क्षमापयेत् ॥ ११ ॥

अर्थ—लघुश्रुतभक्ति और लघुआचार्यभक्ति पढ़कर स्वाध्यायका प्रारंभ करना चाहिये और लघुश्रुतभक्ति पढ़कर स्वाध्यायको समाप्त करना चाहिये ।

आगे—प्रात्याख्यान व उपवास ग्रहण करते समय अथवा छोड़ते समय कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये इसी बातको ग्रन्थकार कहते हैं ।

हेयं लघ्व्या सिद्धभक्त्याशनादौ ।

प्रत्याख्यानाद्याशु चादेयमन्ते ॥

सूरौ तादृग्योगिभक्त्यग्रया तद्

ग्राह्यं वन्द्यः सूरिभक्त्या सलध्व्या ॥ १२ ॥

अर्थ—यदि पहले दिन उपवास अथवा प्रत्याख्यान ग्रहण किया हो जो दूसरे दिन आहारके समय लघुसिद्धभक्ति पढ़कर उसका त्याग करना चाहिये। आहार समाप्त होनेपर लघुसिद्ध भक्ति पढ़कर दूसरे अगले दिनके लिये प्रत्याख्यान अथवा उपवास ग्रहण करना चाहिये। यह विधि आचार्यके समीप न रहनेपर आहारके आदि व अन्तमें करनी चाहिये। यदि आचार्य समीप ही हों तो आहार के लिये जानेके पहले आचार्यके समीप लघु योगिभक्ति और लघुसिद्धभक्ति पढ़ कर प्रत्याख्यान व उपवास का त्याग करना चाहिये। तथा आहारग्रहणकर आने के बाद आचार्यके समीप लघुयोगिभक्ति और लघुसिद्धभक्ति पढ़कर प्रत्याख्यान अथवा उपवासकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये। तथा लघुआचार्यभक्ति पढ़कर उसी समय आचार्यकी वंदना करनी चाहिये।

चतुर्दशीके दिन कौनसी भक्ति करनी चाहिए।

त्रिसमयवन्दने भक्तिद्वयमध्ये श्रुतनुतिं चतुर्दश्याम् ।

ग्राह्यस्तद्भक्तित्रयं मुखान्तयोः केपि सिद्धशांतिनुती ॥ १३ ॥

अर्थ—चतुर्दशीके दिन त्रिकाल देववंदना करते समय चैत्य भक्ति, श्रुतभक्ति और पंचगुरुभक्ति ये तीन भक्तियां पढ़नी चाहिये तथा किन्हीं आचार्यका यह मत है कि त्रिकालवंदना करते समय चतुर्दशीके दिन सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये। सो ही लिखा है—

सिद्धे चैत्ये श्रुते भक्तिस्तथा पंचगुरु स्तुतिः ।

शांतिभक्तिस्तथा कार्या चतुर्दश्यामिति क्रिया ।

अर्थ—चतुर्दशीके दिन देववंदनाके तीनो समय सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये।

यदि किसी कार्यविशेषसे चतुर्दशीके दिन यह क्रिया न हो सके तो पौर्णमासीके दिन अथवा अमावस्या के दिन यह क्रिया कर लेनी चाहिये। इसके लिये नीचे लिखे वचन हैं।

चतुर्दशीदिनेधर्म व्यासंगादिना क्रियां कर्तुं ।

न लभ्येत चेत् पाक्षिकेऽष्टभ्यां क्रिया ॥

अर्थ—धर्म कार्यकी अधिकता होनेसे यदि चतुर्दशीके दिन चतुर्दशीकी क्रिया न होसके तो फिर पौर्णमासी वा अमावास्याके दिन यह क्रिया कर लेनी चाहिये । सिद्धभक्ति तथा चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़कर अष्टमीकी क्रिया की जाती है इसमें पाक्षिकी क्रियासे श्रुतभक्ति अधिक है ।

अष्टान्हिक पर्वके समय कौनसी भक्ति करना चाहिये ।

कुर्वन्तु सिद्धनंदीश्वरगुरुगांतिस्तत्रैः क्रियामष्टौ ।

शुच्यूर्जतपस्यसिताष्टम्यादिदिनानि मध्यान्हे ॥ १४ ॥

अर्थ—आषाढ, कातिक और फाल्गुन महीनेकी शुक्लपक्षकी अष्टमीसे लेकर पौर्णमासी पर्यंत आठदिन तक नंदीश्वरपर्व कहलाता है । उससमय सिद्धभक्ति, नंदीश्वरभक्ति तथापंचगुरुभक्ति करनी चाहिये । और सब संघको मिलकर करनी चाहिये ।

सिद्धप्रतिमा तीर्थकरजन्म व अपूर्व जिन प्रतिमादर्शन
के समय कौनसी भक्ति करनी चाहिये ।

सिद्धभक्त्यैक्या सिद्धप्रतिमायां क्रिया मता ।

तीर्थकृजन्मनि जिनप्रतिमायां च पाक्षिकी ॥ १५ ॥

अर्थ—सिद्ध प्रतिमाके सामने एक सिद्धभक्ति ही पढ़नी चाहिये । तीर्थकरके जन्मके दिन तथा जिनप्रतिमाके सामने चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति और पंचगुरु भक्तिया पढ़नी चाहिये, अर्थात् चतुर्दशीके दिन जो भक्तिया पढ़ी जाती हैं वे ही भक्ति तीर्थकरके जन्मदिन और जिनप्रतिमाके सामने पढ़नी चाहिये ।

अपूर्व चैत्य वन्दना और नित्यवन्दनाका संयोग यदि
अष्टमी वा चतुर्दशीके दिन हुआ तो कौनसी भक्ति
पढ़नी चाहिये ।

दर्शनपूजात्रिसमयवन्दनयोगोऽष्टमीक्रियादिपु चेत्

प्राक्तर्हि शान्तिभक्तेः प्रयोजयेच्चैत्यपंचगुरुभक्ता ॥ १६ ॥

अर्थ—यदि अष्टमी चतुर्दशीकी क्रिया के समय अपूर्व चैत्य वंदना व त्रिकाल नित्य वंदनाका संयोग आया हो तो पहले चैत्यभक्ति और गुरुभक्ति करनी चाहिये और फिर अंतमें शांतिभक्ति करनी चाहिये ।

अभिषेक वन्दनाकी क्रियामें अनुक्रमसे कौन कौनसी भक्ति करनी चाहिये ।

अभिषेकवन्दनायाः सिद्धचैत्यपंचगुरुशांतिभक्तयः ।

अर्थ—अभिषेक वंदनाकी क्रियामें सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ।

स्थिरजिनत्रिंशत्प्रतिष्ठा व चलत्रिंशत्प्रतिष्ठामें इन दोनों त्रिंशत्के चतुर्थ महाभिषेककी क्रियामें कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये ।

स्यात्सिद्धशांतिभक्तिः स्थिरचलजिनत्रिंशदयोः प्रतिष्ठायां
अभिषेकवन्दनाचलतुर्यस्नानेऽस्तु पाक्षिकी त्वपरे ॥

अर्थ—स्थिर त्रिंशत् प्रतिष्ठा तथा चलत्रिंशत् प्रतिष्ठाकी क्रियाओंमें सिद्धभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये । चल जिन त्रिंशत्के चौथे दिनकी अभिषेक क्रिया में सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति पंच महागुरुभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ।

स्थिर जिनत्रिंशत् प्रतिष्ठाके चौथे दिनकी अभिषेककी क्रियामें सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति बडी आलोचना और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ।

पंचकल्याणककी क्रियाओंमें कौनसी भक्तियां करनी चाहिये ।

आद्यंतसिद्धशांतिस्तुतिजिनगर्भजनुषो स्तुयाद्बृहत्तम् ।

निष्क्रमणे योग्यन्तं विदि श्रुताद्यपि शिवे शिवान्तमपि ॥

अर्थ—तीर्थकरोंके गर्भकल्याणक तथा जन्मकल्याणककी क्रियाओंके समयमें सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये । दीक्षा कल्याणक के समय सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ।

ज्ञानकल्याणककी क्रियाओंमें सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति और शांतिभक्ति, पढ़नी चाहिये । निर्वाणकल्याणककी क्रियाओंके समय सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति, निर्वाणभक्ति, और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ।

श्री महावीर निर्वाणके दिन कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये ।

योगान्तेऽर्कोदये सिद्ध निर्वाण गुरुशान्तयः ।
प्रणुत्या वीरनिर्वाणे कृत्यातो नित्यवन्दना ।

वर्षायोग समाप्त कर श्रोवर्द्धमान स्वामीके निर्वाणके दिन सूर्योदयके समय सिद्धभक्ति, निर्वाणभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शांति भक्ति पढ़नी चाहिये । तदनंतर नमस्कार कर नित्यवन्दना करनी चाहिये । (यह क्रिया मुनि और श्रावक दोनों को करनी चाहिये)

मुनि और श्रावकोको श्रुतपंचमीकी क्रिया करते समय कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये ।

बृहत्या श्रुतपंचम्यां भक्त्या सिद्धश्रुतार्थया ।
श्रुतस्कन्धं प्रतिष्ठाप्य ग्रहीत्वा वाचतां बृहत् ॥
क्षम्यो गृहीत्वा स्वाध्यायः कृत्या शांतिनुतिस्ततः ।
यमिनां गृहिणां सिद्धश्रुतशांतिस्तया पुनः ॥

श्रुतपंचमीके दिन बड़ी सिद्धभक्ति, बड़ी श्रुतभक्ति करनी चाहिये । फिर श्रुतस्कन्ध की स्थापना करनी चाहिये । तदनन्तर बृहत् वाचना स्वीकार करनी चाहिये अर्थात् श्रुतावतार का वर्णन करना चाहिये । बड़ी श्रुतभक्ति और आचार्य भक्ति पढ़कर स्वाध्याय करना चाहिये फिर श्रुतभक्ति पढ़कर स्वाध्याय पूर्ण करना चाहिये फिर अन्तमें शांतिभक्ति पढ़कर श्रुतपंचमीकी क्रिया पूर्ण करनी चाहिये यह श्रुतपंचमीकी क्रिया ज्येष्ठ शुक्ला ५ पंचमीके दिन मुनि और श्रावक दोनोंको करनी चाहिये । श्रावकोंको इस क्रियाके करते समय सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और शांति भक्ति करनी चाहिये ।

सिद्धांतवाचनाग्रहणे सिद्धश्रुतभक्ती कृत्वा तदनु श्रुताचार्यभक्ती

सिद्धांत वाचनेकी क्रियामें कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये ।

सिद्धांतवाचनाग्रहणे सिद्धश्रुतभक्ती कृत्वा तदनु श्रुताचार्यभक्ती कृत्वा गृहीतस्वाध्यायः तन्निष्ठापने श्रुतशान्तिभक्ती करोतु । सिद्धान्तस्वार्थाधिकाराणां समाप्तावेकैकं कायोत्सर्गं कुर्यात् । अर्थाधिकाराणां सुबहुमान्यत्वात् तेषामादौ सिद्धश्रुतस्वरिभक्तीः कृत्वा समाप्तावप्येतेन क्रमेण प्रवर्तिते सति षट्कायोत्सर्गाः भवन्ति ॥

अर्थ—सिद्धांत वाचनेकी क्रियाको करते समय सबसे पहले सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये । तदनंतर श्रुतभक्ति और आचार्य भक्ति पढ़नी चाहिये । फिर स्वाध्याय करनेवाले मुनियों को सिद्धांतके वाचनेका प्रारंभ करना चाहिये । तथा सिद्धांत वाचनेके समाप्त हो जानेपर श्रुतभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ।

सिद्धान्तोंमें जो अर्थाधिकार है वे अत्यन्त मान्य हैं इसलिये उनके प्रारंभमें सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति करनी चाहिये तथा उन अर्थाधिकारों के समाप्त होने पर भी सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति करना चाहिये । तथा छह कायोत्सर्ग करने चाहिये ।

सन्यास मरणकी क्रियामें कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये

सन्यासस्य क्रियादौ सा शान्तिभक्त्या विना सह ॥

अन्तेऽन्यदा बृहद्भक्त्या स्वाध्यायस्थापनोज्ज्वले ॥

योगेपि ज्ञेयं तत्रात्तस्वाध्यायैः प्रतिचारकैः ॥

स्वाध्यायाग्राहिणां प्राग्बत् तदाद्यन्तदिने क्रिया ॥

अर्थ—श्रुतपंचमी क्रियामें जो विधि कही है उसमेंसे शान्तिभक्तिको छोड़ कर शेष विधि सन्यासक्रियामें करनी चाहिये । जैसे श्रुतपंचमीक्रियामें श्रुतपंचमी की स्थापना की जाती है उसी प्रकार सन्यासकी स्थापना करना चाहिये । सन्यासकी स्थापनाके प्रारंभमें सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये । सन्यास धारण करनेवाले मुनिके स्वर्गवास होनेपर शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये । जिस

दिन सन्यासकी स्थापना की जाती है । उसके दूसरे दिन स्वाध्याय की स्थापना करनी चाहिये । स्वाध्यायकी स्थापना करते समय बड़ी श्रुतभक्ति और आचार्य-भक्ति पढ़नी चाहिये । इस प्रकार स्वाध्यायकी स्थापना करनी चाहिये । जिस दिन सन्यास धारण करनेवाले मुनिके स्वर्गवासकी संभावना हो उससे एक दिन पहले स्वाध्यायकी समाप्ति बड़ी श्रुतभक्ति पढ़कर करनी चाहिये । जिसने सन्यास धारण करनेवाले मुनिके सर्गाप स्वाध्याय प्रारंभ किया हो और उसने यदि दूसरे स्थानपर रात्रियोग अथवा वर्षायोग ग्रहण कर लिया हो तो भी उसको सन्यास-धारण करनेवाले मुनिकी वसतिकामें ही सोना चाहिये । गृहस्थोंको सन्यासके आरंभके दिन तथा समाप्तिके दिन सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति तथा शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ।

वर्षायोगके ग्रहण करते समय तथा छोड़ते समय
कौनसी भक्ति करनी चाहिये ।

ततश्चतुर्दशीपूर्वरात्रे सिद्धमुनिस्तुती ।

चतुर्दिक्षु परीत्याल्पाश्चैत्यभक्तिगुरुस्तुतिम् ॥

शांतिभक्ति च कुर्वाणैर्वर्षायोगस्तु गृह्यताम् ॥

ऊर्जेकृष्णचतुर्दश्यां पश्चाद्रात्रौ च मुच्यताम् ॥

अर्थ—आचार्य आदि मुनिगर्जोंको वर्षायोग धारण करना चाहिये । उसकी विधि इस प्रकार है । आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशीकी रात्रिके पहले पहरमें लघु-सिद्धभक्ति, लघुयोगिभक्ति और लघुचैत्यभक्ति पढ़नी चाहिये । चारो दिशाओंकी प्रदक्षिणा देनी चाहिये तथा योग तन्दुलक्षेपण करने चाहिये । चारो दिशाओंकी प्रदक्षिणा देनेका अर्थ यह है कि एक स्थानपर खड़े होकर "मै प्रदक्षिणा करता हूँ" ऐसी कल्पना करनी चाहिये । पहले पूर्वदिशा की प्रदक्षिणा देनी चाहिये और उस समय 'यावति जिन चैत्यानि' इत्यादि श्लोक पढ़कर स्वयंभू स्तोत्रके पहली दो स्तुतिया पढ़नी चाहिये । अंचलिकोसहित चैत्यभक्ति पढ़नी चाहिये और इस प्रकार शेष तीनों दिशाओंमें भी प्रदक्षिणा देनी चाहिये तथा उस समय आगेके दो दो तीर्थकरोंकी स्तुतिया पढ़नी चाहिये । तदनंतर पंचगुरुभक्ति व

शांतिभक्ति पढ़कर वर्षायोग स्वीकार करना चाहिये । यह ग्रहण करने की विधि है । कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन ऊपर लिखी पूर्ण विधि करके वर्षायोग समाप्ति करनी चाहिये ।

आचार्यपद ग्रहण करते समय कौनसी भक्ति करनी चाहिये ।

सिद्धाचार्यस्तुती कृत्वा सुलग्ने गुर्वनुज्ञया ॥

लात्याचार्यपदं शांतिस्तुयात्साधुः स्फुरद्गुणः ॥

अर्थ—जो अपने उत्तम गुणोंसे समस्त संघको मान्य होता है जिसमें छत्तीस गुण दैदीप्यमान होते हैं वही श्रेष्ठी मुनि आचार्य पद ग्रहण करने योग्य होता है । जिस समय उस श्रेष्ठ मुनिको आचार्य पद दिया जाता है उस समय पहलेके आचार्य समस्त मुनि संघके सामने उस श्रेष्ठ मुनिके आचार्य पदको सूचित करनेवाली एक पीछी देते हैं और कहते हैं कि आजसे तूरहस्य शास्त्रों के (प्रायश्चित्त आदि शास्त्रोंके) अध्ययन करने तथा दीक्षा देने आदि आचार्योंके करने योग्य कार्योंके योग्य होगया है । उस समय आचार्यपद ग्रहण करनेके लिये तैयार हुये इस मुनिको शुभलग्नमें सबसे पहले सिद्धभक्ति और आचार्यभक्ति पढ़कर आचार्यपद ग्रहण करना चाहिये और फिर शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ।

प्रतिमायोग धारण करनेवाले मुनिको वंदना करते समय कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये ।

लघीयसोऽपि प्रतिमायोगिनो योगिनः क्रियाम् ॥

कुर्युः सर्वेऽपि सिद्धर्षिंशांतिभक्तिभिरादरात् ॥

अर्थ—जिसको दीक्षा लेकर बहुत दिन नहीं हुये हैं अर्थात् जो थोड़े दिनका ही दीक्षित हैं ऐसा मुनि भी यदि प्रतिमायोग धारण करे तो समस्त मुनियोंको आदरपूर्वक उसके सामने सिद्ध भक्ति ऋषिभक्ति पढ़नी चाहिये । इसप्रकार उनकी वंदना करनी चाहिये ।

दीक्षा ग्रहण करते समय जो लोच किया जाता है उस समय की विधिमें कौनसी भक्ति करनी चाहिये ।

सिद्धयोगिवृहद्भक्तिपूर्वकं लिङ्गमर्प्यताम् ।

लुञ्चारव्यानाग्न्यपिच्छात्मक्षम्यतां सिद्धभक्तितः ॥

अर्थ—दीक्षाग्रहण करनेके समय बड़ी सिद्धभक्ति और योगिभक्ति पढ़कर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये । केशलोच करना, दीक्षाका नाम धारण करना, नम्रावस्था धारण करना और पीछी धारण करना आदि कार्योंको दीक्षा कहते हैं । दीक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर सिद्धभक्ति पढ़नी चाहिये ।

दीक्षाके सिवाय अन्य समयमें लोच करते समय कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये ।

लोचो द्वित्रिचतुर्मासैर्वरो मध्योऽधमः क्रमात् ।

लघुप्राग्भक्तिभिः कार्यः सोपवासप्रतिक्रमः ॥

अर्थ—दो महीना बाद लोच करना उत्तम है, तीन महीना बाद करना मध्यम है और चार महीना बाद करना जघन्य है । लोच करते समय लघुसिद्धभक्ति और लघुयोगिभक्ति पढ़नी चाहिये । लोच समाप्त होने पर लघुसिद्धभक्ति पढ़नी चाहिये । लोचके दिन उपवास और प्रतिक्रमण करना चाहिये ।

आगे प्रतिक्रमण रात्रियोग धारण करने व छोड़ने में कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये ।

भक्त्या सिद्धप्रतिक्रांतिवीरद्विर्द्वादशार्हताम् ।

प्रतिक्रामेन्मलं योगं योगिभक्त्या भजेत् त्यजेत् ॥

अर्थ—प्रतिक्रमणकी विधि करते समय सिद्धभक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति वीरभक्ति, चतुर्विंशतितीर्थङ्करभक्ति पढ़कर अतीचारोकी शुद्धि करनी चाहिये । योगिभक्ति पढ़कर रात्रियोग धारण करना चाहिये । तथा योगिभक्ति पढ़कर ही रात्रियोगका त्याग करना चाहिये ।

आगे देववन्दना करने समय कोई दोष उत्पन्न हुये हो अथवा रागादिक दोष उत्पन्न हुये हों तो उनको दूर करनेके लिये समाधिभक्ति करनी चाहिये । लिखा भी है:

ऊनाधिक्यविशुद्धार्थं सर्वत्र प्रियभक्तिकाः ॥

अर्थ—इन समस्त क्रियाओंमें यदि न्यूनाधिक्यता हुई हो तो उसके दोषको दूर करनेके लिये समाधिभक्ति पढ़नी चाहिये ।

जिसने समाधिमरणधारण किया है उस मुनिके शरीरकी तथा उसके निषद्या-स्थानकी क्रिया करते समय कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये सो दिखलाते हैं ।

सामान्यर्यौ मृते शरीरस्य निषद्यास्थानस्य वा सिद्धयोगिशांतिभक्तयः । सिद्धांतवेदिनां साधूनां सिद्धश्रुतयोगशांतिभक्तयः । उत्तमयोगिनां सिद्धचारित्र्ययोगिशांतिभक्तयः । सैद्धान्तोत्तमयोगिनां सिद्धचारित्र्ययोगशांतिभक्तयः । आचार्यस्य सिद्धयोगाचार्यशांतिभक्तयः । सैद्धान्ताचार्यस्य सिद्धश्रुतयोगाचार्यशांतिभक्तयः । उत्तमयोगिनामाचार्याणां सिद्धचारित्र्ययोगाचार्यशांतिभक्तयः । उत्तरयोगिनः सैद्धान्ताचार्यस्य सिद्धश्रुतयोगाचार्यशांतिभक्तयः । अनंतरोक्ता अष्टौ क्रियाः शरीरस्य निषद्यास्थानस्य च ॥

अर्थ—सामान्य ऋषिके स्वर्गवास होनेपर उनके शरीरकी तथा निषद्या-स्थानकी क्रिया करते समय सिद्धभक्ति, योगभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये । यदि सिद्धांतके जानकार साधुका स्वर्गवास हो तो सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, योगभक्ति, शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये । यदि उत्तरगुणोंको धारण करने वाले साधुका स्वर्गवास हुआ हो तो उनके शरीर वा निषद्यास्थानकी क्रिया करते समय सिद्धभक्ति, चारित्र्यभक्ति, योगभक्ति, शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये । यदि उत्तरगुणोंको पालन करनेवाले मुनि सिद्धान्तके भी जानकार हों तो उनके स्वर्गवास होनेपर उनके शरीर और निषद्याका स्थानकी क्रिया करते समय सिद्धभक्ति, चारित्र्यभक्ति, योगभक्ति, शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये । आचार्यके स्वर्गवास होनेपर सिद्धभक्ति, आचार्यशांतिभक्ति पढ़नी चाहिये । यदि आचार्य सिद्धांत के जानकार हों तो उनके स्वर्गवास होनेपर उनके शरीर निषद्यास्थानकी क्रिया करते समय सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, योगभक्ति, आचार्यभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये । यदि आचार्य

उत्तर गुणोंको पालन करनेवाले हों तो उनके स्वर्गवास होनेपर उनके शरीर और निषद्यास्थानकी क्रिया करते समय सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति आचार्यभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये । यदि आचार्य उत्तर गुणोंके पालन करनेवाले हो और सिद्धांतके भी जानकार हों तो उनके स्वर्गवास होनेपर उनके शरीर और निषद्या स्थानकी क्रिया करते समय सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति योगिभक्ति आचार्यभक्ति शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ।

ये आठ क्रियाएं उनकी शरीर और निषद्यास्थानकी होती है ।

आगे पाक्षिक वा चातुर्मासिक आदि प्रतिक्रमणमें कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये सो दिखलाते हैं ।

पाक्षिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकप्रतिक्रमणसे सिद्धचारित्रप्रतिक्रमणानिष्ठितकरणचतुर्विंशत्तितीर्थकरभक्तिचारित्रालोचनागुरुभक्तयो बृहदालोचन गुरुभक्तिर्लघ्वीयस्याचार्यभक्तिश्च करणीयाः ॥

अर्थ—पाक्षिक चतुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमणमें सिद्धभक्ति तथा प्रतिक्रमण वीरभक्ति चतुर्विंशति तीर्थङ्करभक्ति चारित्रालोचना श्रुतभक्ति गुरुभक्तिबृहत्त्रालोचना गुरुभक्ति और लघुआचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये ।

कौन कौनसी भक्ति कहां कहां करनी चाहिये

इसका स्पष्ट विवरण

कार्य	भक्ति
जिनप्रतिमावंदन	} चैत्यभक्तिपंचगुरुभक्ति लघुसिद्धभक्ति लघु- आचार्यभक्ति
आचार्यवंदना (गवासनसे	
सिद्धांतवेत्ता आचार्यकी वंदना—	सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, आचार्यभक्ति
साधारण मुनियोंकी वंदना—	सिद्धभक्ति
सिद्धांतवेत्ता मुनियोंकी वंदना—	सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति

* 1

॥ ध्यायका प्रारंभ—

स्वाध्यायकी समाप्ति—

आचार्यकी अनुपस्थितिमें पहले दिन उपवास वा प्रत्याख्यान ग्रहण किया हो तो दूसरे दिन आहारके समय

आहारकी समाप्तिपर अगले दिनके उपवास वा प्रत्याख्यान का ग्रहण करनेमें.

आचार्यकी उपास्थितिमें आहार के लिये जानेके पहले आहारके अनंतर प्रत्याख्यान वा उपवासकी प्रतिज्ञाके लिये

आचार्य वंदना चतुर्दशीके दिन त्रिकाल वंदनाके लिये

नंदीश्वर पर्वमें

सिद्धप्रतिमाके सामने तीर्थङ्करके जन्म दिन

अष्टमी चतुर्दशीकी क्रियामें अपूर्व नित्यवंदना वा त्रिकाल नित्यवंदना के समय

लघुश्रुतभक्ति आचार्यभक्ति

लघुश्रुतभक्ति

सिद्धभक्ति.पदकर उसका त्याग वा आहार के लिये गमन

सिद्धभक्ति ।

लघुयोगिभक्ति, लघुसिद्धभक्ति

लघुयोगिभक्ति लघुसिद्धभक्ति

लघुआचार्यभक्ति

चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति, पंचगुरुभक्ति । अथवा सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति, पंचगुरुभक्ति, शांतिभक्ति

सिद्धभक्ति नंदीश्वरभक्ति पंचगुरुभक्ति शांतिभक्ति ।

सिद्धभक्ति

चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति पंचगुरुभक्ति अथवा सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति श्रुतभक्ति पंचगुरुभक्ति, शांतिभक्ति चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति, शांतिभक्ति ।

यदि चतुर्दशीकी क्रिया चतुर्दशीके दिन न हो सके तो पूर्णिमा वा अमावास्याके दिन अष्टमीकी क्रिया करे अथवा सिद्ध, श्रुत, चारित्र और शांतिभक्ति पठे ।

अभिषेक वंदना—

स्थिरविंशप्रतिष्ठा—

चलविंशप्रतिष्ठा—

चल विंशप्रतिष्ठाके चतुर्थ

अभिषेकमें

तीर्थङ्करोके गर्भजन्मकल्याणकमें—

दीक्षाकल्याणक —

ज्ञानकल्याणक—

निर्वाणकल्याणक—

वीरनिर्वाण-सूर्योदयके समय—

श्रुतपंचमी —

श्रुतपंचमीके दिन गृहस्थोंको—

सिद्धांत वाचना

गृहस्थोंको सन्यासके प्रारंभमें—

गृहस्थोंको सन्यासके अंतमें

वर्षायोगधारण करते समय—

वर्षायोग धारणकी प्रदक्षिणामें—

सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति
शांतिभक्ति.

सिद्धभक्ति, शांतिभक्ति

सिद्धभक्ति, शांतिभक्ति

सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति पंचमहागुरुभक्ति
शांतिभक्ति ।

सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, शांतिभक्ति
सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति,
शांतिभक्ति ।

सिद्ध. श्रुत, चारित्रयोगि शांतिभक्ति ।

सिद्ध, श्रुत, चारित्र, योगि, निर्वाण और
शांतिभक्ति

सिद्धभक्ति निर्वाण पंचगुरु शांतिभक्ति ।
बृहत्सिद्धभक्ति, बृहत्श्रुतभक्ति, श्रुत-
स्कंधकी स्थापना, बृहत्वाचना बृहत्
श्रुत भक्ति, आचार्यभक्तिपूर्वक स्वाध्याय,
श्रुत-भक्ति द्वारा स्वाध्यायकी पूर्णता
अंतमें शांतिभक्ति कर क्रियाकी पूर्णता ।

सिद्धश्रुतशांतिभक्ति ।

सिद्धश्रुभक्ति द्वारा प्रारंभ श्रुतभक्ति
आचार्यभक्ति कर वाचना अंतमें श्रुत
और शांतिभक्ति ।

सिद्ध श्रुत, शांतिभक्ति

सिद्ध, श्रुत, शांति ।

सिद्ध, योगि, चैत्यभक्ति ।

यावति जिन् चैत्यानि, स्वयंभूस्तोत्रकी
स्तुति चैत्यभक्ति ।

वर्षायोग स्वीकार करते समय—	गुरुभक्ति शांतिभक्ति
वर्षायोगकी समाप्तिमें—	वर्षायागधारण करनेकी पूर्णविधि
आचार्यपद ग्रहण करते समय—	सिद्ध, आचार्य, शांतिभक्ति ।
प्रतिमायोग धारण करनेवाले मुनि } की बंदना करते समय	सिद्ध, य.गे, शांतिभक्ति
दीक्षा ग्रहण करते समय—	बृहत्सिद्धभक्ति, योगिभक्ति
दीक्षाके अन्तमें—	सिद्धभक्ति ।
केशओंच करते समय—	लघुसेद्धभक्ति, लघुयोगिभक्ति
लोचके अंतमें—	सिद्धभक्ति ।
प्रतिक्रमणमें—	सिद्ध, प्रतिक्रमण, वीरभक्ति, चतुर्विंशतितीर्थकरभक्ति ।
रात्रियोग धारण—	योगिभक्ति ।
रात्रियोगका त्याग—	योगिभक्ति ।
देवबंदनामें दोष लगनेपर—	समाधिभक्ति ।
सामान्य ऋषिके स्वर्गवास होनेपर उनके शरीर और निषद्याकी क्रियामें	सिद्ध, योगि, शांतिभक्ति
सिद्धांतवेत्ता साधुके स्वर्गवासमें	सिद्ध, श्रुत, योगि, शांतिभक्ति
उत्तरगुणधारी सिद्धांतवेत्ता	
साधुके स्वर्गवासपर	सिद्ध, चारित्र, योगि, शांतिभक्ति
आचार्यके स्वर्गवास होनेपर	सिद्ध, श्रुतचारित्रयोगिशांतिभक्ति
सिद्धांतवेत्ता आचार्यके स्वर्गवास पर	सिद्धयोगि, आचार्य, शांतिभक्ति ।
उत्तरगुणधारी आचार्यके स्वर्गवासपर	सिद्धश्रुतयोगिआचार्य शांतिभक्ति ।
उत्तरगुणधारी सिद्धांतवेत्ता	सिद्धचारित्रयोगि आचार्यशांतिभक्ति ।
आचार्यके स्वर्गवास पर	सिद्ध, श्रुत, योगि, आचार्य, शांतिभक्ति ।
पाचिक प्रतिक्रमणमें—	सिद्ध, चारित्र, प्रतिक्रमण वीरभक्तिचतु- र्विंशतिभक्ति, चारित्रालोचना गुरुभक्ति
चतुर्मासिक प्रतिक्रमणमें	बृहदालोचना गुरुभक्ति लघुआचार्यभक्ति
वार्षिक प्रतिक्रमणमें	” ”

श्रीपूज्यापादाद्याचार्यविरचितः—

श्रीदशभक्त्यादिसंग्रहः

अथ ईर्यापथशुद्धिः ।

(स्रग्धरा)

निःसंगोऽहं जिनानां सदनमनुपमं त्रिःपरीत्येत्य भक्त्या,
स्थित्वा गत्वा निषद्योच्चरणपरिणतोऽन्तः शनैर्हस्तयुगम् ।
भाले संस्थाप्य बुद्ध्या मम दुरितहरं कीर्तये शक्रवन्द्यं,
निन्दादूरं सदाप्तं क्षयरहितममुं ज्ञानभानुं जिनेन्द्रम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ— (निःसङ्गोऽहं) सर्वप्रकार के परिग्रह अथवा विकल्पों से रहित होकर मैं (अनुपमं) अपरिमित माहात्म्यवाले (जिनानां) जिनेन्द्रभगवानके (सदनं) चैत्यालय (जिनालय, मंदिर) में (गत्वा) जाकर, (भक्त्या) भक्तिपूर्वक (त्रिःपरीत्येत्य) तीन प्रदक्षिणा देकर, तदनंतर (स्थित्वा) थोड़ा खड़ा होकर अगे जाता हूँ तत्पश्चात् (निषद्य) बैठकर (शनैः उच्चरणपरिणतोऽन्तः) धीरेधीरे मन में स्तोत्र आदिका उच्चारण करते हुए (हस्तयुगम्) दोनों हाथों को जोड़ कर (भाले संस्थाप्य) मस्तकपर रखकर (मम दुरितहरं) मेरे पापों को नाशकरनेवाले, (शक्रवन्द्यं) इन्द्रोंके द्वारा पूज्यनीय, (निन्दादूरं) निन्दादि दोषोसे रहित, (क्षयरहितं) अविनश्यर, (ज्ञानभानुं) ज्ञान-सूर्य (सदाप्त) सदैव प्राप्त—देवपने को प्राप्त (अमुं जिनेन्द्रं) ऐसे जिनेन्द्रदेवकी (बुद्ध्या) मैं अपनी बुद्धि अनुसार (कीर्तये) स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥

(वसन्तनिलका)

श्रीमत्पवित्रमकलङ्कमनन्तकल्पं,
स्वायंभुवं सकलमङ्गलमादितीर्थम् ॥

नित्योत्सवं मणिमयं निलयं जिनानां,
त्रैलोक्यभूषणमहं शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—जो जिनालय (श्रीमत्) अति शोभायुक्त है, (पवित्रं) पवित्र है, (अकलंकं) निर्दोष है, (अनंतकल्प) अनंतकल्पकालो से जिसकी परम्परा चली आरही है, (स्वायंभुवं) जो जिनेन्द्रदेव सम्बंधी है, (सकलमंगलं) जिसमें सर्व-प्रकारके मंगल होते रहते हैं, (आदितीर्थं) जो मुख्यतीर्थ है, (नित्योत्सवं) जिसमें निरंतर उत्सव होते हैं, (मणिमयं) जो नानाप्रकार की मणियों से बना है, (त्रैलोक्यभूषणम्) तीनों लोकको भूषणरूप है ऐसे (जिनानां निलयं) जिनेन्द्रभगवान के चैत्यालय की (अहं) मैं (शरणं प्रपद्ये) शरणं को प्राप्त होता हूँ ॥ २ ॥

(अनुष्टुप्)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।
जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य, शासनं जिनशासनम् ॥ ३ ॥

अन्वयाथः— (श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं) जो अनेक प्रकारकी अन्तरंग और बहिरंग शोभा से सुशोभित है और अत्यंत गम्भीर स्याद्वाद ही जिसका अमोघ (सार्थक) चिह्न है—ऐसा (त्रैलोक्यनाथस्य शासनं) श्री जिनेन्द्रदेव का शासन जो (जिनशासनं) जिनशासन कहलाता है वह (जीयात्) स्थिर हो ॥ ३ ॥

श्रीमुखालोकनादेव, श्रीमुखालोकनं भवेत् ।
आलोकनविहीनस्य, तत्सुखावाप्तयः कुतः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—(श्रीमुखालोकनान् एव) श्री जिनेन्द्रदेव के मुख कमल देखलेने मात्र से ही (श्रीमुखालोकनं भवेत्) मुक्तिरूपी लक्ष्मी का मुख दिखाई देता है । (आलोकनविहीनस्य) जो श्रीजिनेन्द्रदेव का दर्शन नहीं करते (तत्सुखावाप्तयः कुतः) उन्हें यह सुख कैसे मिल सकता है ? अर्थात् श्रीजिनेन्द्रदेव के ही दर्शन आत्मदर्शन हैं और जब तक आत्मदर्शन नहीं होता है तबतक आत्मीक सुखकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? ॥ ४ ॥

(वसततिलका)

अद्याभवत्सफलता नयनद्वयस्य,
देव ! त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन ॥
अद्यत्रिलोकतिलक ! प्रतिभासते मे,
संसारवारिधिरयं, चुलुकप्रमाणम् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः— (देव) हे देव ! (त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन) आपके चरणकमल देख लेनेसे (अद्य) आज (नयनद्वयस्य) मेरे दोनों नेत्र (सफलता अभवत्) सफल होगये । (त्रिलोकतिलक) हे तीनलोको के तिलक (शिरोमणि) (अद्य) आज (अयं संसारवारिधिः) यह संसार समुद्र (मे) मुझे (चुलुकप्रमाणां) चुल्लू भर पानी के समान (प्रतिभासिते) प्रतिभासित द्वेता है जान पड़ता है ॥ ५ ॥

(अनुष्टुप्)

अद्य मे क्षालितं गात्रं, नेत्रे च विमलेकृते ।
स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु, जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः— (जिनेन्द्र) हे जिनेन्द्र ! (अद्य) आज (दर्शनात्) आपके दर्शन करने से (मे) मेरा (गात्रं) शरीर (क्षालितं) धुलगया है, (च) और (नेत्रे) मेरे दोनो नेत्र (विमलीकृते) निर्मल होगये हैं, (अहं) मैंने (धर्मतीर्थेषु) धर्मरूपीतीर्थमें (स्नातः) स्नान कर लिया है ॥ ६ ॥

नमो नमः सत्त्वहितंकराय,
वीराय भव्याम्बुजभास्कराय ॥
अनन्तलोकाय सुरार्चिताय,
देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः— (सत्त्वहितंकराय) सम्पूर्ण जीवोका हित करनेवाले, (भव्याम्बुजभास्कराय) भव्यरूपी कमलको प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्य के समान, (अनन्तलोकाय) सम्पूर्ण चराचरके देखने वाले (सुरार्चिताय) देवोंके द्वारा पूज्य (देवाधिदेवाय) ऐसे देवाधिदेव (वीराय जिनाय) श्री वर्द्धमान जिनेन्द्रदेवके लिये मैं (नमो नमः) बारंबार नमस्कार करता हूँ ॥ ७ ॥

[७७]

नमो जिनाय त्रिदशार्चिताय,
 विनष्टदोषाय गुणार्णवाय ॥
 विमुक्तिमार्गप्रतिबोधनाय,
 देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः— (त्रिदशार्चिताय) देवोके द्वारा पूज्य (विनष्टदोषाय)
 तृषादि अठारह दोषोसे रहित (गुणार्णवाय) गुणोके समुद्र (विमुक्तिमार्गप्रति-
 बोधनाय) मुक्तिमार्गका प्रतिबोध करानेवाले ऐसे (देवाधिदेवाय) देवाधिदेव
 (जिनाय) जिनेन्द्रभगवानके लिये मैं (नमः) चारंवार नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥

देवाधिदेव ! परमेश्वर ! वीतराग !
 सर्वज्ञ ! तीर्थकर ! सिद्धमहानुभाव !
 त्रैलोक्यनाथ ! जिनपुंगव ! वर्द्धमान !
 स्वामिन् ! गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः— (देवाधिदेव) हे देवाधिदेव ! (परमेश्वर) हे परमेश्वर !
 (वीतराग) हे वीतराग ! (सर्वज्ञ) हे सर्वज्ञ ! (तीर्थकर) हे तीर्थकर ! (सिद्ध)
 हे सिद्ध ! (महानुभाव) हे महानुभाव ! (त्रैलोक्यनाथ) हे त्रैलोक्यनाथ !
 (जिनपुंगव) हे जिनश्रेष्ठ ! (वर्द्धमान) हे वर्द्धमान ! (स्वामिन्) हे स्वामिन् !
 मैं (ते) आपके (चरणद्वयं) दोनों चरणों की (शरणं) शरणको (गतोऽस्मि)
 प्राप्त होता हूँ ॥ ९ ॥

(आर्या)

जितमदहर्षद्वेषा, जितमोहपरिषहाः जितकषायाः ।

जितजन्ममरणरोगा, जितमात्सर्या जयन्तु जिनाः ॥ १० ॥

अन्वयार्थः— (जितमदहर्षद्वेषाः) मद-अभिमान, हर्ष और द्वेषको
 जीतने वाले, (जितमोहपरिषहाः) मोह और परिषह को जीतनेवाले, (जित-
 कषायाः) सम्पूर्ण कषायोको जीतनेवाले, (जितजन्ममरणरोगाः) जन्म, मरण
 रूपी रोगको जीतनेवाले, (जितमात्सर्याः) मात्सर्य-ईर्ष्याको जीतनेवाले (जिनाः)
 जिनेन्द्रदेव 'सदैव' (जयन्तु) जयशील हो ॥ १० ॥

[७८]

जयतु जिनवर्धमानस्त्रिभुवनहितधर्मचक्रनीरजबन्धुः ।

त्रिदशपतिमुकुटभासुरचूडामणिरश्मिरंजितारुणचरणः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः— ('यः') जो (त्रिभुवनहितधर्मचक्रनीरजबन्धुः) तीनलोक को हित करनेवाले धर्मचक्ररूपी कमलोके लिये सूर्यके समान हैं और (त्रिदशपतिमुकुटभासुरचूडामणिरश्मिरंजितारुणचरणः) जिन के अरुण—लाल रंगके चरण इन्द्रोंके मुकुटमें दैदीप्यमान चूडामणिरत्नकी विरणोसे अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं ऐसे (जिनवर्धमानः) श्रीवर्धमानजिनेन्द्रदेव सर्वदा' (जयतु) जयशीलहों ॥ ११ ॥

जय जय जय त्रैलोक्यकाण्डशोभिशिखामणे,

नुद नुद नुद स्वान्तध्वान्तं जगतकमलार्क नः ॥

नय नय नय स्वामिन् शान्तिं नितान्तमनन्ति मां

नहि नहि नहि त्राता लोकैकमित्र भवत्परः ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः— (त्रैलोक्यकाण्डशोभिशिखामणे) हे भगवान् ! आप तीनों लोकोंमें अत्यंत सुशोभित होनेवाले शिखामणिके समान हैं, अतः (जय जय जय) आपकी जय हो, जय हो, जय हो (जगतकमलार्क) आप जगतरूपी कमल को प्रकाशित करनेकेलिये सूर्य समान हैं, अतः (नः) मेरे (हमारे) (स्वान्तध्वान्तं) हृदयके मोहान्धकारको (नुद नुद नुद) दूर कीजिये, दूर कीजिये, दूर कीजिये (स्वामिन्) हे स्वामिन ! (नितान्तं) अत्यंत (अनन्ति) कभी न नाश-होनेवाली (शान्तिं) शान्तिको (मां) मुझे (नय नय नय) दीजिये, दीजिये, दीजिये (लोकैकमित्र) हे भव्यजीवोंके अद्वितीय मित्र ! (भवत्परः) आपके सिवाय (त्राता) मेरी रक्षा करनेवाला—संसारके दुःखोसे बचानेवाला (नहि नहि नहि) अन्य कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है ॥ १२ ॥

चित्ते मुखे शिरसि पाणिपयोजयुग्मे,

भक्तिं स्तुतिं विनति मज्जलिमज्जसैव ॥

चेक्रीयते चरिकरीति चरीकरीति,

यश्चर्करीति तव देव स एव धन्यः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः— (देव) है देव ! (यः) जो (चित्ते) अपने हृदयमें

(तव भक्ति) आपकी भक्ति (चैक्रीयते) करता है, (मुखे) मुखसे (स्तुति) स्तुति (चरि करोति) करता है (शिरसि) मस्तकमे (विनर्ति) नमस्कार (चरीकरीति) करता है (पाणिपयोजयुग्मे) देनों हाथरूपी कमलों से (अञ्जसा एव) वारंवार (अञ्जलि) अंजलि (चर्करीति) करता है (स एव धन्यः) “हे भगवान्” वह पुरुष अत्यंत धन्य समझा जाता है ॥ १३ ॥

(मन्दाक्रांता)

जन्मोन्मार्ज्यं भजतु भवतः पादपद्मं न लभ्यं ।
तच्चेत्स्वैरं चरतु न च दुर्देवतां सेवतां सः ॥
अश्नात्यन्नं यदिह सुलभं दुर्लभं चेन्मुधास्ते,
क्षुद्रव्यावृत्त्यै कवलयति कः कालकूटं बुभुक्षुः ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः—“हे भगवन् यदि किसी पुरुषको” (जन्मोन्मार्ज्यं) जन्म मरण दूर करनेवाले (भवतः) आपके (पादपद्मं) चरणकमल (न) न (लभ्यं) प्राप्त हुए हों तो (सः) वह (तच्चेत्स्वैरं) अपनी प्रवृत्ति इच्छानुसार (चरतु) करे (च) तथापि वह (दुर्देवतां) मिथ्या देवताओंकी सेवतां सेवा (न भजतु) न करे । (यदिह) जो इस संसार में (सुलभं) सुलभतासे प्राप्त (अन्नं) अन्नको (अश्नाति) खाता है तो ठीक है (दुर्लभं चेत्) परंतु यदि अन्नका मिलना कठिन हो-दुर्लभ भी हो तो (कः) कौन (बुभुक्षुः) भूखा मनुष्य (ते क्षुद्रव्यावृत्त्यै) अपनी भूख मिटानेके लिये (मुधा) व्यर्थ (कालकूटं) विष (कवलयति) भक्षण करता है ! अथात् कोई नहीं ॥ १४ ॥

(शार्दूलविक्रीडित)

रूपं ते निरुपाधि सुन्दरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षणः ।
प्रेक्षाकौतुककारिकोत्र भगवन्नोपैत्यवस्थान्तरम् ॥ —
वाणीं गद्गदयन् वपुः पुलकयन् नेत्रद्वयं श्रावयन् ।
मूर्धानं नमयन् करौ मुकुलयंश्चेतोऽपि निर्वापयन् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः— (भगवन्) हे भगवान् ! (ते) आपको (इदं) यह (निरुपाधिसुन्दरं) वस्त्र, आभूषण आदि उपाधियोंके बिना ही अत्यन्त सुन्दर (रूपं) रूप (पश्यन्) देखकर (प्रेक्षाकौतुक कारिकः) देखने वालोंको अत्यन्त

कौतुक (आश्चर्य) उत्पन्न करनेवाला है । हे प्रभो ! (अत्र) इस संसारमें ऐसा कौन पुरुष है जो आपके सुन्दर रूपको देखकर (अवस्थान्तरं न उपैति) अपनी अवस्था को न बदलले अर्थात् आपके सुन्दर रूपको देखकर सबकी अवस्था बदल जाती है । (सहस्रक्षणाः) हजार नेत्रोंको धारण करनेवाला—इन्द्र भी आपके उस सुन्दर रूपको देखकर (वाणीं गद्गदयन्) अपनी वाणीको गद्गद बना लेता है, (वपुः पुलकयन्) शरीर प्रफुल्लित होजाता है, (नेत्रद्वयं श्रावयन्) दोनों नेत्रोंसे हर्षके आँसू बहने लगते हैं, (मूर्धानं नमयन्) मस्तक को नवा लेता है—भुका लेता है, (करौ मुकुलयन्) दोनों हाथोंको जोड़ लेता है, (अपि) और (चेत निर्वापयन्) हृदयमें अत्यन्त सन्तुष्ट होजाता है ॥ १५ ॥

त्रस्तारातिरिति त्रिकालविदिति त्राता त्रिलोक्या इति ।

श्रेयः सृतिरिति श्रियां निधिरिति श्रेष्ठः सुराणामिति ॥

प्राप्तोऽहं शरणं शरण्यमगतिस्त्वां तस्यजोपेक्षणं,

रक्ष क्षेमपदं प्रसीद जिन किं विज्ञापितैर्गोपितैः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः— (जिन) हे जिनेन्द्र भगवान ! (त्रस्तारातिः इति) आप समस्त कर्म रूपी शत्रुओंके नाश करने वाले हैं, (त्रिकाल विदिति) समस्त पदार्थोंकी त्रिकाल सम्बन्धी समस्त पर्यायो को जानने वाले हैं. (त्रिलोक्यः त्राता इति) तीन लोकोंकी रक्षा करने वाले हैं, (श्रेयः सृतिः इति) अनेक कल्याणोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, (श्रियां निधिः इति) अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मी के निधि हैं, (सुराणां श्रेष्ठ इति) देवोंमें भी-सर्वश्रेष्ठ है. (शरण्यं) समस्त जीवोंको शरण देने वाले हैं, (क्षेमपदं) कल्याणमय पदको प्राप्त होनेवाले हैं, यही समझकर और (अगतिः) मुझे अपनी कोई दूरगरी गति दिखाई न देने के कारण (त्वां शरणं) आपकी शरणमें (प्राप्तोऽहं) मैं प्राप्त हुआ हूँ अतः हे नाथ ! (रक्ष) मेरी रक्षा करो, (प्रसीद) प्रसन्न होओ (तत् उपेक्षा स्यज) अपनी उपेक्षाका त्याग करो, (विज्ञापितैः) मैंने जो यह प्रार्थना की है उसे (गोपितैः किं) गुप्त रखनेसे क्या लाभ है ? ॥ १६ ॥

त्रिलोकराजेन्द्रकिरीटकोटि,—

प्रभाभिरालीढपदारविन्दम् ।

निर्मूलमुन्मूलितकर्मवृक्ष,-

जिनेन्द्रचन्द्रं प्रणमामि भक्त्या ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः- (त्रिलोकराजेन्द्रकिरीटकोटिप्रभाभिः) तीनों लोकोमें उत्पन्न होनेवाले अनेक राजा-महाराजा और इन्द्रोके करोड़ों मुकुटों की प्रभासे (आली-ढपदारविन्द) जिनके चरणकमल सुशोभित होरहे हैं, (निर्मूलं उन्मूलितकर्मवृक्षं) जिन्होंने कर्मरूपी वृक्षको जड़से नष्ट कर डाला है ऐसे (जिनेन्द्रचन्द्रं) जिनेन्द्र देव- भगवान् को मैं (भक्त्या) बड़ी भक्तिसे (प्रणमामि) नमस्कार करता हूँ ॥ १७ ॥

(आर्या)

करचरणतनुविघातादटतो विहितः प्रमादतः प्राणी ।

ईर्यापथमिति भीत्या मुंचे तदोषहान्यर्थम् ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः- (अटतः करचरणतनुविघाताद्) चलते हुये मेरे हाथ, पैर और शरीरके विघातसे (प्रमादतः) प्रमादसे (प्राणी) जो कोई प्राणी (विहितः) मारा गया हो (तत् दोषहान्यर्थ) उसके दोषको नाश करनेके लिये (भीत्या) भीतिसे (ईर्यापथं इति) मैं ईर्यापथ (चलने) का (मुंचे) त्याग करता हूँ ॥ १८ ॥

ईर्यापथे प्रचलताद्य मया प्रमादा-

देकेन्द्रियप्रमुखजीवनिकायबाधा ।

निर्वर्तिता यदि भवेदयुगान्तरेक्षा,

मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरुभक्तितो मे ॥ १९ ॥

अन्वयार्थः- हे भगवन् ! (ईर्यापथे) ईर्यापथशुद्धिसे (प्रचलता) चलते हुये, (मया) मुझसे (प्रमादात्) प्रमादवश (यदि) यदि (अद्य) आज (एकेन्द्रियप्रमुखजीवनिकायबाधा) एकेन्द्रिय आदि जीव समूहोंकी बाधा (भवेत्) हुई हो, अथवा (अयुगान्तरेक्षा निर्वर्तिता) चार हाथ भूमिसे अधिक दूर तक दृष्टि डाली हो तो (मे) मेरे (तद् दुरितं) वे सब पाप (गुरुभक्तिः) गुरुकी भक्तिसे (मिथ्या अस्तु) मिथ्या हों ॥ १९ ॥

पडिकमामि भंते इरियात्रहियाए विराहणाए अणागुत्ते अङ्गमणे
णिग्गमणे ठाणे गमणे चंक्रमणे पाणुग्गमणे विज्जग्गमणे हरिदुग्गमणे

उच्चारपस्सयणखेलसिंहाणयवियडिय पइठा वणियाए, जे जीवा एइंदिया वा, वेइंदिया वा, तेइंदिया, वा, चउरिंदिया वा, पंचेइंदिया वा, णोल्लिदा वा, पेल्लिदा वा, संघट्टिदा वा, संघादिदा वा, उहाविदा वा, परिदाविदा वा, किरिंच्छिदा वा, लेसिदा वा, छिंदिदा वा, भिंदिदा वा, ठाणदो वा, ठाणचंक्रमणदो वा, तस्स उत्तरगुणं तस्स पायच्छित्तकरणं तस्स विसोहि करणं जाव अरहंताणं भयवंताणं णमोकारं पज्जुवासं करोमि तावकायं पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि ॥

हे भगवान् ! मैं प्रतिक्रमण करता हू अर्थात् किये हुए दोषोंका निराकरण करता हूँ, मैंने मन वचन काय की गुप्ति रहित होकर ईर्यापथ करते समय जो कुछ जीवों की विराधना की है उनके दोषोंका मैं निराकरण करता हूँ। मैंने जो शीघ्र गमन किया हो, चलनेकी प्रथम क्रिया प्रारंभ की हो, जहां कहीं ठहरनेकी क्रिया की हो, सामान्य गमन किया हो, पैर फैलाये हो, वा संकुचित किये हो, आसोच्छ्वास लिया हो अथवा दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय प्राणियोंके ऊपरसे अपने प्रमादके कारण गमन किया हो, किसी वीजके ऊपर से गमन किया हो, हरित-कायके ऊपरसे गमन किया हो, मैंने जो मल निक्षेपण (टट्टी) किया हो, मूत्र (पेशाब) किया हो, थूका हो, कफ डाला हो, पीछी-कमंडलु-पुस्तक आदि उपकरण प्रमाद पूर्वक रक्खे हो, इन समस्त क्रियाओंके करनेमें जो एकेन्द्रिय जीव वा दोइन्द्रिय जीव वा तेइन्द्रिय जीव वा चौइन्द्रिय जीव अथवा पंचेइन्द्रिय जीव अपने २ स्थान पर जाते समय रोके गये हो, अपने स्थानसे उठाकर दूसरी जगह रक्खे गये हों, एकको दूसरेकी रगड़से पीड़ा पहुचाई हो, व समस्त इकट्ठे कर एक जगह रख दिये हो, मार दिये हो, संतप्त कर दिये हों, चूर्णरूप कर दिये हो, अर्थात् कूट दिये हो, मूर्च्छित कर दिये हो, टुकड़े २ कर दिये हो, विदीर्ण कर दिये हों अपने ही स्थान पर स्थित हों, अपने एक स्थानसे दूसरे स्थानके लिये चल रहे हों ऐसे जीवोंकी मुझसे जो विराधना हुई हो उसका प्रतिक्रमण करनेके लिये तत्संबंधी दोषोंका निराकरण करनेके लिये मैं प्रवृत्त हुआ हू।

मैं जब तक भगवान् अरहत देव को नमस्कार करता हूँ, उनका स्मरण वा पूजा करता हूँ तब तक अपने शरीरसे ममत्त्वको त्याग करता हूँ अर्थात्

कायोत्सर्ग करता हूँ। इस शरीर से अनेक पाप कर्म होते हैं और अनेक दुष्ट चेष्टायें होती हैं इसलिये मैं इसका त्याग करता हूँ। यह भगवान् अरहंतदेवको किया हुआ नमस्कार वा किया हुआ उनका स्मरण अत्यंत उत्तम है क्योंकि भगवान् अरहंतदेव को नमस्कार करनेसे वा उनका स्मरण करनेसे किये हुये समस्त दोष दूर हो जाते हैं अथवा उन जीवोकी की हुई विराधना का प्रायश्चित्त हो जाता है। प्रमादसे उत्पन्न होने वाले समस्त दोष दूर हो जाते हैं तथा उन जीवोकी विराधनासे उत्पन्न होनेवाले समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं उन पापोकी शुद्धि हो जाती है। ईर्यापथमें होनेवाले समस्त कर्मोंका नाश हो जाता है।

ॐ णमो अरहंताणं णमोसिद्धाणां णमो आइरियाणं ।

णमो उवज्जायाणां णमो लोए सव्वसाहूणं ॥

(यहा पर णमोकारमंत्र का नौ बार जप करना चाहिये) (ज्ञाप्यानि नव)
ॐ नमः परमात्मने नमोऽनेकान्तायशान्तये । (यह मंत्र बोलकर ईर्यापथशुद्धि करे)

अर्थ—मैं परमात्माके लिये नमस्कार करता हूँ तथा अनेकांत स्वरूप तत्त्वों का निरूपण करनेवाले और अत्यंत शांत वीतराग परमदेवके लिये मैं नमस्कार करता हूँ।

इच्छामि भंते आलोचेउं इरियावहियस्स पुव्वुत्तरदविखणपच्छिम चउदिसु विदिसासु विहरमाणेण, जुगंतर दिट्ठिणा, भव्वेण दट्ठव्वा । पमाददोसेण उवडवचरियाए पाणभूदजीवसत्ताणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कारिंतो वा समणुमणिदो वा तस्स मिच्छामे दुक्कडं ॥

हे भगवन् ! मैं आलोचना करनेकी इच्छा करता हूँ, निंदा करना और गर्हा करना आलोचना कहलाती है। अपने आप किये हुए दोषोकी निंदा करना "मैने जो ये दुष्ट कर्म किये हैं सो बहुत बुरा किया है" इस प्रकार अपने हृदयमें भावना रखना निंदा कहलाती है तथा गुरुके समीप जाकर उन्हीं दोषोंकी निंदा करना गर्हा है। ईर्यापथ गमन करते समय प्रमादसे जो दोष लगे हों उनकी मैं निंदा गर्हारूप आलोचना करता हूँ।

किसी भी भव्यजीव को चलना हो, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा वा दक्षिण दिशाकी ओर चलना हो अथवा इन दिशाओंके मध्यभागमें विदिशाओं

में चलना हो तो उसे उचित है कि वह चार हाथ प्रमाण भूमिको देखता चले अर्थात् चार हाथ प्रमाण भूमि तक अपनी दृष्टि रखे और उसमें जो एकेन्द्रिय आदि जीव हों उनको देखता चले, उनका बचाव करता चले ।

नोट—दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय जीवोको अर्थात् विकलेन्द्रिय जीवोको प्राणी कहते हैं । वनस्पतिकायिक जीवोको भूत कहते हैं । पंचेन्द्रिय जीवोको जीव कहते हैं । पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक जीवोको सत्त्व कहते हैं ।

(शार्दूलविक्रीडित)

पापिष्ठेन दुरात्मना जडधिया मायाविना लोभिना ।
 रागद्वेषमालीमसेन मनसा दुष्कर्म यन्निर्मितम् ॥
 त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपाद मूलेधुना ।
 निन्दापूर्वमहं जहामि सततं निर्वर्तये कर्मणाम् ॥

अन्वयार्थः— (त्रैलोक्याधिपते) हे तीनों लोकोके स्वामी (जिनेन्द्र) श्री जिनेन्द्रदेव ! (पापिष्ठेन) पापी (दुरात्मना) दुरात्मा (जडधिया) जडबुद्धि (मायाविना) मायावी (लोभिना) लोभी (रागद्वेषमालीमसेन) रागद्वेषसे मैले (मनसा) मनवाले मैने (यत्) जो (दुष्कर्म) दुष्कर्म (निर्मितम्) किये है उन्हें (कर्मणा) कर्मोंके (निर्वर्तये) नाशके लिये (निन्दापूर्वकं अहं) निन्दा-पूर्वक—निन्दा करता हुआ मैं (अधुना) अब (भवतः) आपके (श्रीपादमूले) श्री चरणोंमें (सततं) निरन्तर—सदाके लिये (जहामि) छोड़ता हूँ—त्याग करता हूँ ॥

जिनेन्द्रमुन्मूलितकर्मबन्धं,
 प्रणम्य सन्मार्गकृतस्वरूपम् ।
 अनन्तबोधादिभवं गुणौघं,
 क्रियाकलापं प्रकटं प्रवक्ष्ये ॥

अन्वयार्थः— (उन्मूलितकर्मबन्धं) जिन्होंने कर्मबन्ध नष्ट कर दिया है, (सन्मार्गकृतस्वरूपं) जिन्होंने सन्मार्गके स्वरूपका प्रकाशन किया है, (अनन्तबोधोद्भाविभवं) जो अरन्तज्ञानादि विभूतिसे विभूषित है, (गुणौघं) जो अनन्त गुणोंसे युक्त हैं ऐसे (जिनेन्द्र) श्री जिनेन्द्र भगवानको (प्रणाम्य) नमस्कार करके (प्रकटं) प्रस्तुत अथवा स्पष्टरूपसे (क्रियाकलापं) क्रियाकलाप नामक ऋथको (प्रवक्ष्ये) प्रतिपादन करूंगा अर्थात् दशभक्ति का वर्णन करता हूँ ॥

अथार्हत्पूजारम्भक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भाव-
पूजावंदनास्तवसमेतं श्रीमत्सिद्धभक्तिकायात्सर्गं करोम्यहम् । णमो अरहं-
ताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्व-
साहूणं ॥

णामोकोरमंत्रका अर्थ—

अरहंतोको नमस्कार हो, सिद्धोको नमस्कार हों, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्योको नमस्कार हो, लोकमें सर्व साधुओंको नमस्कार हो ॥

—चत्तारि दंडक—

चत्तारि मंगलं, अरहंत मंगलं, सिद्ध मंगलं, साहू मंगलं, केवल्लिप-
णतो धम्मो मंगलं, । चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्धले गु-
त्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल्लिपणतो धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि सरणं
पव्वज्जामि, अरहंत सरणं पव्वज्जामि, सिद्ध सरणं पव्वज्जामि, माहू
सरणं पव्वज्जामि, केवल्लिपणतो धम्मो सरणं पव्वज्जामि ॥

अर्थः—चार मंगलरूप हैं—अरहत मंगलरूप हैं, सिद्ध मंगल रूप है, साधु मंगलरूप है, केवली भगवानसे प्रतिपादन किया हुआ धर्म मंगलरूप है । लोकमें चार सर्वोत्कृष्ट हैं—अरहत लोकमें सर्वोत्कृष्ट है, सिद्ध लोकमें सर्वोत्कृष्ट है, साधु लोकमें सर्वोत्कृष्ट हैं, केवली भगवानसे प्रतिपादन किया हुआ धर्म लोक में सर्वोत्कृष्ट है । मैं इन चारोंकी शरणको प्राप्त करता हूँ—श्री अरहंत परमेष्ठी की शरणमें जाता हूँ,—श्री सिद्ध परमेष्ठी की शरणमें जाता हूँ, श्री साधु परमेष्ठी

१—यहा पर जो क्रिया करनी हो उस क्रियाका नाम लेकर यह मंत्र बोलना चाहिये ।

की शरणमें जाता हूं और श्री केवली भगवानसे प्रतिपादन किये हुये धर्मकी शरणको प्राप्त होता हूं ।

अङ्काङ्जदीवदोसमुद्देशु पण्णरसकम्मभूमिसु, जावअरहंताणं, भयवं-
ताणं, आदियगणं, तिञ्चयराणं, जिणाणं, जिणोत्तमाणं केवलियाणं, सिद्धाणं
बुद्धाणं, परिणिव्वुदाणं, अंतगणाणं, पारयडायां धम्माइरियाणं, धम्मदेसि-
याणं, धम्मणायगाणं, धम्मवस्त्राउरंगचक्कवट्ठीणं, देवाहिदेवाणं, णाणाणं
दसणाणं, चरिचाणं सदा करोमि, किरियम्मं । करेमि भंते, सामायियं
सच्चसावज्जजोगं पच्चक्खामि, जावज्जीवं तिविहेण मणसा वचसा कायेण,
ण करेमि ण कारेमि करंतंणि ण समणुमणामि तस्स भंते अइचारं पडिक्क-
मामि, णिन्दामि, गरहामि जाव अरहंतणं भयवंताणं, पज्जुवासं करेमि
तावकालं पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि जीवियमरणे लाहालाहे संजोग-
विप्पजोगे य वंधुरि सुह दुक्खादो समदा सामायियं णाम ॥

अर्थ—जम्बूद्वीप, धातकी और आधा पुष्कर ये ढाई द्वीप कहलाते हैं ।
इन्हींके बीचमें लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र आजाते हैं । ढाई द्वीप इस
प्रकारसे व्यवस्थित है । इस ढाई द्वीपमें पांच भरतक्षेत्र पांच ऐरावतक्षेत्र और पांच
विदेह क्षेत्र ऐसी पन्द्रह कर्मभूमिया हैं । इन १५ कर्मभूमियोंमें अरहंत, सिद्ध,
आचार्य, उपाध्याय और साधु उत्पन्न होते हैं । भोगभूमियोंमें वा समुद्रोंमें कारण-
वश जाते हैं । भोगभूमियोंमें तो उपदेश देनेके लिये भी जाते हैं तथा समुद्रोंमें
उपसर्गके द्वारा उठाकर रखदिये जाते हैं या डाल दिये जाते हैं । इस प्रकार इन
परमेष्ठियोंकी सत्ता ढाई द्वीपमें रहती है ।

अनादिकालसे अनंतकालतक जितने अरहंत हो गये हैं और होंगे वे सब
अरहंत भगवान् वा ज्ञानवान् हैं अथवा त्रैलोक्यपूज्य हैं वे अरहंत आदि तीर्थ
प्रवर्तक कहलाते हैं । दिव्यध्वनि रूप श्रुतज्ञानकी प्रवृत्ति अथवा धर्मादिक की
प्रवृत्ति सबसे पहले अरहंतोंसे ही होती है । इसीलिये वे “आदियराण” कहलाते
हैं तथा वे ही अरहंत तीर्थकर कहलाते हैं । जिससे संसार रूपी समुद्रोंसे पार हो
जाय उसको तीर्थ कहते हैं । ऐसा तीर्थ श्रुतज्ञान है अथवा उत्तम क्षमादि धर्म है ।
क्योंकि यह जीव या तो शास्त्रज्ञान वा आत्मज्ञानसे मोक्ष प्राप्त करता है या धर्म

भारण कर मोक्ष प्राप्त करता है। उस अज्ञान अथवा धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर ही होते हैं और वे अरहंत अवस्था में ही होते हैं। इसके सिवाय वे अरहंत जिन कहलाते हैं। यह संसार अनेक प्रकारसे विषय दुःखोंसे भरा हुआ है तथा वह दुःख कर्मोंके उदयसे प्राप्त होता है। यदि कर्म न हों तो दुःख ही नहीं सकता। उन कर्मरूप शत्रुओंको भगवान् अरहंतदेवने नष्ट कर दिया है, कर्मोंको जीत लिया है इसीलिये भगवान् “जिन” कहलाते हैं, अथवा वे भगवान् “जिनोत्तम” कहलाते हैं। एकदेश कर्मोंको नाश करनेके कारण गणधरदेव अथवा ऋद्धिधारी मुनि वा सामान्य मुनि भी ‘जिन’ कहलाते हैं। उन सबमें उत्कृष्ट होनेके कारण भगवान् अरहंतदेवको ‘जिनोत्तम’ कहते हैं। इसके सिवाय वे भगवान् अरहंतदेव केवलज्ञानी कहलाते हैं। केवलज्ञानसे सुशोभित हैं अतः केवलज्ञानी कहे जाते हैं। इस प्रकार अनेक गुणोंसे तथा अनेक नामोंसे सुशोभित भगवान् अरहंतदेवकी स्तुति कर मैं आलोचना आदि क्रियाकर्म करता हूँ।

इसी प्रकार इस संसारमें भूत भविष्यत वर्तमानकाल सम्बन्धी जितने सिद्ध परमेष्ठी हैं उनकी भी मैं स्तुति कर आलोचना आदि क्रियाकर्म करता हूँ। वे भगवान् सिद्ध परमेष्ठी बुद्ध अथवा समस्त पदार्थोंके जानकार सर्वज्ञ हैं। इस विशेषणके देनेका अभिप्राय यह है कि योगमत वाले जिस प्रकार मुक्तअवस्थामें आत्माको जड़रूप मानते हैं वैसा आत्माका स्वरूप नहीं है किन्तु मुक्तावस्थामें आत्मा सर्वज्ञ ही रहता है। इस प्रकार इस विशेषणसे योगमतका खंडन हो जाता है। इसके सिवाय वे सिद्ध परमेष्ठी “परिणिव्वुदाण” अर्थात् परिनिर्वृत्त वा परम सुखी हैं। परमसुखी अर्थात् आनन्दसुखी कहनेसे सांख्यमतका खंडन हो जाता है। सांख्यमतवाला मुक्त अवस्थामें आत्माको शुद्धचैतन्य स्वरूप मानता है तथा ज्ञानसुख आदि गुणोंसे सर्वथा रहित मानता है परंतु वास्तवमें सांख्यमतका यह मानना सर्वथा मिथ्या है। क्योंकि ज्ञान और सुख दोनों ही आत्माके स्वभाव हैं, इसलिये वे कभी भी आत्मासे भिन्न नहीं हो सकते। संसारमें जो आत्मा दुःखी और अज्ञानी दिखाई देते हैं उसका कारण उनके कर्म हैं। कर्मके उदयसे ही यह जीव अज्ञानी और दुःखी दिखाई देते हैं। परन्तु मोक्ष अवस्थामें वे कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, इसलिये आत्माका वह अनंतज्ञान और अनन्तसुख पूर्णरूपसे-प्रगटरूपसे प्रगट होजाता है। इसप्रकार इस अनन्तसुखी विशेषणसे सांख्यमत

का खंडन होजाता है। इसके सिवाय वे भगवान् सिद्धपरमेष्ठी “अन्तयडाण” अर्थात् अन्तकृत हैं। जो ज्ञानावरणादि समस्त कर्मोंको तथा उन कर्मोंके उदय से होनेवाले संसारको नाश करदे उनको अन्तकृत कहते हैं। भगवान् सिद्धपरमेष्ठीने भी समस्तकर्मोंको और संसार परम्पराको नाश कर दिया है, इसलिये वे अन्तकृत कहलाते हैं। नैयायिक और वैशेषिक मतवाले ईश्वरको सदा मुक्त मानते हैं। उसका खंडन करनेके लिये ही सिद्धोंका यह अन्तकृत विशेषण दिया है। कोई भी प्राणी सदा मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्त शब्दका अर्थ छूटना है, कर्मोंसे मुक्त होनाही मोक्ष अथवा मुक्ति कहलाती है, अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी कर्मोंसे छूटकर ही मुक्त होता है ईश्वर भी इसीप्रकार मुक्त हुआ है। इसलिये वह सदा मुक्त नहीं कहला सकता अथवा अन्तकृत शब्दसे अन्तकृत केवली लेने चाहिये। एक एक तीर्थंकरके समयमें दश-दश अन्तकृत केवली होते हैं, जो कि अत्यन्त घोर उपसर्गका निमित्त पाकर अन्तर्मुहूर्तमें ही घातिया कर्मों का नाश कर डालते हैं तथा उसी अन्तर्मुहूर्तमें केवलज्ञान पाकर तथा बाकीके समस्त अघातिया कर्मोंका नाश कर उसी अन्तर्मुहूर्तमें सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे सिद्धपरमेष्ठीको अन्तकृत केवली कहते हैं। ऐसे अन्तकृत केवलीकी स्तुतिकर्म क्रिया कर्म करता हू। इसके सिवाय वे सिद्ध परमेष्ठी अथवा अन्तकृत केवली ‘पारयडाण’ अर्थात् संसाररूपी समुद्रसे पार करने वाले हैं अथवा ‘पारगमाण’ ऐसा भी पाठ है। पारगमाण का अर्थ पारंगत होता है। वे भगवान् इस संसार रूपी समुद्रसे पार हो चुके हैं, इसीलिये पारंगत कहलाते हैं। इसप्रकार अनेक गुणोंको तथा अनेक नामोंको धारण करनेवाले भगवान् सिद्ध परमेष्ठीकी स्तुति कर मैं आलोचना आदि क्रिया कर्म करता हू।

इसीप्रकार इस संसारमें भूत, भविष्यत्, वर्तमानकाल सम्बन्धी जितने आचार्य हैं उनसबकी मैं स्तुति कर आलोचना आदि क्रिया कर्म करता हूँ। वे आचार्य ‘धम्माडरियाण’ कहलाते हैं। धर्म शब्दका अर्थ चारित्र है। लिखा भी “चारित्त खलु धम्मो” अर्थात् निश्चयसे चारित्रही धर्म है, अथवा उत्तम क्षमा, मार्दव आदि भी धर्म कहलाते हैं। उस चारित्र रूप धर्मको अथवा उत्तम क्षमादि दशलक्षण रूप धर्मको जो स्वयं आचरण करें अथवा अन्य शिष्योंसे आचरण करावें—स्वयं पालन करें और शिष्योंसे पालन करावे उनको आचार्य कहते हैं; ऐसे आचार्योंकी

स्तुति कर आलोचनादि क्रिया कर्म करता हूँ ।

तथा मैं उपाध्यायीकी स्तुति कर क्रिया कर्म करता हूँ । वे उपाध्याय 'धम्म-
देसियाणं' कहलाते हैं । चारित्र रूप धर्मका अथवा उत्तम क्षमादि दशलाक्षणिक
रूप धर्मका जो उषदेश दे, शिष्योंको अध्ययन करावें उनको उपाध्याय परमेष्ठी
कहते हैं । ऐसे उपाध्याय परमेष्ठीकी स्तुति कर मैं आलोचना आदि क्रिया कर्म
करता हूँ ।

इसीप्रकार साधु परमेष्ठीकी स्तुति कर क्रिया कर्म करता हूँ । साधु परमेष्ठी
'धम्माणाय गाण' कहलाते हैं । जो चारित्ररूप धर्मका अथवा दशलाक्षणिक
रूप धर्मको अनुष्ठान करें-पालन करें उनको साधु परमेष्ठी कहते हैं । ऐसे समस्त
साधुओंकी स्तुति कर मैं आलोचना आदि क्रिया कर्म करता हूँ ।

अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांचो ही परमेष्ठी "धम्म-
वरचाउरंगचक्कवट्टीण" कहलाते हैं । धर्म ही एक सबसे उत्तम चतुरंग सेना
कहलाती है, क्योंकि अपने कार्य करने में अर्थात् आत्माका कल्याण करनेमें धर्म
का प्रसार वा वृद्धि किसी से किसी प्रकार भी रोकी नहीं जा सकती । ऐसे धर्मरूप
चतुरंग सेनाके जो चक्रवर्ती हों-एक मात्र स्वामी हों उनको "धम्मवरचाउरंग-
चक्कवट्टीण" कहते हैं । ये पांचो ही परमेष्ठी धर्मकी वृद्धि करनेके लिये धर्मरूपी
चतुरंग सेनाके नायक है इसलिये "धम्मवरचाउरंगचक्कवट्टीण" कहलाते हैं ।
इसके सिवाय ये पांचो ही परमेष्ठी "देवादिदेवाण" कहलाते हैं जो चतुर्निकाय
देवोंके द्वारा भी पूज्य हों, वंदनीय हों, चतुर्निकाय देवभी जिनको अधिदेव अथवा
देवाधिदेव मानें उनको 'देवाधिदेव' कहते हैं । ये पांचों ही परमेष्ठी देवाधिदेव हैं,
क्योंकि समस्तदेव इनके लिये वंदना करते हैं । ऐसे पांचो परमेष्ठीयोंकी मैं स्तुति
करता हूँ तथा क्रियाकर्म करता हूँ ।

इस प्रकार गुणियोंकी स्तुति कर अब गुणोंकी स्तुति करते हैं । मैं सम्यग्ज्ञान
की, सम्यग्दर्शनकी तथा सम्यक्चारित्रकी सदा स्तुति करता हूँ । इन तीनों रत्नों
का सदा क्रियाकर्म करता हूँ ।

यद्यपि इस आत्मामें अनन्त गुण हैं तथापि मोक्षके कारण ये तीन ही रत्न-
त्रय हैं । इसलिये समस्त गुणोंमें ये ही प्रधान हैं । अतएव उन्हीं तीनों गुणोंकी
स्तुति की है ।

आगे-सामायिक करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

करोमि भंते सामायियं सव्वसावज्जजोगं पच्चक्खामि जावज्जीवं तिविहेण
मणसा वचसा कायेण ण करेमि, ण कारेमि, करंतंपि ण समणुमणामि ।
तस्स भंते अइचारं पडिक्कामि णिंदामि गरहामि जाव अरहंताणं भयवंताणं
पज्जुवासं करेमि तावकालं पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि ।

अर्थः— अरहंत आदि पांचों परमेष्ठियोंका क्रियाकर्म करता हुआ मैं हे
भगवान् ! सबसे पहले सामायिक करता हूँ जिसमें रागद्वेषका सर्वथा त्याग कर
माध्यस्थ भाव धारण किये जाय उसको सामायिक कहते हैं । लिखा भी है—

जीवियमरणे लाहालाहे संजोग विप्पजोगे य ।

बंधुरि सुहदुक्खादो समदा सामायियं णाम ॥

अर्थः— जीवित रहनेमें, मरनेमें, लाभमें, अलाभमें, संयोगमें, वियोग में,
बंधुओंमें, शत्रुओंमें, सुखमें तथा दुःखमें सबमें जो समता धारण कहता है, किसी
में राग-द्वेष नहीं करना है उसको सामायिक कहते हैं ।

ऐसे सामायिकको करता हुआ मैं मन वचन कायकी समस्त अशुभ प्रवृ-
त्तियोंका त्याग करता हूँ तथा वह त्याग जीवन पर्यंत करता हूँ और मन वचन
काय कृत कारित अनुमोदना से करता हूँ । भावार्थ मन वचन कायकी अशुभ
प्रवृत्तियोंको न तो मैं शरीरसे करूंगा, न वचनसे कराऊंगा और न करते हुए
की मनसे अनुमोदना करूंगा । अथवा मैं कायसे न करूंगा न कराऊंगा और
न अनुमोदना करूंगा इसी प्रकार वचनसे और मनसे न करूंगा, न कराऊंगा
और न अनुमोदना करूंगा ।

हे भगवान् ! मैं जो अरहंत सिद्ध आदि पांचों परमेष्ठियोंका क्रिया कर्म करता
हूँ उसमें होनेवाले अतिचार वा दोषों का भी त्याग करता हूँ । उन दोषों की वा
अतिचारोंकी निंदा करता हूँ और गर्हा करता हूँ । जो दोष किये हैं उनके लिये
अपने आत्मा की साक्षीपूर्वक “हाय ! यह काम मैंने बहुत ही बुरा किया है” इस
प्रकार हृदयमें भावना रखना निंदा कहलाती है, तथा गुरुके सन्मुख जाकर उनकी
साक्षीपूर्वक उन्हीं दोषोंकी निंदा करना गर्हा कहलाती है । इस प्रकार मैं लगे
हुए दोषोंकी निंदा और गर्हा करता हूँ । और अतिचारोंका त्याग करता हूँ ।

मै केवल अशुभ क्रियाओंका त्याग ही नहीं करता किंतु संसार में जितने अर-
हंत हैं जो कि अनंतज्ञानी और पूज्य हैं उनका जबतक मैं विशुद्ध मनसे पर्युपासन
करता हूं जबतक उन अरहंतदेवकी सेवा करता हूँ वा उनका स्मरण करता हूँ
तबतक मैं पाप कर्मों का त्याग कर देता हूं। जन्ममरणरूप संसारको बढ़ानेवाले
जितने अशुभ कर्म हैं उन सबको पाप कहते हैं। अथवा पापोंके लिये जो क्रिया
की जाती है, जो व्यापार किया जाता है उसको भी पापकर्म कहते हैं। ऐसे पाप
कर्मों का मैं त्याग करता हूं। तथा जन्ममरणरूप संसारकी प्रवृत्तिके कारणजो
चेष्टा है- जो चारित्र्य है वा व्यापार है उसको दुश्चरित्र वा दुश्चरिय कहते हैं, ऐसे
दुश्चरित्रको भी मैं छोड़ता हूँ। पापकर्म और दुश्चरित्र दोनोंका मैं त्याग करता
हूँ और इन दोनोंसे मैं उदासीन होता हूँ।

(यहां पर णमोकार मंत्रका नौवार जाप करना चाहिये)

चौबीस तीर्थङ्करोंकी स्तुति--

त्थोस्सामिहं जिणवरे तित्थयरे केवली अणंतजिणे ।
णरयवरलोयमहिण विहुयरयमले महप्पणे ॥ १ ॥
लोयस्सुज्जोययरे धम्मं तित्थंकरे जिणे वंदे ।
अरहंते कित्तिस्से चउवीसं चैव केवलिणो ॥ २ ॥
उसहमजियं च वंदे संभवमभिणंदणं च सुमइं च ॥
पउमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ ३ ॥
सुविहिं च पुप्फयंतं सीयल सेयं च वासुपुज्जं च ।
विमलमणंतं भयवं धम्मं संति च वंदामि ॥ ४ ॥
कुथुं च जिणवरिंदं अरं च मल्लिं च सुव्वयं च णमिं ।
वंदाम्यरिड्डणेमिं लह पासं वड्ढमाणं च ॥ ५ ॥
एवंमए अभित्थुया विहुयरयमला पहीणजरमरणा ।
चउवीसंपि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ६ ॥
किच्चियवंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा ।
आरोग्गणाणलाहं दिंतु समाहिं च मे बोहिं ॥ ७ ॥

चदेहिं णिम्मलयरा आइच्चेहि अहियपहा सत्ता ।

मायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ८ ॥

अर्थ— अब मैं वृषभादि महावीर पर्यंत चौबीसो तीर्थंकरोंकी स्तुति करता हूँ । वे समस्त तीर्थंकर 'जिनवर' कहलाते हैं । गणधरादिक देव एकदेश जिन कहलाते हैं और उनमें जो श्रेष्ठ हो उनको जिनवर कहते हैं । इसके सिवाय वे तीर्थंकरकेवली 'अणंतजिण' हैं । केवलज्ञान विशिष्ट होनेसे केवली कहलाते हैं । तथा जिसका अन्त न हो ऐसे संसार को अनंत कहते हैं । भगवान् तीर्थंकर देव ऐसे अनंत संसारको जीतनेवाले हैं, इसलिए 'अनंत जिन' कहलाते हैं । अथवा जिनका अंत न हो ऐसे अनंत संख्या विशिष्ट तीर्थंकरोंको 'अनंतजिन' कहते हैं । इससे त्रिकालवर्ती समस्त तीर्थंकरोंका ग्रहण होजाता है । फिर वे तीर्थंकर 'णर-यवरलोएमहिये' कहे जाते हैं । जो नर-मनुष्योंमें प्रवर-श्रेष्ठ हों उनको 'नरप्रवर' कहते हैं । ऐसे लोग चक्रवर्ती आदि कहलाते हैं । ऐसे चक्रवर्ती आदि के द्वारा भी-वे भगवान् पूज्य है, इसलिये वे 'नरप्रवरमहित' कहलाते हैं । अथवा वे तीर्थंकरपरमदेव मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं इसलिये 'नरप्रवर' कहलाते हैं और इन्द्रादिकोंके द्वारा पूज्य हैं, इसलिये महित वा पूज्य कहलाते हैं । वे तीर्थंकर परमदेव 'विहुयर-यमले' अर्थात् 'विधूतरजोमल' हैं । जिसप्रकार धूल बादलोको ढक लेती है, उसी प्रकार ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दोनो कर्म आत्माके ज्ञानदर्शन स्वभाव को ढक लेते हैं, इसलिए इन कर्मों को रज कहते हैं । भगवान् तीर्थंकरने इन दोनों कर्मरूपी रजकी मलिनता नष्ट कर दी है इसलिये वे 'विधूत रजोमल' कहे जाते हैं । इसके सिवाय वे भगवान् 'महप्पण' है । मह शब्दका अर्थ पूजा है । जो पूजाको प्राप्त हुए हों—जिनकी पूजा तीनों लोकोंने की हो उनको 'मह आपन्न' कहते हैं । अथवा भूतपूर्व नयकी अपेक्षासे तीर्थंकरको 'महाप्रज्ञ' भी कहते हैं । प्रज्ञाशब्द का अर्थ बुद्धि है, उसका उपयोग वा सत्ता केवलज्ञान अवस्था में नहीं हो सकती, इसलिये यहां पर गृहस्थावस्था की महाबुद्धिमत्ताका ग्रहण करते हैं ॥१॥

इसके सिवाय वे भगवान् अपने केवलज्ञान के द्वारा लोकाकाशके समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले हैं इसलिये वे लोयस्सुज्जोययरे, अर्थात् 'लोकस्य द्योतक' कहे जाते हैं । ऐसे तीर्थंकरोंकी मैं स्तुति करता हूँ । तथा चारित्ररूप धर्म

की स्तुति करता हूँ वा उत्तम क्षमा मार्दव आदि दशलक्षारूप धर्मकी स्तुति करता हूँ, समस्त-तीर्थकरोंकी स्तुति करता हूँ। तथा मुंडकेवली, मूककेवली, अंत-कृतकेवली आदि अन्य समस्त अरहतोंकी स्तुति करता हूँ। घातिया कर्मोंके नाश कर देनेसे जिनको अनंतज्ञान प्रगट हो जाता है उनको अरहंत कहते हैं। ऐसे अरहंत ही तीर्थकर कहे जाते हैं। इस वर्तमानकाल सम्बंधी अवसर्पिणीकालमें जो २४ तीर्थकर हुये हैं जो कि केवलज्ञान से सुशोभित हुये हैं ऐसे २४ तीर्थकरोंका अलग अलग नाम लेकर और उनके लिये अलग अलग प्रणाम करता हुआ उन सबकी स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥

मै श्री वृषभदेव और अजितनाथके लिये वंदना करता हूँ। शंभवनाथ, अमिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ और भगवान् चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रदेवकी वंदना करता हूँ ॥ ३ ॥

भगवान् सुविधिनाथ (पुष्पदंत), शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ और भगवान् शांतिनाथ के लिये वंदना करता हूँ ॥४॥

भगवान् जिनेन्द्रदेव कुन्थुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमिनाथ, अरिष्टनेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्द्धमान भगवान्के लिये मै वंदना करता हूँ ॥ ५ ॥

आगे अपनी शक्ति और भक्तिके अनुसार जिनकी स्तुति की है ऐसे उन भगवानसे अपना आत्मकल्याणरूप फल चाहते हुये स्तुतिकार कहते हैं कि वे भगवाम् चौवीसों तीर्थकर अनुपम और अचिंत्य गुणोंसे सुशोभित हैं तथा 'विद्वययमला' अर्थात् घातियाकर्मरूपी रज और मलसे सर्वथा रहित हैं और 'पहीण-जरमरणा, अर्थात् बुढ़ापा जन्म मरण आदि समस्त दोषोंसे रहित मुक्त है ऐसे तीर्थकर जिनेन्द्रदेव के चौवीसों नाम समस्त पापोंको नाश करनेवाले और परस्पर एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं उन सबकी मैने स्तुति की है। इसलिये वे चौवीसो तीर्थकर मुझ पर प्रसन्न हो ॥ ६ ॥

ये चौवीसों तीर्थकर सर्वोत्कृष्ट है और कृतकृत्य है, इनकी मैने वचनसे स्तुति की है, मनसे वंदना की है और कायसे पूजाकी है। ऐसे ये तीर्थकर परमदेव आरोग्यज्ञानकी प्राप्ति देवें। जिसप्रकार रोग शरीरका घात करते हैं उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म भी आत्माके स्वरूपका घात करता है। इसलिये वह रोग समान

है। जिसके वह रोगरूप ज्ञानावरणकर्म न हो उसे अरोग कहते हैं, उस अरोग के भावको आरोग्य कहते हैं। उस आरोग्यके साथ जो ज्ञान होता है उसे आरोग्यज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान समस्त ज्ञानावरणकर्मसे रहित है ऐसा केवलज्ञान वा पूर्णज्ञानको 'आरोग्यज्ञान' कहते हैं। ऐसे केवलज्ञान की प्राप्ति देवें अथवा रोग शब्दका अर्थ मिथ्यात्व है, क्योंकि वह मिथ्यात्व ज्ञानको विपरीत बना देता है। ऐसे मिथ्यात्वसे रहित जो ५ प्रकारका सम्यग्ज्ञान है उसे देवे। तथा २४ ही तीर्थकर मुझे समाधि अर्थात् धर्मध्यान, शुक्लध्यानकी प्राप्ति देवे, अर्थात् चारित्ररूप समाधिको देवे, और बोधि अर्थात् सम्यग्दर्शनको देवे। जिससे पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप जाना जाय उसे बोधि कहते हैं। सम्यग्दर्शनके होनेसे ही पदार्थों का यथार्थस्वरूप जाना जाता है। इसलिये सम्यग्दर्शनको ही बोधि कहते हैं। इस प्रकार वे भगवान् मुझे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय की प्राप्ति देवें ॥ ७ ॥

भगवान् सिद्ध परमेष्ठी समस्तकर्मोंसे रहित हैं, इसलिये वे चन्द्रमासे भी अन्यंत निर्मल हैं। समस्त लोक को प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञान की प्रभासे सुशोभित हैं, इसलिये वे 'आइच्चोहे' अर्थात् आदित्य — सूर्यसे भी 'अहियपहा' अर्थात् अधिक प्रभावशाली हैं अथवा वे चौबीसो तीर्थकर चन्द्रमासे भी अधिक निर्मल हैं और शरीरकी प्रभा असाधारण करोड़ों सूर्योंकी प्रभाके समान होनेके कारण सूर्यसे भी अधिक प्रभायुक्त हैं तथा शस्त अर्थात् अत्यंत प्रशंसनीय है अथवा परम उपशमको प्राप्त हो चुके हैं। अथवा 'अहियं पयासंता' ऐसा भी पाठ है। उसका अर्थ ऐसा है कि वे भगवान् सूर्यसे भी अधिकरीतिसे पदार्थों को प्रकाशित करनेवाले हैं। तथा वे भगवान् समुद्रके समान हैं गंभीर हैं। यद्यपि उनमें अनंतगुणरूपी रत्न हैं तथापि समुद्रके समान गंभीरताके कारण दिखाई नहीं देते। ऐसे संसारके दुःखोंसे सर्वथा रहित सिद्ध परमेष्ठी स्तुति करने वाले मुझको समस्त कर्मोंसे रहित ऐसी सिद्ध अवस्था को देवे मुझे मोक्षप्रदान करें ॥ ८ ॥

श्रीसिद्धभक्तिः ।

(स्रग्धरा)

सिद्धानुद्धूतकर्मप्रकृतिसमुदयान्साधितात्मस्वभावान्,
वंदे सिद्धिप्रसिद्धयैतदनुपमगुणप्रग्रहाकृष्टितुष्टः ।

सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणगुणगणोच्छादिदोषापहारात्,
योग्योपादानयुक्त्या दृषद् इह यथा हेमभावोपलब्धिः ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—(उद्धूतकर्मप्रकृति समुदयान्) जिन्होंने ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का नाश कर दिया है, (साधितात्मस्वभावान्) जिन्होंने आत्मस्वभाव की सिद्धि करली है ऐसे (सिद्धान्) सिद्ध परमेश्वरको मैं (तदनुपमगुणप्रग्रहाकृष्टितुष्ट) उनके अनुपम, अनंत गुणरूपी रस्सीसे खिंच जाने के कारण संतुष्ट हुआ (सिद्धिप्रसिद्धयै) आत्मसिद्धिकी प्राप्ति के लिये (वंदे) वंदना करता हूँ। (यथा) जिसप्रकार (इह) इस संसार में (योग्योपादानयुक्त्या) योग्य उपादान सामग्री के मिलने से (दृषदः) पत्थरसे (हेमभावोपलब्धिः) स्वर्णभावकी प्राप्ति होती है “यथा” उसीप्रकार (प्रगुणगुणगणोच्छादिदोषापहारात्) अनंतज्ञानादि गुणोंका आच्छादन करनेवाले अथवा विकृतकरनेवाले दोषों—कर्मोंके नाश होजाने से (स्वात्मोपलब्धिः) शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि को (सिद्धिः) सिद्धि कहते हैं ॥ १ ॥

भावार्थः—जिसप्रकार भट्टी, धमनी आदि कारणोंकी युक्तिपूर्वक योजना करनेसे सुवर्णपाषाण में से किट्ट कालिमा आदि मैल सब निकल जाता है और शुद्ध सुवर्णकी प्राप्ति होजाती है उसी प्रकार यह संसारी आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों से अत्यंत मलिन हो रहा है। इस आत्मा में ज्ञानादिगुण सर्वोत्कृष्ट है जो कि किसी भी द्रव्यमें नहीं रहते। अथवा जिनसे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित हो ऐसे ज्ञानदर्शन आदि आत्मा में सर्वोत्कृष्ट गुण है अथवा अनंतज्ञान अनंतदर्शन आदि सर्वोत्कृष्ट गुण हैं ऐसे अनंतगुणों का समुदाय आत्मा में है। इस

संसारी आत्माके साथ जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि घानियां कर्म लगे हुये हैं वे सब आत्मके उन अनन्तज्ञान व अनन्तदर्शन रूप गुणों का घात करते हैं इसीलिये उन समस्त कर्मोंको दोष कहते हैं। उन समस्त घातिया, अधातिया कर्मरूपी दोषोंका सर्वथा नाश वा अभाव हो जानेसे जो अनन्तज्ञानादि स्वरूप शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होजाती है उसको "सिद्ध" कहते हैं। उस सिद्धको जो प्राप्त हो चुके हैं, जिनको उस शुद्ध आत्मतत्त्व की प्राप्ति हो गई है उन्हें सिद्ध कहते हैं। वे भगवान कर्मों की प्रकृतियोंके समुदायसे सर्वथा रहित होते हैं। संसार में बहुतसे ऐसे भी मनुष्य हैं जिनको अंजनगुटका सिद्ध होजाता है, वे एक प्रकार का सिद्ध अंजन बनाते हैं जिसको आखमें लगानेसे वे किसी को दिखाई नहीं देते तथा उनको सब कुछ दिखता है। ऐसे मनुष्यों को अंजनगुटका सिद्ध कहते हैं। वे अंजनगुटका सिद्ध, सिद्ध नहीं हैं किन्तु जिनके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हींको सिद्ध कहते हैं। यही नचित करने के लिये आचार्यने सिद्धोंका स्वरूप समस्त कर्मप्रकृतियोंसे रहित बतलाया है। इसके सिवाय जिन्होंने अनन्तज्ञानदर्शन स्वरूप अपने आत्मा का निजस्वभाव सिद्ध कर लिया है उन्हींको सिद्ध कहते हैं।

बहुतसे नैयायिक आदि मतवाले ईश्वरको सदा ज्ञानी मानते हैं, ईश्वरमें सदा से रहनेवाला ज्ञान मानते हैं। उनका खंडन करनेके लिये आचार्य कहते हैं कि जिन्होंने अनन्तज्ञान प्राप्त कर लिया है वे ही सिद्ध कहलाते हैं। ईश्वरमें सदासे ज्ञान कर्मा नहीं हो सकता। पूर्णज्ञानप्राप्त करनेके लिये ज्ञानावरणादि कर्मोंका नाश करना पड़ता है, तब कहीं जाकर पूर्णज्ञान प्रगट होता है। जिनके पूर्णज्ञान प्रगट हो जाता है उन्हींको सिद्ध कहते हैं। उनसिद्धोंके उपमारहित अनन्तगुण हैं, उन अनन्तगुणरूपी रस्सी के द्वारा उन सिद्धोंकी ओर खिच जानेके कारण अत्यंत संतुष्ट हुआ मैं उस शुद्ध आत्मस्वरूप सिद्धिकी प्राप्तिके लिये उन सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार करता हूँ।

आगे— नैयायिक बौद्ध आदि अन्य दर्शनकार जो मोक्षका स्वभाव मानते हैं—उसका खण्डन करते हुये आचार्य मोक्षका यथार्थ स्वरूप बतलाते हुये आत्मतत्त्वका निरूपण भी करते हैं—

नाभावः सिद्धिरिष्टा न निजगुणहतिस्तत्तपोभिर्न युक्तेः ।

अस्त्यात्मानादिवद्धः स्वकृतजफलभुक् तत्क्षयान्मोक्षभागी ॥

ज्ञाता दृष्टा स्वदेहप्रमितिरुपसमाहारविस्तारधर्मा ।

ध्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः ॥२॥

अन्वयार्थः—(अभावः) “दीपक के बुझने की तरह” आत्मतत्त्वके अभाव को (सिद्धिः) सिद्धि (न इष्टा) नहीं माना जा सकता है, उसी प्रकार (निजगुणहतिः ‘सिद्धिः न इष्टा’) अपने विशेष गुणों के अभाव को भी सिद्धि मानता इष्ट नहीं है । क्योंकि जो लोग आत्माभाव और विशेष गुणों के नाशको सिद्धि मानते हैं वे अपने ही नाश करनेके लिये (तत्तपोभिः न युक्तेः) तपश्चर्या आदि के द्वारा प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं । साथ ही जिनका ऐसा मत है कि आत्म तत्त्व ही नहीं है, उनका यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि (अनादिवद्धः) अनादिकाल से कर्मों से बद्ध, (बंधा हुआ) (स्वकृतजफलभुक्) अपने द्वारा किये हुए अच्छे बुरे कर्मों के फलों को भोगनेवाला, (ज्ञाता) जाननेवाला (दृष्टा) देखनेवाला (स्वदेहप्रमितिः) अपने द्वारा प्राप्त शरीर के प्रमाणमें रहनेवाला, (उपसमाहारविस्तारधर्मा) संकोच और विस्तार धर्मवाला, (ध्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मा) उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वरूप तथा (स्वगुणयुतः) अपने ज्ञानादि गुणों से युक्त (आत्मा अस्ति) आत्मा है । (इत. अन्यथा साध्यसिद्धिः न) यदि ऐसा न माना जावे तो इष्ट साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥ २ ॥

भावार्थः—बौद्ध और वैशेषिक आदि मतवाले मोक्षका स्वरूप अभावरूप मानते हैं । वे कहते हैं कि जिमप्रकार तेलके समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है फिर वह किसी भी दिशा व विदिशामें जाकर नहीं ठहरता किन्तु वह सर्वथा नष्ट हो जाता है, उसीप्रकार आत्मा की सन्तान का जब क्लेश वा दुखादिक नष्ट हो जाता है तब आत्मा का सर्वथा अभाव हो जाता है । इसी को मोक्ष कहते हैं ऐसा बौद्ध मानते हैं परंतु आचार्य इसका खंडन करते हुये कहते हैं कि मोक्षका स्वरूप अभावस्वरूप नहीं है । क्योंकि ऐसा कोई भी बुद्धिमान नहीं है- जो अपना नाश करनेके लिये प्रयत्न करे ! तथा मोक्ष के लिये प्रयत्न किया ही जाता है । इसलिये बौद्ध का माना हुआ मोक्षका स्वरूप ठीक नहीं है ।

योग कहते हैं कि बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और

संस्कार ये आत्मा के विशेष गुण हैं। इनका अत्यन्त नाश हो जाना ही मोक्ष है। परन्तु आचार्य कहते हैं कि योगोंके द्वारा माना हुआ मोक्षका यह लक्षण भी ठीक नहीं है। क्योंकि मोक्षका स्वरूप आत्माके गुणोंके नाश होने रूप नहीं है। इसका भी कारण यह है कि यदि आत्मा के गुणोंका नाश होना ही मोक्ष मान लिया जाय तो उनका तपश्चरण करना, व्रत पालना आदि कुछ भी नहीं बन सकेगा। क्योंकि अपने आत्मा का नाश करने के लिये अथवा अपने आत्मा के गुणोंका नाश करनेके लिये कोई भी मनुष्य व्रत वा तपका पालन नहीं करता। संसारमें जो तप और व्रतोंका पालन किया जाता है वह आत्माको दुर्गतसे बचाने के लिये और आत्माके गुणोंकी वृत्ति करनेके लिये ही किया जाता है। अतः मानना चाहिये कि आत्माके गुणोंका नाश होना मोक्षका स्वरूप नहीं है।

चार्वाक कहता है कि आत्मा ही कोई पदार्थ नहीं है, आत्माका ही सर्वथा अभाव है, फिर मोक्ष किसकी ? परन्तु चार्वाकका भी यह कहना ठीक नहीं है। इसीका खंडन करते हुये आचार्य कहते हैं कि आत्मा है और वह अनादिकालसे चला आ रहा है। कोई कोई लोग आत्माका अस्तित्व मानते तो हैं परन्तु उस आत्माको ही मानते हैं—भूत और भविष्यत कालमें उसका अस्तित्व नहीं मानते। इसी बातका खंडन करनेके लिये आचार्य कहते हैं कि वह आत्मा अनादिकालसे चला आ रहा है।

अथवा यो कहना चाहिये कि यह आत्मा अनादिकालसे कर्मोंसे बंधा हुआ चला आ रहा है। संतान प्रति संतान रूपसे बंधे हुए कर्मोंके द्वारा वधनबद्ध होता हुआ चला आ रहा है। इस कथनसे आचार्य ने सांख्यमत का खंडन किया है। सांख्यमतवाला मानता है कि आत्मा तो सदा मुक्त ही रहता है। वह आत्मा कभी कर्मबद्ध वा पापोसे लिप्त नहीं होता। प्रकृति ही कर्मोंसे बद्ध वा पापोसे लिप्त होती है और वही प्रकृति उन कर्मोंसे छूटती रहती है परन्तु इसका खंडन करते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्मा सदासे मुक्त नहीं है किन्तु अनादिकालसे कर्मबंधनबद्ध हो रहा है। इसलिये सांख्य का मानना सर्वथा अयुक्त है।

इसके सिवाय सांख्यमतवाला यह भी मानता है कि यह आत्मा कर्मोंको करता नहीं है किन्तु उन कर्मोंके फलोंका भोक्ता अवश्य है। परन्तु सांख्यमतका यह मानना भी सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है।

इसी बातको निरूपण करते हुये आचार्य कहते हैं कि वह अनादिकालसे चला आया आत्मा स्वयं-अपने आप कर्मोंको करता है और फिर उससे जो सुख दुख रूप फल प्राप्त होते हैं उनको भोगता है। यह जीव अपने मन वचन कायकी जैसी प्रवृत्ति करता है—जैसी कषाय उत्पन्न करता है उसीके अनुसार अपने कर्मोंका बंध करता है और फिर समयानुसार जो कुछ उन कर्मोंका फल प्राप्त होता है वह उसे भोगता पड़ता है। इसप्रकार आत्माका यथार्थ स्वरूप कह कर आचार्यने बौद्ध-त्रैशेषिक-योग-सांख्य-चार्वाक आदि सबका खंडन कर दिया है।

अब आचार्य यह दिखलाते हैं कि जब मोक्षका स्वरूप ऊपर लिखे अनुसार नहीं है तो फिर कैसा है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि इस आत्माने जो कर्म स्वयं किये हैं उनका अत्यंत नाश हो जाने से ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। उन कर्मोंका नाश उन-कर्मोंका फल भोग लेने पर भी होता है और बिना फल भोगे भी होता है—दोनों प्रकारसे होता है। परंतु उन कर्मोंका नाश हुये बिना कमी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती।

इसके सिवाय वह आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग स्वभाव सहित है। अनेक लोग आत्माका स्वरूप जड़-अचेतन मानते हैं अथवा केवल चैतन्यमात्र मानते हैं। इसका खंडन करनेके लिये आचार्य कहते हैं कि आत्मा जड़ नहीं और न ज्ञानशून्य केवल चैतन्यमात्र है किन्तु आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है—जानना और देखना उसका स्वभाव है। ज्ञान और दर्शन स्वभावको ही चैतन्य कहते हैं।

आत्माका परिमाण अपने शरीरप्रमाण रहता है, सांख्य-मीमांसक और योग मत वाले आत्माको व्यापक मानते हैं परंतु उनका यह कहना ठीक नहीं है। यदि सबका आत्मा व्यापक है और वह समस्त शरीरोंमें रहता है तो फिर सब जीवोंको एकसा ज्ञान होना चाहिये परंतु ऐसा तो होता नहीं है अतः सिद्ध होता है कि आत्मा व्यापक नहीं है किंतु शरीरके ही बराबर रहता है। कदाचित् यहां पर कोई यह शंका करे कि यदि आत्मा अपने शरीरके ही बराबर है तो फिर जो आत्मा हाथीके शरीरमें हैं वह हाथीके शरीरके बराबर है फिर वह मरकर यदि चींटीके शरीरमें जन्म ले, अथवा कोई चींटीको जीव हाथीके शरीरमें जन्मे तो

वह अपना परिमाण कैसे बदल सकता है ? इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि जिसप्रकार किसी दीपकको छोटे घरमें रखदे तो उतने ही घरमें वह प्रकाश फैल जाता है और यदि उसी दीपकको बड़े घरमें रखदे तो उसका प्रकाश फैलकर सब घरमें फैल जाता है । यदि उसी दीपकको घड़े में रखदे तो उसका प्रकाश उतना ही रह जाता है और मैदान में टांगदे तो दूर तक फैल जाता है । जिस प्रकार दीपकके प्रकाशमें संकोच होने और फैलनेकी शक्ति है उसीप्रकार आत्माके प्रदेशोंमें भी संकोच और विस्तार होनेकी शक्ति है । अपने २ कर्मोंके उदयसे यह जीव जब जैसा छोटा या बड़ा शरीर पाता है तब उसी परिमाण हो जाता है । जब छोटा शरीर पाता है तब आत्माके प्रदेश संकुचित होकर उसी छोटे शरीर रूप हो जाते हैं और जब बड़ा शरीर पाता है तब वे ही प्रदेश विस्तृत होकर उस बड़े शरीर रूप हो जाते हैं । बच्चेके शरीरमें आत्मा उतने ही परिमाण रूप है फिर शरीर बड़ा होने पर वे ही आत्मा के प्रदेश फैलकर उस बड़े शरीर रूप हो जाते हैं । यही कारण है कि शरीरके बढ़ जाने पर भी शरीरका कोई भी भाग ऐसा नहीं रहता जिसमें आत्मा न हो । इससे सिद्ध हो जाता है कि आत्माके प्रदेशोंमें संकोच विस्तार होने की शक्ति है । जब यह आत्मा कर्मोंके उदयसे छोटा शरीर पाता है तब उसके आत्माके प्रदेश संकुचित उसी शरीरके परिमाण हो जाते हैं तथा जब बड़ा शरीर पाता है तब वेही आत्मप्रदेश विस्तृत होकर उस बड़े शरीर रूप हो जाते हैं ।

इसके सिवाय वह आत्मा उत्पादव्ययध्रौव्य स्वरूप है । सांख्य-मीमांसक और योग कहते हैं कि आत्मा सर्वथा नित्य है । सर्वथा नित्य होनेके कारण उस में उत्पादव्यय नहीं हो सकता परंतु इन लोगोका यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि एक आत्मा जो आज सुखी है वही आत्मा कल दुखी हो जाता है तथा जो आज दुखी है वह कल सुखी है इस प्रकार आत्मामें उत्पाद और विनाश स्पष्ट रीति से प्रतीत होता रहता है । अतः आत्मा सर्वथा नित्य नहीं है किन्तु उत्पाद व्ययध्रौव्य स्वरूप है । बौद्धमतवाला मानता है कि आत्माका स्वभाव ज्ञानरूप है तथा ज्ञानमें सदा उत्पाद-विनाश होता रहता है । कभी ज्ञान बढ़ता है, कभी ज्ञान घटता है अतः सर्वथा नित्य नहीं है किन्तु उत्पादव्यय स्वरूप है । बौद्धमतवाला आत्माको ध्रौव्य स्वरूप ही मानता परंतु उसको यह

मानना भी ठीक नहीं है—क्योंकि यदि आत्मामें ध्रौव्यपना न माना जायगा तो “मै वहीं हूँ जो बालक अवस्थामें ऐसा था और कुमार अवस्थामें ऐसा था” यह जो प्रत्येक जीवको प्रत्यविज्ञान होता है सो नहीं होना चाहिये । यदि आत्माको सर्वथा उत्पादव्यय स्वरूप ही माना जायगा ध्रौव्यरूप न माना जायगा तो फिर लेन देनका व्यवहार वा धरोहर रखने और लेनेका व्यवहार कभी नहीं हो सकेगा परंतु ये सब व्यवहार होते हैं और “मै वहीं हूँ” यह प्रत्यभिज्ञान सबको होता है । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि आत्मा ध्रौव्यस्वरूप है । इस प्रकार आत्माका स्वरूप उत्पाद व्यय और ध्रौव्यस्वरूप बतला कर आचार्यने साख्य-मीमांसक-योग और बौद्धका खडन कर दिया है ।

इसके सिवाय वह आत्मा अपने ज्ञानादिगुणों से सुशोभित होनेके कारण ही उसके निज स्वरूपकी प्राप्ति अथवा मोक्षकी प्राप्ति होती है । यदि आत्माको ज्ञानादिक गुण विशिष्ट न माना जायगा तो फिर उसके निज स्वरूपकी प्राप्ति वा मोक्षकी प्राप्ति भी कभी नहीं हो सकती ज्ञानावरणादिक कर्म आत्माके ज्ञानादिकगुणोंको ढक लेते हैं—उन कर्मोंके नाश होनेसे वे ज्ञानादिक गुण प्रगट हो जाते हैं । इसीको निजस्वरूप अथवा मोक्षकी प्राप्ति कहते हैं । इससे सिद्ध होता है कि आत्मा को ज्ञानादिक गुण विशिष्ट माननेसे ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है अन्यथा कभी नहीं हो सकती !

आगे यह आत्मा स्वयंभू कैसे बनता है ? सो दिखलाते हैं—

स त्वन्तर्बाह्यहेतुप्रभवविमलसदर्शनज्ञानचर्या,
संपद्भेतिप्रघातक्षतदुरिततया व्यञ्जिताचिन्त्यसारैः ॥

कैवल्यज्ञानदृष्टिप्रवरसुखमहावीर्यसम्यक्त्वलब्धि,—

ज्योतिर्वातायनादिस्थिरपरमगुणैर्द्भुतैर्भासमानः ॥ ३ ॥

अन्वयार्थो— (सः) वह आत्मा (अन्तर्बाह्यहेतुप्रभवविमलसदर्शनज्ञान-चर्यासंपद्भेतिप्रघातक्षतदुरिततया) दर्शनमोहनीय आदि कर्म का क्षयोपसमादिरूप अंतरंग कारण और गुरूपदेश आदि बहिरंग कारणों से उत्पन्न होनेवाले तथा निर्मल ऐसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र्य संपत्ति रूपी शस्त्र के प्रघातसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय आदि कर्मोंके नाश हो जानेसे (व्यञ्जिताचिन्त्यसारैः) जिनकामाहात्म्य अचिन्त्य है ऐसे प्रगट ह्ये

(केवलज्ञानदृष्टिप्रवरसुखमहावीर्यसम्यक्तत्त्वलब्धिज्योतिर्वातायनादिस्थिरपरमगुरोः
 अद्भुतैः भासमानः तु "स्वयम्भूः भवति") केवलज्ञान, ज्ञायिक सम्यक्तत्व, अनं-
 तसुख, अनन्तवीर्य, अनन्तदर्शन, अनन्तदान, अनन्तलाभ, अनन्तभोग, अनन्त
 उपभोग, भामंडल, चौसठ चमर और तीन छत्र आदि तथा आश्चर्यकारी अन-
 तकाल रहनेवाले दूसरे अनन्त गुरो से दैदीप्यमान स्वयम्भू होता है ॥ ३ ॥

भावार्थः— दर्शनमोहनीयकर्मका उपशम क्षय और क्षयोपशम होना
 सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेके लिये अंतरंग कारण हैं तथा गुरुका उपदेश, जिनत्रि-
 वदर्शन, जातिस्मरण आदि बाह्य कारण है। इन अंतरंग और बाह्य कारणोंके
 मिलनेसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होनेके लिये दर्शनमोह-
 नीय और ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशमादि होना अंतरंग कारण है और गुरुका
 उपदेश, स्वाध्याय, तीव्रबुद्धि आदि बाह्य कारण हैं। सम्यक्चारित्र उत्पन्न होने
 के लिये मोहनीयकर्मकाक्षयोपशमादिक अंतरंग कारण है और गुरु उपदेश शरीर
 नंहनन आदि बाह्य कारण हैं। इन अंतरंग और बहिरंग कारणोंके मिलनेसे
 सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र प्रगट होते हैं तथा कर्मोंके विशेष
 क्षयोपशम होनेसे ये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र अत्यंत निर्मल हो जाते हैं। इस
 प्रकार ये निर्मल सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र आत्माकी संपत्ति है। कर्मोंका नाश
 करनेके लिये यही रत्नत्रयरूप संपत्ति आत्माका शस्त्र है। इस रत्नत्रयरूप शस्त्र
 के प्रबल प्रहारसे घातिया कर्म रूपी पाप बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह आत्मा
 अपने रत्नत्रयरूप शस्त्रके प्रबल प्रहारसे जिससमय घातिया कर्मोंको नष्ट कर
 देता है उसी समय इस आत्माके केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवीर्य
 अत्यंत निर्मल सम्यक्तत्व, ज्ञायिकदान, ज्ञायिकलाभ ज्ञायिकभोग, ज्ञायिक उप-
 योग, यथाख्यातचारित्र, भामंडल, चमर और आदि शब्द से छत्रत्रय आदि अनेक
 अनुपम विभूतिया प्राप्त होती है। ये ऊपर लिखी विभूतिया सिवाय घातिया कर्मों
 को नाश करनेवाले अरहंतोंके अन्य किसीके भी प्राप्त नहीं हो सकतीं। इन विभू-
 तियोंसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्तत्व आदि विभूतिया तो आत्मस्वभाव रूप
 हैं और वे शाश्वत-नित्य हैं। फिर उनका नाश कभी नहीं होता। वे शुद्ध मुक्त
 स्वरूप आत्माके साथ सदा बनी रहती हैं तथा भामंडल, छत्र, चमर, सिसासन
 आदि विभूतिया देवोपनीत हैं। वे शरीरके साथ तक रहती है। ये समस्त विभू-

तियां अद्भुत हैं, इनका चिंतवन भी नहीं किया जा सकता। इन विभूतियोंका माहात्म्य अचिंत्य हैं। वह अचिंत्य माहात्म्य स्पष्ट-प्रगट दिखाई देता है।

जब यह आत्मा घातिया कर्मोंके नाश कर देने पर ऊपर लिखे अचिंत्य और परम गुणोंके द्वारा दैदीप्यमान होता है तभी यह आत्मा स्वयंभू वा अरहंत बन जाता है।

यह आत्मा किन २ कौमोंको करता हुआ स्वयंभू होता है-यही बात आगे दिखलातेहैं:-

जानन्पश्यन्समस्तं सममनुपरतं संप्रतृप्यन्वितन्वन्,
धुन्वन्ध्वान्तंनितान्तं निचितमनुपमं प्रीणयन्नीशभावम् ।
कुर्वन्सर्वप्रजानामपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा,
आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन्सत्स्वयम्भूः प्रवृत्तः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थो—(सत्स्वयम्भूः प्रवृत्तः असौ आत्मा) स्वयंभू अवस्थाको प्राप्त हुआ यह आत्मा (समं अनुपरतं समस्तं जानन् पश्यन्) एकसाथ निरंतर सम्पूर्ण लोकालोक को जानता और देखता रहता है, (संप्रतृप्यन्) पूर्ण तृप्तिको प्राप्त हो जाता है, (वितन्वन्) अनन्तकाल तक अपनी आत्मा में ही व्याप्त रहता है, (निचितं नितान्तं ध्वान्तं धुन्वन्) पहले उपार्जन किये हुए और घोर ऐसे मोह रूपी अंधकार का पूर्णरूप से नाश कर देता है, (अनुपमं प्रीणयन्) बारह-सभामें बैठे हुए भ्रूयजीवों को अपने अमृत के समान वचनों से संतुष्ट करता है, (ईशभावं कुर्वन्) तीनों लोकोंके प्रभुत्वको प्राप्त हुआ (सर्वप्रजानां अपरमं ज्योतिः अभिभवन्) समस्त प्रजाके मध्यमें विराजमान होकर अपनी केवलज्ञान रूपी ज्योति के द्वारा दूसरे लोगों से माने हुये ईश्वर की ज्ञान रूप ज्योति को अथवा अपने प्रभामण्डल के द्वारा सूर्यके प्रकाश को तिरस्कृत करता है, तथा यह स्वयंभू स्वरूप आत्मा (आत्मानं) अपने आत्मा के स्वरूपको (आत्मना) अपने ही आत्मा के द्वारा (आत्मनि एव) अपने ही आत्मा में (क्षणां उपजनयन्) प्रतिक्षण निमग्न रहते हुये अनुभव करता है।

तात्पर्य-परोपदेश की अपेक्षा न करके स्वतः ही मोक्षमार्ग को जानकर और तद्रूप आचरण करके अनंतज्ञानादिरूप अवस्था को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

भावार्थः-स्वयंभू वा अरहंत होने पर यह अत्यंत शुद्ध आत्मा समस्त लोक-

अलोकको एकसाथ निरंतर जानता और देखता रहता है। कृतकृत्य हो जाने के कारण पूर्ण तृप्तिको प्राप्त हो जाता है। अनंतकाल तक अपने आत्मामें लीन रहता है अथवा केवलज्ञानके द्वारा अनंतकाल तक समस्त लोकालोकको जानता और देखता रहता है। मोहरूपी घोर अंधकार को उसी समय पूर्णरूपसे नष्ट कर देता है। अपनी समवशरण रूप सभामें किवा गंधकुटीरूप सभामें अमृतके समान दिव्यध्वनि रूपी वचनोंके द्वारा कल्याणमय उपदेश देकर भव्यजीवोंको अत्यंत संतुष्ट करता है उनको अत्यंत आनंदित करता है। तीनों लोकोका प्रभुत्व प्राप्त करता है तथा समस्त प्रजाके मध्यमें विराजमान होकर अपने केवलज्ञानके द्वारा अन्य लोगोंके द्वारा माने हुये ईश्वरके ज्ञानरूप तुच्छ ज्योतिको तिरस्कृत करता है तथा अपने शरीर की अनुपम कातिसे सूर्यके प्रकाशको तिरस्कृत करता है। इसप्रकार ज्ञाता-दृष्टा तथा ऊपर लिखे अनुसार अपने आत्मस्वभाव को सिद्ध करनेवाला यह अरहंतरूप शुद्ध आत्मा अपने आत्माके स्वरूप को अपने ही आत्माके द्वारा अपने ही आत्मामें प्रतिक्षण निमग्न करता रहता है फिर वह अपने आत्माको अन्य किसी भी पदार्थमें नहीं लगाता इसप्रकार वह शुद्ध आत्मा विना किसी दूसरेके उपदेशकी अपेक्षाके अपने आप मोक्षमार्गको जानकर तथा उस मोक्षमार्गका अनुष्ठान कर अनन्त ज्ञानस्वरूप हो जाता है। उस समय उस परमशुद्ध आत्माको स्वयंभू कहते हैं। जो अपने आप हो (स्वयं भवतीति स्वयंभूः) उसको स्वयंभू कहते हैं। यह आत्मा भी अपने ही रत्नत्रय रूप गुणो के द्वारा अनन्तज्ञानी हुआ है—अरहत हुआ है। इसलिये भगवान् अरहत देव को स्वयंभू कहते हैं।

बह स्वयंभू अवस्थाको प्राप्त हुआ आत्मा अतमें सिद्ध वा मुक्त होता है। यही बात आगे आचार्य दिखाते हैं:—

छिंदन् शेषानशेषान्निगलवलकलींस्त्वरनंतस्वभावैः,

सूक्ष्मत्वाद्यावगाहागरुलघुकगुणैः क्षायिकैः शोभमानः ॥

अन्यैश्चान्यव्यपोहप्रवणविषयसंप्राप्तिलब्धिप्रभावै—

रूर्ध्वत्रज्यास्वभावात्समयमुपगतो धाम्नि संतिष्ठतेऽद्ये ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः— (शेषान् अशेषान्निगलवलकलीन्) भगवान् अरहंतदेवके जो बाकीके अघातिया कर्म लगे हुये हैं वे भी वेड़ियों के समान अत्यंत कठिक

हैं ऐसे वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु कर्म की मूल उत्तर समस्त प्रकृतियों को (छिंदन्) विदीर्ण करते हुये (सर्वदा नाश करते हुये) (तैः अनन्तस्वभावैः) वे भगवान् अनन्तस्वभाव को धारण करनेवाले सम्यग्दर्शन, ज्ञान आदि गुणों से (शोभमान) शोभायमान होते हैं, इसके सिवाय (द्वायिकैः सूक्ष्मत्वाद्ग्यावगाहागुरुलघुकगुणैः "शोभमानः") समस्त कर्मोंके अत्यंत क्षय होनेसे उत्पन्न होनेवाले सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व और अगुरुलघुत्व आदि परमगुणों से भी वे भगवान् शोभित होते हैं, (अन्यैः चान्यव्यपोहप्रवणविषयसंप्राप्तिलब्धिप्रभावैः) इन गुणों के सिवाय उत्तरोत्तर समस्त कर्म प्रकृतियों के नाश होनेसे जो आत्मा की विशुद्धता और आत्मा का निजस्वभाव प्रगट होता है उससे जिनका गाहात्म्य वा प्रभाव खूब बढ़ गया है ऐसे चौरासी लाख उत्तरगुणों से भी वे भगवान् सुशोभित होते हैं । (ऊर्ध्व ब्रज्यास्वभावात्) शुद्ध आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है, अतः समस्त कर्मोंके नाश होने पर (समयमुपगतः) उसी समयमें उसी कालके सबसे छोटे भागमें वे भगवान् (धाम्नि अग्रये) लोकाकाशके अग्रभाग पर (संतष्ठते) जा विराजमान होते हैं ।

भावार्थः— जिस मनुष्य शरीरसे यह जीव मुक्त होता है वह उस जीवका अंतिम शरीर कहलाता है, उसको चरमशरीर कहते हैं । मुक्त होनेपर इस जीवका आकार चरमशरीरके आकारसे भिन्न आकारका नहीं हो सकता, न तो वह समस्त लोकमें व्यापक ही हो सकता है और न बटबटके बीजके समान अणुमात्र हो सकता है, क्योंकि वहां पर आकार बदलनेका कोई कारण नहीं है किंतु अंतिम शरीरके परिणामसे कुछ कम आकार होनेमें कारण है और वह यह है कि संसार परिभ्रमणमें इस जीवका आकार कर्मोंके उदयसे बदलता था, अब कर्मों के नष्ट हो जानेसे आकार बदलनेवाला कोई कारण नहीं रहा । इसलिये मुक्त अवस्थामें जीवका आकार अंतिमशरीरके आकार ही रहता है । तथा उसका परिणाम अंतिमशरीरसे कुछ कम रहता है । क्योंकि शरीरके जिन २ भागोंमें आत्मा के प्रदेश नहीं हैं—उतना परिमाण घट जाता है । शरीरके मातर पेट नाक कान आदि भाग ऐसे हैं जिनमें (पोलेभागमें) आत्माके प्रदेश नहीं है । इसीलिये आचार्य कहते हैं कि अन्य ऐसे कारण है जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि मुक्त जीवका परिमाण अंतिम शरीरके परिमाणसे कुछ कम है । यह कमी आकारकी

अपेक्षासे है नहीं ही किंतु घनफलकी अपेक्षासे है । तथा मुक्त अवस्थामें जीवका आकार अंतिम शरीरके आकारके समान अत्यंत दैदीप्यमान रहता है ।

“एव” शब्द निश्चयवाचक है और “हि” शब्द स्पष्टता सूचित करनेके लिये है । इससे सिद्ध होता है कि मुक्त अवस्थामें जीवका आकार अंतिम शरीरके आकार है । तथा उसका परिमाण अंतिम शरीरसे कुछ कम है । मुक्त जीवका यह आकार व यह परिमाण निश्चित है, स्पष्ट है । इसके सिवाय अन्यकोई आकार तथा अन्यकोई परिमाण ही नहीं सकता । इसके सिवाय मुक्त अवस्थामें वह आत्मा अमूर्ति रहता है । रूप रस गंध स्पर्श और शब्द रूप पुद्गल परिणति को मूर्ति कहते हैं । ऐसी मूर्ति जिसके न हो उसे अमूर्ति कहते हैं । सिद्धोंमें रूप रस गन्ध स्पर्शरूप मूर्ति नहीं है । अतः वे अमूर्ति स्वरूप हैं । अथवा अमूर्त भी पाठ है, जिनके रूप रसादि रूप मूर्ति हो उनको मूर्त कहते हैं तथा जिनके ऐसी मूर्ति न हो उनको अमूर्त कहते हैं । उन सिद्ध परमेष्ठी की परिणति रूप रस गंध स्पर्श स्वरूप नहीं है, इन से सर्वथा रहित है । अतः वे अमूर्त हैं ।

इसके सिवाय वे भगवान् क्षुधा, तृषा, आस, कास, ज्वर, मरण, जरा (बुढ़ापा) अनिष्ट योग, मोह, अनेक प्रकारकी आपत्तियां, तथा इनको आदि लेकर और भी अनेक प्रकारके घोर दुःख जिससे उत्पन्न होते हैं ऐसे संसारके परिध्रमणको उन सिद्ध भगवान् ने नाश कर दिया है, अथवा कर्मोंके नाश होने से वह संसार अपने आप नष्ट हो गया है । उस संसारके नष्ट होनेसे सिद्धोंको जो अनन्त सुखकी प्राप्ति हो गई है उस सुखका परिमाण भला कौन कर सकता है ? अर्थात् कोई नहीं । सिद्धोंका सुख अनन्त है । उसका परिमाण कभी किसी से नहीं हो सकता ।

आगे सिद्धोंका वह सुख कैसा है सो दिखलाते हैं:—

अन्याकाराप्तिहेतुर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीनः ।

प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एव ह्यमूर्तः ॥

क्षुत्तृष्णाश्वासकासज्वरमरणजरानिष्टयोगप्रमोह—

व्यापत्याद्युग्रदुःखप्रभवभवहतेः कोऽस्य सौख्यस्य माता ॥ ६ ॥

अन्वयार्थो— (येन अन्याकाराप्तिहेतुः न च भवति परः) क्योंकि मुक्तजीव को पुरुषाकारपना छोड़कर दूसरे आकारकी प्राप्ति का कारण नहीं रहने से वह

आत्मा (तेन अल्पहीनः- प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकारः हि अमूर्तः एव “भवति”) पहले प्राप्त किये हुये चरम शरीरके आकार का परन्तु उस शरीर से किंचित न्यून, मनोहर और अमूर्त (रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित) आकार का रहता है। तथा (क्षुत्तृष्णाश्वासकासज्वरमरणजरानिष्टयोगप्रमोह-व्यापल्याद्युग्रदुःखप्रभवभवहतेः) भूख, प्यास, आस, कास (खांसी) ज्वर, मरण, बुढ़ापा, अनिष्टसम्बंध, अतिशयमोह और नाना प्रकारकी आपत्ति आदि भयंकर दुःखोंको उत्पन्न करनेवाले संसारका नाश हो जाने से (अस्य) सिद्ध परमेष्ठी के (सौख्यस्य) सुखकी (माता) मर्यादा का प्रमाण (कः) कौन कर सकता है ? अर्थात् कोई भी नहीं कर सकता है कारण कि वे सिद्ध भगवान अनंत सुखके भोक्ता हैं ॥ ६ ॥

भावार्थः—भगवान अरहंतदेवके जो वाकीके अघातिया कर्म लगे हुये हैं वे भी वेड़ीके समान अत्यंत कठिन हैं। ऐसे वेदनीय नाम गोत्र और आयु कर्मकी मूल उत्तर समस्त प्रकृतियोंको विदीर्ण करते हुये-सर्वथा नाश करते हुये वे भगवान अनन्तस्वभाव को धारण करनेवाले सम्यग्दर्शन ज्ञान आदि गुणोंसे शोभायमान होते हैं।

इसके सिवाय समस्त कर्मोंके अत्यंतक्षय होनेसे उत्पन्न होनेवाले सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, और अगुरुलघु आदि परमगुणोंसे भी वे भगवान सुशोभित होते हैं। इन गुणोंके सिवाय उत्तरोत्तर समस्त कर्म प्रकृतियोंके नाश होनेसे जो आत्मा की विशुद्धता और आत्माका निजस्वभावप्रगट होता है उससे जिनका माहात्म्य वा प्रभाव खूब बढ़ गया है ऐसे चौरासी लाख उत्तरगुणोंसे भी वे भगवान सुशोभित होते हैं। शुद्ध आत्माका स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है-इसलिये समस्त कर्मोंके नाश होने पर उसी समयमें उसी कालके सबसे छोटे भागमें वे भगवान लोकाकाशके अग्रभाग पर जा विराजमान होते हैं।

आगे बतलाते हैं कि सिद्ध अवस्थामें आत्माका परिमाण कितना रहता है? अंतिम शरीरसे कम रहता है या अधिक ?

आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्भीतबाधं विशालं,
वृद्धिहासव्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिद्वन्द्वभावम् ॥

अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपममितं शाश्वतं सर्वकालं,

उत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थो—क्योंकि वे सिद्धपरमेष्ठी क्षुधादिबाधा से रहित (अतः) इसलिये (तस्यसिद्धस्य) उन सिद्धोंके (स्वयं आत्मोपादानसिद्धं) स्वयं आत्मारूप उपादान कारणसे उत्पन्न होनेवाला, (अतिशयवत्) परम अतिशयरूप अवस्थाको प्राप्त, (वीतबाध) बाधारहित, (विशालं) सम्पूर्ण आत्मा के प्रदेशों में व्याप्त होकर रहनेवाला, (बृद्धिहासव्यपेतं) उत्कर्ष और अपकर्षसे रहित, (विषयविरहित) इन्द्रियजन्य विषयोकी अपेक्षा न करनेवाला, (निःप्रतिद्वन्दभावं) प्रतिद्वन्दभावरूप दुःखसे रहित, (अन्यद्रव्यानपेक्षं) सातावेदनीय आदि दूसरे पदार्थों की अपेक्षा नहीं करनेवाला, (निरुपमं) उपमारहित, (अमितं) अनन्त, (शाश्वत) अविनश्यर, (सर्वकालं) सर्वकालमें एकरूप रहनेवाला, (उत्कृष्टानन्तसारं) परमप्रकर्ष अवस्थाको प्राप्त और मर्यादारहित माहात्म्यवाला (परमसुखं) उत्कृष्टसुख (जातं) उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥

भावार्थः—भगवान् सिद्धपरमेष्ठीके जो सुख होता है वह केवल आत्मासे ही उत्पन्न होता है। अन्य किसी प्रकृति आदिसे उत्पन्न नहीं होता, अतः वह सुख अनित्य नहीं होता। वह सुख स्वयं अतिशय युक्त होता है। समस्त बाधाओंसे रहित होता। अत्यंत विशाल वा विस्तीर्ण होता है—आत्माके समस्त प्रदेशों में व्याप्त होकर रहता है। वह सुख न कभी घटता है-न बढ़ता है। बृद्धि और हास दोनोंसे रहित होकर है। जिसप्रकार संसारिक सुख विषयोसे उत्पन्न होता है उसप्रकार वह सिद्धों का सुख किसी विषयसे उत्पन्न नहीं होता, किन्तु सब प्रकार के विषयोंसे रहित स्वाभाविक होता है। सुखका प्रतिद्वन्दी दुःख है। उन दुःखों से वह सर्वथा रहित है। संसारी जीवोंका सुख दुःखसे मिला हुआ है परंतु सिद्धों का सुख सदा सुखरूप ही रहता है। संसारी जीवोंका सुख सातावेदनीयकर्मके उदयसे होता तथा पुष्पमाला, चंदन, भोजन आदि बाह्य सामग्रीसे उत्पन्न होता है परंतु सिद्धोंका सुख अन्य किसी द्रव्यकी अपेक्षा नहीं रखता है। वह सिद्धों का सुख उपमा रहित है। अनन्त है। विनाश रहित है। और इसीलिये वह सदा बना रहता है। उस सुखका माहात्म्य परमोत्कृष्ट है और अनन्तकालतक रहता है। वह सुख परमसुख कहलाता है अर्थात् इन्द्रादिकसे भी अत्यंत अतिशययुक्त

वा बढ़कर है। जिन सिद्धोंका लक्षण वा उनके गुण पहले निरूपण कर चुके हैं और जो लोककाशके अग्रभाग पर विराजमान हैं ऐसे सिद्धोंका अनंतसुख ऊपर लिखे अनुसार होता है।

अभिप्राय यह है कि सिद्धोंका सुख संसारी जीवोंके सुखोंसे अत्यंत विलक्षण है। सिद्धोंका सुख वास्तविक सुख है और इसीलिये वह सर्वोत्तम है।

सांसारिक सुख अन्नादिक साधनोसे उत्पन्न होता है परंतु सिद्धोंका सुख किसी भी साधनकी अपेक्षा नहीं रखता। आगे यही दिखलाते हुए आचार्य कहते हैं:-----

नार्थः क्षुत्तृट्विनाशाद्द्विविधरसयुतैर्गन्धपानैरशुच्या,
नास्पृष्टर्गन्धमाल्यैर्न हि मृदुशयनैर्ग्लानिनिद्राद्यभावात् ॥
आतङ्कार्तेरभावे तदुपशमनसद्भेषजानर्थतावद्,
दीपानर्थक्यवद्वा व्यपगततिमिरे दृश्यमाने समस्ते ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—(क्षुत्तृट्विनाशात्) क्षुधा और तृषा के नाश हो जाने के कारण सिद्धपरमेष्ठी को (विविधरसयुतैः अन्नपानैः) नाना प्रकारके रसमिश्रित अन्न पानकी (अर्थः न) कोई आवश्यकता नहीं है। (अशुच्याः अस्पृष्टैः) अशुचि के अभाव हो जानेके कारण (गन्धमाल्यैः न) सुगन्धित पदार्थों की और पुष्पोंकी आवश्यकता नहीं है। (ग्लानिनिद्राद्यभावात्) ग्लानि और निद्रा आदि दोषोंके अभाव हो जाने के कारण (हि) निश्चयसे (मृदुशयनैः अर्थः न) कोमल शय्याकी आवश्यकता नहीं है। (व्यपगततिमिरे) जिस प्रकार अंधकार के नष्ट हो जाने पर (वा समस्ते दृश्यमाने) और सम्पूर्ण पदार्थ स्पष्ट दिखने पर (दीपानर्थक्यवत्) दीपक की कोई आवश्यकता नहीं रहती है उसी प्रकार (आतङ्कार्तेरभावे) भयकर रोगादिके कारण होनेवाली पीड़ा के अभाव होनेपर (तदुपशमनसद्भेषजानर्थतावत्) उसको शांत करनेवाली औषधि आदि की कोई आवश्यकता नहीं लगती है।

तात्पर्य—सिद्ध जीवोंका सुख आत्मोत्थान होने के कारण बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती है ॥ ८ ॥

तादृक्मम्पत्समेता विविधनयतपः संयमज्ञानदृष्टि,-
चर्यासिद्धाः ममन्तात्प्रविततयशसो विश्वदेवाधिदेवाः ॥

होता है। इसीलिये वह सदा एकसा अनंत स्वरूप बना रहता है।

आगे सिद्धोंका स्वरूप कहते हुये उनको नमस्कार करते हैं—

—आर्या—

कृत्वा कायोत्सर्गं चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम् ।

अतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो वंदते स लघु लभते परमसुखम् ॥

अन्वयार्थ— (चतुरष्टदोषविरहितं) बत्तीसदोषरहित (कायोत्सर्गं) कायोत्सर्गको (कृत्वा) करके (यः) जो (अतिभक्तिसंप्रयुक्तः) अत्यंत भक्ति सहित (सुपरिशुद्धं) शुद्धात्म स्वरूप परमेष्ठ.को (वंदते) वंदना करता है (सः) वह (लघु) शीघ्र (परमसुखं) परमसुख (मोक्ष) को (लभते) प्राप्त करता है।

भावार्थ:—वे सिद्ध भगवान् अनंत ज्ञान आदि अनेक उत्तम गुणोंसे सुशोभित हैं। नैगम, संग्रह आदि अनेक प्रकारके नयोंके द्वारा कृतकृत्य हो चुके हैं, अनशन आदि बारह प्रकारके तपश्चरणके द्वारा कृतकृत्य हो चुके हैं, सामायिक आदि पांच प्रकारके संयमसे कृतकृत्य हो चुके हैं, मतिज्ञान आदि पांच प्रकारके ज्ञानोंसे कृतकृत्य हो चुके हैं, तत्त्वोंके श्रद्धान करने रूप सम्यग्दर्शनके द्वारा कृतकृत्य हो चुके हैं और तेरह प्रकारके चारित्रके द्वारा कृतकृत्य हो चुके हैं। इसके सिवाय उनका यश चारों ओर फैल रहा है, वे समस्त देवोंके अधिदेव वा स्वामी कहे जाते हैं और तीनों लोकोंमें समस्त भव्य जन जिनको सदा नमस्कार करते रहते हैं अथवा जिनकी स्तुति करते रहते हैं ऐसे भूतकाल में होनेवाले, भविष्यत् कालमें होनेवाले और वर्तमानकालमें होनेवाले समस्त अनन्तानन्त सिद्धोंको मैं उन सिद्धोंके स्वरूपको बहुत शीघ्र ही प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रातःकाल मध्याह्नकाल और सायंकाल तीनों समय नमस्कार करता हू।

सिद्धपरमेष्ठी अनन्तज्ञानी है, कृतकृत्य हैं, देवाधिदेव हैं और इन्द्र चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि समस्त महापुरुषोंके द्वारा वंदनीय है ऐसे समस्त सिद्धोंको मैं उनके स्वरूपकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हू।

इच्छामि भंते सिद्धिभक्ति काउस्साग्गो कओ तस्सालोचेउं सम्मणाण-
सम्मदंसण सम्मचारित्तजुत्ताणं अट्टविहकम्मविप्पमुक्काणं अट्टगुणसंपरणाणं
उड्डलोयमज्झयम्मि पयट्टियाणं तवसिद्धाणं णयसिद्धाणं संजमसिद्धाणं अती-
ताणाग्दवट्टमाणकालत्तयसिद्धाणं सव्वसिद्धाणं सया णिच्चकालं अंचेमि वंदायि

पूजेमि णमंस्सामि दुक्खवओ कम्मक्खाओ बोहिलाओ सुगइगमणं समाहि-
मरणं जिणगुणसंपत्ति होउ पज्झं ॥

छाया—इच्छामि भगवन् सिद्धभक्ति कायोत्सर्गः कृतस्तमालोचयितु सम्य-
ग्ज्ञानसम्यग्दर्शनसम्यक्चारित्रयुक्तान् अष्टविधकर्मविप्रयुक्तान् अष्टगुणसंपन्नान्
ऊर्ध्वलोकमस्तकप्रस्थितान् तपःसिद्धान् नयसिद्धान् संयमसिद्धान् चरित्रसिद्धान्
अतीतानागतवर्तमानकालत्रयसिद्धान् सर्वसिद्धान् सदा नित्यकालं अर्चामि वंदे
पूजये नमस्यामि दुःखक्षयः कर्मक्षयः बोधिलाभः सुगतिगमनं समाधिमरणं जिण
गुणसम्पत्तिर्भवतुमह्यम् ॥

अर्थः—हे भगवन् ! सिद्धभक्ति करनेके अनन्तर जो मैंने कायोत्सर्ग किया
है उसमें लगे हुये दोषोंकी आलोचना करने की मैं इच्छा करता हूँ । जो सिद्धभग-
वान् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र सहित हैं, आठों कर्मोंसे रहित
हैं, सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे सुशोभित हैं, जो ऊर्ध्वलोकके मस्तकपर जाकर
विराजमान हैं, जो तपश्चरणसे सिद्ध हुये हैं, नयोसे सिद्ध हुये हैं, संयमसे सिद्ध
हुये हैं, चारित्रसे सिद्ध हुये हैं, जो भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमानकाल
तीनों कालोंसे सिद्ध हुये हैं ऐसे सिद्धोंकी मैं सदा हर समय पूजा करता हूँ, वंदना
करता हूँ, अर्चा करता हूँ और नमस्कार करता हूँ । मेरे दुःखोंका नाश हो कर्मों
का नाश हो, मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, श्रेष्ठगतिकी प्राप्ति हो, समाधिमरणकी
प्राप्ति हो और भगवान् जिनेन्द्रदेवके गुणोंकी प्राप्ति हो ।

॥ इति सिद्धभक्तिः ॥

अथ सिद्धभक्तिः [प्राकृत]

अष्टविहकम्ममुक्के अष्टगुणहे अणोवमे सिद्धे । अष्टमपुढविणिविट्ठे णिट्ठि-
यकज्जे य वंदिमो णिच्चं ॥ १ ॥ तित्थयरेदरसिद्धे जलथलआयासणिच्चुदे
सिद्धे । अंतयडेदरसिद्धे उक्खस्सजहण्णमज्झिमोगाहे ॥ २ ॥ उद्धमहतिरिय-

लोए छविहकाले य णिव्बुदे सिद्धे । उवसग्गणिरुवसग्गे दीवोदहिणिव्बुदे
य वंदामि ॥ ३ ॥ पच्छायडेय सिद्धे दुगतिगचदुणाण पंचचदुरजमं । परि-
वडिदापरिवडदे सजंमसम्मत्तणाणमादीहिं ॥ ४ ॥ साहरणासाहरणे सम्मु-
ग्घादेदरे य णिव्वादे । ठिदपलियंक्रणिमण्णे विगयमले परमणाणगे वंदे ॥
पुंवेदं वेदंता जे पुरिसा खवग्गसेट्ठिमारूढा । सेसोदयेण वि तहा ज्झाणुव-
जुत्ता य ते दु सिज्झंति । पत्तेयसयं बुद्धाबोहियबुद्धा य होंति ते सिद्धा ।
पत्तेयं पत्तेयं समये समयं पणिवदामि ॥ ७ ॥ पणणवदु अट्ठवीसा चउ-
तियणवदीय दोणिण पंचेव । वावण्णहीणवियसय पयडिविणासेण होंति ते
सिद्धा ॥ ८ ॥ अइसयमव्वावाहं सोक्खमणंतं अणोवमं परमं । इंदियविस-
यातीदं अप्पत्तअच्चवं च ते पत्ता ॥ ९ ॥ लोयग्गमत्थयत्था चरमसरीरेण
ते हु किंचूणा । गयसित्थमूसगब्भे जारिस आयार तारिसायारा ॥ १० ॥
जरमरणजम्मरहिया ते सिद्धा मम सुभत्तिजुत्तस्स । देंतु वरणाणलाहं बुह-
यण परिपत्थणं परमसुद्धं ॥ ११ ॥ किच्चा काउस्सग्गं चउरद्वय दोसविर-
हियं सुपरिसुद्धं । अइमचिसंपउत्तो जोवदइ लहु लहइ परमसुहं ॥ १२ ॥
संसारचक्रगमनागतिविप्रमुक्कतान् । नित्यं जरामरणजन्मविकारहीनान् ॥
देवेन्द्रदानवगणैरभिपूज्यमानान् । सिद्धाँस्त्रिलोकमहितान् शरणं प्रपद्ये
॥ १ ॥ असरीरा जीवघणा उवजुत्ता दंसणे य णाणे य । सायारमणायारा
लक्खणमेयं तु सिद्धाणं ॥ २ ॥ मूलुत्तरपयडीणं वंधोदयसत्तकम्मउम्मुक्का ।
मंगलभूदा सिद्धा अट्ठगुणात्तदिसंसारा ॥ ३ ॥ अट्ठविहकम्मवियला सीदी-
भूदा णिरंजणा णिच्चा । अट्ठगुणा किदकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा
॥ ४ ॥ सिद्धा एाट्ठमला विसुद्धबुद्धीय लद्धसवभावा । तिहुयणसिरसेह-
रया पसियंतु भंडारया सव्वे ॥ ५ ॥ गमणागमणविमुक्के विहडियकम्मट्ठ-
पयडिसंघाए । सासयसुहसंपत्ते ते सिद्धा वंदिमो णिच्चं ॥ ६ ॥ जयमंगल-
भूदाणं विमलाणं णाणदंसणमयाणं । तइलोयसेहराणं णमो सया सव्वसि-
द्धानम् ॥ ७ ॥ संमत्त णाण दसण वीरियसुहुमं तहेव अवगहणं । अगु-
रुलहुमव्वावाहं अट्ठगुणा होंति सिद्धाणं ॥ ८ ॥ तवसिद्धे एायसिद्धे संज-
मसिद्धे चरित्तसिद्धे य । णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमंसामि

कृत्वा कायोत्सर्गं चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम् । अतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो
 वंदते स लघु लभते परमसुखम् ॥ १ ॥ इच्छामि भंते सिद्धिभक्ति काउ-
 स्सग्गो कओतस्सालोचेउं सम्मणाणसम्मदंमणसम्मचारित्तजुत्ताणं अट्टविह-
 कम्मविप्पमुक्काणं अट्टगुणसंपण्णाणं उट्टलोयमच्छयम्मि पयट्टियाणं तवसि-
 द्धाणं णयसिद्धाणं संजमसिद्धाणं अतीताणागदवट्टमाणकालत्तयसिद्धाणं
 मव्वसिद्धाणं सया णिच्चकालं अंचेमि वंदामि पूजेमि णमंस्सामि दुक्खक्खओ
 कम्मक्खओ वोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपति होउ मज्झं ।

श्री श्रुतभक्तिः ॥

स्तोष्ये संज्ञानानि परोक्षप्रत्यक्षभेदभिन्नानि ।

लोकालोकविलोकनलोलितसल्लोकलोचनानि सदा ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(लोकालोकविलोकनलोलितसल्लोकलोचनानि) लोक और
 अलोकको देखनेके लिये उत्कण्ठित हृये सम्यग्दृष्टियोंके लिये लोचन [नेत्र]
 समान (परोक्षप्रत्यक्षभेदभिन्नानि) परोक्ष और प्रत्यक्ष इसप्रकार दो भेदरूप—
 मति, श्रुत, [परोक्ष] अवधि, मनः पर्यय, [विकलप्रत्यक्ष] और केवलज्ञान [सक-
 लप्रत्यक्ष] (संज्ञानानि) इन पाच नामक सम्यग्ज्ञानोक्ती मै (सदा) सर्वदा
 (स्तोष्ये) स्तुति करता हू ।

भावार्थ—सम्यक् (ज्ञान) कहनेसे मिथ्याज्ञानका निषेध हो जाता है ।
 लोकाकाशमे भरेहुए जीव अजीव आदि समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला
 एक सम्यग्ज्ञान है । इसीलिये मै सम्यग्ज्ञानकी स्तुति करता हूँ ।

मतिज्ञानकी स्तुति—

अभिमुखनियमितबोधनमाभिनिबोधिकमनिन्द्रियेन्द्रियजं ।

ब्रह्माद्यवग्रहादिककृतषट्त्रिंशत्त्रिंशतभेदम् ॥ २ ॥

विविधर्द्धिबुद्धिकोष्ठस्फुटबीजपदानुसारिवुद्धिचधिकं ।

संभिन्नश्रोतृतया सार्धं श्रुतभाजनं वन्दे ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(अभिमुखनियमितबोधनं) योग्य देश और योग्यकाल में स्थित नियमित पदार्थको जाननेवाले ज्ञानको (आभिनिबोधिक) आभिनिबोधिक-मति-ज्ञान कहते हैं, वह मतिज्ञान (अनिन्द्रियेन्द्रियजं) पांच इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है तथा (बह्वाद्यवग्रहादिककृतषट्त्रिंशत् त्रिंशतभेदं) बहु बहुविध आदि बारह प्रकार के पदार्थोंका अवग्रहादि रूप ज्ञान होनेसे तीससौ छत्तीस (३३६) भेद वाला है उसको (वन्दे) वंदना करता हूँ तथा (विविधद्विबुद्धिकोष्ठस्फुटबीजपदानुसारिबुद्धयधिकं) नानाप्रकारकी ऋद्धि कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, पदानुसारिणी बुद्धिरूप और (समिन्नश्रोतृतया सार्धं) समिन्न श्रोतृताबुद्धि सहित (श्रुतभाजनं) श्रुतज्ञानको (वन्दे) मैं वंदना करता हूँ।

भावार्थ:—मतिज्ञानको आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। लिखा भी है—
 “मतिः स्मृतिः संज्ञार्चिताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्” अर्थात् मति, स्मृति, संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान) चिंता (तर्क) आभिनिबोध (अनुमान) ये सब एक ही मतिज्ञानके वाचक हैं। यह आभिनिबोधिक संज्ञा सार्थक है। ज्ञानके लिये जो योग्य देश, काल और ग्रहणकरने योग्य सामग्री है उसको ‘अभि’ कहते हैं। ‘नि’ शब्दका अर्थ नियम है। जैसे—चक्षुके द्वारा रूपका ज्ञान होता है, नाकके द्वारा गंधका ज्ञान होता है, कानके द्वारा शब्दका ज्ञान होता है, जिह्वासे रस का ज्ञान होता है, स्पर्शन इन्द्रियसे स्पर्शका ज्ञान होता है। इन सबका पृथक् पृथक् इन्द्रियोंसे जो नियमित रीतिसे ज्ञान होता है उसको ‘निबोध’ कहते हैं। इसप्रकार योग्य स्थान-पर योग्यकालमें निर्दोष इन्द्रियोंसे जो पदार्थोंका ज्ञान होता है उसको मतिज्ञान कहते हैं।

मतिज्ञानके भेद—

अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ये चार भेद हैं। इनमेंसे प्रत्येकके बड़, बहु-विध, एक, एकविध, शीघ्र, देरसे, निःसृत (प्रगट) अनिःसृत (अप्रगट) उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव ये बारह विषय होते हैं। इस हिसाबसे (१२×४=४८) अड़तालीस भेद हो जाते हैं। ये सब पांच इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होते हैं, अतः इनसे गुणा कर देनेसे (४८×६=२८८) दोसौ अठासी भेद होते हैं। ये अर्थावग्रह के भेद हैं। व्यञ्जनावग्रहका (अप्रगट पदार्थका) केवल अवग्रह ही होता है। ईहा, अवाय, धारणा नहीं होते तथा वह आखसे और मनसे नहीं होता। इस

प्रकार उसके ($१२ \times ४ = ४८$) अड़तालीस भेद होते हैं। दोनों मिला कर ($२८८ + ४८ = ३३६$) तीससौ छत्तीस भेद होते हैं।

इसके सिवाय वह मतिज्ञान अनेक ऋद्धियोंसे सुशोभित है। तपश्चरणादिक के द्वारा मतिज्ञानावरण कर्म का विशेष क्षयोपशम होनेसे ये ऋद्धियां उत्पन्न होती हैं। वे ऋद्धियां नीचे लिखे अनुसार हैं—

कोष्ठ बुद्धि—जिसप्रकार भंडारी एक ही कोठेमें अनेक प्रकारके धान्य रखता है तथा उनको नष्ट भी नहीं होने देता। उसीप्रकार अपनी बुद्धिमें अनेक ग्रंथोंकी धारणा रखता है, उनकी अलग अलग अवस्था रखता है तथा किसी भी धारणाको नष्ट नहीं होने देता। ऐसी कोठेके समान बुद्धिकी प्राप्तिको कोष्ठबुद्धि ऋद्धि कहते हैं।

बीजबुद्धि—जिसप्रकार अच्छे खेतमें कालके अनुसार बोया हुआ एक बीज भी अनेक धान्य उत्पन्न कर देता है उसीप्रकार बीजके समान एक पदके ग्रहण करनेसे ही जिस बुद्धिके द्वारा अनेक पदार्थोंका ज्ञान हो जाय—उस बुद्धिको बीज बुद्धि कहते हैं।

पदानुसारबुद्धि—जिसबुद्धिमें किसी ग्रंथका पहला पद अथवा अंतका पद ग्रहण करनेमात्रसे समस्त ग्रंथका ज्ञान हो जाय, ऐसी बुद्धिकी ऋद्धिको पदानुसारि ऋद्धि कहते हैं।

संमिन्नश्रोतृता—एक ही साथ अनेक शब्द होते हों उन सबको एक साथ अलग अलग जिस विशेष बुद्धिके द्वारा जान सकते हैं उस बुद्धिकी ऋद्धि को संमिन्नश्रोतृता ऋद्धि कहते हैं। चक्रवर्तीकी सेना बाराह योजन लम्बे और नौ योजन चौड़े मैदानमें रहती है। उसमें हार्थी, घोड़ा, ऊंट, मनुष्य आदि सभी एक साथ बोलते हैं उन सबकी अक्षररूप और अनक्षररूप भाषाको एक साथ अलग अलग जान लेना इस ऋद्धिका काम है। ऐसी ऋद्धि इसी जन्ममें अथवा पहले जन्ममें उपार्जित किये हुये तप विशेष क्षयोपशम होने के कारण होती है। इस प्रकार ये चार बुद्धि ऋद्धि कहलाती हैं। इनमें बुद्धिकी विशेषता है, तपश्चरणासे उत्पन्न होनेवाली शक्तिकी मुख्यता है। इसलिये इनका वर्णन अलग किया है।

इसके सिवाय वह मतिज्ञान श्रुतज्ञानका कारण है। मतिज्ञानसे ही श्रुतज्ञान

उत्पन्न होता है। लिखा भी है—‘श्रुत मतिपूर्व’ इत्यादि। अर्थात् श्रुतज्ञान मतिपूर्वक ही होता है। इन ऊपर लिखे समस्त भेदोंसे और ऋद्धियों से सुशोभित ऐसे मतिज्ञानके लिए मैं नमस्कार करता हूँ।

श्रुतज्ञानकी स्तुति-----

श्रुतमपि जिनवरविहितं गणधररचितं द्व्यनेकभेदस्थम् ।

अङ्गांगवाह्यभाविचमनन्तविषयं नमस्यामि ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(जिनवरविहितं) जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित (गणधररचित) गणधरों द्वारा रचित (अङ्गांगवाह्यभावितां) अंग और अंगवाह्य सहित (द्व्यनेकभेदस्थं) दो और अनेक भेद रूप (अनन्तविषयं) अनन्तपदार्थोंको विषय करनेवाले (श्रुतं अर्थि) श्रुतज्ञानको भी (नमस्यामि) नमस्कार करता हूँ।

भावार्थ:—मैं केवल मतिज्ञानको ही नमस्कार नहीं करता किन्तु उस श्रुतज्ञानको भी नमस्कार करता हूँ कि जो श्रुतज्ञान अर्थरूपसे श्रीजिनेन्द्रदेवने निरूपण किया है तथा अर्थ और पदरूपसे जिसकी अंग-पूर्व रूप रचना गणधर देवोंने की है। जिस श्रुतज्ञानके दो भेद हैं और अनेक भेद हैं। उनमेंसे श्रुतज्ञान के दो भेद अंग और अंगवाह्य हैं तथा द्रव्यश्रुतज्ञान और भावश्रुतज्ञानके भेदसे श्रुतज्ञानके अनेक भेद हैं। शब्द रूप ज्ञानको द्रव्यश्रुत कहते हैं और उनसे जो पदार्थज्ञान होता है उसको भावश्रुत कहते हैं। उसश्रुतज्ञानको विषय अनन्त पदार्थोंसे भरा हुआ यह समस्त लोकाकाश है। ऐसे श्रुतज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ।

भावश्रुतज्ञान--

पर्यायाक्षरपदसंघातप्रतिपत्तिकानुयोगविधीन् ।

प्राभृतकप्राभृतकं प्राभृतकं वस्तुपूर्णं च ॥ ५ ॥

तेषां समासतोऽपि च विंशतिभेदान्समश्नुवानं तत ।

वंदे द्वादशधोक्तं गंभीरवरशास्त्रपद्धत्या ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(पर्यायाक्षरपदसंघातप्रतिपत्तिकानुयोगविधीन् प्राभृतकप्राभृतकं प्राभृतकं च वस्तुपूर्वं) पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास पद, पदसमास, संघात, संघातसमास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, अनुयोग, अनुयोगसमास, प्राभृतप्राभृत, प्राभृतप्राभृतसमास, प्राभृतक, प्राभृतकसमास, वस्तु, वस्तुसमास.

पूर्व और पूर्वसमास, रूप जो भेद, हैं (तेषां समसतः अपि च) उन [पर्याया-
दिक का संक्षेपसे ही जिसमें समावेश है ऐसे (विंशतिमेदान् समरनुवानं) बीस
भेद सहित तथा (गंभीरवरशास्त्रपद्धत्या द्वादशधोक्तं) गंभीरश्रेष्ठ जिनवाणीकी
पद्धतिसे बारह प्रकारका कहा गया जो (तत्श्रुत) वह श्रुतज्ञान है उसको
(वंदे) वंदना करता हूँ ।

भावार्थ-पर्यायादिक श्रुतज्ञानके बीस (२०) भेद हैं । इनका अन्तर्भाव
द्वादशांग श्रुतज्ञानमें हो जाता है । बीस भेदोंका वर्णन नीचे लिखे अनुसार है-

१-पर्याय-मूद्मनित्यनिगोदके लब्धपर्याप्त जीवके पहले समय में जो
श्रुतज्ञान होता है, उसको पर्याय श्रुतज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान सबसे जघन्य
होता है-लब्धक्षर इसका नाम है । श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमको लब्धि^१
कहते हैं । जिस ज्ञानका कमी नाश न हो उसको अक्षर कहते हैं । यह ज्ञान
सदा बना रहता है । इसका कमी आवरण नहीं होता । यह ज्ञान एक अक्षरके
अनन्तवें भाग होता है । इसीलिये यह ज्ञान सबसे जघन्य कहा जाता है । यह
ज्ञान सदा आवरण रहित रहता है । अतएव इतना ज्ञान सदा बना रहता है ।
यदि इसका भी अभाव मान लिया जाय तो जीवका नाश ही हो जाय; क्योंकि
उपयोग ही जीवका लक्षण है । यदि उसका भी नाश मान लिया जायगा तो
जीवका ही अभाव हो जायगा । इसलिये जीवके कमसे कम इतना ज्ञान अवश्य
रहता है । सो ही लिखा है-

सुहृमणिगोदअपञ्जत्तस्स जादस्स पढमसमयत्थि ।

हवदि हु सच्चजेहण्णं णिच्चुग्घाडं णिरावरणं ॥

(गोम्मटसार जीवकांड गा० ३१९)

२ पर्यायसमास-जब पर्याय श्रुतज्ञान-अनंतभागवृद्धि, असंख्यात भाग-
वृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, अनंतगुणवृद्धि-
इसप्रकार षट्गुणीवृद्धि होते होते जब असंख्यातलोकप्रमाण हो जाता है तब उस
को पर्यायसमासज्ञान कहते हैं । अक्षरश्रुतज्ञानसे पहले तक पर्यायसमास कह-
लाता है

- ३-अक्षरश्रुतज्ञान-अक्षर आकार आदि अक्षररूप श्रुतज्ञान को अक्षरश्रुत-ज्ञान कहते हैं ।
- ४-अक्षरसमास-अक्षर श्रुतज्ञानसे ऊपर पद श्रुतज्ञानसे नीचे जो श्रुतज्ञानके भेद हैं-उनको अक्षरसमास कहते हैं ।
- ५-पदश्रुत-अक्षर श्रुतज्ञानसे आगे क्रम क्रमसे अक्षरोंकी वृद्धि होते होते जब संख्यात अक्षरोंकी वृद्धि हो जाती है तब उस ज्ञानको पदश्रुतज्ञान कहते हैं ।
- ६-पदसमास-पदश्रुतज्ञानसे आगे संघात श्रुतज्ञान होने तक श्रुतज्ञानके जितने भेद हैं उन सबको पदसमास कहते हैं ।
- ७-संघात-एक पदज्ञानके आगे एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जब संख्यात हजार पदोंकी वृद्धि होती है तब यह संघात ज्ञान होता है । यह ज्ञान चारों गतियोंमेंसे किसी एक गतिका वर्णन कर सकता है ।
- ८-संघातसमास-अक्षरोंके द्वारा बढ़ता हुआ जो ज्ञान संघात से लेकर प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान तक हो जाता है उसको संघातसमास श्रुतज्ञान कहते हैं ।
- ९-प्रतिपत्तिज्ञान-संघात समस्तसे बढ़ते बढ़ते जब संख्यात हजार संघातोंकी वृद्धि हो जाय तब प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान होता है । इस ज्ञानके द्वारा चारों गतियों का स्वरूप वर्णन किया जा सकता है ।
- १०-प्रतिपत्ति समास-प्रतिपत्ति ज्ञानसे आगे जब संख्यात प्रतिपत्ति रूप ज्ञान बढ़ जाता है-तब अनुयोगसे पहले तक उसको प्रतिपत्ति समास कहते हैं ।
- ११-अनुयोग-प्रतिपत्ति समाससे एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जब संख्यात हजार प्रतिपत्ति की वृद्धि हो जाती है तब एक अनुयोग श्रुतज्ञान होता है । इस ज्ञानसे चौदह मार्गणाओंका स्वरूप जाना जाता है ।
- १२-अनुयोग समास-अनुयोग ज्ञानसे आगे और प्राभृतप्राभृतज्ञान से पहले जितने ज्ञानके विकल्प हैं वह सब अनुयोग समास है ।
- १३-प्राभृतप्राभृत-अनुयोग ज्ञानके आगे एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते संख्यात अनुयोग होने पर प्राभृतप्राभृत ज्ञान होता है । प्राभृत शब्दका अर्थ अधिकार है । वस्तु नामक श्रुतज्ञानके अधिकारको प्राभृत और उसके

भी अधिकार को प्रभृतप्राभृत कहते हैं ।

- १४-प्राभृतप्राभृतसमास-प्राभृतप्राभृतसे आगे और प्राभृतसे पहले तक श्रुतज्ञान के जितने विकल्प हैं उन सबको प्राभृतप्राभृतसमास कहते हैं ।
- १५-प्राभृत-प्राभृतप्राभृतज्ञान की वृद्धि होते होते जब जब चौबीस प्राभृतप्राभृत हो जाते हैं तब एक प्राभृत ज्ञान होता है ।
- १६-प्राभृतसमास-प्राभृतसे ऊपर और वस्तुसे नीचे जो श्रुतज्ञानके विकल्प हैं-उन सबको प्राभृत समास कहते हैं ।
- १७-वस्तु श्रुतज्ञान-प्राभृतज्ञानकी वृद्धि होते होते जब बीस प्राभृत बढ़ जाते हैं-तब वस्तु श्रुतज्ञान होता है ।
- १८-वस्तुसमास-वस्तुज्ञानसे ऊपर क्रमसे अक्षर पदोंकी वृद्धि होते होते दस वस्तुज्ञानकी वृद्धि हो जाय-उसमेंसे एक अक्षर कम तक जो ज्ञानके विकल्प हैं-उनको वस्तुसमास ज्ञान कहते हैं ।
- १९-पूर्वश्रुत - पूर्वज्ञानके चौदह भेद हैं । वस्तु समासके अन्तिम भेदमें अक्षर मिलानेसे उत्पादपूर्व होता है
- २०-उत्पादपूर्वसमास-उत्पादपूर्वमें भी वृद्धि होते होते चौदह वस्तु-पर्याय वृद्धि होने पर उसमेंसे एक अक्षर कम करनेसे उत्पादपूर्व समास ज्ञान होता है । उसमें एक अक्षर बढ़ानेसे अग्रायणीयपूर्व और उसकी वृद्धि होते होते अग्रायणीयपूर्व समास होता इसीप्रकार आगेके पूर्व और पूर्व समास समझने चाहिये । इसप्रकार वह षादशांग श्रुतज्ञान अनन्त पदार्थों को विषयभूत करनेसे अत्यंत गंभीर है और अबाधित विषय होने से अत्यंत श्रेष्ठ है । इसप्रकारकी शास्त्र प्रणाली के अनुसार वह श्रुतज्ञान बारह प्रकार है । ऐसे श्रुतज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ ।

श्रुतज्ञानके बारह भेद---

आचारं सूत्रकृतं स्थानं समवायनामधेयं च ।

व्याख्याप्रज्ञप्तिं च ज्ञातृकथोपासकाध्ययने ॥ ७ ॥

वन्देऽन्तकृद्दशमनुचरोपपादिकदशं दशावस्थम् ।

प्रभ्रव्याकरणंहि विपाकसूत्रं च विनमामि ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(आचारं) आचारांग (सूत्रकृत) सूत्रकृतांग (स्थानं)

स्थानांग (च समवायनामधेयं) तथा समवायांग नामक (व्याख्याप्रज्ञप्ति) व्याख्याप्रज्ञप्त्यंग (च ज्ञातृकथोपासकाध्ययने) ज्ञातृकथांग व उपासकाध्ययनांग (अंतकृद्दशं) अंतकृद्दशांग (दशावस्थं अनुत्तरोपपादिकदशं) दश दश मुनियोंके व्याख्यान करनेवाले अनुत्तरोपपादिकदशांग (हि प्रश्नव्याकरणां) निश्चयसे प्रश्नव्याकरणांग (च विपाकसूत्रं) और विपाकमूत्रांग को (वन्दे, विनमामि) वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ । (दृष्टिवाद का वर्णन १ वें श्लोकमें है)

भावार्थः—इन बारह अंगोंकी पदसंख्या और स्वरूप इसप्रकार हैः—

१—आचारांग—इसकी पदसंख्या अठारह हजार है । इसमें गुप्ति, समिति आदि मुनियोंके आचरणोंका वर्णन है ।

श्रुतज्ञानके दो भेद हैं—एक द्रव्यश्रुत और दूसरा भाव श्रुत । द्रव्यश्रुतकी रचना शब्दात्मक है इसलिये उसकी पदसंख्या कही जा सकती है परंतु भावश्रुत ज्ञानमय है इसलिये उसकी पदसंख्या आदि कुछ नहीं कही जा सकती ।

द्वादशांगमें आचारांगको सबसे पहले स्थान मिला है । इसका कारण यह है कि मोक्षका साक्षात् कारण मुनिमार्ग है और वह गुप्ति, समिति, पंचाचार, दशधर्म आदि रूप है । इन सबका वर्णन आचारांगमें है । इसलिये सबसे पहले यही कहा है । अथवा भगवान् अरहंतदेवने अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा मोक्षमार्ग का निरूपण किया, उसीको सुन कर गणधरदेवने द्वादशांग श्रुतज्ञानकी रचना की । उसमें सबसे पहले मोक्षका साक्षात् कारण होने से आचारांग की रचनाकी । इसलिये भी आचारांग सबसे पहला अंग कहा जाता है ।

२—सूत्रकृतांग—इसमें ज्ञान-प्राप्तिके लिये ज्ञानका विनय व अध्ययनके कारण आदिका वर्णन है । इसकी पदसंख्या छत्तीस हजार है ।

३—स्थानांग—इसमें जीवादिक द्रव्योंके एकसे लेकर अनेक स्थानों तक का वर्णन किया है । जैसे-संप्रह्वनयसे आत्मा एक है । संसारी, मुक्तके भेदसे दो

१—‘दशावस्थं’ यह पद ८ वें अन्तकृद्दशांग व ९ वें अनुत्तरोपपादिकदशांग दोनों अंगों के साथ सम्भवे, क्योंकि दोनों ही अंगोंमें १०-१० मुनियोंका विशेष वर्णन होता है । स्पष्टीकरणके लिये इन्हीं श्लोकों का भावार्थ—देखिये । सं०

प्रकार है, उत्पादव्ययध्रौव्यकी अपेक्षा तीन प्रकार है। गतियोंकी अपेक्षा चार प्रकार है। औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदयिक, पारिणामिक भावोंकी अपेक्षा पांच प्रकार है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे इन छह दिशाओंकी ओर (विग्रहगतिमें) गमनकरनेके कारण छह प्रकार है। स्यात् अस्ति, स्यान्नास्ति आदि सप्त भंगोंकी अपेक्षा सात प्रकार है। आठ कर्मोंके प्रतिक्षणा आश्रवकी अपेक्षा आठ प्रकार है। नवपदार्थरूप स्वरूपकी अपेक्षा नौ प्रकार है। पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक-साधारण वनस्पति, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके भेदसे दश प्रकार है। इसप्रकार जीवके अनेक भेद हैं।

इसीप्रकार पुद्गल, धर्म, अधर्म आदि समस्त द्रव्योंके विकल्प समझने चाहिये। ये सब भेद स्थानांगमें निरूपण किये हैं। इस अंगकी पदसंख्या ब्यालीस हजार है।

४-समवायांग— इसमें द्रव्य क्षेत्र, कल, भावकी अपेक्षासे द्रव्योंमें जो परस्पर समानता हो सकती है-वह दिखलाई है। जैसे-धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य लोकाकाश और एक जीवके प्रदेश समान हैं यह द्रव्यकी अपेक्षा समानता हैं। जम्बूद्वीप, अप्रतिष्ठान नरक, नंदीश्वरकी बावड़िया और सर्वार्थसिद्धि विमान समान क्षेत्र हैं। यह क्षेत्रकृत समानता हैं। उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी दोनोका काल समान है। यह कालकी समानता है। क्षायिकज्ञान और क्षायिकदर्शन दोनो समान है। यह भावकृत समानता है। इसप्रकार समानता को निरूपण करनेवाला समवायांग है। इसकी पदसंख्या एक लाख चौसठ हजार है।

५-व्याख्याप्रज्ञप्लंग— जीव है अथवा नहीं है, इसप्रकार गणधरदेवने साठ-हजार प्रश्न भगवान् अरहंतदेवसे पूछे। उन सब प्रश्नोंका तथा उनके उत्तरोंका वर्णन इस अंगमें है। इसकी पदसंख्या दो लाख अट्ठाइस हजार है।

६-ज्ञातृकथांग— इसमें भगवान् तीर्थंकर परमदेव और गणधरदेवोंकी कथाओंका तथा उपकथाओंका वर्णन है। अन्य महापुरुषोंकी कथाएं भी उसीमें हैं। इसकी पदसंख्या पांच लाख छप्पन हजार है।

७-उपासकाध्ययनांग— इसमें श्रावकोंके समस्त आचरण, क्रिया, अनुष्ठान आदिका वर्णन है। इसकी पदसंख्या ग्यारह लाख सत्तर हजार है।

८-अतकृद्दशांग-प्रत्येक तीर्थकरके समयमें दश दश मुनीश्वर ऐसे होते हैं जो भयंकर उपसर्गोंको सहन कर समस्त कर्मोंका नाश कर मोक्ष जाते हैं। उनका वर्णन इस अंगमें है। संसारका अंत करनेवाले दश दश मुनियोंका वर्णन जिसमें हो-उसको अंतकृद्दशांग कहते हैं। इसकी पदसंख्या तेईसलाख अट्ठाइस हजार है।

९-अनुत्तरोपपादिकदशांग-प्रत्येक तीर्थकरके समयमें दश दश मुनि ऐसे होते हैं जो घोर उपसर्ग सहनकर समाधिमरणसे अपने प्राणोंका त्याग करते हैं और विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। उन सबका वर्णन इस अंगमें है। इसकी पदसंख्या बानवे-लाख चवालीस हजार है।

१०-प्रश्नव्याकरणांग-जो वस्तु खो गई है, या मुट्टीमें है या और कोई चिंताका विषय हो-उन सब प्रश्नोंको लेकर उनका पूर्ण यथार्थ व्याख्यान वा ममाधानका वर्णन इस अंगमें है। इसकी पदसंख्या तिरानवेलाख सोलह हजार है।

११-विपाकसूत्रांग-इसमें अशुभकर्मोंका उदय, शुभकर्मोंका उदय तथा उनका फल वर्णन किया है। इसकी पदसंख्या एक करोड़ चौरासीलाख है।

इसप्रकार ग्यारह अंगोंकी पदसंख्या चारकरोड़ पन्द्रहलाख दो हजार है। ऐसे श्रुतज्ञानको मैं नमस्कार करता हूँ।

दृष्टिवाद (बारहवे) अंगकी स्तुति--

परिकर्म च सूत्रं च स्तौमि प्रथमानुयोगपूर्वगते ।

सार्द्धं चूलिकया च पंचविधं दृष्टिवादं च ॥ ६ ॥

अन्वयाथ--(परिकर्म) परिकर्म (च) और (सूत्रं) सूत्र (च) और (प्रथमानुयोगपूर्वगते) प्रथमानुयोग (च) और पूर्वगत (च) और (चूलिकया सार्द्धं) चूलिका सहित-इसप्रकार (पंचविधं) पांचप्रकारके (दृष्टिवादं) दृष्टिवाद नामक बारहवें अंगकी (स्तौमि) स्तुति करता हूँ।

भावार्थः--दृष्टिवाद नामक बारहवे अंगके पांच भेद हैं। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका। इन सर्वको मैं नमस्कार करता हूँ।

१-परिकर्म-जिसमें गणितकी व्याख्याकर उसकी पूर्ण विचार किया हो उसको परिकर्म कहते हैं। इसके पांच भेद हैं-चंद्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप-

प्रज्ञप्ति, द्वीपसागरप्रज्ञप्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति ।

चन्द्रप्रज्ञप्ति—इसमें चंद्रमाकी आयु, गति, परिवार, विभूति आदिका वर्णन है । इसकी पदसंख्या छत्तीसलाख पांच हजार है ।

सूर्यप्रज्ञप्ति—इसमें सूर्यकी आयु, गति, परिवार, विभूति, ग्रहण आदिका वर्णन है । इसकी पदसंख्या पांचलाख तीन हजार है ।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति—इसमें जम्बूद्वीप संबंधी सात क्षेत्र, कुलाचल, पर्वत, सरोवर, नदियां आदिका वर्णन है । इसकी पदसंख्या तीनलाख पच्चीस हजार है ।

द्वीपसागरप्रज्ञप्ति—इसमें असंख्यात द्वीपसमुद्रोंका वर्णन है । उन द्वीपसमुद्रोंमें अकृत्रिम चैत्यालय, ज्योतिष, व्यंतर आदि सबका वर्णन है । इसकी पदसंख्या बावनलाख छत्तीस हजार है ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति—इसमें जीवाजीवादिक द्रव्योंका स्वरूप, उनका रूपी अरूपीपना आदिका वर्णन है । इसकी पदसंख्या चौरासीलाख छत्तीस हजार है ।

२—मृत्र—इसमें जीव कर्मोंका कर्त्ता है, उनके फलका भोक्ता है, शरीरप्रमाण है इत्यादि पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप निरूपण किया है तथा यह जीव पृथिवी, जल, अग्नि, वायुसे उत्पन्न नहीं हुआ है, अणुमात्र नहीं है, सर्वगत नहीं है इत्यादि रूपसे अन्य मलोके द्वारा माने हुए पदार्थोंके स्वरूपका खंडन है । इसकी पदसंख्या अठासीलाख है ।

३—प्रथमानुयोग —इसमें त्रेसठ शलाका पुरुषोंके चरित्र व पुराणोंका निरूपण है इसकी पदसंख्या पांच हजार है ।

४—पूर्वगत—इसमें समस्त पदार्थोंके उत्पाद, व्यथ, ध्रौव्य, आदिका वर्णन है । इसकी पदसंख्या पिन्धानवे करोड़ पचासलाख पांच है ।

५—चूलिकाके पांच भेद हैं—जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता, और आकाशगता ।

जलगता—इसमें, जलमे गमन करनेकेलिये तथा जलका स्तभन करनेकेलिये जो कुछ मंत्र, तंत्र वा तपश्चरण कारण है उन सबका वर्णन है । इसकी पदसंख्या दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दोसौ है ।

स्थलगता—इसमें पृथिवीपर गमनकरने के कारण मंत्र, तंत्र व तपश्चरणोंका वर्णन है । पृथिवी पर होनेवाली जितनी वास्तु विद्याएं हैं, मकान बनाने

आदिकी विद्याएँ हैं उन सबका वर्णन है । इसकी पदसंख्या दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दोसौ है ।

मायागता—इसमें इन्द्रजाल सम्बंधी मंत्र तंत्रों का वर्णन है । इसकी पदसंख्या दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दोसौ है ।

रूपगता—इसमें सिंह, व्याघ्र, हिरण आदिके रूप धारण करनेके मंत्र तंत्रों का वर्णन है तथा अनेक प्रकारके चित्रबनानेका वर्णन है । इसकी पदसंख्या दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दोसौ है ।

आकाशगता—इसमें, आकाशमें गमन करनेके कारण मंत्र तंत्र और तपश्चरणाका वर्णन है । इसकी पदसंख्या दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दोसौ है ।

आगे—यद्यपि पूर्वगतकी स्तुति कर चुके हैं तथापि उसके अनेक भेद हैं । इसलिये उन सब भेदों को कहते हुए उस पूर्वगतकी फिर भी स्तुति करते हैं ।

पूर्वगतं तु चतुर्दशधोदितमुत्पादपूर्वमाद्यमहम् ।
 आग्रायणीयमीडे पुरुवीर्यानुप्रवादं च ॥ १० ॥
 संततमहमभिवंदे तथास्तिनास्तिप्रवादपूर्वं च ।
 ज्ञानप्रवादसत्यप्रवादमात्मप्रवादं च ॥ ११ ॥
 कर्मप्रवादमीडेऽथ प्रत्याख्याननामधेयं च ।
 दशमं विद्याधारं पृथुविद्यानुप्रवादं च ॥ १२ ॥
 कल्याणनामधेयं प्राणावायं क्रियाविशालं च ।
 अथ लोकविंदुसारं वन्दे लोकाग्रसारपदं ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(पूर्वगतं तु) १२ वां दृष्टिवादांग अंतर्गत पूर्वगत (चतुर्दशधा) चौदह प्रकार का (उदितं) कहा गया है, उनमें (आद्यं) पहला (उत्पादपूर्वं) उत्पादपूर्वं व (आग्रायणीयं) आग्रायणीपूर्वको (अहं ईडे) मैं नमस्कार करता हूँ [स्तुति करता हूँ] (चपुरुवीर्यानुप्रवादं) और महान् वीर्यानुप्रवादपूर्वको (संततं) सदा (अहं अभिवंदे) मैं नमस्कार करता हूँ

१—पुरु=महत् (महान्) यह शब्द (विशेषण) हरेक पूर्वके पहले लगा लेना चाहिये ।

(तथा अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व) तथा अस्तिनास्तिप्रवादपूर्वको (च) और (ज्ञान-प्रवादसत्यप्रवाद) ज्ञानप्रवादपूर्वको, सत्यप्रवादपूर्वको (च) और आत्मप्रवादपूर्वको (अथ) तथा (कर्मप्रवाद) कर्मप्रवादपूर्वको (ईडे) वंदना करता हूं (च) और (प्रत्याख्याननामधेय) प्रत्याख्याननामपूर्वको (दशमं) दशवे (विधाधारं पृथुविद्यानुप्रवादं) ७०० क्षुद्रविद्या व ५०० महाविद्यावाले पृथुविद्यानुप्रवादपूर्वको (च) और (कल्याणनामधेय) कल्याणवादपूर्व नामक (प्राणावायं) प्राणावायपूर्व (च) और (क्रियाविशालं) क्रियाविशालपूर्व (अथ) तथा (लोकाप्रसारपदं) लोकमें श्रेष्ठ सारभूतसुखको देनेवाले (लोकविन्दुसारं) लोकविन्दुसार पूर्वको (वंदे) नमस्कार करता हू ।

भावार्थ—पूर्वगतके चौदह भेद हैं । उनके नाम ये हैं—

उत्पादपूर्व, अप्रायणीयपूर्व, वीर्यानुवादपूर्व, अरितनास्तिप्रवादपूर्व, ज्ञानप्रवादपूर्व, सत्यप्रवादपूर्व, आत्मप्रवादपूर्व, कर्मप्रवादपूर्व, प्रत्याख्यानपूर्व, विद्यानुवादपूर्व, कल्याणप्रवादपूर्व, प्राणावायपूर्व, क्रियाविशालपूर्व, लोकविन्दुसार ।

उत्पादपूर्व—इसमें जीवादिक पदार्थोंके उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यस्वरूप धर्मोंका वर्णन है । इसकी पद संख्या एक करोड़ है ।

आप्रायणीयपूर्व—इसमें प्रधान-मुख्य पदार्थोंका निरूपण है । दुर्नय, सुनय और द्रौव्योंका वर्णन है , इसकी पद संख्या छयानवे लाख है ।

३-वीर्यानुवादपूर्व — इसमें चक्रवर्ती, इन्द्र, धरणेन्द्र, केवली आदिकी सामर्थ्यका माहात्म्य दिखलाया है । इसकी पदसंख्या सत्तरलाख है ।

४-अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व— इसमें अनेक प्रकार से छहों द्रव्योंके अस्तित्व और नास्तित्व आदि कर्मोंका वर्णन है । इसकी पद संख्या साठ लाख है ।

५-ज्ञानप्रवादपूर्व—इसमें पाँचों ज्ञानोंका तथा तीनों मिथ्या ज्ञानोंके स्वरूपका वर्णन है । उसके प्रगट होने के कारण और उनके आधार वा पात्र (जिनसे वह ज्ञान होता है) आदिका वर्णन है । इसकी पद संख्या निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे है ।

६-सत्यप्रवाद—इसमें वचनगुप्तिका वर्णन है, वचनोका संस्कार किस प्रकार होता है, उसका वर्णन है । कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानोंका वर्णन है । जिनके बोलनेकी शक्ति उत्पन्न हो गई है ऐसे दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय,

पचेन्द्रिय जीवोके शुभ-अशुभ वचनोके प्रयोगोका वर्णन है। इसकी पद संख्या एक करोड़ छह है।

७—आत्मप्रवादपूर्व—इसमें जीवके ज्ञान, सुख और कर्तृत्व आदि धर्मोका वर्णन है। इसकी पद संख्या-छब्बीस करोड़ है।

८—कर्मप्रवादपूर्व—इसमें कर्मोका बंध, उदय, उदीयणा, उपशम और निर्जरा आदिका वर्णन है। इसकी पद संख्या एक करोड़ अस्सीलाख है।

९—प्रत्याख्यानपूर्व—इसमें द्रव्य और पर्यायो के त्यागका वर्णन है। उपवास-करना, व्रत, समिति, गुप्तिपालन करना, अतिक्रमण प्रतिलेखन, विराधना, विशुद्धि आदिका वर्णन है। इसकी पदसंख्या चौबीसलाख है।

१०—विद्यानुवादपूर्व—इसमें सातसौ लघुविद्या, पांचसौ महाविद्याओंका वर्णन है। आठो महानिमित्तोका वर्णन है तथा सब विद्याओंका साधनका वर्णन है। इसकी पदसंख्या एक करोड़ दस लाख है।

११—कल्याणवादपूर्व—इसमें तीर्थकर परमदेव, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण आदिके गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणक आदिका वर्णन है। इसकी पद-संख्या छब्बीस करोड़ है।

१२—प्राणावायुपूर्व—इसमें प्राण, अपानके विभाग का वर्णन है; आयुर्वेद शास्त्र, मन्त्रशास्त्र, गारुडीविद्या आदिका वर्णन है। इसकी पदसंख्या तेरह करोड़ है।

१३—क्रियाविशाल—इसमें बहत्तर कलाओंका वर्णन है तथा छंदशास्त्र और अलंकार शास्त्र का वर्णन है। इसकी पदसंख्या नौ करोड़ है।

१४—लोकत्रिदुसार—इस लोकमें सबसे प्रधान और सारभूत जो मोक्ष है, उसके सुख, साधन और उसको प्राप्त करने के लिये कहे गये समस्त अनुष्ठानोंका वर्णन है। इसकी पदसंख्या बारह करोड़ पचास लाख हैं।

इसप्रकार पूर्वगतके चौदह भेद हैं इन सबको मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ! इनकी वंदना करता हूँ और स्तुति करता हूँ। इसप्रकार चौदह पूर्वोकी स्तुति की।

पूर्वोके अधिकार तथा प्रत्येक अधिकार के प्राभूत आदिका वर्णन—

दश च चतुर्दश चाष्टावष्टादश च द्वयोर्द्विपङ्कं च ।

षोडश च विंशतिं च त्रिंशतमपि पञ्चदश च तथा ॥ १४ ॥

[१२८]

वस्तूनि दश दशान्येष्वनुपूर्वं भाषितानि पूर्वाणाम् ।

प्रतिवस्तु प्राभृतकानि त्रिंशतिं त्रिंशतिं नौमि ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—उत्पादपूर्व के (दश) दश अधिकार हैं (च चतुर्दश और आग्रायणीयपूर्वके चौदह अधिकार हैं (च अष्टौ) तथा वीर्यानुवादके आठ (च अष्टादश) अस्तिनास्तिप्रवादके अठारह (च द्वयोः द्विषडङ्ग) ज्ञानप्रवाद के बारह, सत्यप्रवाद के बारह (च षोडश) आत्मप्रवादके सोलह (च त्रिंशतिं) कर्मप्रवादके बीस (अपि त्रिंशतं) प्रत्याख्यानपूर्वके तीस (च पञ्चदश) विद्या-नुवादके पन्द्रह, (तथा अन्येषु पूर्वाणं अनुपूर्वं दश दश वस्तूनि भाषितानि) क्रम से कल्याणवादके दश, प्राणावाय के दश, क्रिया विशाल के दश और लोकविदुके दश अधिकार कहे गये हैं । (प्रतिवस्तु) एक एक वस्तु (अधिकार) में (त्रिंशतिं त्रिंशति) बीस बीस (प्राभृतकानि) प्राभृतक होते हैं--उनको (नौमि) नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—उत्पादपूर्व आदि १४ पूर्वो के वस्तु (अधिकारो) की संख्या क्रमसे १०, १४, ८, १८, १२, १२, १६, २०, ३०, १५, १०, १०, १० १० है । ये सब मिलकर १९५ अधिकार होते हैं । इन सब अधिकारों को वस्तु कहते हैं । एक एक वस्तु (अधिकार) में बीस बीस प्राभृत होते हैं । इस प्रकार १९५ अधिकारों में ३९०० प्राभृत होते हैं तथा एक एक प्राभृत में चौबीस चौबीस प्राभृत प्राभृत होते हैं । सब प्राभृत प्राभृतों की संख्या ९३६०० होती है ।

पूर्व १४, वस्तु १९५, प्राभृत ३९०० प्राभृत प्राभृत ९३६०० होते हैं । इन सबको मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

आग्रायणीयपूर्वके १४ अधिकारोंके नाम—

पूर्वातं ह्यपरान्त ध्रुवमध्रुवच्यवनलब्धिनामानि ।

अध्रुवसंप्रणिधिं चाप्यर्थ भौमावयाद्यं च ॥ १६ ॥

सर्वार्थकल्पनीयं ज्ञानमतीतं त्वनागतं कालं ।

सिद्धिमुपाध्यं च तथा चतुर्दशवस्तूनि द्वितीयस्य ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ— (द्वितीयस्य) दूसरे आग्रायणीय पूर्वक (चतुर्दशवस्तूनि) चौदह अधिकार हैं— (पूर्वान्तं) पूर्वान्त (हि अपरान्तं) अपरान्त (ध्रुवमध्रुव-

च्यवनलब्धिनामानि) ध्रुव, अध्रुव, च्यवनलब्धि (अध्रुवसंप्रणिधि) अध्रुवसंप्र-
 णिधि (अपि च अर्थ) अर्थ (च भौमावयाद्य) भौमावय (सर्वार्थकल्पनीयं)
 सर्वार्थकल्पनीय (ज्ञानं) ज्ञान (अतीतं तु अनागतं कालं) अतीतकाल और
 अनागतकाल (सिद्धि) सिद्धि (तथा च उपाध्यं) और उपाध्य । ये नाम
 आचार्य परम्परा से चले आ रहे हैं । इनको भी मैं नमस्कार करता हूँ ।

आप्रायणीयपूर्वक के ५ वें अधिकार 'च्यवनलब्धि' के चौथे अध्याय

'कर्म प्रकृति' के २४ अनुयोगों के नाम—

पंचमवस्तुचतुर्थप्राभृतकस्यानुयोगनामानि ।

कृतिवेदने तथैव स्पर्शनकर्मप्रकृतिमेव ॥ १८ ॥

बंधननिबंधनप्रक्रमानुपक्रममथाभ्युदयमोक्षौ ।

संक्रमलेश्ये च तथा लेश्यायाः कर्मपरिणामौ ॥ १९ ॥

सातसमातं दीर्घं ह्रस्वं भवधारणायसंज्ञं च ।

पुरुपुद्गलात्मनाम च निधत्तमनिधत्तमभिनौमि ॥ २० ॥

सनिकाचितमनिकाचितमथ कर्मस्थितिकपश्चिमस्कंधौ ।

अल्पबहुत्वं च यजे तद्द्वाराणां चतुर्विंशम् ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ— (पंचमवस्तुचतुर्थप्राभृतकस्यानुयोगनामानि) आप्रायणीय-
 पूर्वके पांचवें अधिकार 'च्यवनलब्धि' के चौथे अध्याय 'कर्मप्रकृति' के २४
 अनुयोगों के नाम ये हैं—(कृतिवेदने) कृति, वेदना, (तथैव स्पर्शनकर्मप्रकृतिमेव)
 उसी प्रकार स्पर्शन, कर्म, प्रकृति, (बंधननिबंधनप्रक्रमानुपक्रमं) बंधन; निबंधन
 प्रक्रम, अनुपक्रम, (अथ) और (अभ्युदयमोक्षौ) अभ्युदय, मोक्ष (च) तथा (संक्र-
 मलेश्ये) संक्रम, लेश्या (द्रव्य), (तथा लेश्यायाः कर्मपरिणामौ) तथा भावलेश्या,
 (सातसमातं) सातसमात, (दीर्घं) दीर्घ, (ह्रस्वं) ह्रस्व (च भवधारणीयसंज्ञं) तथा
 भवधारणीय (च पुरुपुद्गलात्मनाम) और पुरुपुद्गलात्म, (निधत्तमनिधत्तं) निध-
 त्तमनिधत्त, (सनिकाचितमनिकाचितं) सनिकांचितमनिकांचित, (अथ) तथा
 (कर्मस्थितिकपश्चिमस्कंधौ) कर्मस्थितिक, पश्चिमस्कंध, (च अल्पबहुत्वं)
 और अल्पबहुत्व (तद्द्वाराणां चतुर्विंशं) ये चौबीसों अनुयोग चतुर्थप्राभृत के
 द्वारसमान हैं—इनको (अभिनौमि-यजे) भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ और
 पूजा करता हूँ ।

भावार्थ--ऊपर कहे अनुसार २४ अनुयोग 'कर्मप्रकृति' के हैं। इनसे चतुर्थ प्राभृत में प्रवेश हो जाता है। इनके सिवाय एक पच्चीसवां 'सर्वानुयोग' नामका अनुयोग और है। इसमें जो कथन है वह समस्त अनुयोगो के लिये उप-योगी है। इसलिये इसका नाम 'सर्वानुयोग' है। इसके होने से ही सबकी परि-पूर्णता होती है। इस प्रकार ये २४ अनुयोग अथवा २५ अनुयोग आग्रायणीय पूर्वके पाचवे 'व्यवनलब्धि' नामके अधिकारके कर्मप्रकृति नामक चौथे प्राभृत कहे जाते हैं। इनको मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ।

द्वादशांग श्रुतज्ञानकी पद संख्या—

कोटीनां द्वादशशतमष्टापंचाशतं सहस्राणाम् ।

लक्षत्र्यशीतिमेव च पंच च वंदे श्रुतपदानि ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ--(कोटीनां द्वादशशत च लक्षत्र्यशीतिं अष्टापंचाशतं सहस्राणां च पंच एव श्रुतपदानि वंदे) एक सौ बारह करोड़ तिरासीलाख अष्टावन हजार पाच श्रुतज्ञान के पदों को नमस्कार करता हूँ। (११२८३५८००५)

एक एक पदमें कितने कितने अक्षर होते हैं ?

षोडशशतं चतुस्त्रिंशत्कोटीनां त्र्यशीतिलक्षाणि ।

शतसंख्याष्टासप्ततिमष्टाशीतिं च पदवर्णान् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ--(षोडशशतं चतुस्त्रिंशत् कोटीनां त्र्यशीतिलक्षाणि शतसंख्या-ष्टासप्ततिं च अष्टाशीतिं पदवर्णान् 'वंदे') सोलह सौ चौतीस करोड़, तिरासीलाख अठत्तर सौ अठासी अक्षर अर्थात् सोलह अरब चौतीस करोड़ तिरासीलाख सात हजार आठसौ अठासी अक्षर एक एक मध्यमपदके होते हैं—उनको नमस्कार करता हूँ।

भावार्थ--पद तीन प्रकार के होते हैं--अर्थ पद, प्रमाणपद और मध्यम पद। कहने वालेका अभिप्राय जितने अक्षरो से पूर्ण हो जाय उतने अक्षरों का एक पद अर्थ पद होता है। इस पद के अक्षर नियत नहीं हैं। किसी पदमें अधिक अक्षर होते हैं और किसी में कम। जैसे--'अग्नि लाओ' इसमें थोड़े अक्षर हैं और 'इस सफेद गायको अपनी जगह पर बाध दो' इसमें अधिक अक्षर हैं।

आठ अक्षर वा इससे अधिक अक्षरों के समुदायको प्रमाणपद कहते हैं। इससे अंगचाह्य श्रुतकी संख्या कही जा सकती है। जैसे--अनुष्टुप श्लोकके प्रत्येक

चरणमें आठ अक्षर होते हैं ।

अंगप्रविष्ट श्रुतकी संख्या के निरूपण करनेवाले जो पद है-उनको मध्यम-पद कहते हैं । इस श्लोकमें उन्हीं मध्यम पदके अक्षरोंकी संख्या का प्रमाण कहते हैं । १६३४८३०७८८८ अक्षर एक एक मध्यम पदके होते हैं ।

समस्त श्रुतज्ञानके अक्षरों की संख्या 'एकट्टीप्रमाण' है । अर्थात् १८४४-६७४४०७३७०९५५१६१६ इतने अक्षर हैं ।

इसमें मध्यमपदके अक्षरों का भाग देना चाहिये, जो फल आवे वह द्वाद-शांगकी पदसंख्या समझनी चाहिये । तथा जो अक्षर बाकी रहते हैं वे अक्षर अंगबाह्य श्रुतज्ञानके समझने चाहिये । जो अक्षर बाकी रह जाते हैं उनसे मध्यम पद नहीं बनता । इसीलिये वे अक्षर अंगबाह्य के समझे जाते हैं । उनकी संख्या आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एकसौ पचहत्तर है । (८०१०८१-७५) उस अंगबाह्यके अनेक भेद हैं ।

अंगबाह्यके भेदोकी स्तुति--

सामायिकं चतुर्विंशतिस्तवं वंदना प्रतिक्रमणम् ।

वैनयिकं कृतिकर्म च पृथुदशवैकालिकं च तथा ॥ २४ ॥

वरमुत्तराध्ययनमपि कल्पव्यवहारमेवमभिवंदे ।

कल्पाकल्पं स्तौमि महाकल्पं पुण्डरीकं च ॥ २५ ॥

परिपाट्या प्रणिपतितोऽस्म्यहं महापुण्डरीकनामैव ।

निपुणान्यशीतिकं च प्रकीर्णकान्यंगबाह्यानि ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ — (अंगबाह्यानि निपुणानि प्रकीर्णकानि) अंगबाह्यश्रुतज्ञानके मूढमार्थके प्रतिपादक प्रकीर्णक (भेद) चौदह है वे इसप्रकार हैं—(सामायिकं) सामायिक (चतुर्विंशतिस्तवं) चतुर्विंशतिस्तव (वंदना) वंदना (प्रतिक्रमण) प्रतिक्रमण (वैनयिकं) वैनयिक (च कृतिकर्म) कृतिकर्म (च तथा पृथुदशवैकालिकं) दशवैकालिक (अपि वरं उत्तराध्ययन) उत्तराध्ययन (एवं कल्पव्यवहारं) कल्पव्यवहार को (अभिवंदे) भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ । (कल्पाकल्पं) कल्पाकल्प (महाकल्पं) महाकल्प (च पुण्डरीकं) पुण्डरीक की (स्तौमि) स्तुति करता हूँ । (महापुण्डरीकनामैव) महापुण्डरीक (च अशीतिकं) और अशीतिक को (अह) मैं (परिपाट्या) क्रमसे (प्रणिपतितोऽस्मि) नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—अंगवाह्य श्रुतज्ञानके ऊपर वाले १४ भेद हैं। इन्हीं को प्रकीर्णक भी कहते हैं। इनमें पदार्थों का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है। ऐसे इन १४ प्रकीर्णकोंको मैं बड़ी भक्ति, विनय के साथ वंदना करता हूँ।

१-सामायिक-गृहस्थ वा मुनि जो नियत काल तक अथवा अनियत काल तक समता धारण करते हैं, उसको सामायिक कहते हैं। उसका जिसमें वर्णन हो-वह सामायिक प्रकीर्णक है।

२-चतुर्विंशतिस्तव-वृषभादि चौबीस तीर्थङ्करोंके आठ प्रातिहार्य, चौतीस अतिशय, चिह्न तथा अनंतचतुष्टयआदिकी स्तुति करना स्तव है। उसका जिसमें वर्णन हो वह चतुर्विंशतिस्तव है।

३-वंदना-पंच परमेष्ठियोंमें से प्रत्येक की अलग-अलग वंदना करना वंदना है। उसका जिसमें वर्णन हो-वह वंदना है।

४-प्रतिक्रमण-जिसमें ७ प्रकारके प्रतिक्रमणका वर्णन हो, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं।

दैवसिकप्रतिक्रमण-दिनके दोषोंको निराकरण करने वाला प्रतिक्रमण।

रात्रिक प्रतिक्रमण-रात्रिके दोषोका निराकरण करनेवाला प्रतिक्रमण।

पाक्षिकप्रतिक्रमण-पन्द्रह दिनके दोषोंका निराकरण करनेवाला प्रतिक्रमण।

चातुर्मासिकप्रतिक्रमण-जिसमें ४ मास के दोषोंका निराकरण हो।

साँवत्सरिकप्रतिक्रमण-जिसमें एक वर्षके दोषोंका निराकरण हो।

ऐर्यापथिकप्रतिक्रमण-जिसमें ईर्यापथ सम्बंधी दोषोंका निराकरण हो।

उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण-जिसमें समस्त पर्यायसम्बंधी दोषोंका निराकरण किया जाय। इसप्रकार ७ प्रकारके प्रतिक्रमणों का वर्णन जिसमें हो-उसको प्रतिक्रमण प्रकीर्णक कहते हैं।

५-वैनयिक--जिसमें ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय, तपविनय और उपचारविनयों का वर्णन हो-उसको वैनयिक प्रकीर्णक कहते हैं।

६-कृतिकर्म-जिसमें दीक्षा देने और दीक्षा लेने का विधान हो-उसको कृतिकर्म कहते हैं।

७-दशवैकालिक-द्रुम पुष्पित आदि दश दश अधिकारों के द्वारा इसमें मुनियोके समस्त धाचरणोंका वर्णन है।

८-उत्तराध्ययन-इसमें अनेकप्रकार के उपसर्ग सहन करने और उनको सहन करने के फलोंका वर्णन है ।

९-कल्पव्यवहार-इसमें मुनियोंके योग्य आचरणोंका तथा उन आचरणों से न्युत होने पर योग्य प्रायश्चित्तका वर्णन है ।

१०-कल्पाकल्प-इसमें गृहस्थ और मुनियोंके योग्य तथा अयोग्य आचरणोंका वर्णन हो । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा वा विशेष समयके अनुसार योग्य आचरणोंका निरूपण इसमें किया गया है ।

११-महाकल्प-दीक्षा, शिक्षा, गुरुपोषण, आत्म संस्कार, भावना, उत्तमार्थ ये ६ कालभेद माने हैं, इनके अनुसार इसमें मुनियों के आचरणोंका निरूपण है ।

१२-पुंडरीक-इसमें भवनवासी, व्यंतर आदि देवोंमें उत्पन्न होनेके कारणोंका वर्णन है ।

१३-महापुंडरीक-इसमें देव, देवांगना, अप्सरा आदि स्थानों में उत्पन्न होने के कारणोंका वर्णन है ।

१४-अशीनिक-इसमें मनुष्यों की आयु और सामर्थ्यके अनुसार स्थूल दोष और सूक्ष्म दोषोंके प्रायश्चित्तका वर्णन है ।

इसप्रकार ये १४ प्रकीर्णक कहलाते हैं । इनमें अत्यंत सूक्ष्म पदार्थोंका वर्णन है इसीलिये इन्हें निपुण कहते हैं । ये अगब्राह्म इतने ही हैं । न इनसे कम हैं और न इनसे अधिक हैं । ऐसे इस अगब्राह्म को मैं नमस्कार करता हूँ तथा स्तुति करता हूँ ।

अवधिज्ञानकी रतुति—

पुद्गलमर्यादोक्तं प्रत्यक्षं सप्रभेदमवधिं च ।

देशावधिपरमावधिसर्वावधिभेदमभिवंदे ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(पुद्गलमर्यादोक्तं) पुद्गल [रूपीपदार्थ-मूर्तिक] ही है मर्यादा जिसकी अर्थात् जो रूपीपदार्थोंको ही विषय करता हो-जानता हो, ऐसा शास्त्रों में वर्णित (प्रत्यक्षं) प्रत्यक्ष [मति श्रुतज्ञान की तरह इन्द्रिय, मनकी सहायता नहीं होने वाला] (च सप्रभेद) भेद-प्रभेद सहित अर्थात् (देशावधिपरमावधि-

[१३४]

सर्वावधिभेद) देशावधि, परमावधि, सर्वावधि भेद सहित (अवधि) अवधिज्ञान को (अभिवंदे) भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—जो अधिकतर नीचेके विषयको जाने, उसको अवधि कहते हैं । अथवा जिस ज्ञानका विषय पुद्गल ही हो, उसको अवधिज्ञान कहते हैं । अवधिज्ञान रूपी पदार्थको ही जानता है अन्यको नहीं । यह अवधिज्ञान प्रत्यक्ष है । केवल आत्मा से उत्पन्न होता है । मतिज्ञान श्रुतज्ञानके समान इन्द्रियोंसे उत्पन्न नहीं होता है और इसीलिये परोक्ष नहीं है । इस अवधिज्ञानके अनेक भेद हैं और वे सब अबाधित हैं । देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ये तीन मुख्य भेद हैं । इनमें से परमावधि और सर्वावधि चरमशरीरी मुनियोंके ही होता है तथा देशावधि अवधिज्ञान सबके होता है । देशावधि और परमावधिमें 'जघन्य, मध्यम उत्कृष्ट आदि अनेक भेद हैं, क्योंकि अवधिज्ञानावरण कर्मोंका क्षयोपशम जैसा जैसा बढ़ता जाता है वैसा ही यह ज्ञान भी बढ़ता जाता है । सर्वावधिमें एक उत्कृष्ट भेद ही होता है, क्योंकि यह सर्वावधिज्ञान समस्त अवधिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशमसे ही प्रगट होता है । ऐसे इस अवधिज्ञानको मैं नमस्कार करता हूँ ।

मनःपर्ययज्ञानकी स्तुति—

परमनिस स्थितमर्थ मनसा परिविद्य मंत्रिमहितगुणम् ।

ऋजुविपुलमतिविकल्पं स्तौमि मनःपर्ययज्ञानम् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(परमनिस) दूसरो के मनमें (स्थितं) स्थित (अर्थ) अर्थ को-पदार्थको (मनसा) मनके द्वारा (परिविद्य) जानकर [जाननेवाले] और (मंत्रिमहितगुणं) मुनीश्वरों से जो गुण [ज्ञान] पूजित है (ऋजुविपुलमतिविकल्प) ऋजुमति और विपुलमति जिसके भेद हैं ऐसे (मनःपर्ययज्ञानं) मनः-पर्ययज्ञानकी (स्तौमि) स्तुति करता हूँ ।

भावार्थ—दूसरोंके मनमें स्थित पदार्थको जो प्रत्यक्ष जानले, उसको मनः-पर्ययज्ञान कहते हैं । यह जन्ममरणरूप, अपार संसार एक प्रकार का दुर्वार विष है । उस संसाररूपी विषको दूर करने में ऐसा अपराजित मंत्र मुनियोंके ही पास रहता है । इसलिये उन मुनियों को मंत्री कहते हैं । ऐसे मुनिराज भी विशेष बढ़ते हुये चारित्रके साथ रहनेवाले इस मनःपर्ययज्ञानकी पूजा वा आराधना करते हैं । मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे केवल आत्माके द्वारा

दूसरेके मनमें ठहरे हुये पदार्थोंको प्रत्यक्ष जान लेना मनःपर्ययज्ञान है। यह मनःपर्ययज्ञान उत्तम मुनियोंके ही होता है !

यहाँपर कदाचित कोई यह प्रश्न करे कि जब यह ज्ञान दूसरे के मन के सम्बन्ध से होता है तो फिर उसको अतीन्द्रियज्ञान नहीं कह सकते। क्योंकि इस ज्ञानके द्वारा दूसरे के मनमें ठहरे हुए पदार्थ ही जाने जाते हैं। अतएव मनका सम्बन्ध होने से इसको इन्द्रियजन्य ज्ञान कहना चाहिये ? यहाँ पर यह प्रश्न ठीक नहीं है क्योंकि 'बादलमें चन्द्रमा देखो' इस वाक्यसे जो ज्ञान होता है उसमें चन्द्रमाका ज्ञान करानेवाला बादल नहीं है, किन्तु चन्द्रमा ही स्वयं अपना ज्ञान कराता है। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न होने में दूसरेका मन कारण नहीं है। जिन पदार्थोंको मनःपर्ययज्ञान जानता है, वे पदार्थ दूसरेके मनमें ठहरे हैं। मन केवल उन पदार्थों का आधार है इसलिये वह ज्ञान उत्पन्न होने में कारण नहीं है। इससे स्पष्ट मालूम हो जाता है कि मनःपर्यय मनसे उत्पन्न नहीं होता। किन्तु आत्मासे उत्पन्न होता है। मनःपर्ययज्ञानावरण और वीर्या-तराय कर्मके विशेष क्षयोपशम होनेसे ही यह मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न होता है। अतएव यह ज्ञान अतीन्द्रिय ही है।

इस मनःपर्ययज्ञानके दो भेद हैं—एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति जिसके मन वचन काय सरल हैं ऐसे पुरुषके मनमें ठहरे हुये पदार्थोंको प्रत्यक्ष जान लेना ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान है। तथा जिसके मन वचन काय सरल हों वा कुटिल हों ऐसे पुरुषके मनमें ठहरे हुये पदार्थोंको जान लेना विपुलमति मनःपर्ययज्ञान है। ऐसे मनःपर्ययज्ञानकी मैं स्तुति करता हूँ।

केवलज्ञानकी स्तुति—

क्षायिकमनन्तमेकं त्रिकालसर्वार्थयुगपदवभासम् !

सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम् ॥ २९ ॥

जन्वयार्थ—(क्षायिकं) क्षायिक (अनन्त) अनन्त (एकं) एक (त्रिकालसर्वार्थयुगपदवभास) त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको एकसाथ जानने वाले (सकलसुखधाम) अनन्त सुखके स्थान रूप (केवलज्ञानं) केवलज्ञान को (अहं) मैं (सततं) सदा (वन्दे) वंदना करता हूँ।

भावार्थ—यह केवलज्ञान क्षायिक है, क्योंकि समस्त ज्ञानावरणकर्मके

अत्यंत क्षय होने से उत्पन्न होता है अथवा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चारों घातिया कर्मोंके अत्यन्त क्षय होने से केवलज्ञान प्रगट होता है अतः इसको क्षायिक कहते हैं। इसके सिवाय यह केवलज्ञान अनन्त है। इसका कभी नाश नहीं होता। अनंतकाल तक बराबर बना रहता है। तथा एक है, अद्वितीय है। इसको किसकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती तथा न इसका कोई मेद है यह ज्ञान अमेदरूप है। यह ज्ञान भूत, भविष्यत और वर्तमान तीन कालोंमें होनेवाले समस्त पदार्थ और उनकी समस्त पर्यायोंको एक साथ जानता है। यह ज्ञान अनंत सुखका स्थान है। केवलज्ञानके होते ही अनंत सुखकी प्राप्ति अवश्य होती है, ऐसे केवलज्ञानकी मैं सदा वदना करता हूँ।

स्तुतिके फलकी प्रार्थना -

एवमभिष्टुवतो मे ज्ञानानि समस्तलोकचक्षुषि ।

लघु भवताज्ज्ञानद्धिं ज्ञानफलं सौख्यमच्यवनम् ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(एवं) इसप्रकार (समस्तलोकचक्षुषि) लोकाकाशके समस्त पदार्थोंको जानने के लिये नेत्र-समान (ज्ञानानि) पांचों ज्ञान (मे) मुझे (अभिष्टुवतः) अभीष्ट होते हुये अर्थात् मैंने स्तुति की है अतः उन ज्ञानसे (अच्यवनं) नाश रहित—अविनाशी (सुखं) सुख और (ज्ञानद्धिं ज्ञानफलं परम प्रकर्षताको प्राप्त ज्ञान-फल अतीन्द्रियज्ञान (लघु) शीघ्र (भवतात) प्राप्त हो।

भावार्थ—ये पांचों ही ज्ञान लोकाकाशके समस्त पदार्थोंको जानने के लिये नेत्रके समान हैं। इसी लिये मैंने इन ज्ञानोंकी स्तुति की है। ज्ञानकी स्तुति करने से मुझे बहुत शीघ्र उस अनंत सुखकी प्राप्ति हो—ये अनंत सुख कभी नष्ट नहीं होता तथा जो सुख ज्ञान पैदा होता है। इन्द्रियोंसे उत्पन्न नहीं होता अथवा पुष्पमाला, भोजन, स्त्री आदि बाह्य पदार्थोंसे उत्पन्न नहीं होता। केवल ज्ञानमय आत्मासे उत्पन्न होता है। तथा जिस सुखमें ज्ञानकी अनेक अद्वियां भरी हुई हैं। अनंतदर्शन और अनंतवीर्य जिस अनंत सुखके साथ हैं, ऐसा अनंत सुख मुझे शीघ्र ही प्राप्त हो।

इसके आगे-कायोत्सर्ग करना चाहिये—

इच्छामि भंते ! सुदभक्तिकाउरसगो कओ तस्स आलोचेउं अंगो-
वंगपइण्णए पाहुडयपरियम्मसुत्तपढमाणिओगपुव्वगयचूलिया चैव सुत्त-

त्थयथुद्धम्मकहाइयं णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्ख-
क्खओ, कम्मक्खओ वोहिलाओ, सुगइगमणं, समाहिमरणं, जिणगुण
संपति होउ मज्झं ।

हे भगवन् ! श्रुतभक्ति करने के बाद मैंने जो कायोत्सर्ग किया है और
उसमें जो दोष लगे हैं उनकी मैं आलोचना करने की इच्छा करता हूँ । श्रुतज्ञान
के जो अंग और उपांग हैं, प्रकीर्णक, प्राभृतक, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व-
गत, चूलिका, सूत्रार्थ, स्तुति, धर्मकथा आदि हैं, उन सबकी मैं सदाकाल अर्चा
करता हूँ सबकी पूजा करता हूँ, सबकी वदना करता हूँ और सबके लिये नमस्कार
करता हूँ, । ऐसा करने से मेरे समस्त दुखोंका नाश हो, समस्त कर्मोंकी नाश हो,
मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, सुगति प्राप्त हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो और भगवान
जिनेन्द्रदेवके अननतगुणोंकी प्राप्ति हो ।

॥ इति श्रुतभक्तिः ॥

अथ श्रुतभक्तिः (प्राकृत)

सिद्धवरसासणाणं सिद्धाणं कम्मचक्रमुक्काणं । कण्ठुण णमुक्कारं
भत्तीए णमामि अंगाइं ॥ १ ॥ आयारं सुइयडं ठाणं समवाय विहायप-
एणत्ती । णाणाधम्मकहाओ उवासयाणं च अज्झयणं ॥ २ ॥ वंदे अंत-
यडदसं अणुत्तरदसं च पण्हवायरणं । एयारसमं च तहा विवायसुचं णम-
सामि ॥ ३ ॥ परियम्म सुत्तपठमाणुओ य पुव्वगयचूलिया चेव । पवरवर
दिट्ठिवादं तं पंचविहं णिण्वंदामि ॥ ४ ॥ उप्पाय पुव्वमग्गायणीय विरि-
यत्थिणत्थि य पवाइं । णाणासच्चपवाइं आदा कम्मप्पवाइं च ॥ ५ ॥
पच्चक्खाणं विज्जाणुवाय कल्लाणणाम वरपुव्वं । पाणावायं किरियाविसाल-
मथलोयत्रिंदुसारसुदं ॥ ६ ॥ दसचउदस अठ्ठारस चारस तह य दोसु
पुव्वेसु । सोलसवीसं तीसं दसमम्मिय पण्णरसवत्थु ॥ ७ ॥ ऐदेसिं
पुव्वाणं जावदियो वत्थुसंगहो भणियो ॥ सेसाणं पुव्वाणं दसदसवत्थु
पाणिवंदामि ॥ ८ ॥ एक्केकम्मि य वत्थु वीसं वीसं च पाहुडा भणिया ।

[१३८]

विसमसमा विय वत्थू सव्वे पुण पाहुडेहि समा ॥ ९ ॥ पुव्वाणं वत्थुसयं
 पंचाण वदी हवंति वत्थूओ ॥ पाहुड तिणिसहस्सा णवय सया चउद-
 साणांपि ॥ १० ॥ एवमए सुदपवरा भत्तीरायेण संथुया तच्चा ॥ सिग्घं
 मे सुदलाहं जिणवरवसहा पयच्छंतु ॥ ११ ॥ इच्छामि भंते ! सुदभत्ति-
 काउस्सग्गो कओ तस्स आलोचेउ अंगोवंगपइण्णए पाहुडयपरियम्मसुत्त-
 पढमा णिओगपुव्वगयचूलिया चेव सुत्तथयथुइ धम्मकहाइयं णिच्चकालं
 अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, वोहिलाहो,
 सुगइगमणं, समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

इति श्रुतभक्तिः ।

चारित्रभक्तिः

* येनेन्द्रान्भुवनत्रयस्य विलसत्केयूरहारांगदान् ।
 भास्वन्मौलिमणिप्रभाप्रविसरोत्तुगोत्तमाङ्गान्तान् ॥
 स्वेषां पादपयोरुहेषु मुनयश्चक्रुः प्रकामं सदा ।
 वदे पंचतयं तमद्य निगदन्नाचारमभ्यर्चितम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिस आचरण द्वारा (विलसत्केयूरहारांगदान्)
 जिनके शरीर केयूर, हार और बाजूबंद आदि आभूषणोंसे सुशोभित हैं (भास्व-
 न्मौलिमणिप्रविसरोत्तुगोत्तमाङ्गान्) जिनके मस्तक दैदीप्यमान मुकुटकी मणियों
 की कातिके फैलाव से बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं ऐसे (भुवनत्रयस्य इन्द्रान्)
 तीनों लोकोंके समस्त इन्द्रोंको (मुनयः) जिन मुनियोंने (स्वेषां पादपयोरु-
 हेषु) अपने चरणकमलोंमें (नतान् चक्रुः) नम्रीभूत कर लिया ऐसे (अभ्य-
 रचित) अत्यंत पूज्य (तम् पंचतयं) उन पंचाचारोंके (निगदन्) स्वरूपको
 कहनेकी इच्छा करनेवाला मैं (सदा) सदैव (प्रकामं) भक्तिपूर्वक (वंदे)
 नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—इन्द्रादिकदेव भी मुनियो के चरणकमलोंमें नमस्कार करते हैं, यह पंचाचारका ही प्रभाव है। वे मुनि पंचाचारका पालन करते हैं, इसीलिये इन्द्रादिक देव उनको नमस्कार करते हैं। उन्हीं पंचाचारोंको नमस्कार करता हू।

ज्ञानाचारका स्वरूप—

अर्थव्यञ्जनतद्द्रयाविकलताकालोपधाप्रश्रयाः !

स्वाचार्याद्यनपहवो बहुमतिश्चेत्यष्टधा व्याहृतम् ॥

श्रीमज्जातिकुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य कर्त्राऽजसा ।

ज्ञानाचारमहं त्रिधा प्रणिपताम्युद्धृतये कर्मणाम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(अर्थव्यञ्जनतद्द्रयाविकलताकालोपधाप्रश्रयाः) अर्थ, शब्द और उन दोनो (अर्थ, शब्द) की परिपूर्णता, काला उपधा, प्रश्रय (स्वाचार्याद्यनपहवः) अपने आचार्य [गुरु] का नाम न छिपाना (च बहुमतिः) और बहुमति (इति अष्टधा ज्ञानाचारं) यह आठ प्रकारका ज्ञानाचार (श्रीमज्जातिकुलेन्दुना) लक्ष्मीसे युक्त ज्ञाति [जाति] और कुलमें चन्द्रमाके समान (अंजसा) परमार्थसे (तीर्थस्य कर्त्रा) धर्म रूपीतीर्थ के करनेवाले (भगवता) भगवान् तीर्थकरदेवने (व्याहृतं) प्रतिपादन किया है। (अहं) मैं (कर्मणां उद्धृतये) कर्मोंके नाश करनेके लिये उस ज्ञानाचारको (त्रिधा) मन, वचन काय से (प्रणिपतामि) नमस्कार करता हू।

भावार्थ—ज्ञानाचार आठ प्रकारका है।

१ अर्चाचार—ज्ञानके द्वारा जाने हुये अर्थ वा पदार्थको अच्छी तरह धारण करना।

२ व्यञ्जनाचार—शब्दोंको रूपष्ट और निर्दोष उच्चारण करना।

३ तद्बुभयाचार—उन दोनोकी पूर्णता अर्थात् अर्थाचार और शब्दाचार [व्यञ्जनाचार] की पूर्णता।

४ कालाचार—योग्य समयमें ज्ञानका आराधन करना ! प्रातःकाल, मध्याह्नकाल, सन्ध्याकाल, भूकंप. सूर्यप्रहरण, चन्द्रप्रहरण, उल्कापात, वज्रपात आदिके समय ज्ञानका आराधन नहीं करना चाहिये। इन सबको छोड़कर योग्य समयमें ज्ञानका आराधन करना चाहिये।

५ उपधाचार—स्मरणपूर्वक अध्ययन करना चाहिये।

६ प्रश्नाचार—(विनयचार) शास्त्रोंका विनय करते हुये अध्ययन करना चाहिये ।

७ स्वाचार्यादिनपन्हव—अर्थात् पञ्चाचारको निरूपण करनेवाले आचार्य अथवा ज्ञान देनेवाले उपाध्याय आदि का नाम नहीं छिपाना चाहिये ।

८ बहुमति—आचार्य वा उपाध्यायोंका आदर सत्कार करते हुये अध्ययन करना चाहिये ।

इस प्रकार ज्ञानाचारके आठ भेद हैं । जिनके अनंतचतुष्टयरूप अतरंग लक्ष्मी और समवशरणादिक बहिरंग लक्ष्मी विद्यमान है । जो अपनी जानि और कुल को प्रकाशित करनेके लिये चन्द्रमाके समान हैं और जो श्रुतज्ञान रूप तीर्थ के अथवा धर्मरूपतीर्थके यथार्थ कर्ता हैं, धर्म वा श्रुतज्ञानको प्रगट करनेवाले वा निरूपण करनेवाले हैं । ऐसे भगवान् जिनेन्द्रदेवने इस आठ प्रकारके ज्ञानाचारका निरूपण किया है । ऐसे ज्ञानाचारको मैं अपने समस्त कर्मोंको नाश करनेके लिये मन, वचन, काय से नमस्कार करता हूँ ।

दर्शनाचारका स्वरूप—

शङ्कादृष्टिविमोहकांक्षणविधिव्यावृत्तिसन्नद्धताम् ।

वात्सल्य विचिकित्सनादुपरतिं धर्मोपबृंहक्रियाम् ॥

शक्त्या शासनदीपनं हितपथाद्भृष्टस्य संस्थापनम् ।

वदे दर्शनगोचरं सुचरितं मूर्ध्ना नमन्नादरात् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(शकादृष्टिविमोहकाक्षणाविधिव्योवृत्तिसन्नद्धता) शका, दृष्टि-विमोह, कांक्षा करनेकी निवृत्ति रूप तत्परता अर्थात् शंकाकी निवृत्ति-निःशं-कित अंग, दृष्टिविमोहकी निवृत्ति-अमूढदृष्टि अंग, कांक्षाकी निवृत्ति-निःका-क्षित अंग (वात्सल्य) वात्सल्य अंग (विचिकित्सनात् उपरति) ग्लानिका त्याग (धर्मोपबृंहक्रिया) उपगूहन अंग (शक्त्या शासनदीपनं) शक्तिअनुसार जैन-धर्मका प्रकाश करना-प्रभावना अंग (हितपथात् भृष्टस्य संस्थापन) हितपथ रत्नत्रय से भृष्ट-व्युत जीवोंको फिर उसी में स्थिर करना स्थितिकरण अंग ये (दर्शनगोचरं) दर्शनाचारके (सुचरित) गणधरदेवादिकके द्वारा प्रतिपालित हैं—उन आठों दर्शनाचारके अंगोंको (मूर्ध्ना नमन् आदरात् वदे) मस्तक नमाकर आदर सहित वंदना करता हूँ ।

भावार्थ—इस सम्यग्दर्शनरूप दर्शनाचारके भी आठ अंग हैं। पहले अंग का नाम निःशंकित है। सर्वज्ञ हैं या नहीं, अथवा ये पदार्थ सर्वज्ञदेवके कहे हुये हैं या नहीं— इस प्रकारके संदेह को शंका कहते हैं। ऐसी शंका कभी न करना—ऐसी शंका की निवृत्तिमें सदा तत्पर रहना अर्थात् सर्वज्ञ प्रणीत पदार्थों में पूर्ण विश्वास करना निःशंकित अंग है। दूसरे अंग का नाम—अमूढदृष्टि है। दृष्टिशब्दका अर्थ पदार्थों का यथार्थ अर्थज्ञान है, उसकी मूढता अन्य मिथ्यादृष्टियों की प्रशंसा करना है। ऐसी मूढता न करना, ऐसी मूढताकी निवृत्ति करने में सदा तत्पर रहना अमूढदृष्टि अंग है, तीसरा अंग निःकाङ्क्षित है। आगामी भोगों की इच्छाका ह्योना काङ्क्षा कहलाती है। ऐसी काङ्क्षा न करना, इच्छाओं की निवृत्ति में सदा तत्पर रहना निःकाङ्क्षित अंग है। चौथा अंग वात्सल्य है। साधर्म्य भाइयोंके साथ स्नेह रखना वात्सल्य है। पांचवां अंग निर्विचिकित्सा है। विचिकित्सा ग्लानि को कहते हैं। मुनियोंके मलिन शरीरको भी देखकर ग्लानि न करना निर्विचिकित्सा अंग है। छठा अंग उपवृहण (उपगूहन) है। उत्तम ज्ञान आदि धर्मों की वृद्धि करना अथवा धर्मका अनुष्ठान करनेवाले धर्मात्मा भाइयों के प्रमादवश लगे हुये दोषोंको टक कर धर्म की वृद्धि करना धर्मोपवृहण नामका अंग कहा जाता है। सातवे अंग का नाम प्रभावना है। अपनी शक्ति के अनुसार तत्परचरण आदिके द्वारा जैनधर्मका माहात्म्य प्रगट करना प्रभावना है। आठवे अंगका नाम स्थितिकरण है। जो मुनि या श्रावक रत्नत्रयसे भ्रष्ट हो रहा है, उसको उदाहरण देकर या हेतुवादसे या नयवादसे समझाकर रत्नत्रयमें स्थिर करना भ्रष्ट न होने देना स्थितिकरण अंग कहलाता है। इस प्रकार जिस दर्शनाचारमें सम्यग्दर्शनके ये आठ अंग हैं जिनका अनुष्ठान या धारण करना अत्यन्त मनोहर वा सुगति देनेवाला है अथवा जिसका अनुष्ठान गणधरादिक्रुदेव करते हैं ऐसे दर्शनाचारको मैं बड़े आदर से मस्तक नमस्कार नमस्कार करता हूँ ।

तपाचारका स्वरूप—(बाह्यतप)

एकान्ते शयनोपवेशनकृतिः संतावनं तानवम् ।
संख्यावृत्तिनिबन्धनामनशनं विष्वाणमर्द्धोदरम् ॥

[१४२]

त्यागं चेन्द्रियदन्तिनो मदयतः स्वादो रसस्यानिशम् ।

षोढा बाह्यमहं स्तुवे शिवगतिप्राप्त्यभ्युपायं तपः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(एकान्तै शयनोपवेशनकृतिः) एकान्त स्थानमें सोना-बैठना [विविक्तशय्यासनं] (तानवं संतापनं) शरीरको क्लेशित करना [कायक्लेश] (संख्यावृत्तिनिबन्धना) आहारादिवृत्तिके कारणोंकी गिनती [वृतपरिसंख्यान] (अनशनं) अनशन -उपवास (अर्द्धोदरं विषवाणं) आधापेट भोजन करना [अन्नमौदर्यं] (च इन्द्रियदन्तिनः मदयतः स्वादः रसस्य अनिश त्यागं) तथा इन्द्रियरूपी हाथीको मद उत्पन्न करनेवाले इन (षोढा) छह प्रकारके (शिवग-तिप्राप्त्यभ्युपाय) मोक्षकी प्राप्तिके कारणरूप (बाह्य तपः) बाह्यतपोंकी (अहं) मै (स्तुवे) स्तुति करता हू ।

भावार्थ—तपश्चरणके दो भेद है—एक अंतरंगतपश्चरण और दूसरा बाह्य तपश्चरण । इन दोनों तपोंके छह छह भेद हैं । इनमें से बाह्य तपके छह भेद यहा दिखलाते हैं । जहां पर पशु, स्त्री, नपुंसक आदि न रहते हो ऐसे एकान्त स्थानमें सोना-बैठना विविक्तशय्यासन नामका तप है । अनेक प्रकारके तपश्चरणोंसे शरीरको क्लेशित करना कायक्लेश नामका तप है । अपने आहार विहार आदि प्रवृत्तिके जो कारण हैं-उनकी गिनती या नियम करना वृतपरिसंख्यान तप है । चार प्रकारके आहारका त्याग कर उपवास करना अनशन तप है । अर्ध पेट भोजन करना-अन्नमौदर्य, तप है । इन्द्रियरूपी हाथीको मद उत्पन्न करनेवाले स्वादिष्ट या पौष्टिक रसोंका सदाके लिये त्याग करना-रसपरित्याग नामका तप है । इस प्रकार बाह्य तपके छह भेद है । ये छहों प्रकारके तप बाहरसे दिखाई देते हैं, लोगोको मालूम हो जाते हैं अतः इनको बाह्य तप कहते है । तथा ये छहों तप मोक्षमार्गको प्राप्त करानेके कारण हैं , उनसे मोक्षप्राप्ति अवश्य होती है । ऐसे छह प्रकारके बाह्य तपोंकी मै रतुति करता हू तथा वदना करता हू ।

अन्तरंग तपोंका वर्णन—

स्वाध्यायः शुभकर्मणश्च्युतव्रतः संग्रत्यवस्थापनम् ।

ध्यानं व्यापृतिरामयाचिनि गुरौ वृद्धे च बाले यतौ ॥

कायोत्सर्जनसत्क्रिया विनय इत्येवं तपः षड्विधं ।

वंदेऽभ्यन्तरमन्तरंगबलवद्धिद्वेषिविध्वंसनम् ॥ ५ ॥

[१४३]

अन्वयार्थ—(स्वाध्यायः) स्वाध्याय (शुभकर्मणश्च्युत व्रतः संप्रत्यवस्थापनं) शुभकर्मोको-सामायिक, वंदनादिको जो छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं उनको प्रायश्चित्तादि देकर फिर उसी मार्गमें लगाना [प्रायश्चित्त] (ध्यानं) ध्यान (आमयाविनि गुरौ, वृद्धे च बाले यतौ व्यापृतिः) रेगी गुरु, वृद्ध और बाल यतियोंकी वैयावृत्य करना (कायोत्सर्जनसत्क्रिया) कायसे ममत्व छोड़ने रूप सत्क्रिया [कायोत्सर्ग] (विनयः) विनय (इति एवं षड्विधः अभ्यन्तरं तपः) इस प्रकार छह तरहके अंतरंग तपोंको (अन्तरंगबलवद्विद्वेषिविध्वंसनं) जो अत्यन्त बलवान् अन्तरंग शत्रुओको जड़ मूलसे नष्ट करने वाले हैं—उन (तपों) को नमस्कार करता हूं ।

भावार्थ—अंतरंग तपके छह भेद इस प्रकार हैं—लाभ, सम्मान, कीर्ति आदिकी इच्छा रहित केवल कर्मोंको नाश करने के लिये धर्मशास्त्रोंका अध्ययन करना स्वाध्याय है । जो सामायिक, वंदना आदि शुभकार्योंको छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं उनको प्रायश्चित्त देकर फिर उसी सनातन मोक्षमार्गमें लगाना प्रायश्चित्त नामका तप है । अपने मनको किसी एक पदार्थ पर लगा कर अन्य समस्त चित्तवनोंको रोक देना ध्यान है । जो गुरु या आचार्य रोगी हो अथवा कोई मुनि अत्यन्त वृद्ध हो या कोई बालक अवस्थामें (कम अवस्थामें) मुनि हो गया और वह रोगी हो तो अपने शरीरसे उसकी सेवा करना वैयावृत्य नाम का तप है । अपने शरीरसे ममत्वका त्याग कर देना कायोत्सर्ग नामका तप है । चार प्रकारका विनय धारण करना विनय तप है । इस प्रकार अंतरंग तपके छह भेद हैं । ये सब अंतरंग तप अत्यन्त बलवान् ऐसे क्रोधादिक अंतरंग शत्रुओको नाश करनेवाले हैं । ऐसे इन छहों तपोंको मैं बड़ी भक्तिके साथ नमस्कार करता हूं ।

वीर्याचारका वर्णन—

सम्यग्ज्ञानविलोचनस्य दधतः श्रद्धानमर्हन्मते ।
वीर्यस्याविनिगूहनेन तपसि स्वस्य प्रयत्नाद्यतेः ॥
या वृतिस्तरणीव नौरविवरा लघ्वी भवोदन्वतो ।
वीर्याचारमहं तमुर्जितगुणं वंदे सतामर्चितम् ॥ ६ ॥

१-एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम् ।

[१४४]

अन्वयार्थः— (सम्यग्ज्ञानविलोचनस्य दधतः) सम्यग्ज्ञानरूपी^२ नेत्रों को धारण करनेवाले (अर्हन्मते श्रद्धानं 'दधतः' यतेः) अर्हंत भगवानके मत में गाढ़ श्रद्धानको धारण करने वाले मुनिके (वीर्यस्य भविनिगूहनेन) वीर्यशक्ति को न छिपाकर (स्वस्य प्रयत्नात्^३ तपसि या वृत्तिः) अपने प्रयत्नसे तप में जो प्रवृत्ति है, वह (भवोदन्वतो) संसार समुद्रसे (अविबरा^४) छिद्रा रहित (लघ्वी) हल्की (नौः इव) नावके समान (तरणी) पारकरनेवाली है ऐसी शक्तिरूप (तं उर्जितगुणं सतां अर्चित वीर्याचारं अहं वंदे) उस समस्त कर्मों के नाश करने में समर्थ, सत्पुरुषोंके द्वारा पूज्य वीर्याचारको मैं नमस्कार करता हूं।

भावार्थ— जो मुनि वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करते हैं और भगवान् अरहंतदेवके कहे हुये मतमें गाढ़ श्रद्धान धारण करते हैं ऐसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान को धारण करनेवाले मुनि अपने वीर्य या शक्तिको न छिपाकर बड़े यत्नसे-आदरसे ऊपर कहे हुये बारह प्रकारके तपश्चरण पालन करने में अपनी प्रवृत्ति करते हैं, वह उनकी प्रवृत्ति संसार रूपी समुद्रसे पार करने के लिये नावके समान होती है। जिस प्रकार नाव छिद्र रहित होती है उसी प्रकार उन मुनियोंकी प्रवृत्ति भी अतिचार रहित होती है तथा नाव जिस प्रकार छोटी और हल्की एक ही लकड़ी की बनी हुई अवश्य पार कर देती है उसी प्रकार उन मुनियों की प्रवृत्ति भी आडंबर रहित केवल तपश्चरण रूप होती है। ऐसी जो वह मुनियोंकी शक्ति है या वीर्याचार है-जो कि समस्त कर्मों के नाश करने में अथवा कठिन तपश्चरणोंके धारण करने में अत्यन्त गुणशाली है और गणधरादिक बड़े बड़े अद्धिधारी मुनि भी जिसकी पूजा करते हैं ऐसे वीर्याचारको अत्यन्त कठिन और घोर तपश्चरण करने की शक्ति को मैं नमस्कार करता हूं।

चारित्र्याचारका वर्णन—

तिस्रः सत्तमगुप्तयस्तनुमनोभाषानिमित्तोदयाः ।

पंचेर्यादिसमाश्रयाः समितयः पञ्चव्रतानीत्यपि ॥

२—यथावस्थितवस्तुप्राहिज्ञानं सम्यग्ज्ञानं ।

३—वृत्त्यर्थे निरतिचारा । (अविबरा छिद्ररहिता)

४—आदरात् ।

चारित्र्योपहितं त्रयोदशतयं पूर्वं न दृष्टं परै- राचारं परमेष्ठिनो जिनपतेर्वीरं नमामो वयम् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—(तनुमनोभाषानिमित्तोदयाः) शरीर, मन, भाषाके निमित्त से होबेवाली (तिष्ठः) तीन (सत्तम गुप्तयः) शोभनीक गुप्तिया (ईर्यादिसमाश्रयाः पञ्च समितयः) ईर्यादिक पांच समिति (अपि) और (पंच व्रतानि) पांच व्रत (इति) इस प्रकार (त्रयोदशतयं) तेरह प्रकारका (चारित्र्योपहितं) चारित्र्याचार जो (परमेष्ठिनः जिनपतेः वीरं परैः) अरहंत परमेष्ठी तीर्थंकर-परमदेव भगवान् वीरनाथके सिवाय (पूर्वं न दृष्ट) पहिले किसी ने निरूपण नहीं किया ऐसे (आचारं) चारित्र्याचारको (वयं नमामः) हम नमस्कार करते हैं ।

भावार्थ—चारित्र्यके तेरह भेद हैं और वे इस प्रकार हैं । मनको बशकरना, वचनको बश करना और कायको बश करना अर्थात् मन वचनकायकी कोई क्रिया न होने देना गुप्तिया^३ कहलाती हैं । इस प्रकार गुप्तियोंके तीन भेद हैं । समितियां पांच हैं । ईर्यासिमिति, भाषासिमिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति ।

मूर्खके प्रकाशमें चार हाथ भूमि देखकर चलना ईर्या समिति है । हित मित प्रिय भाषा बोलना भाषा समिति है । शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार शुद्ध निर्दोष भोजन ग्रहण करना एषणा समिति है । उपकरणो को देख शोधकर रखना, उठाना आदाननिक्षेपण समिति है । जमीनको देखकर (जीवजल रहित) मलमूत्र निक्षेपण करना व्युत्सर्ग समिति है । इनके सिवाय पांच महाव्रत हैं । हिंसा भ्रूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पांच पापोंका मनवचनकाय और कृतकारित अनुमोदना से सर्वथा त्याग कर देना पांच महाव्रत कहलाते हैं । यह सब तेरह प्रकारका चारित्र्य कहलाता है । इस तेरह प्रकारके चारित्र्यके समुदायको चारित्र्याचार कहते हैं । उस चारित्र्याचारके ऊपर लिखे हुये तेरह भेद हैं । यह तेरह प्रकारका चारित्र्याचार भगवान् वीर प्रभु ने ही निरूपण किया है ।

१-हिंसावृत्तस्त्यागपरिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम्

२-सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः

अरहंत परमेश्ठी तीर्थंकर परमदेव भगवान् वीरनाथके सिवाय तथा भगवान् वृषभ-
देव (प्रथमतीर्थंकर) के सिवाय अन्य अजितनाथ तीर्थंकर से लेकर पार्वनाथ
तीर्थंकर तक २२ तीर्थंकरोंमें से किसी ने भी निरूपण नहीं किया है । श्री वृषभ-
देव तीर्थंकर के समय लोगोंकी बुद्धि सरल थी परंतु मार्ग वंद होने के कारण
लोग जानकार नहीं थे । इसलिये उन्होंने तेरह प्रकारका चारित्र निरूपण किया
तथा महावीर भगवान् के समयमें लोगोंकी बुद्धि जड़रूप थी—परिणामोंमें कुटि-
लता थी, अतः उन्होंने ऐसे भव्यजीवोंके लिये तेरह प्रकारका चारित्र निरूपण
किया । वाकीके तीर्थंकरोंने समस्त पापोंकी निवृत्तिरूप एक सामायिक चारित्र
का ही निरूपण किया था । क्योंकि उनके समय न तो जीव भोले थे और न
जड़ बुद्धिवाले ही थे । ऐसे चारित्राचारके लिये मैं नमस्कार करता हूँ ।

पञ्चाचार पालनेवाले मुनियोंकी वंदना—

आचारं सहपंचभेदमुदितं तीर्थं^१ परं मंगलम्^२ ।

निर्ग्रथानपि^३ सच्चरित्रमहतो वंदे समग्रान्यतीन् ॥

आत्माधीनसुखोदयामनुपमां लक्ष्मीमविध्वंसिनीम् ।

इच्छन्केवलदर्शनावगमनप्राज्यप्रकाशोज्वलाम् ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(सहपंचभेदमुदितं आचारं) ऊपर कहा गया पांच प्रकार
का आचार (तीर्थ) संसार समुद्रसे पार करनेवाला तीर्थ है (परं मंगलं) उत्कृष्ट
मंगल रूप है उस आचारको मैं (वंदे) नमस्कार करता हूँ । तथा इस आचारको
पालन करनेवाले (सच्चरित्रमहतः) जो उत्तम चारित्र पालनेसे पूज्य है (निर्ग्र-
थान्) परिग्रहसे रहित हैं ऐसे (समग्रान् यतीन् अपि 'वंदे') समस्त मुनियों को
भी वंदना करता हूँ । जो लक्ष्मी (आत्माधीनसुखोदया) आत्मासे उत्पन्न होने
वाले सुखमय है (अनुपमा) अनुपम है (अविध्वंसिनी) नाश रहित अविनाशी
है तथा (केवलदर्शनावगमनप्राज्यप्रकाशोज्वला) केवलदर्शन, केवलज्ञान इन
दोनोंके अनंत प्रकाशसे अत्यन्त दैदीप्यमान है ऐसी (लक्ष्मी) लक्ष्मीकी (इच्छन्

१-भत्रोदधि भव्यास्तरंत्यनेनेति तीर्थं ।

२-मंगं सुखं-पुण्यं लाति आदत्ते इति मंगलं अथवा मं पार्यं-मलं गालमति विनाशयति इति
मंगलं ॥

३-ग्रंथानिष्काताः, निरस्तो वा ग्रंथो यैस्ते निर्ग्रन्थाः तान् ।

[१४७]

इच्छा करता हुआ मैं 'आचारं यतीन अपि' उस आचार और आचार धारण करनेवाले मुनियोको नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—जिस आचारके ऊपर पाच भेद बतलाये हैं, जो आचार भव्य जीवोंको इस संसार समुद्रसे पार कर देनेवाला तीर्थ है, जो मोक्ष मार्गमें सर्वोत्कृष्ट है और जो पापोंको नाश करनेवाला है, अनंत पुण्य उत्पन्न करनेवाला मंगलमय है, ऐसे पचाचारके लिये मैं वंदना करता हूँ । तथा इनकी वंदना के साथ साथ इन पचाचारोंको धारण करनेवाले समस्त मुनियोकी भी वंदना करता हूँ, जो उत्तम चारित्रको पालन करने से ही पूज्य हैं ऐसे समस्त मुनियोके लिये मैं वंदना करता हूँ ।

इस संसारमें एक मोक्ष लक्ष्मी ही अविनश्यर है, बाकीकी समस्त लक्ष्मिया नाश होनेवाली हैं । इसके सिवाय यह मोक्ष लक्ष्मी केवल आत्मासे उत्पन्न होने वाली अनंत सुखमय है तथा केवलदर्शन और केवलज्ञान इन दोनोंके अनंत प्रकाशसे अत्यन्त दैदीप्यमान है और इसीलिये वह उपमा रहित है ऐसी मोक्ष लक्ष्मी के प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ मैं पचाचारोंको और पंचाचार धारण करनेवाले समस्त मुनियोको नमस्कार करता हूँ ।

चारित्र पालनमें दोषोंकी आलोचना—

अज्ञानाद्यदवीवृतं नियमिनोऽवर्तिष्यहं चान्यथा ।

तस्मिन्नर्जितमस्यति प्रतिनवं चैनो निराकुर्वति ॥

वृत्ते सप्ततयीं निधिं सुतपसामृद्धिं नयत्यद्भुत ।

तन्मिथ्या गुरुदुष्कृत भवतु मे स्वं निंदतो निंदितम् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः—मैने (अज्ञानात्) अज्ञानसे जो (नियमिनः) मुनियोको (अन्यथा) शास्त्रमें कही गई विधिके प्रतिकूल (यदवीवृतं) प्रवर्तन कराया हो (च अहं 'अन्यथा' अवर्तिषि) अथवा यदि मैने स्वयं अपने अज्ञान से आगमसे विरुद्ध प्रवर्तन किया हो और (तस्मिन् 'अन्यथा वर्तने') उस आगम के प्रवर्तन करने अथवा करानेमें जो (एनः अर्जितम्) पाप लगे हो वे सत्र पाप (अस्यति) नष्ट हो जाते हैं (च) और (प्रतिनव) नवीन नवीन जो पाप आते हैं वे भी इस चारित्रके पालन करने से (निराकुर्वति) नष्ट हो जाते हैं । इसके सिवाय (वृत्तेः) इस चारित्रके प्रभावसे (सुतपसा) श्रेष्ठ तप करने

वाले मुनियोंको (अद्भुतं) आश्चर्य करनेवाली (सप्ततर्था) सात (निधि ऋद्धि) निधिस्वरूप ऋद्धियां (नयति) प्राप्त होती हैं; ऐसे इस चारित्रिके पालन करनेमें ('वत्' गुरुदृष्टं) जो महा पाप बन गया हो जोकि (निदितम्) निदित हो (तत्) वह सब पाप (स्व निदतः मे) अपनी आत्माकी निंदा करने वाले में (मिथ्या भवतु) मिथ्या हो ।

भावार्थ——मैंने अपने अज्ञानसे यदि मुनियोंको शास्त्रमें कही गई विधिके प्रतिकूल प्रवर्तन कराया हो अथवा यदि मैंने स्वयं अपने अज्ञानसे आगम के विरुद्ध प्रवर्तन किया हो और उस आगमके प्रतिकूल प्रवर्तन करने अथवा कराने में जो पाप लगे हों वे सब पाप इस चारित्रिके पालन करने से नष्ट हो जाते हैं तथा नवीन नवीन जो पाप आते हैं वे भी सब इस चारित्रिके पालन करने से नष्ट हो जाते हैं । इसके सिवाय इस चारित्रिके प्रभावसे श्रेष्ठ तपश्चरण करने वाले मुनियोंको आश्चर्य करनेवाली तपश्चरणकी सात ऋद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं । बुद्धिऋद्धि, धैर्यतपऋद्धि, विनियामऋद्धि, औपधिऋद्धि, रसऋद्धि, बलऋद्धि, अर्ज्ञाण ऋद्धि ये सात प्रकारकी ऋद्धियां मुनियोंको इस चारित्रिके ही प्रभावसे होती हैं । ऐसे इस चारित्रिके पालन करने में जो मुझ से महापाप बन गया हो-जोकि अत्यन्त गर्हित वा निंदनीय हो वह सब पाप अपने आत्माकी निंदा करने वाले मेरे मिथ्या हो ।

चारित्र धारण करनेका उपदेश—

संसारव्यमनाहतिप्रचलिता नित्योदयप्रार्थिनः ।

प्रत्यासन्नविमुक्तयः सुमतयः शान्तैनसः प्राणिनः ॥

मोक्षस्यैव कृतं विशालमतुलं सोपानमुच्चैस्तराम् ।

आरोहन्तु चरित्रमुत्तममिदं जैनेन्द्रमोजस्विनः ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(संसारव्यमनाहतिप्रचलिता) जो भव्य जीव संसारके दुःखों के धक्कोसे भयभीत हो गये हैं (नित्योदयप्रार्थिनः) जो सदाकाल रहनेवाली मोक्ष लक्ष्मीके प्राप्त होने की प्रार्थना करते हैं (प्रत्यासन्नविमुक्तयः) जो आसन्न भव्य हैं—मोक्ष लक्ष्मी जिनके समीप तक आ पहुँची है (सुमतयः) जिनकी बुद्धि उत्तम है (शान्तैनसः) जिनके पाप कर्मोंका उदय शान्त हो गया है (ओजस्विनः प्राणिनः) जो बड़े तेजस्वी हैं ऐसे जीव (जैनेन्द्रं) जिनेन्द्र भगवान् के

द्वारा निरूपण किये हुये (अतुलं) जिसकी संसार में कोई उपमा नहीं है (विशालं) जो अत्यन्त विशाल है (उच्चैस्तराम्) अत्यन्त ऊंचा है ऐसा (मोक्ष-स्यकृतं सोपानं इव) मोक्षके लिये बनाये हुए जीने के समान (इदं उत्तमं चरित्रं आरोहंतु) उस उत्तम चारित्रको धारण करो ।

भावार्थ—जो जीव संसारके दुःखोंके धक्कोंसे भयभीत हो गये हैं, जो सदा-काल रहनेवाली मोक्षलक्ष्मीके प्राप्त होनेकी प्रार्थना करते हैं, जो आसन्न भव्य हैं या मोक्ष लक्ष्मी जिनके समीप तक आ पहुंची है, जिनकी बुद्धि मोक्षमार्ग में लगी रहनेके कारण अत्यन्त उत्तम है, जिनके पापकर्मोंको उदय शान्त हो गया है और जो बड़े तेजस्वी या मोक्षमार्गमें उद्यम करनेवाले हैं ऐसे भव्य जीव इस ऊपर कहे हुए, श्रीजिनेन्द्रदेवके द्वारा निरूपण किये हुए तथा जिसकी संसारमें कोई उपमा नहीं है, जो अत्यन्त विशाल और अत्यन्त ऊंचा है ऐसा मोक्ष के लिये बनाये हुये जीने के समान इस उत्तम चारित्रको धारण करें—पालन करें।

कायोत्सर्गः । इसके आगे कायोत्सर्ग करना चाहिये । अथ आलोचना—

इच्छामि भंते ! चारित्तभक्तिकाउस्सग्गो कओ तस्स आलोचेउं ।
सम्मणाणजोयस्स सम्मत्ताहिट्ठियस्स सव्व पहाणस्स णिव्वाणपगास्स कम्म-
णिज्जरफलस्स खमाहारस्स पञ्चपहव्वयसंपण्णस्स तिगुत्तिगुत्तस्स पञ्च समि-
दिजुत्तस्स णाणज्जाण ताहणस्स समया इव पवेभयस्स मम्मचारित्तम्म-
सया अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ,
बोहिलाहो सुगइगमणां, समाहिमरणां, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

अर्थ—हे भगवन् ! मैं चारित्रभक्ति करके कायोत्सर्ग करता हूँ तथा उस कायोत्सर्गमें जो अतिचार या दोष लगे हों उसकी आलोचना करनेकी इच्छा करता हूँ । यह सम्यक्चारित्र सम्यग्ज्ञान सहित है, सम्यग्दर्शनसे परिपूर्ण है, मोक्ष प्राप्त करानेके कारणों में से सबमें प्रधान है, मोक्षका साक्षात् कारण है, कर्मोंकी निर्जरा होना ही इसका फल है, उत्तम क्षमा ही इसका आधार है. पंच महाव्रतोंसे सुशोभित है, तीनों गुप्तियों से इसकी रक्षा होती है यह पांचों समितियों सहित है, ज्ञान और ध्यानका मुख्य साधन है, समताका प्रवेश इसके अन्तर्गत है ऐसे सम्यक्चारित्रकी मैं अर्चा करता हूँ, सदा पूजा करता हूँ, सदा वंदना करता हूँ, और सदा नमस्कार करता हूँ । ऐसा करने से मेरे समस्त दुःखोंका

नाश हो, समस्त कर्मोंका नाश हो, रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो और श्रीजिनेन्द्रदेवके गुणोंकी प्राप्ति हो ।

इति चारित्रभक्तिः ।

अथ चारित्रभक्तिः [प्राकृत]

तिलोयसव्वजीवाणं हिदं धम्मोवदेसिणं । वड्डमाणं महावीरं वंदित्ता
सव्ववेदिणं ॥ १ ॥ घादिकम्मविघादत्थं घादिकम्मविणासिणा । भासियं
सव्वजीवाणं चारित्तं पञ्चभेददो ॥ २ ॥ सामाइयं तु चारित्तं छेदोवट्ठावणं
तहा ॥ तं परिहारविसुद्धिं च संजमं सुहुमं पुणो ॥ ३ ॥ जहाखादं तु
चारित्तं तहाखादं तु तं पुणो ॥ किञ्चाहं पञ्चहाचारं मंगलं मलसोहणं
॥ ४ ॥ अहिंसादीणि उक्ताणि महव्वयाणि पञ्च य । समिदीओ तदो पञ्च
पञ्च इंदियणिग्गहो ॥ ५ ॥ छब्भेया वा सभूसिज्जा अएहाणत्तमचेलदा ।
लोयत्ता ठिदिभुत्तिं च अदत्तधावणमेव य ॥ ६ ॥ एयभनेण संजुता रिसि
मूलगुणा तहा । दसधम्मा तिगुत्तीओ सीलाणि सयलाणि च ॥ ७ ॥
सव्वेवि य परीसहा उत्तरोत्तरगुणा तहा ॥ अण्णे विभासिया संता तेसिं
हाणि मए कया ॥ ८ ॥ जइ रायेण दोसेण मोहेणाणादरेण वा ॥ वंदिता
सव्वसिद्धाणं संजदा सा मुमुक्खुणा ॥ ९ ॥ संजदेण मए सम्मं सव्वसंजम-
भाविणा । सव्वसंजमसिद्धीओ लब्भदे मुत्तिजं सुहं ॥ १० ॥

व्रतसमुदयमूलः संयमस्कंधबंधो । संयमनियमपयोभिर्वर्धितः शीलशाखः ।
समितिकलिकभारो गुप्तिगुप्तप्रवालो गुणकुसुमसुगंधिः सत्तपश्चित्रपत्रः ॥१॥
शिवसुखफलदायी यो दयाल्लाययोद्धः । शुभजनपथिकानां खेदनोदे समर्थः ॥
दुरितरविजतापं प्रापयन्नंतभावं । स भवविभवहान्यै नोस्तुचारित्रभृक्षः
॥ २ ॥ चारित्रं सर्वजिनैश्चरित्र प्रोक्तं च सर्वशिष्येभ्यः ॥ प्रणमामि पंच-
भेदं पञ्चमचारित्रलाभाय ॥ ३ ॥ धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधा-
श्चिन्वते । धर्मैणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः । धर्मात्मास्त्य-

परः सुहृद्भवभृतां धर्मस्य मूलं दया । धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म
मां पालय ॥ ४ ॥ धम्मो मङ्गलसुक्किकटं अहिंसा संजयो तओ । देवा वि
तस्स पणमंति जस्स धम्मो सया मणो ॥ ५ ॥

इच्छामि भंते चारिचभत्तिकाउस्सग्गो कओतस्स आलोचेउं सम्म-
णाणजोयस्स सम्मत्तहिट्ठियस्स सव्वपहाणस्स णिव्वाणमग्गस्स कम्म-
णिज्जर फलस्स खमाहारस्स पंचमहव्वयसंपण्णस्स तिगुत्तिगुत्तुस्स पंचसमि-
दिजुत्तस्स, णाणज्झाणसाहणस्स समयाइव पवेसयस्स सम्मचारित्तस्स
सया अंचेमि, पूजेमि वंदामि णमंसांमि, दुक्खक्खओ कम्मक्खओ, बोहि-
लाहो, सुगइमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपति होउ मज्झं ।

योगिभक्तिः

दुबई छंद.—

जातिजरोरुरोगमरणातुरशोकसहस्रदीपिताः ।

दुःसहनरकपतनसन्त्रस्तधियः प्रतिबुद्धचेतसः ॥

जीवितमंबुबिंदुचपलं तडिट्ठभ्रसमा विभूतयः ।

सकलमिदं विचिन्त्य मुनयः प्रशमाय वनान्तमाश्रिताः ॥१॥

अन्वयार्थ— (जातिजरोरुरोगमरणातुरशोकसहस्रदीपिताः) जो जन्म, जरा, बुढ़ापा, उरुरोग-पेटके महारोग भगंदर जलोदरादिक मरण आदि रोगों से पीडित-दुखी हैं, हजारों शोकों—पुत्रस्त्री आदिके वियोगजनित संतापसे अत्यन्त जाज्वल्यमान हैं (दुःसहनरकपतनसन्त्रस्तधियः) असह्य नरक पतनसे जिनकी बुद्धि भयभीत हो रही है (प्रतिबुद्धचेतसः) जिनके हृदयमें हेयोपादेय का विवेक जागृत हो रहा है ऐसे (मुनयः) मुनि (जीवितं अंबुबिंदुचपलं) इस जीवनकी पानीकी बूंदके समान चञ्चल समझ (विभूतयः) तथा संसारकी समस्त विभूतियों को (तडिट्ठभ्रसमा) विजली व बादलके समान (इदं सकल विचिन्त्य) क्षणविनश्चर समझ कर (प्रशमाय) शांतिके लिये—रागद्वेषको दूर करनेके लिये-

संसारका नाश करने के लिये (वनान्तं आश्रिताः) वनका आश्रय लेते हैं—वनमें चले जाते हैं ।

वनमें जाकर क्या करते हैं ?

भद्रिका छंदः

व्रतसमितिगुप्तिसंयुताः शमसुखमाधाय' मनसि वीतमोहाः ।

ध्यानाध्ययनवशंगताः विशुद्धये कर्मणां तपश्चरन्ति ॥ २ ॥

अन्वयार्थः— (व्रतसमितिगुप्तिसंयुताः) जो मुनि व्रत—पांच महाव्रत, समिति—ईयादि पांचों समिति, गुप्ति—मनोगुप्ति आदि तीन गुप्ति कर सहित हैं अर्थात् ५ महाव्रत, ५ समिति, ३ गुप्ति, इस प्रकार १३ प्रकारका चारित्र्य प्रयत्न पूर्वक पालते हैं (वीतमोहाः) जिनका दर्शन मोहनीय कर्म सर्वथा नष्ट हो गया है (ध्यानाध्ययनवशंगताः) जो ध्यान और अध्ययन—स्वाध्याय में ही सदा लीन रहते हैं वे मुनि (कर्मणां विशुद्धये) कर्मोंका नाश करने के लिये (मनसि शमसुखमाधाय) परम वीतरागताके सुखको हृदयमें धारण कर (तपः चरन्ति) तपश्चरणा करते हैं ।

दिनकरकिरणनिकरसंतप्तशिलानिचयेषु निस्पृहाः ।

मलपटलावल्लिप्ततनवः शिथिलीकृतकर्मबंधनाः ॥

व्यपगतमदनदर्परतिदोषकषायविरक्तमत्सराः ।

गिरिशिखरेषु चंडकिरणाभिमुखस्थितयो दिगम्बराः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः— (मलपटलावल्लिप्ततनवः) मैलके पटलो से जिनका शरीर लिप्त हो रहा है—स्नान नहीं करने से जिनके शरीर पर मैलके पटल जम गये हैं (शिथिलीकृतकर्मबंधनाः) जिनके कर्मोंके स्थितिबंध और अनुभागबंध सब शिथिल हो गये हैं—नष्ट हो गये हैं (व्यपगतमदनदर्परतिदोषकषायविरक्तमत्सराः) जिनके कामका उद्रेक, इष्ट पदार्थों में रति—राग, मोहादिक दोष, क्रोधादिक कषाय और मात्सर्य नष्ट हो गये हैं (चंडकिरणाभिमुखस्थितयो दिगम्बराः) सूर्यकी प्रचंड किरणोंके सामने जो विराजे हुये हैं ऐसे (दिगम्बराः) दिगम्बर मुनिराज (गिरिशिखरेषु) पर्वतोंके शिखर पर (दिनकरकिरणनिकरसंतप्तशिलानिचयेषु) सूर्यकी

किरणोंके समूहसे संतप्तअत्यंत तप्तायमान शिलाओंके समूह पर (निस्पृहाः) निरुपृह होकर ('तपः चरन्ति') घोर तपश्चरण करते हैं ।

भद्रिका छंदः—

सज्ज्ञानामृतपायिभिः क्षान्तिपयः सिच्यमानपुण्यकायैः ।

धृतसंतोषच्छत्रकैः तापस्तीव्रोऽपि सद्यते मुनीन्द्रैः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ— (सज्ज्ञानामृतपायिभिः) जो मुनि सम्यग्ज्ञानरूपी अमृत को पीते रहते हैं (क्षान्तिपयः सिच्यमानपुण्यकायैः) जो अपने पुण्यमय शरीर को क्षमारूपी जल से सींचते रहते हैं अथवा जो अपने पुण्यके समूह को क्षमा रूप जलसे सींचते रहते हैं (धृतसंतोषच्छत्रकैः) जो संतोषरूपी छत्रको धारण करते रहते है ऐसे (मुनीन्द्रैः) मुनिराज (तीव्रोऽपि ताप) असह्य काय-क्लेश (सद्यते) सहन करते हैं ।

भावार्थ—मुनिराज गर्मीके दिनोंमें पर्वतकी शिखरपर जाकर तपश्चरण करते हैं, केवलज्ञानरूपी जलको पीते हैं, क्षमारूप जलसे स्नान करते हैं और संतोषरूपी छत्र धारण करते हैं । इस प्रकार गर्मीके दिनोंमें घोर तपश्चरण करते हैं ।

वर्षा ऋतुमें मुनिराज क्या करते हैं ?

शिखिगलकज्जलालिमलिनैर्विबुधाधिपचायचित्रितैः ।

भीमरवैर्विसृष्टचण्डाशनिशीतलवायुवृष्टिभिः ॥

गगनतलं विलोक्य जलदैः स्थगितं सहसा तपोधनाः ।

पुनरपि तरुतलेषु विषमासु निशासु निशंकमासते ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः— (शिखिगलकज्जलालिमलिनैः) मोरकी गर्दन के समान काले अथवा काजल, भ्रमरके समान कृष्ण (विबुधाधिपचायचित्रितैः) इन्द्रधनुषोंसे सुशोभित (भीमरवैः) भयंकर शब्द करनेवाले (विसृष्टचण्डाशनि-शीतलवायुवृष्टिभिः) विजली गिरानेवाले, शीतल वायु करनेवाले, घनघोर वर्षा करनेवाले (जलदैः) बादल (गगनतल स्थगितं) आकाशमें छुाये हुये (विलोक्य) देखकर (तपोधनाः) मुनि (पुनरपि) फिर भी (विषमासु) भयानक (निशासु) रात्रियोंमें (तरुतलेषु) वृक्षोंके नीचे (निशंकं) निर्भय (आसते) 'आतापन योग धारण कर' विराजते हैं ।

[१५४]

वे मुनि वर्षाऋतुमें वृद्धके नीचे विराजमान रहते हैं, मूसलधार वर्षासे उनके शरीरको बहुत कष्ट पहुचता है तथापि वे मुनिराज अपने प्रतिज्ञा किये हुये व्रत से च्युत नहीं होते हैं—ऐसा बताते है—

* भद्रिका छंदः *

जलधाराशरताडिता न चलन्ति

चरित्रतः सदा नृसिंहाः ।

संसारदुःखभीरवः परीपहाराति—

घातिनः प्रवीराः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः— (जलधाराशरताडिताः) वे मुनिराज पानी की धारारूपी बाणों से ताडित किये जाते हैं—वर्षाकी धारा बाणोंके समान उनको दुख देती है तथापि वे (नृसिंहाः) मनुष्योंमें सिंहके समान शूवीर होते हैं (संसारदुःख-भीरवः) संसारके दुखसे वे भयभीत रहते हैं (परिपहारातिघातिनः प्रवीराः) परीषह रूपी शत्रुओं को वे सर्वथा घातनेवाले हैं—इसीलिये शूवीरोमें भी मुख्य गिने जाते हैं (सदा) वे हमेशा ऐसी घोर वर्षामें भी (चरित्रतः) अपने चारित्र से (न चलन्ति) चलायमान नहीं होते है ।

शीतकालमें वे मुनिराज क्या करते हैं ।

* दुर्बई छंदः *

अविरतबहलतुहिनकणवारिभिरंघ्रिपपत्रपाननै—

रनवरतमुक्तसात्काररवैः परुषैरथानिलैः शोषितगात्रयष्टयः ।

इह श्रमणा धृतिकंबलावृताः शिशिरनिशां ।

तुषारविषमां गमयन्ति चतुःपथे स्थिताः ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः— (अथ) वर्षाकाल के बाद (इह) इस लोकमें (अविरत-बहलतुहिनकणवारिभिः) शीतकालमें सदा बहनेवालीचलनेवाली वायु बरफ या पालेकी बड़ी बड़ी वृद्धों से भरी रहती हैं (अघ्रिपपत्रपाननैः) वह वायु, वृद्धों के सब पत्तोंको गिरा देती है (अनवरतमुक्तसात्काररवैः) उसमे सदा 'साय-सांय' ऐसा बड़ा भारी शब्द होता रहता है (परुषैः अनिलैः) वह वायु अत्यंत कठोर एवं असह्य होती है—ऐसी भक्ता वायुसे (शोषितगात्रयष्टयः) जिनकी शरीररूपी लकड़ी सब सूख गई है ऐसे (श्रमणाः) वे मुनिराज (चतुःपथे

[१५५]

स्थिताः) चौराहेपर-चौड़े मैदानमें विराजमान होकर (धृतिकंलावृताः) धैर्य-संतोष रूपी कंबलको धारण कर बड़े सुखसे (तुषारविषमां) पाला-बरफ पड़ने से अत्यन्त असह्य ऐसी (शिशिरनिशां) शीतकालकी रात्रिको (गमयन्ति) व्यतीत करते हैं ।

स्तुतिफलकी याचना—

इति योगत्रयधारिणः सकलतपशालिनः प्रवृद्धपुण्यकायाः ।

परमानंदसुखैषिणः समाधिप्रदं दिशंतु नो भदन्ताः ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः— (इति) इसप्रकार (योगत्रयधारिणः) तीन योग धारण करनेवाले—गर्मीमें पर्वतके शिखरपर आत्तापन-योग धारण करनेवाले, वर्षा में वृद्धके नीचे विराजमान होनेवाले और शीतकालमें चौराहेपर विराजमान होनेवाले अथवा मन वचन काय तीनों गुणियोंको पालन करनेवाले (सकलतपशालिनः) बाह्य-अभ्यंतर समस्त तपोंसे सुशोभित होनेवाले (प्रवृद्धपुण्यकायाः) अपने पुण्यके समूहको परम अतिशय से सुशोभित करनेवाले अथवा अनेक प्रकारके तपश्चरण करनेमें अपने शरीरको उत्साहित करनेवाले (परमानंदसुखैषिणः) मोक्षरूपी सुखकी इच्छा करनेवाले (भदन्ताः) वे मुनिराज (नो) स्तुतिकरनेवाले मुझको (अग्र्यं समाधिं) परमसर्वोत्तम शुक्लध्यानकी (दिशन्तु) प्राप्ति करो ।

इसके आगे कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

आलोचना—इच्छामि भंते ! योगिभक्तिकाउत्सर्गो तस्सालोचन ।
अट्टाङ्गदीवदो समुद्देशु षण्णारसकम्मभूमीसु आदावणरुक्खमूलअवभोवा-
मठाणमोणविरासणेकरुपासकुक्कुडासण चउच्छपक्खखवणादियोगजुत्ताणं
सुव्वसाहूणां वंदामि, णमंसापि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो,
सुगङ्गमणं, समाहिमणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ॥

हे भगवन् ! मैं योगिभक्ति कर कायोत्सर्ग करता हूँ इसमें जो दोष हुये हों, उनकी आलोचना करना चाहता हूँ । ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमें जो पन्द्रह कर्मभूमियां हैं उनमें जो साधु आत्तापनयोग धारण करते हैं, वृद्धके नीचे रहते हैं और चौड़े मैदानमें रहते हैं इस प्रकारके तीनों योगियोंको जो धारण करते हैं, जो मौनव्रत धारण करते हैं, वीरसन, एक पार्व (एक कर्वटसे सोना) और

कुक्कुरासन (मुर्गेका सा आसन) आदि अनेक आसनोसे तपरचरण करते हैं, जो बेला तेला करते हैं, पन्द्रह दिनका उपवास और अधिक उपवास करते हैं-ऐसे समस्त मुनियोंकी मैं वंदना करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ । मेरे दुःखोंका क्षय हो, कर्मोंका क्षय हो, मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो. समाधिमरण की प्राप्ति हो व भगवान् जिनेन्द्रदेवके गुणोंकी प्राप्ति हो ।

इति योगिभक्तिः ।

अथ क्षेपक श्लोकानि ।

योगश्चिरान् जिनान्सर्वान्योगनिर्धृतकल्मषान् । योगै त्त्रिभिरहं वंदे
योगस्कंधप्रतिष्ठितान् ॥ १ ॥ प्रावृट्कालेसविद्युत्प्रपतितसलिले वृक्षमूला-
धिवासाः ॥ हेमंते रात्रिमध्ये प्रतिविगतभया काष्ठवत्त्वक्तदेहाः ॥ ग्रीष्मे
सूर्याशुतप्ता गिरिशिखरगताः स्थानकूटांतरस्थाः ॥ तं मे धर्म प्रदद्युर्मुनिग-
णवृषभा मोक्षनिःश्रेणिभूताः ॥ २ ॥ गिह्वे गिरिसिहरत्था वरिसांयाले
रुक्खमूलरयणीसु सिसिरे वाहिरसयणा ते साह वंदिमो णिच्चं ॥ १ ॥
गिरिकंदरदुर्गेषु ये वसंति दिगंबराः । पाणिपात्रपुटाहारास्ते यांति परमां
गतिम् ॥ २ ॥

योगिभक्तिः [प्राकृत]

श्रोस्सामि गुणधराणं अणयाराणं गुणेहि तच्चेहिं । अंजलिमउलिय-
हत्थो अभिवंदंतो सविभवेण ॥ १ ॥ सम्म चेव य भावे मिच्छाभावे तहैव
त्रोधन्वा । चइऊण मिच्छभावं सम्मम्मि उवठ्ठिदे वदे ॥ २ ॥ दोदोसविप्प-
मुक्के तिदंडविरद तिसल्लपरिसुद्धे । तिण्णियगारवरहिये तियरणसुद्धे णमं-
सामि ॥ ३ ॥ चउविहकसायमहणा चउगयसंसारगमण भयभीए । पंचा-
सवपडिविरदे पंचेदियणिज्जिदे वंदे ॥ ४ ॥ छज्जीवदयावण्णे छडायदण-
विवज्जिदे समिदभावे । सत्ता भयविप्पमुक्के सत्ताण सिवंकरे वंदे ॥ ५ ॥
णठ्ठमयट्ठा णे पणठ्ठकम्मट्ठणिट्ठियट्ठे अट्ठगुणट्ठीसरे वंदे ॥ ६ ॥ णवव-

[१५७]

भचेरगुत्ते णवणयसब्भावजाणगे वंदे ॥ दहविहधम्मट्ठार्ई दससंजमसंजदे
 वंदे ॥ ७ ॥ एयारसंगसुदसायरपारगे वारसंगसुदणिऊणे । वारसविहतवणि-
 रदे तेरसकिरियादरे वदे ॥ ८ ॥ भूदसु दयावण्णे चउदस चउदससुगंध-
 परिसुद्धे । चउदसपुव्वपगब्भे चउदसमलविज्जिदे वंदे ॥ ९ ॥ वंदे चउ-
 त्थभरादिजावळ्ळमासखवणपडिवण्णे । वंदे आदावते सूरस्स य अहिमृह-
 ङ्गिदे सूरै ॥ १० ॥ बहुविहपडिमट्ठार्ई णिसिज्जवीरासणेककवासीय । अणि-
 ड्डीवकंडुवदीवे चत्तदेहे य वंदामि ॥ ११ ॥ ठाणी मोणवर्दीये अब्भोवा-
 सीय रुक्खमूलीय । धुवकेसमंसुलोमे णिप्पडियम्मे य वंदामि ॥ १२ ॥
 जल्लमल्लत्तित्तगत्ते वंदे कम्ममलकलुसपरिसुद्धे । दीहणहमंसुलोमे तवसिरि-
 भरिये णमंसामि ॥ १३ ॥ णाणोदयाहिसित्ते सीलगुणविहूसिये तवमुगंधे ।
 ववगयरायसुदङ्गे सिवगइपहणायगे वंदे ॥ १४ ॥ उग्गतवे दित्ततवे तर-
 तवे महातवे य घोरतवे । वंदामि तवमहंते तवसंजमइड्डिसंजुत्ते ॥ १५ ॥
 आमोसहिये खेलोसहिये जल्लोसहिये तवसिद्धे । चिप्पोसही य सव्वोसही
 य वंदामि तिविहेण ॥ १६ ॥ अक्षयमहुखीरसप्पिसवीयअक्खिणमहाणसे
 वंदे । मणवल्लिवचणवल्लिकायवल्लिणो य वंदामि तिविहेण ॥ १७ ॥ वरकुट्ट-
 वीयवुद्धी पदाणुसारीय भिण्णसोदारे ॥ उग्गहईहसमत्थे सुत्तत्थविसारदे
 वंदे ॥ १८ ॥ आभिणित्रोहियसुदओहिणाणिमणणाणिसव्वणाणीय । वंदे
 जगप्पदीवे पच्चक्खपरोक्खणाणीय ॥ १९ ॥ आयाभनंतुजलसेट्ठिचारणे
 जङ्घचारणे वंदे ॥ विउवणइड्डिपहाणे विज्जाहरपण्णसवणे य ॥ २० ॥ गइ-
 चउरंगुलगमणे तहेव फलफुल्लचारणे वंदे ॥ अणुवमतवमहंते देवासुरवंदिदे
 वंदे ॥ २१ ॥ जियभय जियउवसग्गे जियइंदियपरीसहे जियकसाए ॥
 जियरायदोसमोहे जियसुहदुक्खे णमंसामि ॥ २२ ॥ एवं मयेभित्थुया अण-
 यारा रायदोसपरिसुद्धा । सङ्खस्स वरसमार्हिं मज्झवि दुक्खक्खयं दिंतु
 ॥ २३ ॥ इच्छामि भंते योगिभत्तिकारुस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं अट्ठाइज्ज-
 दीवदोसमुद्धेसु पण्णारसकम्मभूमीसु आदावणरुक्खमूलअब्भोवासठाणमो-
 णविरासणेक्कपासकुक्कुडासण चउछपक्खखवणादियोगज्जुत्ताणं सव्वसाहूणं
 वंदामि, णमंसामि, दुक्खक्खओ कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइगमणं समा-
 हिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ॥

आचार्यभक्तिः

स्कन्द छन्दः—

सिद्धगुणस्तुतिनिरतानुद्धतरुषाग्नि—

जालबहुलविशेषान् ।

गुप्तिभिरभिसंपूर्णान्

मुक्तियुतः सत्यवचनलक्षितभावान् ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—जो आचार्य (सिद्धगुणस्तुतिनिरतान्) सिद्धोंके सम्यक्त्वादि गुणोंकी स्तुति करने में सदा लवलीन हैं (उद्धूतरुषाग्निजालबहुलविशेषान्) क्रोधरूपी अग्नि—उपलक्षणासे मान, माया, लोभ आदि कषायों का जो समूह उसके अनन्तानुबंधी आदि अनेक भेद हैं—अर्थात् कषायोंके जो भेद हैं वे सब जिन्होंने नष्ट कर दिये हैं (गुप्तिभिः अभिसंपूर्णान्) जो मनगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्तिका पालन करते हैं—गुप्तियों से परिपूर्ण हैं, जो (मुक्तियुतः) मुक्ति-मोक्षसे ही सदा सम्बंध रखते हैं (सत्यवचनलक्षितभावान्) जिनके भाव सत्यवचनसे ही भरपूर हैं—जो कभी किसी को नहीं ठगते ऐसे आचार्यों को मैं नमस्कार करता हूँ^१ ।

मुनिमाहात्म्यविशेषान्

जिनशासनसत्प्रदीपभासुरमूर्तीन् ॥

सिद्धिं प्रपित्सुमनसो

वद्धरजोविपुलमूलघातनकुशलान् ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—(मुनिमाहात्म्यविशेषान्) जो मुनियोंके विशेष माहात्म्यको—
ज्ञानके अतिशयको प्रकाशित करनेवाले हैं (जिनशासनसत्प्रदीपभासुरमूर्तीन्)
जिनकी मूर्ति जिनशासनको प्रकाशित करनेके लिये दीपक के समान दैदीप्यमान

१—इस श्लोक में तथा आगेके श्लोको में नमस्कार सूचक कोई वाक्य नहीं है, वह वाक्य दशवें श्लोकमें है और वहा तक सब श्लोकोका सम्बन्ध है। अतः “नमस्कार करता हूँ” यह वाक्य वहा से लिया गया है। आगे भी ऐसा ही समझना चाहिये।

सदा नाश करनेवाले होते हैं। ऐसे आचार्यों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ।

धारितविलसन्मुंडान्यर्जितबहुदुर्षिडमंडलनिकरान् ।

सकलपरीषहजयिनः क्रियाभिरनिशं प्रमादतः परिरहितान् ॥५॥

अन्वयार्थः— (धारितविलसन्मुंडान्) जिनके मन, वचन, काय, पांचों इन्द्रियां और हाथ पैरों आदिके व्यापार सब पाप रहित हैं और इसीलिये अत्यंत शोभायमान रहते हैं (वर्जितबहुदुर्षिडमंडलनिकरान्) जो मुनियोंका समुदाय अधिक प्रायश्चित्त लेनेवाला या अपराधी होता है अथवा अधिक प्रायश्चित्त लेनेवाला आहार ग्रहण करता है-ऐसे मुनि समुदायसे जो आचार्य सर्वथा अलग रहते हैं (क्रियाभिः) जो तपश्चरणके विशेष विशेष अनुष्ठानोसे (अनिशं) सदा (सकलपरीषहजयिनः) अनेक प्रकारकी परीषहोंको जीतते रहते हैं (प्रमादतः) जो प्रमादसे (परिरहितान्) सर्वथा रहित होते हैं, ऐसे आचार्यों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ।

अचलान्व्ययेतनिद्रान् स्थानयुतान्कष्टदुष्टलेश्याहीनान् ।

विधिनानाश्रितवासानलिप्तदेहान्विनिर्जितेन्द्रियकरिणः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः— (अचलान्) जो अनेक परीषहों के आजाने पर भी अपने अनुष्ठानसे या व्रतोंसे कभी चलायमान नहीं होते (व्ययेतनिद्रान्) जो विशेषकर निद्रासे रहित होते हैं (स्थानयुतान्) प्रायः कायोत्सर्ग धारण करते हैं (कष्टदुष्टलेश्याहीनान्) अनेक प्रकारके दुःख और दुर्गतियोंको देनेवाली अशुभलेश्याओंसे जो सदा दूर रहते हैं (विधिना) विधिपूर्वक (अनाश्रितवासान्) घरका त्याग कर दिया है अथवा नियमसे घर रहित हैं अथवा आगमके अनुसार जिनके कंदरा, वसतिका आदि अनेक प्रकार के रहनेके स्थान हैं। (अलिप्तदेहान्) तपश्चरणके माहात्म्यसे जिनका शरीर अत्यंत निर्मल है (विनिर्जितेन्द्रियकरिणः) जो इंद्रिय रूपी हाथीको सदा अपने वशमें रखते हैं इन्द्रियोंको जीतनेवाले हैं-ऐसे आचार्योंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ।

अतुलानुत्कुटिकासान्विदित्तच्चिदानखंडितस्वाध्यायान् ।

दक्षिणभावसमग्रान्व्यपगतददरागलोभशठमात्सर्यान् ॥ ७ ॥

१-विलिप्त इति च क्वचित्पाठः, अर्थात् जिनका शरीर मल (मैल) से लिप्त है।

अन्वयार्थः—(अतुलान्) जो आचार्य अतुल-अनुपम है संसारमें जिन की कोई उपमा नहीं है (उत्कुटिकासान्) जो उत्कुटिकासन आदि कठिन कठिन आसनोंसे तपश्चरण करते हैं (विविक्तचित्तान्) जिनका हृदय सदा हेयोपादेय के विवेकसे सुशोभित रहता है (अखंडितस्वाध्यायान्) जिनका स्वाध्याय सदा अखंडित रहता है (दक्षिणभावसमप्रान्^२) जो शुभ परिणामो से ही सदा सुशोभित रहते हैं (व्यपगतमदरागलोभशठमात्सर्यान्) जो मद-अभिमान-अहंकार, राग, लोभ, अज्ञान और मत्सरता (ईर्ष्या) में सदा अलम रहते हैं-ऐसे आचार्योंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ ।

भिन्नार्तरौद्रपक्षान्संभावितधर्मशुक्लनिर्मलहृदयान् ।

नित्यं पिनद्धकुगतीन्पुण्यान्गण्योदयान्विलीनगारवचर्यान् ॥८॥

अन्वयार्थः—(भिन्नार्तरौद्रपक्षान्) जिन्होंने आर्तध्यान और रौद्रध्यान रूपी पक्षोका सर्वथा नाश कर दिया है (संभावितधर्मशुक्लनिर्मलहृदयान्) जो अपने निर्मल शुद्ध हृदयमें धर्मध्यान और शुक्लध्यानका सदा अनुभव करते रहते हैं (नित्यं) सदाके लिये (पिनद्धकुगतीन्^३) जिन्होंने नरकादिक दुर्ग-तियोंका नाश कर दिया है (पुण्यान्^४) जो अत्यंत पवित्र या पुण्य स्वरूप हैं (गण्योदयान्) भिनकी ऋद्धियां या तपश्चरणके माहात्म्य अत्यंत प्रशंसनीय श्लाघ्य हैं (विलीनगारवचर्यान्) जो दूररसास्वादन (दूरसे ही इसका आस्वा-दन कर लेना) आदि ऋद्धियोंकी प्रवृत्तियोंसे सर्वथा रहित होते हैं—ऐसे आचार्योंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ ।

तरुमूलयोगयुक्तानवकाशातापयोगरागसनाथान् ।

बहुजनहितकरचर्यान्भयाननधान्महानुभावविधानान् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः—(तरुमूलयोगयुक्तान्) जो वर्षाकालमें वृक्षके नीचे तरुमूल-योग धारण करते हैं (अवकाशातापयोगरागसनाथान्) ग्रीष्मकालमें आतापन-योग और शीतकालमें अभावकाशयोग (मैदानमें रहना) धारण करते हैं (बहुजनहितकरचर्यान्) जिनका चारित्र सदा अनेक जीवोंको हितकरनेवाला

२-दक्षिणेन-प्रशस्तेन, भावेन-परिणामेन, समप्रान्-परिपूर्णान् ।

३-पिनद्धा-निराकृता कुगतिर्यैः तान् ।

४-पुण्यान्-प्रशस्तान्-पवित्रीभूतान् ।

होता है (अभयान्) जो सात प्रकारके भयसे सर्वथा रहित हैं (अनघान्) जो सब प्रकारके पापोसे रहित हैं (महानुभावविधानान्) प्रबल पुण्यके उदय से जिनका प्रभाव सब जगह पड़ता है—जो सदा धर्म-और शुक्लध्यानमें ही लीन रहते हैं—ऐसे आचार्योंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ ।

ईदृशगुणसंपन्नान्युष्मान्भक्त्या विशालया स्थिरयोगान् ।

विधिनानारतमग्रयान्मुकुलीकृतहस्तकमलशोभितशिरसा ॥ १० ॥

अभिनामि सकलकलुषप्रभवोदयजन्मजरामरणबंधनमुक्तान् ।

शिवमचलमनघमक्षयमव्याहतमुक्तिसौख्यमस्त्वितिसततम् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः— (ईदृशगुणसंपन्नान्) जो आचार्य ऊपर कहे हुये समस्त गुणोंसे सुशोभित हैं (स्थिरयोगान्) जिनके मन वचन काय अनेक परीषहोंके आजाने पर भी सदा स्थिर रहते हैं (अनारतं अग्रयान्) समस्त गुणों को धारण करने से जो सदा मुख्य-प्रधान रहते हैं (सकलकलुषप्रभवोदयजन्म-जरामरणबंधनमुक्तान्) अशुभकर्मोंके उदयसे प्राप्त होनेवाले जन्म, जरा-बुढ़ापा मरण आदि समस्त दोषोंके सम्बन्धसे-बंधनसे जो सर्वथा रहित होते हैं ऐसे (युष्मान्) आचार्योंको मैं (विशालया भक्त्या) बड़ी भारी भक्ति से (विधिना) विधिपूर्वक-आचार्य भक्ति करके (मुकुलीकृतहस्तकमलशोभितशिरसा) अपने दोनो हाथरूपी कमलोंको जोड़कर मस्तक पर रखकर (अभिनामि) सदा नमस्कार करता हूँ तथा इस नमस्कार करनेका फल (शिव अचल अनघं अक्षय अव्याहतमुक्तिसौख्यं इति सततं अस्तु) अत्यंत प्रशसनीय-कल्याणरूप-संगल-मय, हीनाधिकतासे रहित, निर्दोष-पाप रहित, अक्षय अविनश्वर और बाधा रहित मोक्षका अनंत सुख मुझे प्राप्त हो—ऐसी कामना-इच्छा करता हूँ अर्थात् ऐसे मोक्षसुखको प्राप्त करनेके लिये ही मैं आचार्य परमेष्ठीको नमस्कार करता हूँ ।

इसके आगे कायोःसर्ग करना चाहिये ।

अथ आलोचना—

इच्छामि भंते ! आइरियभक्तिकाउरसगगो कओ तस्सालोचेउं । सम्म-
णाण सम्मदंसण सम्मचारित्तजुत्ताणं पञ्चविहाचाराणं आयरियाणं आया-
रादिसुदणाणोवदेसयाणं उवञ्झायाणं तिरयणगुण पालणरयाणं सच्चसाहूणं

सम्मचारिचस्स सया अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्खवखओ,
कम्मवखओ, वोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ
मज्झं ।

अर्थ—हे भगवन् ! मैं आचार्य भक्ति कर कायोत्सर्ग करता हूँ। इसमें जो
दोष हुये हों उनकी आलोचना करनेकी इच्छा करता हूँ। मैं सम्यग्दर्शन,
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र सहित और पञ्चाचार पालनेवाले आचार्योंकी,
आचारांग आदि श्रुतज्ञानका उपदेश देनेवाले उपाध्यायकी और रत्नत्रय गुणको
पालन करनेवाले समस्त साधुओंकी सदा अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना
करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मेरे समस्त दु खोंका नाश हो, कर्मोंका नाश हो,
मुझे रत्नत्रय प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो और भग-
वान् जिनेन्द्रदेवके गुणोंकी प्राप्ति हो ।

इति आचार्यभक्तिः ।

अथ क्षेपक श्लोकानि ।

श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावनापट्टमतिभ्यः । सुचरिततपो-
निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः ॥ छत्तीसगुणसमग्गे पंचविहाचार-
करणसंदरिसे । सिस्साणुगहकुसले धम्मायरिये सदा वंदे ॥ गुरुभक्ति
संजमेण य तरंति संसारसायरं घोरं । छिण्णांति अट्टकम्मं जम्भणमरणं ण
पावंति ॥ ये नित्यं व्रतमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः । पट्टकर्माभि-
रतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः ॥ शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्च-
द्रार्कतेजोऽधिकाः । मोक्षद्वारकवाटपाटनभटाः प्रीणांतु मां साधवः ॥ गुरवः
पान्तु वो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः । चारित्रार्णवगंभीरा मोक्षमार्गोपदे-
शकाः ॥ प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः । प्रास्ताशः
प्रतिभापरः प्रशमवान्प्रागेव दृष्टोत्तरः ॥ प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी
परानिंदया । ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥ श्रुतमवि-

कलंशुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने । परिणतिरूढोगो मार्गप्रवर्तनसद्विधौ
बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुताऽस्पृहा । यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च
सोस्तु गुरुः सताम् ॥ विशुद्धवंशः परमाभिरूपो । जितेन्द्रियो धर्मकथा-
प्रसक्तः । सुखद्विलाभेष्वविसक्तचित्तो । बुधैः सदाचार्य इति प्रशस्तः ॥
विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं । रहितसकलसंगं संयमासक्तचित्तं ।
सुनयनिपुणभावं ज्ञाततत्त्वप्रपञ्चम् । जननमरणभीतं सद्गुरुं नौमि नित्यम् ॥
सम्यग्दर्शनमूलं ज्ञानस्कंधं चरित्रशाखाढ्यम् । मुनिगणविहगाकीर्णमाचा-
र्यमहाद्रुमं वंदे ॥

अथ आचार्यभक्तिः [प्राकृत]

देसकुलजाइसुद्धा विसुद्धमणवयणकायसंजुत्ता ॥ तुहं पायपयोरुह-
मिह मंगलमत्थु मे णिच्चं ॥ १ ॥ सगपरसमयविदण्हू आगमहेदूहिं चावि
जाणित्ता । सुसमत्था जिणवयणे विणये सत्ताणुरुवेण ॥ २ ॥ बालगुरु-
बुद्धसेहे गिलाणथेरे य खवणसंजुत्ता । वट्टावयगा अण्णे दुस्सीले चावि
जाणित्ता ॥ ३ ॥ वयसमिदिगुत्तिजुत्ता मुत्तिपहेट्टावया पुणो अण्णे ।
अज्झावयगुणणिलये साहुगुणेणावि संजुत्ता ॥ उच्चमखमाए पुढवी पसण्ण-
भावेण अच्छजलमरिसा कम्मिधणदहणादो अगणी वाऊ असंगादो ॥ ५ ॥
गयणमिव शिरुवलेवा अक्खोहा सायरुव्व मुणिवसहा । एरिसगुणणिल-
याणं पायं पणमामि सुद्धमणो ॥ ६ ॥ संसारकाणणे पुण वंभममाणेहि
भव्वजीवेहिं । णिच्चाणस्स हु मग्गो लद्धो तुम्हं पसाएण ॥ ७ ॥ अविस्सु-
द्धलेस्सरहिया विसुद्धलेस्साहि परिणदा सुद्धा । रुद्धे पुण चत्ता धम्मे
सुक्के य संजुत्ता ॥ १८ ॥ उग्गहईहावायाधारणगुणसंपदेहि संजुत्ता । सुत्त-
त्थभावणाए भावियमाणेहि वंदामि ॥ ९ ॥ तुम्हं गुणगणसंथुदि अजा-
णमाणेण जो मया बुत्तो । देउ मम बोहिलाहं गुरुभत्तिजुदत्थओ
णिच्चं ॥ १० ॥

पञ्चगुरुभक्तिः

श्रीमदमरेन्द्रमुकुटप्रघटितमणिकिरणवारिधाराभिः ।

प्रक्षालितपदयुगलान्प्रणमामि जिनेश्वरान्भक्त्या ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—(श्रीमदमरेन्द्रमुकुटप्रघटितमणिकिरणवारिधाराभिः) जिनके चरणकमलविशेष लक्ष्मी से सुशोभित हैं ऐसे—इन्द्रोंके मुकुटोंमें लगे हुये मणियों की किरणरूपी जल धारासे (प्रक्षालितपदयुगलान्) प्रक्षालित किये गये हैं चरण युगल जिनके ऐसे (जिनेश्वरान्) श्री अरहंतदेव जिनेन्द्र भगवान को (भक्त्या) बड़ी भक्तिसे (प्रणमामि) नमस्कार करता हूँ ।

अष्टगुणैः समुपेतान् प्रणष्टदुष्टाष्टकर्मरिपुसमितीन् ।

सिद्धान्सततमनन्तान्मस्करोमीष्टतुष्टिसंसिद्धयै ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—(अष्टगुणैः समुपेतान्) जो सम्यक्त्व आदि आठों गुणोंसे सुशोभित हैं (प्रणष्टदुष्टाष्टकर्मरिपुसमितीन्) जिन्होंने अत्यन्त दुष्ट दुःख देनेवाले ऐसे आठों कर्मरूपी शत्रुओंके समूहको नष्ट कर दिया है ऐसे (अनन्तान् सिद्धान्) अनन्त सिद्धोंको (सतत) सदा (इष्टतुष्टिसंसिद्धयै) इष्ट तथा तुष्टि की संसिद्धिके लिये—मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त करनेके लिये (नमस्करोमि) नमस्कार करता हूँ ।

साचारश्रुतजलधीन्प्रतीर्य शुद्धोरुचरणनिरतानाम् ।

आचार्याणा पदयुगकमलानि दधे शिरसि मेऽहम् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—(साचारश्रुतजलधीन् प्रतीर्य) जो पञ्चाचार सहित द्वादशांग श्रुतज्ञानरूपी समुद्रके पार हो गये हैं (शुद्धोरुचरणनिरतानाम्) जो निर्दोष तथा उग्र तपश्चरणके पालनमें सदा तत्पर रहते हैं ऐसे (आचार्याणा) आचार्योंके (पदयुगकमलानि) दोनों चरण कमलोंको (अहं) मैं (मे शिरसि) अपने मस्तक पर (दधे) धारण करता हूँ ।

मिथ्यावादिमदोग्रध्वान्तप्रध्वंसिवचनसंदर्भान् ।

उपदेशकान् प्रपद्ये मम दुरितारिप्रणाशाय ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः— (मिथ्यावादिमदोप्रध्वान्तप्रध्वंसिवचनसंदर्भान्) जिनके वचनोंकी रचना मिथ्यावादियोंके अहंकाररूपी अंधकारका नाश करनेवाली है ऐसे (उपदेशकान्) उपाध्यायोंकी मैं (मम दुरितारिप्रणाशाय) अपने पापरूपी शत्रुओंको नाश करनेके लिये (प्रपद्ये) शरण लेता हूँ—मैं उनकी शरण में जाता हूँ ।

सम्यग्दर्शनदीपप्रकाशका मेयबोधसंभूताः ।

भूरिचरित्रपताकास्ते साधुगणास्तु मां पान्तु ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः— (सम्यग्दर्शनदीपप्रकाशकाः) जो सम्यग्दर्शनरूपी दीपक से मध्य जीवोंके मनके अंधकारको दूर कर उनके मनको प्रकाशित करनेवाले हैं (मेयबोधसंभूताः) जीवादिक समस्त पदार्थोंके ज्ञानसे सुशोभित हैं (भूरिचरित्रपताकाः) अतिशय चारित्रकी पताका-ध्वजा जिन्होंने फहरा रखी है (ते साधुगाः तु) वे साधुगण मी-(मां) मेरी (पान्तु) रक्षा करो ।

जिनसिद्धसूरिदेशकसाधुवरानमलगुणगणोपेतान् ।

पञ्चनमस्कारपदैस्त्रिसंध्यममिनौमि मोक्षलाभाय ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—(अमलगुणगणोपेतान्) जो अनेक निर्मल गुणोंके समूह से सुशोभित हैं ऐसे (जिनसिद्धसूरिदेशकसाधुवरान्) अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और उत्तम साधुओंको मैं (मोक्षलाभाय) मोक्षप्राप्त करनेके लिये (पंचनमस्कारपदैः) पंच नमस्कार मंत्र पढ़कर (त्रिसंध्य) तीनोंकाल (अमिनौमि) नमस्कार करता हूँ ।

एष पञ्चनमस्कारः सर्वपापप्रणाशनः ।

मङ्गलानां च सर्वेषां प्रथमं मंगलं भवेत् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—(एषः पंचनमस्कारः) यह पंचनमस्कार मंत्र (सर्वपाप-प्रणाशनः) समस्त पापोंका नाश करनेवाला है (च सर्वेषां मंगलानां) और समस्त मंगलोंमें (प्रथम मंगलं) प्रथम-मुख्य मंगल (भवेत्) गिना जाता है ।

अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायाः सर्वसाधवः ।

कुर्वन्तु मंगलाः सर्वे निर्वाणपरमश्रियम् ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः— (अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायाः सर्वसाधवः) अरहंत, सिद्ध,

आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु (सर्वे) ये पांचों (मंगलाः) मंगलरूप है—इसलिये वे सब मुझे (निर्वाणपरमश्रियं) मोक्षरूपी परम लक्ष्मीको (कुर्वन्तु) प्रदान करो ।

सर्वान् जिनेन्द्रचन्द्रान्सिद्धानाचार्यपाठकान् साधून् ।

रत्नत्रयं च वंदे रत्नत्रयसिद्धये भक्त्या ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः—(सर्वान्) समस्त (जिनेन्द्रचन्द्रान्) अरहंतोको (सिद्धान्) सिद्धोंको (आचार्यपाठकान्) आचार्योंको, उपाध्यायोंको (साधून्) साधुओंको (च) और (रत्नत्रयं) रत्नत्रयको (रत्नत्रयसिद्धये) रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिये (भक्त्या) भक्तिसे (वंदे) नमस्कार करता हूं ।

पान्तु श्रीपादपद्मानि पंचानां परमेष्ठिनाम् ।

लालितानि सुराधीशचूडामणिमरीचिभिः ॥ १० ॥

अन्वयार्थः—(सुराधीशचूडामणिमरीचिभिः) जो इन्द्रोंके मकुटोंमें लगे हुये चूडामणि रत्नकी किरणोंसे (लालितानि) सुशोभित हैं ऐसे (पंचानां परमेष्ठिनां) पांचों परमेष्ठियोंके (श्रीपादपद्मानि) शोभनीक चरण कमल मेरी (पान्तु) रक्षा करो ।

प्रातिहार्यैर्जिनान् सिद्धान् गुणैः सूरीन् स्वमातृभिः ।

पाठकान् विनयैः साधून् योगांगैरष्टभिः स्तुवे ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः—(प्रातिहार्यैः जिनान्) जो भगवान् अरहतदेव आठ प्रातिहार्य और ३४ अतिशय से सुशोभित हैं (गुणैः सिद्धान्) जो सिद्ध सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे सुशोभित हैं (स्वमातृभिः सूरीन्) जो आचार्य तीन गुणों और पांच समिति इन आठ प्रवचन मातृकाओं से सुशोभित हैं (विनयैः पाठकान्) जो उपाध्याय अनेक शिष्योंसे सुशोभित हैं (अष्टभिः योगांगैः साधून्) और जो साधु-प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्यय, आहार, यम, नियम और आसन इन आठ योगसाधनके अंगोंसे सुशोभित हैं (स्तुवे) उन सबकी-पांचों परमेष्ठियोंकी मैं स्तुति करता हूं ।

इसके आगे कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

आलोचना—

इच्छामि भंते ! पंचमहागुरुभक्तिकाउस्सगोकओ तस्सालोचेउ । अट्ठ-

महापाण्डिहेरसंजुत्ताणं । अट्टगुण संपण्णाणं उड्ढल्लोयमत्थयम्मि पइट्टियाणं
सिद्धाणं । अट्टपवयणमउसंजुत्ताणं आयरियाणां । आयारादिसुदणाणोवदे-
सयाणं उवज्झायाणं । तिरयणगुणपालणरयाणं सव्वसाहूणां । णिच्चकालं
अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो,
सुगइगमणं, समाहिमरणां, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

अर्थ—हे भगवन् ! मैं पञ्चगुरुभक्ति कर कायोत्सर्ग करता हू । इसमें जो
दोष लगे हों उनकी आलोचना करने की इच्छा करता हू । भगवान् अरहत-
देव आठ महाप्रातिहार्य गुणोंसे सुशोभित हैं, भगवान् सिद्ध परमेष्ठी सम्यक्तवादि
आठ गुणोंसे विभूषित हैं और ऊर्ध्व लोकके शिखरपर विराजमान है, भगवान्
आचार्य परमेष्ठी अष्टप्रवचन मातृकाओं से सुशोभित हैं, भगवान् उपाध्याय
परमेष्ठी आचारांग आदि श्रुतज्ञानका उपदेश देते हैं और सर्वसाधु परमेष्ठी
रत्नत्रय गुणोंका पालन करनेवाले हैं । इन पाँचों परमेष्ठियों की मैं सदा अर्चा
करता हूँ, पूजा करता हूँ, वदना करता हूँ और नमस्कार करता हू । मेरे दुःखो
का नाश हो, कर्मोंका नाश हो, मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, शुभ गतिकी प्राप्ति हो,
समाधिमरणकी प्राप्ति हो और भगवान् जिनेन्द्र-देवके गुणोंकी संपत्ति प्राप्त हो ।

इति पञ्चगुरुभक्तिः ।

अथ पञ्चगुरुभक्तिः [प्राकृत]

मणुयणाइदसुरधरियल्लत्तया पंचकल्लाणसोक्खावलीपत्तया ॥ दंसणं
णाणज्झाणं अणंतं बलं, ते जिणा दिंतु अह्मं वरं मंगलम् ॥ १ ॥ जेहिं
ज्झाणग्निवाणेहिं अइदद्धयं, जम्मजरमरणणयरत्तयं दद्धयं ॥ जेहिं पचं सिवं
सासयं ठाणयं, ते महं दिंतु सिद्धा वरं णाणयं ॥ २ ॥ पंचहाचारपंचग्गि-
संसाहया, धारसंगाइसुअजलहिअवगाहया, मोक्खलच्छीमहंती महंते सया ।
सूरिणो दिंतु मोक्खं गयासंगया ॥ ३ ॥ घोरसंसारमीमाडवीकाणणे,
तिक्खवियरालणहपावपंचाणणे । णट्टमग्गाणजीवाण प्पहदेसया, वंदिमो ते

[१६६]

उवञ्झाय अह्ने सया ॥ ४ ॥ उगगतवचरणकरणेहि खीणंगया, धम्मवर-
ज्झाण सुक्केकञ्झाणंगया । णिब्भरं तवसिरियसमालिंगया, साह वो ते
महामोक्खपथमग्गया ॥ ५ ॥ एण थोत्तेण जो पञ्चगुरुवंदए, गुरुयसंसार-
घणवल्लि सो छिंदये । लहइ सो सिद्धिसोक्खाइ बहुमाणणं, कुणइ कम्मि-
धणं पुञ्जपञ्जालणं ॥ ६ ॥ अरुहा सिद्धायरिया उवझाया साहु पञ्चपरमेट्टि ।
एदे पञ्च णमोयारा भवे भवे मम सुहं दिंतु ॥ ७ ॥ इच्छामि भंते पञ्च-
महागुरुभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं अट्टमहापाडिहेरसंजुत्ताणं अर-
हंताणं, अट्टगुणसंपण्णाणं उड्डलोयमत्थयम्मि पड्ढियाणं सिद्धाणं, अट्टपव-
यणमउसंजुत्ताणं, आयरियाणं, आयारादिसुदणाणोवदेयाणं उवञ्झायाणे,
तिरियणगुणपालणरयाणं सच्चसाहूणं, णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि
णमंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ वोहिलाहो सुगइगमणं, समाहिमरणं,
जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

तीर्थङ्करभक्तिः

अथ देवसियपडिक्कमणाए सच्चाइच्चारदिसोहिणिमित्तं । पुच्चाइ-
रियकमेण चउवीसतित्थयरभत्तिकाउस्सग्गं करेमि ।

अर्थ—दैवसिक प्रतिक्रमणमें लगे हुये अतीचारोको शुद्ध करनेके लिये पूर्वा-
चार्योंकी परंपराके अनुसार मैं तीर्थंकरभक्ति और तत्संबंधी कायोत्सर्ग करता हूँ ।

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमोआइरियाणं ।

णमो उवञ्झायाणं णमो लोए सच्चसाहूणं ॥

अर्थ—मैं अरहंतोंके लिये नमस्कार करता हूँ, सिद्धोंके लिये नमस्कार
करता हूँ, आचार्योंके लिये नमस्कार करता हूँ, उपाध्यायोंके लिये नमस्कार
करता हूँ और लोकमें सर्व साधुओंके लिये नमस्कार करता हूँ ।

चउवीसंतित्थयरे उसहाईवीरपच्छिमे वंदे ।

सच्चेसिं मुणिगणहरसिद्धे सिरसा णमंसामि ॥ १ ॥

अर्थ—मैं श्री वृषभदेवसे लेकर श्री वर्धमान पर्यंत समस्त चौबीस तीर्थंकरों

को मस्तक भुक्ताकर नमस्कार करता हूँ तथा मुनिगणधर और सिद्धोंको भी नमस्कार करता हूँ ।

ये लोकेष्टसहस्रलक्षणधरा ज्ञेयार्णवान्तर्गता ।

ये सम्यग्भवजालहेतुमथनाश्चन्द्रार्कतजोधिकाः ॥

ये साध्विन्द्रसुराप्सरोगणशनैर्गीतप्रणुत्यार्चिताः ।

तान् देवान् वृषभादिवीरचरमान् भक्त्या नमस्याम्यहम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थः— (ये) जो (लोकेष्टसहस्रलक्षणधराः) तीर्थकर परमदेव संसारमें-लोकमें एक हजार आठ लक्षण धारण करते हैं, (ज्ञेयार्णवान्तर्गताः) जो जीवादिक पदार्थरूपी महासागरके पारंगत हैं अर्थात् समस्त पदार्थोंको एक साथ जानते हैं (ये सम्यग्भवजालहेतुमथनाः) जो जन्म मरणरूप संसार को बढ़ानेवाले मिथ्यात्व आदि कारण है उन्हें जिन्होंने सर्वथा नष्ट कर दिया है (चन्द्रार्कतजोऽधिकाः) जिनका प्रकाश सूर्य चन्द्रमासे भी अधिक है अर्थात् शरीरका प्रकाश करोड़ों सूर्यसे भी अधिक है और ज्ञानका प्रकाश लोक-अलोक से भी अधिक है (ये साध्विन्द्रसुराप्सरोगणशतैः गीतप्रणुत्यार्चिताः) जो सैकड़ों इन्द्र और असंख्यात देव अप्सराओंके समूह जिनकी कीर्ति को गाकर और जिनके लिये नमस्कार कर जिनकी पूजा करते हैं ऐसे (तान् वृषभादिवीरचरमान् देवान्) उन श्री वृषभदेवसे लेकर अतिम महावीर पर्यंत चौर्वसों तीर्थकर परमदेवोंको (अहं) मैं (भक्त्या) भक्तिसे (नमस्यामि) नमस्कार करता हूँ ।

नाभेयं देवपूज्यं जिनवरमजितं सर्वलोकप्रदीपं ।

सर्वज्ञं संभवाख्यं मुनिगणवृषभं नन्दनं देवदेवम् ॥

कर्मारिघ्नं सुबुद्धिं वरकमलनिभं पद्मपुष्पाभिगंधम् ।

क्षान्तं दान्तं सुपाश्वं सकलशशिनिभं चन्द्रनामानमीडे ॥३॥

अन्वयार्थः— (देवपूज्यं नाभेय) देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे श्री वृषभनाथकी (सर्वलोकप्रदीपं जिनवरं अजितं) समस्त लोकको या लोकाकाशमें भरे हुये समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेके लिये दीपकके समान भगवान् अजितनाथ की (मुनिगणवृषभ सर्वज्ञं संभवाख्यं) मुनिगणोंमें श्रेष्ठ, सर्वज्ञ ऐसे संभवनाथकी (देवदेवं नन्दनं) देवाधिदेव श्री अभिनन्दनदेवकी (कर्मारिघ्नं सुबुद्धिं) कर्मरूपी

शत्रुका नाश करनेवाले भगवान् सुमतिनाथकी (वरकमलनिभ पद्मपुष्पाभिगंधं) श्रेष्ठ कमलके समान कांतिको-धारण करनेवाले भगवान् पद्मप्रभकी (दान्तं दान्तं सुपार्श्व) क्षमाको धारण करनेवाले और इन्द्रियों को सर्वथा वश करने वाले भगवान् सुपाश्वनाथकी (सकलशशिनिभं चन्द्रनामानं ईडे) तथा पूर्ण चन्द्रमाके समान-अत्यंत सुशोभित भगवान् चन्द्रप्रभकी मै स्तुति करता हूं।

विख्यातं पुष्पदन्तं भवभयमथनं शीतलं लोकनाथं ।

श्रेयासं शीलकोशं प्रवरनरगुरुं वासुपूज्यं सुपूज्यम् ॥

मुक्तं दान्तेन्द्रियाश्वं विमलमृषिपतिं सिंहसैन्यं मुनीन्द्रम् ।

धर्मं सद्धर्मकेतुं शमदमनिलयं स्तौमि शान्तिं शरण्यम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः— (भवभयमथनं विख्यातं पुष्पदन्त) संसारके भयको नाश करनेवाले और अत्यन्त प्रसिद्ध ऐसे भगवान् पुष्पदन्त की (लोकनाथं शीतलं) तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् शीतलनाथकी (शीलकोश श्रेयांसं) शीलव्रतके निधि भगवान् श्रेयांसनाथकी (प्रवरनरगुरुं सुपूज्यं वासुपूज्यं) गणधरादिक देवोंके गुरु और अत्यन्त पूज्य ऐसे श्री वासुपूज्यकी (मुक्तं दान्तेन्द्रियाश्वं विमलं) कर्मोंसे सर्वथा मुक्त होनेवाले और इन्द्रिय रूपी घोड़ेको सर्वथा वश करनेवाले भगवान् विमलनाथकी (ऋषिपति मुनीन्द्रं सिंहसैन्यं) समस्त ऋषियोंके स्वामी मुनिराज श्री अनन्तनाथकी (सद्धर्मकेतु धर्म) सद्धर्मकी ध्वजा को धारण करने वाले भगवान् धर्मनाथकी (शमदमनिलय शरण्यं शान्तिं स्तौमि) तथा अत्यंत शांतिको धारण करनेवाले, इन्द्रियोंको सर्वथा वश करनेवाले और समस्त जीवोंके शरणभूत ऐसे शांतिनाथ भगवानकी मै स्तुति करता हूं।

कुंथुं सिद्धालयस्थं श्रमणपतिमरं त्यक्तभोगेषु चक्रम् ।

महिं विख्यातगोत्रं खचरगणजुतं सुव्रतं सौख्यराशिम् ॥

देवेन्द्रार्च्यं नमीशं हरिकुलतिलकं नेमिचंद्रं भवान्तम् ।

पाश्वं नागेन्द्रबंधं शरणमहमितो वर्द्धमानं च भक्त्या ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः— (सिद्धालयस्थं श्रमणपतिं कुंथुं) सिद्धालयमें जाकर विराजमान होनेवाले और समस्त मुनियोंके स्वामी ऐसे भगवान् कुन्थुनाथकी (त्यक्तभोगेषु चक्रम्) भोगोपभोगके समस्त पदार्थोंका त्याग करनेवाले भगवान्

अनाथकी (विख्यातगोत्रं मल्लि) प्रसिद्ध काश्यप नामके गोत्रमें उत्पन्न होने वाले भगवान मल्लिनाथकी (खचरगणानुतं सौख्यराशि सुद्रतं) समस्त देव और इन्द्रापर जिनके लिये नमस्कार करते हैं और जो अनन्त सुखकी राशि हैं ऐसे भगवान मुनिमुप्रतनाथकी (देवेन्द्राच्यं नमीशं) देवोंके समस्त इन्द्र जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे भगवान नमिनाथकी (हरिकुलतिलकं भवान्तं नेमिचन्द्र) जो हरिवंशके तिलक हैं और संसारको नाश करनेवाले हैं ऐसे भगवान नेमिनाथकी (नागेन्द्रवंधं पार्श्वं) धरणेन्द्रदेवके द्वारा बंदनीय ऐसे भगवान पार्श्वनाथकी (च भक्त्या वर्धमानं अहं शरणं इतः) और भक्तिपूर्वक भगवान वर्द्धमान स्वामीकी मै शरणको प्राप्त होता हूं ।

इसप्रकार मै चौबीसों तीर्थकरोकी स्तुति करता हूं और चौबीसों तीर्थकरोकी शरण जाता हू ।

इसके बाद कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

आलोचना—

इच्छामि भंते ! चउवीसतित्थयरभनिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं ।
 पंचमहाकल्याणसंपण्णाणं, अट्टमहापाडिहेरसहियाणां, चउतीसअतिसयवि-
 सेससंजुत्ताणं, वत्तीसदेविंदमणिमउडमत्थयमहियाणां, बलदेववासुदेवचक्र-
 हरिसिधुणिजइअणगारोवगूढाणं, थुइसयसहस्सणिलयाणं, उसहाइवीरप-
 न्दिमपङ्कलमहापुरिसाणां णिच्चकालं अंचेमि, पुज्जेमि, वंदामि, णमंसामि,
 इस्सवस्सओ, कम्मवस्सओ, बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरणं, जिण-
 गुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

अर्थ—हे भगवन् ! मैं चौबीसों तीर्थकरोकी भक्ति कर कायोत्सर्ग करता हू ।

इसमें जो दोष लगे हों उनकी आलोचना करनेकी इच्छा करता हू ।
 जो तीर्थकर गर्भ, जन्म आदि पांचों महाकल्याणकोसे सुशोभित हैं, जो
 १८ महाप्रातिहार्योसहित विराजमान हैं, जो चौतीस विशेष अतिशयोक्ते सुशो-
 भित हैं, जो देवोंके वत्तीस इन्द्रों के मणिमय मुकुट लगे हुये मरतकोसे पूज्य हैं,
 इनको समस्त इन्द्र आकर नमस्कार करते हैं, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती,
 इति, मुनि, यंति, अन्नगार आदि सब जिनकी सभामें आकर धर्मोपदेश सुनते

हैं और जिनके लिये लाखों स्तुति की जाती हैं ऐसे श्री बृषभदेवसे लेकर श्री महा-
वीर पर्यंत चौबीसों महापुरुष तीर्थकर परमदेवकी मैं सदा अर्चा करता हूँ, पूजा
करता हूँ, वंदना करता हूँ, और उनके लिये सदा नमस्कार करता हूँ, । मेरे
दुःखोंका नाश हो, कर्मोंका नाश हो, मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति
हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो, जिनेन्द्र भगवानके समस्त गुणोंकी प्राप्ति हो ।
इति तीर्थङ्करभक्तिः ।

शान्तिभक्तिः

न स्नेहाच्छरणं प्रयान्तिभगवन्पादद्वयं ते प्रजाः ।

हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारघोरार्णवः ॥

अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकरव्याकीर्णभूमंडलो ।

ग्रैष्मः कारयतीन्दुपादसलिलच्छायानुरागं रविः ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(भगवन्) हे भगवन् ! (प्रजाः) संसारी जीव (ते पाद-
द्वयं) आपके दोनों चरणकमलों की (स्नेहात्) स्नेहसे (शरणां) शरण (न
प्रयाति) नहीं आये हैं किन्तु (तत्रहेतुः) आपके चरणकमलोंकी शरणमें आने
का कारण (विचित्रदुःखनिचयः) अनेक प्रकारके दुःखोंसे भरा हुआ (संसार-
घोरार्णवः 'अस्ति') संसाररूपी घोर-भयानक महासमुद्र ही है (अत्यन्तस्फुर-
दुग्ररश्मिनिकरव्याकीर्णभूमंडलः) अत्यन्त दैदीप्यमान तेज किरणों का समूह
समस्त भूमंडल में व्याप्त हो रहा है ऐसा (ग्रैष्मः) ग्रीष्मऋतुका (रविः) सूर्य
(इन्दुपादसलिलच्छायानुरागं कारयति) चन्द्रमाकी किरणों, जल और छायाके
अनुरागको कराता है ।

भावार्थ—जिसप्रकार गर्मीके दिनमें सूर्यसे संतप्त होकर यह जीव छाया
और जलसे अनुराग करता है, क्योंकि छाया और जल उस संतापको दूर करने
वाले हैं । इसीप्रकार आपके चरण कमल में संसारके दुःखोंको दूर करनेवाले हैं,
इसीलिये संसारके दुःखोंसे अत्यन्त दुःखी हुये प्राणी उन दुःखोंको दूर करनेके
लिये आपके चरण कमलोंकी शरण लेते हैं ।

नमस्कार करनेसे इसलोक सम्बन्धी फल—

क्रुद्धाशीविषदष्टदुर्जयविषज्वालावलीविक्रमो' ।

विद्यामेषजमंत्रतोयहवनैर्याति प्रशान्तिं यथा ॥

तद्वत्ते चरणारुणांबुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणाम् ।

विघ्नाः कायविनायकाश्च^२ सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः ॥२॥

अन्वयार्थः— (क्रुद्धाशीविषदष्टदुर्जयविषज्वालावलीविक्रमः) क्रोधित हुये सर्पके काट लेनेसे जो असह्यविष समस्त शरीरमें फैल जाता है वह (यथा) जैसे (विद्यामेषजमंत्रतोयहवनैः) गारुडी मुद्रामें दिखाने या उसके पाठ करने रूप विद्यासे, विषको नाश करनेवाली औषधियोंको देनेसे, मंत्रसे, जलसे और होम करने आदिसे (प्रशान्तिं याति) शातिको प्राप्त हो जाता है (तद्वत्) उसी प्रकार 'हे भगवन्' (ते चरणारुणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां) आपके दोनों चरणरूपी अरुणालाल कमलोंका स्तोत्र करनेवाले मनुष्योंके (विघ्नाः) समस्त विघ्न (च) और (कायविनायकाः) शरीर सम्बन्धी समस्त रोग (सहसा) शीघ्र ही (शाम्यन्ति) शातिको प्राप्त हो जाते हैं—नष्ट हो जाते हैं (अहो विस्मयः) यह एक महा आश्चर्यकी बात है ।

भावार्थ -- विघ्नको दूर करनेके लिये बहुतसा परिश्रम करना पड़ता है परंतु रोग और विघ्न आदि केवल आपकी स्तुति करने मात्रसे दूर हो जाते हैं । यही सजसे अधिक आश्चर्यकी बात है ।

प्रणाम करनेका फल--

संतप्तोत्तमकांचनक्षितिधरश्रीस्यद्धिगौरद्युते ।

पुंसां त्वच्चरणप्रणामकरणात्पीडाः प्रयांति क्षयं ॥

उद्यद्भास्करविस्फुरत्करशतव्याघातनिष्कासिता ।

नानादेहिविलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः— (यथा) जिसप्रकार (नानादेहिविलोचनद्युतिहरा शर्वरी)

१-आशीः सर्पदंष्ट्रा आश्या विषं यस्य अशौ आशीविषयः, क्रुद्धश्चाशौ आशीविषश्च तेन दृष्टं भक्षिते दुर्जयश्चाशौ विषज्वालानलीविक्रमश्च । विक्रमः प्रसरः सामर्थ्यं वा ।
२-कायविनायकाश्च—काय विशेषेण नयति अपनयतीति कायविनायकाः रोगाः ।

अनेक प्रकारके प्राणियोंके नेत्रोंके प्रकाशको रोकनेवाली रात्रि—अंधकारमय रात्रि (उद्यद्भास्करविस्फुरत्करशतव्याघातनिष्कासिता) उदय होते हुये सूर्यकी दैदीप्यमान सैकड़ों किरणोंके आघातसे मानों निकाल दी गई है इसप्रकार (शीघ्रं) शीघ्र (क्षयं 'प्रयाति') नष्ट हो जाती है ('तथा') उसीप्रकार (संतप्तोत्तमकांचनक्षितिधरश्रीस्पद्धिगौरद्युते 'भगवन्') आपके शरीरकी कांति तपाये हुये उत्तम सोनेके समान मेरु पर्वतकी शोभाकी रूपद्धा करनेवाली है या तपाये हुये उत्तम सोनेके समान और मेरु पर्वतके समान आपके शरीरकी कांति अत्यन्त दैदीप्यमान है ऐसी अनुपम शोभाको धारण करनेवाले हे भगवन् (त्वच्चरणप्रणामकरणात्) आपके चरण कमलों को नमस्कार करनेसे (पुंसां) मनु यों की (पीडाः) पीड़ाएं-दुःख 'क्षणात्' क्षणभरमें (क्षयं प्रयान्ति) नाशको प्राप्त हो जाती हैं ।

स्तुति ही मोक्षपदकी कारण है—

त्रैलोक्येश्वरभंगलब्धविजयादत्यन्तरौद्रात्मकात् ।
 नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः ॥
 को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानला-
 न्न स्याच्चेत्तव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—(पुरतः नानाजन्मशतान्तरेषु) पहले अनेक प्रकारके सैकड़ों जन्मोंमें (त्रैलोक्येश्वरभंगलब्धविजयात्) तीन लोकके ईश्वर धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदिके विनाश से प्राप्त हुये विजयके कारण (अत्यन्तरौद्रात्मकात्) अत्यन्त रौद्र-क्रूर अवस्थाको प्राप्त हुये (कालोग्रदावानलात्) इस कालरूपी उग्रदावानलके पाससे (संसारिणः जीवस्य) इस संसारी जीवका (चेत् तव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणं न स्यात्) जो आपके चरणकमलयुगलकी स्तुति रूपी नदी निवारण करनेवाली नहीं होती तो (इह) इस संसार से (को वा केनविधिना प्रस्खलति) कौन किस प्रकारसे उद्धार करता ?

भावार्थ— इस संसारमें जीवोंको जन्म मरण करना ही पड़ता है । एक आपके चरणकमलोंकी स्तुति ही ऐसी है जो इन जीवोंको जन्म मरण से बचा सकती है और अजर अमर पद अर्थात् मोक्षपद दे सकती है ।

स्तुति करनेसे असाध्यरोगोंका भी नाश—
 लोकालोकनिरंतरप्रविततज्ञानैकमूर्ते विभो !
 नानारत्नपिनद्धदंडरुचिरश्वेतातपत्रत्रय ॥
 त्वत्पादद्वयपूतगीतखतः शीघ्रं द्रवन्त्यामया ।
 दर्पाध्मातमृगेन्द्रभीमनिनदाद्वन्या यथा कुंजराः ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः— (विभो) हे प्रभो ! (लोकालोकनिरंतरप्रविततज्ञानैकमूर्ते)
 लोक-अलोकमें सर्वत्र फैले हुये ज्ञान रूपी अद्वितीय मूर्तिको धारण करनेवाले
 तथा (नानारत्नपिनद्धदंडरुचिरश्वेतातपत्रत्रय) नानाप्रकारके वेष्टित-जड़े हुये
 मनोहर दंडसे युक्त सफेद तीन छत्रको सिरपर धारण करनेवाले हे भगवन् !
 (त्वत्पादद्वयपूतगीतरवतः) आपके दोनो चरण कमलोंकी स्तुतिमें गाये हुये
 पवित्र गीतोंके शब्दोंसे—आपके चरण कमलोंकी स्तुति करने से (आमया ;)
 समस्त रोग (शीघ्रं) शीघ्र (द्रवन्ति) नष्ट हो जाते हैं (यथा) जैसे (दर्पा-
 ध्मातमृगेन्द्रभीमनिनदात्) गर्वसे उद्धत हुये सिंहकी गर्जनाके भयंकर शब्दों
 को सुनकर (वन्याः) जंगलके (कुंजराः) बड़े बड़े हाथी भाग जाते हैं ।

भावार्थ— जिसप्रकार सिंहकी गर्जनाको सुनते ही हाथी भाग जाते हैं
 उसीप्रकार भगवान् शक्तिनाथकी स्तुति करने मात्रसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं ।

स्तुतिसे मोक्षके अनंत सुखकी प्राप्ति—

दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुलश्रीमेरुचूडामणे ।
 भास्वद्वालदिवाकरद्युतिह रप्राणीष्टभामंडल ॥
 अव्यावाधमचिन्त्यसारमतुलं^१ त्यक्तोपमं^२ शाश्वतं^३ ।
 सौख्यं त्वच्चरणारविंदयुगलस्तुत्यैव संप्राप्यते ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः— (दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुलश्रीमेरुचूडामणे) हे देवागनाओ
 के नेत्रोंके लिये भी अत्यन्त सुन्दर ! महाविभूतिको धारण करनेवाले मेरु पर्वत
 की चूडामणिके समान ! (भास्वद्वालदिवाकरद्युतिहर) दैदीप्यमान उदय होते
 हुये सूर्यकी कांतिका भी हरण करनेवाले ! (प्राणीष्टभामंडल) हे प्राणियों के

१-अतुलं न बिद्यते तुला द्यत्तावधारण यस्य

२-त्यक्तोपमं अनुपमं ३-शाश्वतं नित्यं

जनाभिदाघे ग्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥ ७ ॥ हृद्धतिनि त्वयि
विभो शिथिलीभवन्ति जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्मबन्धा । सद्यो
भुजङ्गममया इव मध्यभागमभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥ ८ ॥
मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रोद्रेरुपद्रवशतैस्त्ववि र्वक्षितेऽपि ।
गोवामिनी स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे चौरै र्वाशु पशवः प्रपलायमानैः ॥ ९ ॥
त्वं तारको जिन कथं भविनां त एव त्वामुद्ध्रंति हृदयेन यदुत्तरन्तः । यद्वा
द्वतिस्तरति यज्जलमेष नूनमन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः ॥ १० ॥
यस्मिन्हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः सोऽपि त्वाया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन ।
विध्यत्पिता हुतभुजः पयसाथ येन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन
॥ ११ ॥ स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नस्त्वां जन्तवः कथमहो हृदये
दधानाः । जन्मोदधिं लघु तरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि
वा प्रभावः ॥ १२ ॥ क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तस्तदा
वद कथं किल कर्मचौराः । प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नील-
द्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानी ॥ १३ ॥ त्वां योगिनो जिन सदा
परमात्मरूपमन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोषदेशे । पूतस्य निर्मलरुचेर्यद वा किम-
न्यदक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकायाः ॥ १४ ॥ ध्यानाञ्जिनेश भवतो
भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति । तीव्रानलादुपलभावमपास्य
लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥ १५ ॥ अन्तः सदैव जिन यस्य
विभाव्यसे त्वं भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् । एतत्स्वरूपमथ मध्य-
विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥ १६ ॥ आत्मा मनीषि-
भिरयं त्वदभेदबुद्ध्या ध्यातौ जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः । पानीयमप्य-
मृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नाप नो विषविकारमपाकरोति ॥ १७ ॥ त्वा-
मेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः । किं
काचकामलिमिरीश सितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णधिपर्ययेण
॥ १८ ॥ धर्मोपदेशसमये सविधानुभावादास्तां जनो भवति ते तरुरप्य-
शोकः । अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न
जीवलोकः ॥ १९ ॥ चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विष्वक्पतत्यविरला

शान्तिं शान्तिजिनेन्द्र शान्तमनसरत्वत्पादपद्माश्रयात् ।

संप्राप्ताः पृथिवीतलेषु बहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः ॥

कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु ।

त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—(शान्तिजिनेन्द्र) हे शान्तिजिनेन्द्र ! (पृथिवीतलेषु) इस समस्त पृथिवी मंडलपर (बहवः) अनेक (शान्त्यर्थिनः प्राणिनः) शान्तिकी इच्छा करनेवाले—परम कल्याण रूप शान्ति चाहनेवाले—संसारको नाश करने रूप शान्ति चाहनेवाले प्राणी (शान्तमनसः) शान्त मनसे (त्वत्पादपद्माश्रयात्) मात्र आपके चरण कमलोंका आश्रय लेनेसे ही (शान्तिप्राप्ताः) मोक्षरूप परम शान्तिको प्राप्त कर चुके (विभो) हे प्रभो ! (त्वत्पादद्वयदैवतस्य) आपके दोनों चरणकमलोको ही परमदेव मानने वाले (भक्तितः) बड़ी भक्तिसे (शान्त्यष्टक) शान्त्यष्टकका (गदतः) पाठ करनेवाले (मम भाक्तिकस्य च) मुझ भक्तपर भी (कारुण्यात्) दया करके (प्रसन्ना दृष्टिं) प्रसन्न दृष्टि कुरु ।

भावार्थ—मुझे भी मोक्षरूप परमशांति दीजिये, हे प्रभो ! मेरी दृष्टिको-सम्यग्दर्शनको अत्यन्त निर्मल बना दीजिये जिससे मुझे वह परम शांति स्वयं प्राप्त हो जाय ।

शान्तिजिनं शशिनिर्मलवक्त्रं, शीलगुणव्रतसंयमपात्रम् ।

अष्टशतार्चितलक्षणगात्रं, नौमि जिनोत्तमअंबुजनेत्रम् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः—(शशिनिर्मलवक्त्रं) जिनका मुख पूर्णचन्द्रमाके समान अत्यन्त निर्मल है (शीलगुणव्रतसंयमपात्रं) जो शील, गुण, व्रत और संयमके अद्वितीय पात्र हैं (अष्टशतार्चितलक्षणगात्रं) जिनका शरीर एक सौ आठ शुभ लक्षणोंसे सुशोभित है (अंबुजनेत्रं) जिनके नेत्र कमलके समान सुशोभित हैं (जिनोत्तम) जो गणधरादिक देवोंसे भी उत्तम हैं—परमोत्कृष्ट हैं ऐसे (शान्तिजिनं) भगवान् शान्तिनाथको (नौमि) मैं नमस्कार करता हूँ ।

पञ्चमभीप्सितचक्रधराणां, पूजितमिन्द्रनरेन्द्रगणेश्व ।

शान्तिकरं गणशांतिमभीप्सुः षोडशतीर्थकरं प्रणमामि ॥ १० ॥

[१७६]

अच्छी [जितनी जरूरत हो उतनी] वर्षा करें (व्याधयः नार्शं यान्तु) रोग सब नष्ट हो जाय (जीवलोके) संसारमें (जगता) संसारी जीवोंको (क्षण अपि) क्षणभर के लिये भी (दुर्मिदं चौरमारिः मास्मभून) दुष्काल, चौर और मारी अर्थात् ह्येग आदि मारक रोग या शस्त्रादिक से होनेवाला अपघात कर्मा न हो तथा (सर्वसौख्यप्रदायि) जो सब जीवोंको सुख देनेवाला है ऐसा (जैनेन्द्र धर्मचक्रं) जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ उत्तम क्षमादि धर्मोंका समूह (सतत) विना किसी रुकावटके-सदा (प्रभवतु) प्रवृत्त होता रहे ।

इसके बाद कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

आलोचना--इच्छामि भंते शांतिभक्तिकाउत्सर्गो कओ तस्सालो-
चेउं । पञ्चमहाकल्याणसंपरणं, अष्टमहापाण्डिहेरसहियाणं, चउतीसाति-
सयविसेससंजुत्ताणं, वत्तीसदेवेदमणिमयमउडमत्थयमहियाणं, बलदेववासु-
देवचक्रहररिसिमुण्णिजदिअणगारावेगूढायां, शुडसयसहस्सणिलयाणं, उस-
हाइवीरपच्छिममंगलमहापुरिसाणं णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमं-
सामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरणं
जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ॥

अर्थ—हे भगवन् ! मैं शांतिभक्ति कर कायोत्सर्ग करता हूँ । इसमें जो दोष लगे हो उनकी आलोचना करनेकी इच्छा करता हूँ । जो गर्भ, जन्म आदि पांचों कल्याणोंसे सुशोभित हैं, जो आठ महा प्रातिहार्यों सहित विराजमान हैं, जो ३४ विशेष अतिशय से सुशोभित हैं, जो वत्तीस देवेंद्रोंके रत्नमय मुकुटोंसे सुशोभित मस्तकोंसे नमस्कार किये जाते हैं-पूजे जाते हैं, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, अनगर जिनकी सदा सेवा करते रहते हैं और जो लाखों स्तुतियोंके पात्र हैं ऐसे श्री वृषभदेवसे लेकर महावीर पर्यंत चौबीस महा-पुरुषोंकी-तीर्थकर परमदेवोंकी मैं सदा अर्चा करता हूँ, वंदना करता हूँ, और नमस्कार करता हूँ । मेरे दुःखोंका क्षय हो और कर्मोंका क्षय हो । मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गतिकी प्राप्ति हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो और भगवान् जिनेन्द्रदेवके समस्त गुणों की प्राप्ति हो ।

इति शांतिभक्तिः ।

अथ क्षेपकश्लोकानि ।

शांतिः शिरोधृतजिनेश्वरशासनानां । शांतिर्निरन्तरतपोऽभवभाविता-
नाम् ॥ शांतिः कषायजयजृम्भितवैभवानां, शांतिः स्वभावमहिमानमुपाग-
तानाम् ॥ १ ॥ जीवन्तु संयमसुधारसपानतृप्ताः, नदन्तु शुद्धसहसोदयसु-
प्रन्नाः सिद्धयन्तु सिद्धिसुखसंगकृताभियोगाः, तीव्रतपन्तु जगतां त्रितयेऽ-
र्हदाज्ञाः ॥ २ ॥ शांतिःशं तनुतां समस्तजगतः संगच्छतां धार्मिकैः, श्रेयः
श्रीः परिवर्धतां नयधराधुर्यो धरित्रीपतिः ॥ सद्विद्यारसमुद्गिरन्तु कवयो
नामाप्यघस्यास्तु मा । प्रार्थ्यं वा कियदेक एव शिवकृद्भूमो जयत्वर्हताम् ॥३॥

समाधिभक्तिः

स्वात्माभिमुखसंविद्धि लक्षणं श्रुतचक्षुषा

पश्यन्पश्यामि देव त्वां केवलज्ञानचक्षुषा ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—(देव) हे भगवन् ! (स्वात्माभिमुखसंविद्धिलक्षणं) अपने
आत्माके स्वरूपमें तल्लीन होनेवाला ज्ञान ही आपको नक्षण है अर्थात् आपका
स्वरूप केवलज्ञानमय है ऐसे (त्वा) आपको (श्रुतचक्षुषा पश्यन्) श्रुतज्ञान-
रूपी नेत्रसे देखता हुआ मैं (केवलज्ञानचक्षुषा पश्यामि) केवलज्ञानरूपी नेत्र
से देख रहा हूँ ।

भावार्थ—जो भव्य जीव श्रुतज्ञानसे आगमके अनुसार आपकी आराधना
करता है उसको केवलज्ञानकी प्राप्ति अवश्य होती है । जो श्रुतज्ञानसे आपको
देखता है वह केवलज्ञानसे भी अवश्य देखता है ।

शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदार्यैः ।

सद्बृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम् ॥

सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे ।

संपद्यतां मम भवभवे यावदेतेऽपवर्गः ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—(यावदेतेऽपवर्गः) जबतक मुझे मोक्षकी प्राप्ति हो तबतक
(शास्त्राभ्यासः) भगवान् जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शास्त्रोंका अभ्यास सदा बना

श्रियं दातुं समर्था) कृतकृत्य जीवोंको—भव्य जीवोंको मोक्षरूपी लक्ष्मी देने के लिये समर्थ है ।

पञ्चअरिंजय पञ्चय मदि सायरे जिणे वंदे ।

पञ्च जसोयरणामे पञ्चय सीमंदरे वंदे ॥ ९ ॥

रयणत्तयं च वंदे चव्वीसजिणे च सब्बदा वंदे ।

पञ्चगुरुणं वंदे चारणचरणं सदा वंदे ॥ १० ॥

अर्थ—ढाई द्वीपमें होनेवाले पञ्चपरमेष्ठीको मैं वंदना करता हूँ लवणसमुद्र और कालोदधि समुद्रमें होनेवाले पांच परमेष्ठियोंको मैं वंदना करता हूँ, लोकोत्तर यशको धारण करनेवाले पंच परमेष्ठीको मैं वंदना करता हूँ और मेरुपर होनेवाले पंच परमेष्ठीको मैं नमस्कार करता हूँ ।

मैं रत्नत्रयको वंदना करता हूँ, चौबीस तीर्थकरोंको सदा वंदना करता हूँ, पांच परमेष्ठीको वंदना करता हूँ और चारण ऋद्धिधारी साधुओंको निरन्तर वंदना करता हूँ ।

अहमित्यक्षरब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनः ।

सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदध्महे ॥ ११ ॥

कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम् ।

सम्बक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—(अहं इति अक्षरब्रह्मवाचक परमेष्ठिनः 'वाचकं') 'अहं' यह अक्षर—शब्द परमब्रह्मका वाचक है, पंच परमेष्ठीका वाचक है (सिद्धचक्रस्य सद्बीजं) सिद्धचक्रका सर्वोत्तम बीज मंत्र है—सिद्धचक्रमंत्रका बीजभूत है (सर्वतः प्रणिदध्महे) इसलिये मैं उसको सदा नमस्कार करता हूँ—इसलिये मैं उस 'अहं' अक्षरको अपने हृदयमें सब ओर से धारण करता हूँ ।

(कर्माष्टकविनिर्मुक्तं) जो आठ कर्मोंसे रहित हैं (मोक्षलक्ष्मीनिकेतन) मोक्षरूपी लक्ष्मीके स्थान हैं (सम्बक्त्वादिगुणोपेत) सम्बक्त्वादिक गुणों से सुशोभित हैं ऐसे (सिद्धचक्रं अहं नमामि) सिद्धचक्रको—समक्षन सिद्धसमूहको मैं नमस्कार करता हूँ ।

आकृष्टिं सुरसंपदां विदधते भुक्तिधियो वश्यताम् ।

उच्चाटंविपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मैनसाम् ॥

स्तम्भं दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनम् ।

पायात्पंचनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः— (पंचनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता—पायात्) पंचनमस्कार मंत्रके अक्षरोसे बना हुआ नमस्कार मंत्र आराधन करने योग्य देवता-देव है, वह मेरी रक्षा करो । इस देवताके आराधन करनेसे—पंचनमस्कार मंत्रका जप करनेसे (सुरसंपदां आकृष्टिं विदधते) स्वर्गकी संपदाका आकर्षण होता है (मुक्तिश्रियः वरयतां) मोक्षरूपी लक्ष्मी वश हो जाती है (चतुर्गतिभुवां विपदां उच्चाटं) चारों गतियोंमें होनेवाली विपदाओंका उच्चाटन हो जाना है (आत्मैनसां विद्वेषं) आत्माके द्वारा होनेवाले पापोंसे विद्वेष हो जाता है (दुर्गमनं स्तम्भं) दुर्गतियोंका स्तंभन होता है (प्रति प्रयततः मोहस्य सम्मोहनं) इस देवताका आराधन करनेवाले पुरुषका मोह स्वयं मूर्च्छित हो जाता है—इस मंत्रके प्रति प्रयत्न करनेवाले पुरुषके मोह का सम्मूर्च्छन हो जाता है

अनन्तानन्तसंसारसंततिच्छेदकारणम् ।

जिनराजपदाम्भोजस्मरणं शरणं मम ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः— (जिनराजपदाम्भोजस्मरणं) भगवान् जिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंका स्मरण करना (अनन्तानन्तसंसारसंततिच्छेदकारणं) अनन्तानन्त संसार परम्पराके नाश करनेका कारण है इसीलिये (मम शरणं) मैं भगवान्के उन चरण कमलोंकी शरण लेता हूँ—वे भगवान्के चरण कमल मुझे शरणरूप हैं ।

अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ।

तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः— (अन्यथा शरणं नास्ति) हे प्रभो ! इस संसारमें आपके सिवाय और कोई मेरी शरण—रक्षा करनेवाला नहीं है (त्वमेव मम शरणं) यही समझकर मैंने आपकी शरण ली है—तू ही मुझे शरणरूप है (तस्मात् जिनेश्वर कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष) अतएव हे जिनेश्वर भगवान् ! करुणाभावसे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो—संसारके दुःखोंसे मुझे बचाइये ।

नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये ।

वीवरागात्परो देवो न भूतो न भविष्यति ॥ १६ ॥

[१८७]

अन्वयार्थः— (जगत्त्रये नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता) हे प्रभो ! इन तीनों लोकोंमें तुम्हारे सिवाय कोई रक्षा करनेवाला वास्तवमें नहीं है, नहीं है, नहीं है (वीतरागात्परः देवः न भूतः न भविष्यति) और वीतराग परमदेवके सिवाय कोई देव न तो हुआ और न होगा ।

जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने ।

सदामेऽस्तु सदामेऽस्तु सदामेऽस्तु भवे भवे ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः— (दिनेदिने जिनेभक्तिः जिनेभक्तिः जिनेभक्तिः) हे भगवन् ! प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवानमें मेरी भक्ति रहे, रहे, रहे (भवे भवे सदा मे अस्तु मे अस्तु मे अस्तु) तथा वही भक्ति भव भव में सदा मुझे प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो ।

याचेहं याचेहं जिन तव चरणारविंदयोर्भक्तिम् ।

याचेहं याचेहं पुनरपि तामेव तामेव ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः— (जिन) हे जिनेन्द्र भगवन् (तव चरणारविंदयोः भक्तिम् अह याचे अहं याचे) आपके दोनों चरणकमलोंकी भक्तिकी मैं याचना करता हूँ—मैं याचना करता हूँ (पुनः अपि) फिर भी (तां एव ता एव) उसी आपके चरण कमलोंकी भक्तिकी (अह याचे अहं याचे) मैं याचना करता हूँ, मैं याचना करता हूँ ।

इसके अनंतर कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

आलोचना—

इच्छामि भंते समाहिभक्तिकाउरसग्गो कओ तस्सालोचउं । रयणचय-परुवपरमप्पज्झाणलक्खणं समाहिभत्तीये णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि णममामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहि-मरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ॥

हे भगवन् ! मैं समाधिभक्ति कर कायोत्सर्ग करता हूँ तथा उसमें जो दोष लगे हो उनकी आलोचना करना चाहता हूँ । इस समाधिभक्तिमें रत्नत्रय को निरूपण करनेवाले शुद्ध परमात्माके ध्यानस्वरूप शुद्ध आत्माकी सदा अर्चा

करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ और नमस्कार करता हूँ । मेरे दुःखों का नाश हो, कर्मोंका नाश हो । मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो और भगवान् जिनेन्द्रदेवके समस्त गुणोंकी प्राप्ति हो ।
इति समाधिभक्तिः ॥

निर्वाणभक्तिः

- आर्या छंदः-

विबुधपतिखगपनरपतिधनदोरगभूतयक्षपतिमहितम् ।
अतुलसुखविमलनिरुपमशिवमचलमनामयं संप्राप्तम् ॥ १ ॥
कल्याणैः संस्तोष्ये पञ्चभिरनद्यं त्रिलोकपरमगुरुम् ।
भव्यजनतुष्टिजननैर्दुरवापैः सन्मतिं भक्त्या ॥ २ ॥

अन्वयार्थः— (विबुधपति^१ खगप^२ नरपति^३ धनदो^४ रग^५ भूतयक्षपतिमहितं) देवेन्द्र, विद्याधरोके राजा, चक्रवर्ती, कुबेर, धरणेन्द्र, चमरेन्द्र और यक्षेन्द्रसे पूज्य (अतुल^६ सुखविमल^७ निरुपमशिवं, अचल, ^८ अनामयं^९ संप्राप्तं) अतुल-उपमारहित सुखरूप, निर्मल, उपमारहित, मोक्षस्वरूप, निश्चल और रोगरहित अवस्थाको प्राप्त (अनद्यं^{१०}) निष्पाप (त्रिलोकपरमगुरु) तीन लोकके परम गुरु ऐसे (सन्मतिं^{११}) महावीर स्वामीकी (भक्त्या) भक्तिपूर्वक (भव्यजनतुष्टि जननैः^{१२}) भव्यजीवोंको संतुष्ट करनेवाले (दुरवापैः^{१३}) अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होनेवाले (पचभिः^{१४} कल्याणैः) पाच कल्याणकों के द्वारा (संस्तोष्ये) स्तुति करता हूँ ।

१-विबुधा देवाः तेषा पतयः इन्द्राः ।

२-रवे-आकाशे गच्छन्ति इति खगाः-विद्याधराः, तान्पाति-रक्षति इति खगणः-विद्याधरचक्रवर्तिनः ।

३-नरपतयः-चक्रवर्तिनः ।

४-कुबेराः ५-धरणेन्द्राः ६ अतुल-अनुपम सुखं यत्र तत् । ७-विमलं विनष्टकर्ममलं ८-अचल-ई-नाधिकसुखादिस्वरूपरहितं । ९-न विद्यते आमयो-व्याधिर्यत्र ।

१०-अनद्य-निःपापं । ११-सन्मति-अन्तिमतीर्थंकरदेवं १२-भव्यजनसतोषकरैः । १३-महता कष्टेन प्राप्यैः । १४-गर्भावतारङ्गमाभिषेकनिःक्रमणज्ञानमोक्षलक्षणैः ।

गर्भकल्याणक-वर्णन-

आषाढसुसितषष्ठ्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रितेशशिनि ।
 आयातः स्वर्गसुखं भुक्त्वा पुष्पोत्तराधीशः ॥ ३ ॥
 सिद्धार्थनृपतितनयो भारतवास्ये विदेहकुण्डपुरे ।
 देव्यां प्रियकारिण्यां सुखमान्संप्रदश्य विभुः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—(पुष्पोत्तराधीशः) सोलहवें स्वर्गमें स्थित पुष्पोत्तर विमान का स्वामी (श्री महावीर स्वामीका जीव) वहां पर (स्वर्ग सुखं भुक्त्वा) स्वर्ग सुखोको भोगकर (भारतवास्ये) जम्बूद्वीपके इस भारतक्षेत्रमें स्थित (विदेह-कुण्डपुरे) विदेहदेशके (विहारके) अंतर्गत कुण्डपुर (कुण्डलपुर) नामके नगरमें (सुखमान्संप्रदश्य) रात्रिके पिछले प्रहरके समय सोलह स्वप्न दिखलाकर वह (विभुः) प्रभु (आषाढसुसितषष्ठ्या) आषाढ शुक्ला षष्ठीको (हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते शशिनि (हस्त और उत्तरा नक्षत्रके मध्यभागमें चंद्रमाके होते हुए (सिद्धार्थनृपतितनयः) सिद्धार्थ राजाके पुत्र होकर श्री महावीरस्वामी (प्रियकारिण्यां देव्यां आयातः) प्रियकारिणीत्रिशलादेवी रानीके गर्भमें आये ।

जन्मकल्याणक-वर्णन-

चैत्रसितपक्षफाल्गुनि शशांकयोगे दिने त्रयोदश्याम् ।
 जज्ञे स्वोच्चस्थेषु ग्रहेषु सौम्येषु शुभलग्ने ॥ ५ ॥
 हस्ताश्रिते शशांके चैत्रज्योत्स्ने चतुर्दशीदिवसे ।
 पूर्वाण्हे रत्नघटै विबुधेन्द्राश्चक्रुरभिषेकम् ॥ ६ ॥

• अन्वयार्थः—(चैत्रसितपक्षफाल्गुनि शशांकयोगे त्रयोदश्यां दिने) चैत्र-शुक्ला त्रयोदशीके दिन, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रके ऊपर चन्द्रमा होते हुए और (सौम्येषु ग्रहेषु स्वोच्चस्थेषु शुभलग्ने जज्ञे) समस्त सौम्यग्रह अपने उच्च स्थान पर रहते हुए शुभलग्नमें श्री भगवान् महावीरस्वामीका जन्म हुआ ।

(चैत्रज्योत्स्ने चतुर्दशीदिवसे) चैत्रशुक्ला चतुर्दशी के दिन (हस्ताश्रिते शशांके) हस्त नक्षत्रपर चन्द्रमाके होते हुये (पूर्वाण्हे) प्रातःकालमें (रत्नघटैः) रत्नोंके १००८ कलशों द्वारा (विबुधेन्द्राः) इन्द्रोंने (अभिषेकं) अभिषेक

(चक्रुः) किया ।

दीक्षा कल्याणकका वर्णन—

भुक्त्वा कुमारकाले त्रिंशद्वर्षाण्यनंतगुणराशिः ।
अमरोपनीतभोगान्सहसाभिनिबोधितोन्येद्युः ॥ ७ ॥
नानाविधरूपचितां विचित्रकूटोच्छ्रितां मणिविभूषाम् ।
चन्द्रप्रभाख्यशिविकामारुह्य पुराद्विनिःक्रान्तः ॥ ८ ॥
मार्गशिरकृष्णदशमीहस्तोत्तरमध्यमाश्रिते सोमे ।
षष्ठेन त्वपराह्णे भक्तेन जिनः प्रवव्राज ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः— (अनंतगुणराशिः) अनंतगुणोकी राशि ऐसे वे महावीर स्वामी (कुमारकाले त्रिंशद्वर्षाणि) कुमारकालके तीसवर्ष तक (अमरोपनीत-भोगान् भुक्त्वा) देवोंके द्वारा प्राप्त भोगोंको भोगकर (अन्येद्युः सहसा अभि-निबोधितः) तीसवर्षके अनंतर किसी एकदिन, एकदम, लौकांतिक देवोंके द्वारा प्रतिबोधित किये गये वे जिनराज—

(नानाविधरूपचिता) अनेकप्रकारसे सजाई गई (विचित्रकूटोच्छ्रितां) अनेक प्रकारके ऊंचे कंगूरेवाली (मणिविभूषां) मणियोंसे शोभायमान (चंद्र-प्रभाख्यशिविकां आरुह्य) ऐसी चन्द्रप्रभा नामकी पालकीमें बैठकर (पुरात्वि-निःक्रान्तः) नगरसे बाहर गये ।

(मार्गशिरकृष्णदशमीहस्तोत्तरमध्यमाश्रिते सोमे) मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के दिन, हस्त और उत्तरा नक्षत्रके मध्यमें चन्द्रमाके होनेपर सोमवारको (अप-राह्णे) शामके समय (षष्ठेन तु भक्तेन जिनः प्रवव्राज) बेला-दो उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर दिगम्बर दीक्षा धारण की ।

ज्ञान कल्याणक-वर्णन—

ग्रामपुरखेटकर्वटमटबघोषाकरान्प्रविजहार ।
उग्रस्तपोविधानैर्द्वादशवर्षाण्यमरपूज्यः ॥ १० ॥

१-सुमेरु पर्वतके पाहुकवनमें पाहुकशिलापर पूर्व दिशामे भगवान्का मुखकर क्षीरसागरसे हाथों हाथ जल लाकर अभिषेक किया था । कलशका परिमाण—८ योजन लम्बा, ४ योजन पेट-अन्दरकी गोलाई १ योजन मुख ।
सौधर्म और ईशान इन्द्र अभिषेक करते हैं । सनत्कुमार और महेन्द्र चमर ढोरते हैं ।

ऋजुकूलायास्तीरे शाल्मदुमसंश्रिते शिलापट्टे ।
 अपराण्हे षष्ठेनास्थितस्य खलु जृम्भिकाग्रामे ॥ ११ ॥
 वैसाखसितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्रे ।
 क्षपकश्रेण्यारूढस्योत्पन्नं केवलज्ञानम् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—(अमरपूज्यः) देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे भगवान् महावीरस्वामी ने(द्वादशवर्षाणि) बारहवर्ष पर्यंत (उग्रैः तपोविधानैः) घोर तपश्चरण करते हुये (ग्रामपुरखेटकर्कटमटंघोषाकरान्) गांव, ^१ नगर, ^२ खेट, ^३ कर्कट, ^४ मटंघ, ^५ घोष, ^६ आकार, ^७ आदि^८ स्थानोंमें प्रविजहार) विहार किया—तदनंतर (ऋजुकूलायाः तीरे) ऋजुकूला नदीके किनारे (जृम्भिकाग्रामे) जृम्भिका नामके गांव में (शाल्मदुमसंश्रिते शिलापट्टे) शालवृक्षोंसे घिरी हुई या शालवृक्षके नीचे एक शिलाके ऊपर (षष्ठेनास्थितस्य खलु) दो उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर खड़े हुए ।

(अपराण्हे) उसीदिन शामके समय (क्षपकश्रेण्यारूढस्य) क्षपकश्रेणी के ऊपर आरोहणकरके (वैसाखसितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्रे) वैसाख शुक्ला दशमीके दिन हस्त और उत्तरा नक्षत्रके मध्यमें चन्द्रमा रहते हुये (केवलज्ञानं उत्पन्न) केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ।

अथ भगवान् संप्रापद्दिव्यं वैभारपर्वतं रम्यम् ।
 चातुर्वर्ण्यसुसंघस्तत्राभूद्गौतमप्रभृति ॥ १३ ॥
 छत्राशोकौ घोषं सिंहासनदुंदुभी कुसुमवृष्टिम् ।
 वरचामरभामंडलदिव्यान्यन्यानि च वापत् ॥ १४ ॥

१-जिसके चारो ओर वाड हो—गांव ।

२-जिसके कोटमें चार दरवाजे हो—पुर—नगर ।

३-जो नदी और पर्वतके बीचमें हो—खेट ।

४-जिसके चारो ओर पर्वत हो—कर्कट ।

५-जिसमें ५०० गांव लगते हो—मटंघ ।

६-छोटी झोंपडीवाले स्थान—घोष ।

७-जिसमें खानि हो—आकार । (आकारो नवसारिकापत्रादिविशिष्टवस्तुत्पत्तिस्थानं)

८-आदिसे-पत्तन-जहा रत्न उत्पन्न हों ।

द्वीणमुख-समुद्रके किनारे ।

संवाहन-पर्वतके ऊपर ।

दशविधमनगाराणामेकादशधोत्तरं तथा धर्मम् ।

देशयमानो व्यहरस्त्रिंशद्दर्षण्यथ जिनेन्द्रः ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः— (अथ) तदनंतर (भगवान्) वे भगवान् (दिव्य रम्यं वैभारपर्वतं संप्रापत्) दिव्य और मनोहर वैभारपर्वत पर जा विराजमान हुये (तत्र गौतम प्रभृति चातुर्वर्ण्य^१सुसंघः^२ अभूत्) वहा पर गौतम गणधरको लेकर रत्नत्रयसे सुशोभित चारों प्रकारका संघ था ।

(छत्राशोकौ) भगवान्के समवशरणामें दिव्य छत्र, अशोकवृक्ष (घोष) दिव्यध्वनि सिंहासनदुंदुमी) सिंहासन, दुदुमि (कुसुमवृष्टि) पुष्पवृष्टि (वर-चामरभामंडलदिव्यानि) उत्तम ६४ चमर और भामंडल ये आठ प्रातिहार्य (च अन्यानि^३ अवापत्) और अनेक प्रकारकी विभूति थी । अनेक प्रकारके अति-शयोसे शोभायमान थे ।

(अथ जिनेन्द्रः) अनन्तर भगवानने (त्रिंशत्तुर्वर्षाणि व्यहरन्) तीस वर्ष तक विहार करते हुये (अनगाराणां^४ दशविधं^५ तथा उत्तरं^६ एकादशधा^७ धर्मं देशयमानः) मुनियोके उत्तममत्तमादि दश धर्मोंका तथा श्रावकोंकी ग्यारह प्रतिमाओं स्वरूप धर्मका उपदेश दिया ।

पद्मवनदीर्घिकाकुलविविधद्रुमखंडमंडिते रम्ये ।

पावानगरोद्याने व्युत्सर्गेण स्थितः मुनिः ॥ १६ ॥

कार्तिककृष्णस्यान्ते स्वातावृक्षे निहत्य कर्मरजः ।

अवशेषं संप्रापदव्यजरामरमक्षयं सौख्यम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः— (सः मुनिः) अंतमें वे भगवान् (पद्मवनदीर्घिकाकुलविवि-
धद्रुमखंडमंडिते) कमलोंके समूहसे शोभित ऐसे पानीके तालाबसे तथा अनेक

१-चातुर्वर्ण्यः ऋष्यार्यिकाश्रावकश्राविकालक्षणः सचासौ संघश्च ।

२-शोमनो रत्नत्रयोपेतः संघः समुदायः सुसंघः ।

३ गव्यूतिशतचतुष्टयसुभिन्नतागगनगमनादीनि ।

४-मुनीनाम् ।

५-दशविधमुत्तमत्तमादिदशप्रकारं ।

६-इतरं सागराणां धर्मम् ।

७-एकादशधा दर्शनव्रताद्येकादशप्रकारं ।

प्रकारके वृक्षोंके समूहसे सुशोभित (रम्ये) अत्यन्त मनोहर (पावानगरोधाने) पापापुरीके उद्यानमें (व्युत्सर्गेण स्थितः) कायोत्सर्ग से विराजमान हुये ।

वे मुनि (अवशेषं कर्मरजः निहत्य) बाकीके चार अघातिया कर्मोंका नाश करके (कार्तिककृष्णस्यान्ते) कार्तिक कृष्णा अमावस्याके दिन (स्वातावृक्षे) स्वाति नक्षत्रमें (व्यजरामरं) जरा-मरणसे रहित-अजर अमर (अक्षयं) अविनाशी (सौख्यं) सुखको (संप्रापत्) प्राप्त हुये—मोक्षमें चले गये ।

१परिनिर्वृतं जिनेद्रं ज्ञात्वा विबुधा ह्यथाशु^२ चागम्य ।

देवतरु^३रक्तचन्दनकालागुरुसुरभिगोशीर्षैः ॥ १८ ॥

अनीन्दाज्जिनदेहं मुकुटानलसुरभिधूपवरमाल्यैः ।

अभ्यर्च्य गणधरानपि गता दिव्यं खं च वनभवते ॥ १९ ॥

अन्वयार्थः— (अथ जिनेद्रं परिनिर्वृतं ज्ञात्वा) तदनंतर जिनेन्द्र भगवान् महावीरस्वामी मोक्ष पधारे ऐसा जानकर (विबुधाः) इन्द्रादिक देव (आशु च) शीघ्र ही (आगत्य) आकर (देवतरु^३रक्तचन्दनकालागुरुसुरभिगोशीर्षैः) देवदारु, रक्तचन्दन-लालचन्दन, कृष्णागुरु और सुगंधित गोशीर्ष नामके चन्दनसे (अग्नीन्द्रात्) अग्निकुमार देवोंके इन्द्रके (मुकुटानलसुरभिधूपवरमाल्यैः) मुकुटसे निकली हुई अग्निसे तथा सुगंधित धूप और उत्तम मालाओंसे (जिनदेहं) भगवान् के शरीरका अग्नि संस्कार करके (गणधरान् अपि अभ्यर्च्य) गणधरोकी पूजा करके (दिव^४ खं^५ च वनभवते^६ गताः) कल्पवासीदेव स्वर्गको, ज्योतिषीदेव आकाशमें स्थित विमानोंमें, व्यन्तर तथा भवनवासीदेव क्रमसे देवारण्य आदि वनको तथा पाताल लोकको चले गये ।

अठारहवें श्लोकमें 'आशु'^७ के स्थानमें 'शुचा' भी पाठ है । उसका अर्थ

१-परिनिर्वृत्ते रत्यपि पाठः ।

२-शुचा-शोकन इत्यपि पाठः ।

३-देवतरु-देवदारु ।

४-दिवं-स्वर्गं ।

५-खं-आकाशवर्तिनं स्वविमानं ।

६-देवारण्य, भूतारण्यं वनं ।

७-आशु-शीघ्रं ।

यह है कि भगवानके मोक्ष जानेपर देवोंको शोक हुआ। 'अब भगवान मोक्ष चले गये-अब उनके दर्शन नहीं होंगे' यही उनके लिये शोकका कारण था। ऐसा शोक करते हुये ही वे देव आये।

इत्येवं भगवति वर्धमानचन्द्रे

यः स्तोत्रं पठति सुसंध्योर्द्रयोर्हि ।

सोऽन्नन्तं परमसुखं नृदेवलोके

भुक्त्वान्ते शिवपदमक्षयं प्रयाति ॥ २० ॥

अन्वयार्थः— (इति एवं) इसप्रकार (यः) जो भव्यजीव (हि) निश्चय से (द्वयोः सुसंध्योः) दोनों सन्ध्याकालोंमें—प्रातः काल, सयंकाल (भगवति वर्धमानचन्द्रे) भगवान् वर्धमानस्वामी का (स्तोत्रं पठति) स्तोत्र पढ़ता है (सः) वह (नृदेवलोके) मनुष्यलोक और देवलोकके (परमसुखं भुक्त्वा) उत्कृष्ट सुखोंको भोगकर (अते) अन्तमें (अन्नन्त अक्षय शिवपदं प्रयाति) अन्नन्तरूप, कभी भी नाश नहीं होनेवाले मोक्षपदको प्राप्त करता है।

यत्रार्हतां गणभृतां श्रुतपारगाणां,

निर्वाणभूमिरिह भारतवर्षजानाम् ।

नामद्य शुद्धमनसा क्रियया वचोभिः,

संस्तोतुमुद्यतमतिः परिणौमि भक्त्या ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः— (इह) इस जम्बूद्वीपके (भारत^१वर्षजानां) भरतक्षेत्र में उत्पन्न हुये (अर्हतां^२) अर्हत—२४ तीर्थकरोकी (श्रुतपारगाणां^३ गणभृता^४) श्रुतज्ञानमें पारंगत ऐसे गणधरदेवों की अथवा गणधरदेव और श्रुतकेवली आदि मुनियोंकी (यत्र) जहा जहां (निर्वाणभूमिः) निर्वाणभूमि है (तां) उन सबकी (अद्य) आज (संस्तोतुं उद्यतमतिः) स्तुति करनेके लिये उद्यत हुआ मैं (शुद्धमनसा क्रियया वचोभिः भक्त्या परिणौमि^५) शुद्ध मनसे, शरीरकी क्रिया

१-भरतस्येदं भारतं तच्च तद्वर्षं च क्षेत्रं च तत्र जाताना ।

२-चतुर्विंशत्तीर्थकराणाम् ।

३-श्रुतस्य द्वादशागादेः पारं पर्यंतं गतवता ।

४-गणधरदेवाना ।

५-परि-समतान्नौति ।

से शुद्ध वचनसे भक्ति पूर्वक जमस्कार करता हूँ ।

कैलाशशैलशिखरे परिनिर्वृतोऽसौ ।

शैलेशिभावमुपपद्य वृषो महात्मा ॥

चंपापुरे च वसुपूज्यसुतः सुधीमान् ।

सिद्धिं परामुपगतो गतरागबंधः ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः— (असौ महात्मा वृषः) वे महात्मा वृषभदेव (शैलेशि-
भावं^१) अठारह हजार शीलोके मेदोके स्वामित्वको (उपपद्य) प्राप्त होकर
(कैलाशशैलशिखरे परिनिर्वृतः) कैलाश पर्वतके शिखरपरसे मोक्ष पधारे (च)
तथा (गतरागबंधः) रागबंधसे रहित (सुधीमान्^२) बुद्धिमान् (वसुपूज्यसुतः)
वसुपूज्य राजाके पुत्र ऐसे वासुपूज्य जिनराज (चम्पापुरे) चम्पापुरसे (परां^३
सिद्धिं^४ उपगतः^५) उत्कृष्ट सिद्धिको प्राप्त हुये—मोक्ष पधारे ।

यत्प्रार्थ्यते शिवमयं विबुधेश्वराद्यैः ।

पाखंडिभिश्च परमार्थगवेषशीलैः ॥

नष्टाष्टकर्मसमये तदरिष्टनेमिः ।

संप्राप्तवान् क्षितिधरे बृहदूर्जयन्ते ॥ २३ ॥

अन्वयार्थः— (यत् अयं शिवः) जिस मोक्षकी (विबुधेश्वराद्यैः) इन्द्रा-
दिकदेव (च) और (परमार्थगवेषशीलैः) परमार्थको खोजनेवाले (पाखंडिभिः)
पाखंडी लोग भी (प्रार्थ्यते) प्रार्थना—इच्छा करते हैं (तत्) उस मोक्षको
(अरिष्टनेमिः) श्री अरिष्टनेमि भगवान् २२ वें तीर्थकरने (नष्टाष्टकर्मसमये)
आठों कर्मोंको नाश करनेके समयमें ही (बृहत् ऊर्जयन्ते क्षितिधरे) महा ऊर्ज-
यन्त पर्वतसे—गिरनारसे (संप्राप्तवान्) प्राप्त किया ।

पावापुरस्य बहिरुन्नतभूमिदेशे ।

यद्मोत्पलाकुलवतां सरसां हि मध्ये ॥

श्रीवर्द्धमानजिनदेव इति प्रतीतो ।

निर्वाणमाप भगवान्प्रविधूतपाप्मा ॥ २४ ॥

१-शीलानां समूहः शीलं तस्येशिभावं प्रमुत्त्वं

२-शोभना धीः केवलज्ञानं तद्वान् ।

३-सकलकर्मविप्रमोक्षलक्षणं । ४-मुक्ति । ५-प्राप्तः ।

अन्वयार्थः—(पावापुरस्य वहिः) पावापुर नगरके बाहर (पद्मोपलाकुलवतां^१ सरसां हि मध्ये) चन्द्रविकासी और सूर्यविकासी कमलोंसे भरे हुए तालाब के मध्यमें (उन्नतभूमिदेशे) ऊंचे टीले परसे (प्रविधूतपाप्मा) समस्त पापों के नाश करनेवाले (भगवान्) भगवान् (श्रीवर्द्धमानजिनदेव इति प्रतीतः) श्री वर्द्धमानस्वामी जिनदेव नाम से प्रसिद्ध (निर्वाण आप^२) निर्वाणको प्राप्त हुये ।

शेषास्तु ते जिनवरा जितमोहमल्ला ।

ज्ञानार्कभूरिकिरणैरवभास्य लोकान् ॥

स्थानं परं निरवधारितसौख्यनिष्ठं ।

सम्मोदपर्वततले समवापुरीशाः ॥ २५ ॥

अन्वयार्थः—(जितमोहमल्लाः) मोहरूपी मल्लको जीतनेवाले (शेषाः तु ते जिनवराः) ऐसे बाकीके वे बीस तीर्थकर जिनदेव (ज्ञानार्कभूरिकिरणैः) केवलज्ञान रूपी सूर्यकी अनेक किरणोंसे (लोकान् अवभास्य) तीनो लोकोंको प्रकाशित करते हुये (सम्मोदपर्वततले^३) सम्मोदशिखर पर्वतके ऊपरके भाग से (निरवधारित^४सौख्यनिष्ठं) जिसके सुखकी कोई सीमा नहीं है—अनन्तानंत सुखवाले (परं स्थानं) परम स्थान—मोक्ष स्थानको (ईशाः) वे प्रभु (समवापुः^५) प्राप्त हुये ।

आद्यश्चतुर्दशदिनैर्विनिवृत्तयोगः ।

पष्ठेन निष्ठितकृतिर्जिनवर्द्धमानः ॥

शेषाविभूतधनकर्मनिबद्धपाशाः ।

मासेन ते यतिवरास्त्वभवन्वियोगाः ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः—(आद्यः) पहले—आदिनाथ भगवानने (चतुर्दशदिनैः) आयुके १४ दिन बाकी रह जाने पर (विनिवृत्तयोगः^६) योगनिरोध किया

१-पद्मोत्पलाकुलवतां इति च क्वचित्पाठः ।

२-आप-प्राप्तवान् ।

३-सम्मोदपर्वतोपरितनभागे ।

४-निरवधारिता इत्यन्तावधारणाभिष्क्रांता सौख्यस्य निष्ठा परमप्रकर्षो यत्र ।

५-प्राप्तवन्तः ।

६-विनष्टद्रव्यमनोवाक्कायव्यापारः ।

(जिनवर्द्धमानः) श्री जिनेन्द्र वर्द्धमान स्वामीने (षष्ठेन^१) दो दिन बाकी रह जानेपर (निष्ठित^२कृतिः) योग निरोध किया (विधूतघनकर्मनिवद्धपाशाः) आठ कर्मोंकी पाश-जालको नष्ट करनेवाले (ते शेषाः यतिवराः तु) ऐसे उन बाकी तीर्थकरोंने (मासेन) एक मास आयु बाकी रहनेपर (वियोगाः^३ अभवन्) योगनिरोध किया ।

माल्यानि वाक्स्तुतिमयैः कुसुमैः सुदृब्धा-
न्यादाय मानसकरैरभितः किरंतः ।

पर्येम आदृतियुता भगवन्निषद्याः,

संप्रार्थिता वयनिमे परमां गतिं ताः ॥ २७ ॥

अन्वयार्थः—(वाक्स्तुतिमयैः कुसुमयैः सुदृब्धानि माल्यानि) वचनोक्ते द्वारा होनेवाली स्तुतिरूपी पुष्पोंसे गूंथी हुई मालाओंको (आदाय) लेकर (ताः भगवन्निषद्याः^४) भगवानकी निर्वाण भूमियोंके (अभितः^५) चारो ओर (मानसकरैः किरंतः^६) मनरूपी हाथोंसे उन मालाओंको चढाते हुये (आदृतियुताः इमे^७ वयं) आदरके साथ (पर्येम^८) उन निर्वाण भूमियोंकी परिक्रमा करते हैं और (परमां गतिं संप्रार्थिता) हमको परमगति—मोक्षगति प्राप्त हो-ऐसी प्रार्थना करते हैं ।

तीर्थकरोंकी निर्वाणभूमियोंके सिवाय अन्य मुनियोंकी निर्वाण भूमियोंकी स्तुति—

शत्रुञ्जये नगवरे दमितारिपक्षाः ।

पंडोः सुताः परमनिर्वृतिमभ्युपेताः ॥

तुंग्यां तु सङ्गरहितो बलभद्रनामा ।

नद्यास्तटे जिनरिपुश्च सुवर्णभद्रः ॥ २८ ॥

१-षष्ठेन—दिनद्वयेन परिसंख्याते आयुषि सति ।

२-निष्ठिता विनष्टा कृतिः द्रव्यमनोवाक्कायक्रिया यस्यासौ ।

३-वियोगा विगतद्रव्यमनोवाक्कायव्यापाराः ।

४-भगवतां तीर्थङ्कराणां निषद्याः तीर्थस्थानानि ।

५-अभितः—समन्ततः । ६-किरन्तः, क्षिपन्तः । ७-इमे स्तोतारो वयं ।

८-पर्येम—प्रदक्षिणीकुर्मः ।

द्रोणीमति प्रवलकुंडलमेंदूके च ।
 वैभारपर्वततले वरसिद्धकूटे ॥
 ऋष्यद्रिके च विपुलाद्रिबलाहके च ।
 विंध्ये च पौदनपुरे वृषदीपके च ॥ २६ ॥
 सहाचले च हिमवत्यपि सुप्रतिष्ठे ।
 दंडात्मके गजपथे पृथुसारयष्टौ ॥
 ये साधवो हतमलाः सुगतिं प्रयाताः ।
 स्थानानि तानि जगति प्रथितान्यभूवनि ॥ ३० ॥

अन्वयार्थः— (दमतारिपक्षाः) कर्मरूपी शत्रुओंको नाश करने वाले
 (पंडोः सुताः) पंडु राजाके पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये तीनों भाई (नग्वरे
 शत्रुंजये) पवित्र शत्रुंजय पर्वतसे (परमानवृति अम्युयेताः) परम सुक्तिको
 पधारे । (संगरहितः बलभद्रनामा तु) समस्त परिग्रहों से रहित बलदेव (तुंग्या)
 तुंगीगिरी से मोक्ष पधारे, (च जितरिपुः सुवर्णभद्रः नद्याः तटे) और कर्मरूपी
 शत्रुओंको जीतनेवाले सुवर्णभद्र नदी के किनारे से—पावागिर पर्वतके पास
 चलना नदीके किनारेसे मोक्ष पधारे ।

(द्रौणमति) द्रोणागिर, (च प्रवलकुण्डलमेंदूके) उत्तम कुण्डलपर्वत,
 मेढगिर पर्वत (मुक्तागिर) (वैभारपर्वततले) वैभारपर्वत, (वरसिद्धकूटे) उत्तम
 सिद्धवरकूट (च ऋष्याद्रिके) तथा ऋष्याद्रि, (च विपुलाद्रिबलाहके) विपु-
 लाचल, बलाहक, (च विंध्ये) विंध्यपर्वत (पौदनपुरे) पौदनपुर (च वृष-
 दीपके) वृषदीपक, (सहाचले) सहाद्रि (च हिमवति) हिमवान् (अपि सुप्र-
 तिष्ठे) सुप्रतिष्ठ (दंडात्मके) दंडात्मक (गजपथे) गजपथ (पृथुसारयष्टौ)
 पृथुसारयष्टि आदि जिन जिन पर्वतोंपरसे (ये हतमलाः साधवः) जो कर्ममल-
 कलंकको नाशकरके मुनिराज (सुगतिं प्रयाताः) मोक्ष पधारे हैं (जगति)
 संसारमें (तानि स्थानानि प्रथितानि अभूवन्) वे सब स्थान प्रसिद्ध हो गये हैं ।

इक्षोर्विकारसपृक्तगुणेन लोके ।

पिष्टोऽधिकं मधुरताम्युपयाति यद्भत् ॥

तद्भश्च पुण्यपुरुषैरुषितानि नित्यं ।

स्थानानि तानि जगतामिह पावनानि ॥ ३१ ॥

[१६६]

अन्वयार्थः— (यद्वत्) जिसप्रकार (लोके) संसारमें (इन्द्रोर्विकाररस-
प्रकृतगुणेन्पिष्टः) ईखके रससे उत्पन्न होनेवाले गुड़के रसमें गुंदा हुआ आटा
(अर्धिकं मधुरतां याति) अधिक मीठा हो जाता है (च तद्वत्) तथा उसी
प्रकार (नित्यं) सदा (पुण्यपुरुषैः उषितानि तानि स्थानानि) पुण्यपुरुषोंके
द्वारा-तीर्थकर, गणधर, सामान्य मुनियों द्वारा सेवन किये गये वे स्थान (इह)
लोकमें (जगतां) संसारके प्राणियों को (पावनानि) पवित्र करनेवाले हो
जाते हैं ।

इत्थर्हतां शमवतां च महामुनीनां,
प्रोक्ता मयाऽत्र परिनिर्वृतिभूमिदेशाः ।
तेमे जिना जितमया मुनयश्च शांताः,
दिश्यासुराशु सुगतिं निरवद्यसौख्याम् ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थः— (इति) इसप्रकार (मया) मैंने (अत्र) यहां (अर्हतां)
भगवान तीर्थकर परमदेवकी (शमवतां) अत्यन्त शान्तता को धारण करनेवाले
सामान्य मुनियोंकी (च महामुनीनां) और महामुनि गणधरदेवोंकी जो (परि-
निर्वृतिभूमिदेशाः) निर्वाणभूमियां (प्रोक्ता) बतलाई हैं (ते) वे सब निर्वाणभूमियां
(जितमयाः शांताः जिनाः च मुनयः) संसारके समस्त भयोंसे रहित, अत्यन्त
शांत ऐसे वे सब तीर्थकर परमदेव गणधर केवली और सामान्य केवली (मे)
मुझे (आशु) शीघ्र ही (निरवद्यसौख्यां) सब तरहकी बाधाओंसे रहित सुख-
वाली (सुगतिं) शुभगति—मोक्षको (दिश्यासुः) देवे ।

इसके अनन्तर कायेत्सर्ग करना चाहिये ।

श्रालोचना—

इच्छामि भंते । परिणिव्वाणभक्ति काउत्सर्गो कओ तस्सालोचेउ ।
इमम्मि अवसप्पिणीये चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए । आउट्टुमासहीणे
वासचउक्कम्मि सेसकाम्मि । पावाये णयरीए कत्तियमासस्स किएहचउद-
सिए रचीए सार्दीये णक्खचे पच्चूसे भयवदो महादि महावीरो वड्डमाणो
सिद्धिं गदो । तिसुवि लोएसु भवणवासियवाणवितरजोचिसियकप्पवासि-
यत्ति चउन्विहा देवा सपरिवारा दिव्वेण मंघेण, दिव्वेण पुप्फेण, दिव्वेण

ध्रुवेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण, दिव्वेण एहाणेण, णिच्चकालं
अञ्चेति: पूजंति: वंदंति, णममंति, परिणिव्वाण, महाकल्लाणपुज्जं कंति ।
अहमिव इह संतो तत्थ संताइयं णिच्चकाल अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमं-
नामि, दुक्खस्सओ, कम्मस्सओ: वोहिलाओ, सुगइगमणं, ममाहिमरणं
जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

अर्थ—हे भगवन् ! मैं निर्वाण भक्ति कर कायोन्मर्ग करना हूं उसमें जो दोष
लगे हों उनकी आलोचना करना चाहता हूं । इस अवसरपिणीकालके चौथे
समयके पिङ्गले भागमें जब तीन वर्ष साइं आठ महीने कम थे, तब पात्रपुर नगर
में कार्तिक ऋणा चतुर्दशीकी रात्रिके पिङ्गले भागमें प्रातःकाल खाति नक्षत्र में
भगवान् महति मह,वीर वर्द्धमानस्वार्न मोक्ष पधारे थे । उस समय तीनों लोकों
में निवास करनेवाले भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और कल्पवासी ये चारों प्रकार
के देव अपने अपने परिवार सहित आये थे और वे दिव्य गन्ध, दिव्य फल, दिव्य
धूप, दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र और अमिषेकसे सुसज्जित होकर सदा अर्चा
करते थे, पूजा करते थे, वंदना करते थे, नमस्कार करते थे, और निर्वाण कल्या-
णकी पूजा करते थे । मैं भी वैसा ही होकर सदा अर्चा करता हूं, पूजा करता हूं,
वंदना करता हूं और नमस्कार करता हूं । मेरे दुःखोंका नाश हो, कर्मोंका नाश
हो, मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो
और भगवान् जिनेन्द्रदेव के समस्त गुणोंकी प्राप्ति हो ।

इति निर्वाणभक्तिः ।

अथ श्रेयकळ्लोकानि ।

कंलासाद्रौ मुनीद्रः पुरुरपटुरितो मृक्तिमाप प्रणूतः ॥ चंपायां वासु-
न्यन्विदशपतिनुतो नेमिरप्यूर्जयंते ॥ पात्रायां वर्धमानस्त्रिभुवनगुरवो
विंशतिस्तीर्थनाथाः ॥ सम्पेदाग्रे ब्रजमुर्ददतु विनमतां निर्वृतिं नो जिनेन्द्राः ॥
॥ १ ॥ गोगजोश्वःकपिः क्रोकःसरोजः स्वम्तिकः शगी । मकरः श्रीयुतो

[२०१]

वृक्षो गंडो महिषसूकरौ ॥ २ ॥ सेधा वज्रमृगच्छागाः पाठीनः कलश-
स्तथा ॥ कच्छपश्चोत्पलं शंखो नागराजश्च केसरी ॥ ४ ॥ शं.तेकुन्धर-
कौरव्या यादवो नेमिसुव्रतौ । उग्रनाथौ पार्श्ववीरौ शेषा इक्ष्वाकुवं
शजाः ॥ ५ ॥

निर्वाणभक्तिः [प्राकृत]

अट्टावयमि उसहो चंपाये वासुपूज्यजिणणाहो । उज्जते गेमिजिणो
यावाए णिव्वुदो महावीरो ॥ १ ॥ वीसं तु जिणवरिंदा अमरासुरवंदिदा
धुदकिलेसा । मम्मेदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥ २ ॥ सत्तेव
य वलभदा जहुवणरिंदाण अट्टकोडीओ गजपथे गिरिसिहरे णिव्वाणगया
णमो तेसिं ॥ ३ ॥ वरदत्तो य वरंगो सायरदत्तो य तारवरणयरे । आहु-
ट्टयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥ ४ ॥ गेमिसामि पज्जुणो संबु-
कुमारो तहेव अणिरुद्धो । बाहत्तरकोडीओ उज्जन्ते सत्तसया सिद्धा ॥ ५ ॥
रामसुआ वेण्णि जणा लाडणरिंदाण पञ्चकोडीओ । पावागिरिवरसिहरे
णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥ ६ ॥ पंडुसुआ तिण्णि जणा दविडणरिंदाण
अट्टकोडिओ ॥ सेतुंजयगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥ ७ ॥ राम-
हणूसुग्गीवो गवयगवक्खो य णीलमहणीला । णवणवदी कोडीओ तुङ्गी-
गिरिणिव्वुदे वंदे ॥ ८ ॥ एांगाणंगकुमारा कोडीपञ्चद्वमुणिवरा सहिया ॥
सुवण्णवरगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥ ९ ॥ दहमुहरायम्म
सुआ कोडी पञ्चद्वमुणिवरे सहिया । रेवाउहयतडग्गे णिव्वाणगया णमो
तेसिं ॥ १० ॥ रेवाणइए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूटे । दो चक्की
दहकप्पे आहुट्टयकोडि णिव्वुदे वंदे ॥ ११ ॥ वडवाणीवरणयरे दक्खिण-
भायम्मि चूलगिरिसिहरे । इंदजियकुम्भकण्णो णिव्वाणगया णमो तेसिं
॥ १२ ॥ पावागिरिवरसिहरे सुवण्णभदाइमुणिवरा चउरो । चलणाणईत-
डग्गे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥ १३ ॥ फलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि
दोणगिरिमिहरे । गुरुदत्ताइमुणिंदा णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥ १४ ॥

णायकुमार मुण्डो वालि महावालि चैव अज्जेया ॥ अट्टावयगिरिसिहिरे
 णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥ १५ ॥ अच्चलपुरवरणयरे ईसाणभाये मेढ-
 गिरिसिहरे आहुट्टयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥ १६ ॥ वंसत्थ-
 लवरणियडे पच्छिमभायम्मि कुंथुगिरिसिहिरे ॥ कुलदेसभूसणमुणी णिव्वा-
 णगया णमो तेसिं ॥ १७ ॥ जसहररायस्स सुता पञ्चसयाइं कलिं गदेस-
 म्मि । कोडिसिलाकोडिमुणी णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥ १८ ॥ पासस्स
 समवसरणे सहिया वरदत्तमुणिवरा पञ्च ॥ रिस्सिंदे गिरिसिहरे णिव्वा-
 णगया णमो तेसिं ॥ १९ ॥ पासं तह अहिणंदण णायद्दि मंगलाउरे वंदे ॥
 अस्सारम्मे पट्टणि मुणिसुव्वओ तहेव वंदामि ॥ २० ॥ बाहूबलि तह
 वंदामि पोदनपुरहत्थिनापुरे वदे । संती कुन्थुव अरिहो वाराणसिए सुपास
 पासं च ॥ २१ ॥ महुराये अदिच्छित्ते वीरं पासं तहेव वंदामि ॥ जंबुमु-
 णिंदो वंदे णिव्बुइपत्तोवि जंबुवणगहणे ॥ २२ ॥ पञ्चकल्लाणठाणइ
 जाणवि संजादमच्चलोयमि ॥ मणवयणकायसुद्धी सव्वे सिरसा णमसामि
 ॥ २३ ॥ अग्गलदेव वंदमि वरणयरे णिवरकुण्डली वंवे ॥ पासं सिवपुरि
 वंदमि लोहागिरिसंखदीवम्मि ॥ २४ ॥ गोमटदेवं वंदमि पञ्चसयं धणु-
 हदेहउच्चं । देवा कुणांति बुद्धी केसरकुसुमाण तस्स उवरिम्मि ॥ २५ ॥
 णिव्वाण ठाण जाणिवि अइमयठाणाणि अइसये सहिया । संजाद मिच्च-
 लोए सव्वे सिरसा णमंसामि ॥ २६ ॥ जो जण पढइ तियाल णिव्बुइक-
 डंपि भावसुद्धीए । भुंजदि णरसुरसुक्खं पच्छा सो लहइ णिव्वाणां ॥ २७ ॥
 श्रीमच्चंद्रगुहावराक्षरशिलां वस्त्रावतारं सदा । अर्चे चारणपादुकां चण-
 गुहे सर्वार्ररचित्तां । भास्वल्लक्षणपक्तिं निर्वृत्तिपथं विंदुच धर्म शिलां,
 सम्यग्ज्ञानशिलां च नेमिनेलयं वंदे सशृंगत्रयम् ॥ २८ ॥ समवसरणमान
 योजनं द्वादशादि । जिनपतियदुयावद्योजनाद्दार्द्धहानिः । कथयति जिन-
 पाश्वे योजनैकं सपादं । निगदित्तजिन वीरे योजनैकं प्रमाणम् ॥ २९ ॥
 नाभेयस्य शतानि पञ्च धनुषां मानं परं कीर्तितम् । सद्भिस्तीर्थकराष्टकस्य
 निपुणैः पञ्चाशद्गुण हि तत् । पञ्चानां च दशोनकं भुवि भवेत्पंचोनकं
 चाष्टके । हस्ताः स्युर्नव सप्त चान्त्य जिनयोर्येषां नु तान्नौम्यहं ॥ ३० ॥

श्रीचंद्रप्रभनाथपुष्पदशनौ कुदात्रदातच्छत्री ॥ रक्ताम्भोजपलाशवर्णवपुषौ
पद्मप्रभद्वादशौ ॥ कृष्णौ सुव्रतयादवौ च हरितौ पार्वः सुपार्वश्च वै ॥
शेषाः संतु सुवर्णवर्णवपुषो मे षोडशाघच्छिदे ॥ ३१ ॥ वासुपूज्यस्तथा
मल्लिर्नेमिः पार्वोथ सन्मतिः ॥ कुमाराः पञ्च निष्क्रान्ताः पृथिवीपतयः
परे ॥ ३२ ॥

इच्छामि भंते । परिणिव्वाणभक्ति काउस्सग्गो, ऋओ तस्सालोचेउं,
इमाम्मि अवसप्पिणीये, चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए, आउट्टमासहीणे,
वासचउक्कम्मि सेसकालम्मि, पावाये णयरीए, कत्तियमासस्स किएहच उद-
सिए, रचीए सादीये णक्खचे, पच्चूसे, भयवदो महदि महावीरो वड्ढमाणो
सिद्धिं गदो । तिसुवि लोएसु, भवणवासियवाणविंतरजोचिसियक्कप्पवासि-
यत्ति चउव्विहा देवा सुपरिवारा दिव्वेण गंधेण, दिव्वेण पुप्फेण, दिव्वेण
धूवेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण, दिव्वेण एहाणेण, णिच्चकालं
अच्चंति; पूजंति; वंदंति, णमंसंति, परिणिव्वाण, महाक्कल्लाणपुज्जं करंति ।
अहमवि इह संतो तत्थ संताइयं णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमं-
सामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ; वोहिलाओ, सुगइगमणं, समाहिमरणं
जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

नन्दीश्वरभक्तिः

त्रिदशपतिमुकुटतटगतमणिगणकरनिकरसलिलधाराधौत-
क्रमकमलयुगलजिनपतिरुचिरप्रतिविंबविलयविरहितनिलयान् ॥१॥
निलयानहमिह महसां सहसाप्रणिपतनपूर्वमवनौम्यवनौ ।
त्रय्या त्रय्या शुद्ध्या निसर्गशुद्धान्विशुद्धये घनरजसाम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थः— (त्रिदशपतिमुकुटतटगतमणिगणकरनिकरसलिलधाराधौत-
क्रमकमलयुगलजिनपतिरुचिरप्रतिविंबविलयविरहितनिलयान्) इन्द्रोंके मुकुटोंके
किनारे पर लगे हुये अनेक मणियोंके किरणोंके समूह रूपी जलकी धारासे जिन
के दोनों चरण कमल प्रक्षालित हो रहे हैं ऐसे जिनेन्द्र देवके प्रतिविंबोंको विनाश

रहित-सदाके लिये अनन्तानन्त कालके लिये स्थान देनेवाले--(निसर्गशुद्धान्)
स्वाभाविक शुद्ध और (महसा) तेजकी राशि (इह त्रय्यां) ऐसे तीनों लोकोके
(निलयान्) अकृत्रिम चैत्यालयोंको (अहं) मैं (त्रय्या शुद्धया) मनवचन-
कायकी त्रिशुद्धिपूर्वक (घनरजसा विशुद्धये) महापापोंको नाश करनेके लिये
(सहसा) शीघ्र (अवनौ प्रणिपतनपूर्व) पृथ्वी पर पड़कर (अवनौमि) नम-
स्कार करता हूँ ॥ १-२ ॥

अधोलोक सत्रधी भवनवासियोंके विमानोंके अकृत्रिमचैत्यालयोंका वर्णन—
व्यंतरदेवोंके अकृत्रिम-चैत्यालय—

त्रिभुवनभूतविभूनां संख्यातीतान्यसंख्यगुणयुक्तानि ।

त्रिभुवनजननयनमनःप्रियाणि भवनानि भौमविबुधनुतानि ॥

भावनसुरभवनेषु द्वासप्ततिशतसहस्रसंख्याभ्यधिकाः ।

कोट्यः सप्त प्रोक्ता भवनानां भूरितेजसां भुवनानाम् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः— (भूरितेजसा भावनसुरभवनेषु भुवनानां) अत्यन्त तेजको
धारणकरनेवाले ऐसे भवनवासी देवोंके भवनोंमें रहनेवाले (भुवनानां) अकृ-
त्रिम चैत्यालयोंकी (सप्त कोट्यः द्वासप्ततिशतसहस्रसंख्याभ्यधिकाः प्रोक्ता) सात
करोड़ बहत्तरलाख संख्या कही है ।

भावार्थ—भवनवासियोंके इतने ही भवन हैं और उनमें प्रत्येकमें एक एक
अकृत्रिम चैत्यालय है ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः— (भौमविबुधनुतानि) जिनको समस्त व्यंतर देव नमस्कार
करते हैं (त्रिभुवनजननयनमनःप्रियाणि) जो तीनों लोकोंके जीवोंके नेत्र और
मनको अत्यन्त प्रिय लगते हैं ऐसे (त्रिभुवनभूतविभूना भवनानि) तीनों लोकों
के समस्त प्राणियोंके स्वामी-भगवान् जिनेन्द्रदेवके मंदिर (संख्यातीतान्यसंख्य-
गुणयुक्तानि) असंख्यातको असंख्यातसे गुणा करने पर जितनी संख्या होती
है-उतने हैं ।

भावार्थ व्यन्तर देवोंके आवास भी असंख्यातासंख्यात हैं और उनमें
प्रत्येकमें एक-एक अकृत्रिम चैत्यालय है ।

ज्योतिष्कदेव तथा वैमानिकदेवोंके अकृत्रिम चैत्यालय—

यावन्ति संति कान्तज्योतिर्लोकाधिदेवताभिनुतानि ।

कल्पेऽनेकविकल्पे कल्पातीतेऽहमिन्द्रकल्पानल्पे ॥ ५ ॥

त्रिंशतिरथ त्रिसहिता सहस्रगुणिता च सप्तनवति प्रोक्ता ।

चतुरधिकार्शीतिरतः पञ्चकशून्येन विनिहतान्यनघानि ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—(कान्तज्योतिर्लोकाधिदेवताभिनुतानि) सुन्दर ऐसे ज्योतिर्षी देवोंके द्वारा नमस्कार किये गये 'भवानि' जिनालय (यावन्ति संति) उतने ही अर्थात् असंख्यातासंख्यात है। (अनेकविकल्पे कल्पे) अनेक भेदरूप सोलह स्वर्गोंमें और (अहमिन्द्रकल्पानल्पे कल्पातीते) जिनमें अहमिन्द्रोंकी कल्पना है ऐसे बहुत कल्पातीत विमानोंमें—(अनघानि) पापरहित चैत्यालयोंकी संख्या

०००००

६५ X

१०००

(चतुरधिकार्शीतिः अतः पञ्चकशून्येन च सप्तनवाते सहस्रगुणिताविनिहतानि

३

२०

अथ त्रिसहिता त्रिंशतिः प्रोक्ता) पञ्च शून्यसे गुणा किये हुये चौरासीलाख, एक हजारसे गुणा किये हुये सतानवे अर्थात् सतानवे हजार और तेईस हैं अर्थात् चौरासीलाख सतानवे हजार तेईस हैं। यह संख्या कल्पवासी और कल्पातीन दोनों प्रकारके देवोंके अकृत्रिम चैत्यालयोंकी है। यदि इनके चैत्यालयों की पृथक् पृथक् संख्या कही जाय तो कल्पवासियोंके चैत्यालय चौरासी लाख छयानवे हजार सातसौ हैं और कल्पातीत देवोंके चैत्यालयोंकी संख्या तीनसौ तेईस है।

मनुष्य क्षेत्रके अकृत्रिम चैत्यालयोंकी संख्या—

अष्टापंचाशदतश्चतुः शतानीह मानुषे च क्षेत्रे ।

लोकालोकविभागप्रलोकनालोकसंयुजां जयभाजाम् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—(लोकालोकविभागप्रलोकनालोकसंयुजा) लोक और अलोक के विभागको देखनेके लिये प्रकाश के समान—केवलदर्शनसे सुशोभित होनेवाले (जयभाजां) और घालिया कर्मोंको नाश करनेके कारण सर्वत्र विजय प्राप्त करनेवाले भगवान् अर्हतदेवके अकृत्रिम चैत्यालय (इह मानुषे च क्षेत्रे) इस मनुष्य क्षेत्रमें (अष्टापंचाशदतः चतुः शतानि) चारसौ अठान्न हैं।

तीनों लोकोंके अकृत्रिम चैत्यालयोंकी संख्या—

नवनवचतुःशतानि च सप्त च नवतिः सहस्रगुणिताः षट् च ।

पंचाशत्पंचवियत्प्रहताः पुनरत्र कोटयोऽष्टौ प्रोक्ताः ॥ ८ ॥

एतावन्त्येव सतामकृत्रिमाप्यथ जिनेशिनां भवनानि ।

भुवनत्रितये त्रिभुवनसुरसमितिसमर्च्यमानसत्प्रतिमानि ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः— (त्रिभुवनसुरसमितिसमर्च्यमानसत्प्रतिमानि) तीनों लोकोके देवोके द्वारा जिनकी मनोहर मूर्ति—प्रतिमा पूजी जाती है ऐसे (सतां जिनेशिनां) उत्कृष्ट जिनराज के (अकृत्रिमाणि अथ भवनानि) अकृत्रिम जिन चैत्यालय

$$६ \times ६ = ८१ + ४०० = ४८१ + ६० \times १००० =$$

(भुवनत्रितये) तीन लोकमें (नवनवचतुः शतानि च सप्त च नवतिः सहस्र-
६७००० ६ + ४८ = ४६ × १०००० = ४६००००० ८०००००००

गुणिताः षट् च पंचाशत् पंचवियत्प्रहताः अत्र पुनः अष्टौ कोटयः एतावन्त्येव प्रोक्ताः) आठ करोड़, छप्पन लाख, सत्तानवे हजार ४८१ हैं । (८५६६७४८१)

अधोलोकमें ७७२०००००

मध्यलोकमें ४५८

ऊर्ध्वलोकमें ८४६७०२३

८५६६७४८१ तीनलोकके कुल चैत्यालय ।

ज्योतिष्क और व्यन्तरदेवोंके असख्यातासख्यात चैत्यालय अलग हैं ।

मध्यलोकके ४५८ चैत्यालय—

१०० ४ ४ १७० ४ ३० ४

वक्षाररुचककुण्डलरौप्यनगोत्तरकुलेषुकारनगेषु ।

६०

कुरुषु च जिनभवनानि त्रिशतान्यधिकानि तानि षड्विंशत्या ॥१०॥

अन्वयार्थः— (वक्षाररुचककुण्डलरौप्यनगोत्तरकुलेषुकारनगेषु च कुरुषु जिनभवनानि तानि त्रिशतान्यधिकानि षड्विंशत्याः) वक्षारगिरि—पांचविदेह संवधी ८०, गजदंत २० कुल १०० पर्वतों पर १०० अकृत्रिम चैत्यालय हैं, रुचकद्वीपमें रुचक पर्वतपर ४, कुण्डलद्वीपमें कुण्डलपर्वत पर ४, रौप्यनग—विजयार्द्धपर्वत पर १७० कर्मभूमि सम्बंधी ढाई द्वीपके १७० चैत्यालय, मानु-पोत्तरपर्वतपर ४, हिमगान् आदि ३० कुलाचलों पर ३०, चार इषुकार-इष्णा-

कार पर्वतो पर ४ और देवकुरुमें ५, उत्तरकुरुमें ५, इस प्रकार इन अकृत्रिम जिनभवनोंकी संख्या ३२६ है (नन्दीश्वर द्वीपके ५२ और पञ्चमेरुके ८० मिला कर कुल ४५८ चैत्यालय (अकृत्रिम) होते हैं ।

नोट—एक एक विदेहमें १६-१६ वज्जारगिरि और ४-४ गजदत्त मिलकर १०० पर्वतो पर १०० अ० चै० है । ढई द्वीपमें १७० कर्मभूमिया हैं उनमें १७० ही विजयार्ध पर्वत हैं उन पर १७० ही अ० चै० हैं । जम्बूद्वीपमें ६ कुलाचल, घातकी खंडमें १२ और पुष्कगर्द्धमें १२ कुलाचल हैं । सब मिल कर ३० कुलाचल है, इन पर ३० ही अ० चै० हैं । देवकुरुमें ५ और उत्तर कुरुमें ५ इस प्रकार १० उत्तमभोग भूमियोंमें १० अ० चै० है ।

अस्सीवज्जार व २० गजदंतोंके	=	१००
चार रुचिकगिरिके	=	४
चार कुण्डलगिरिके	=	४
१७० विजयार्ध-एकसौ सत्तर कर्मभूमिके	=	१७०
चार मानुपोत्तर पर्वतके	=	४
तीस कुलाचल पर्वतोंके	=	३०
चार डण्डाकार पर्वतोंके	=	४
देवकुरु-उत्तरकुरुके	=	१०
		३२६
नन्दीश्वर संबंधी	=	५२
पंचमेरु संबंधी	=	८०

४५८ कुल अ० चैत्यालय

नन्दीश्वर द्वीपके चैत्यालय—

नन्दीश्वरसद्द्वीपे नन्दीश्वरजलविपरिवृत्ते धृतशोभे ।

चन्द्रकरनिकरसंनिभरुन्द्रयशोविततदिङ्महीमंडलके ॥ ११ ॥

तत्रात्याजनदधिमुखरतिकरपुरुनगवराख्यपर्वतमुख्याः ।

प्रतिदिशमेषामुपरि त्रयोदशेन्द्रचितानि जिनभ्रमणानि ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—(चन्द्रकरनिकरसंनिभरुन्द्रयशोविततदिङ्महीमंडलके) चद्रमा

की किरणोंके समूहके समान फैले हुये दशके द्वारा जिसने समस्त दिशाओं का समूह और समस्त पृथ्वीमंडल व्याप्त कर दिया है अर्थात् जिसकी कीर्ति समस्त पृथ्वीपर फैल रही है तथा (नन्दीश्वरजलधिपरिवृते) नन्दीश्वर नामके महासागर से चारों ओर घिरा हुआ है और (धृतशोभे) जो बड़ी अच्छी शोभा को धारण कर रहा है एसे (नन्दीश्वरसद्वीपे) सर्वोत्तम नन्दीश्वर द्वीपकी (प्रतिदिश) प्रत्येक दिशामें (तत्रत्याजनदधिमुखरत्तिकरपुरुनगवराख्यपर्वतमुख्याः एषा ऽपरि इन्द्रचिंतानि जिनभवनानि त्रयोदश) बहा होनेवाले एक एक अजनगिरि है, उस अजनगिरिके चारो ओर चारो दिशाओंमें चार चार दक्षिमुख है, वे दक्षिमुख बावडियोंमें है उन बावडियोंके किनारे-कोनो पर रत्तिकर पर्वत है । प्रत्येक अजनगिरि पर और प्रत्येक दक्षिमुख पर्वत पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है तथा बावडियोंके भीतरी दोनो कोनो पर जो दो दो रत्तिकर पर्वत है उन पर प्रत्येक पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है । इस प्रकार नन्दीश्वर द्वीपकी एक दिशामें एक अजनगिरि, चारदक्षिमुख और आठ रत्तिकरके ऊपर चैत्यालय है । ये सब तेरह होते हैं । इसीप्रकारकी रचना नन्दीश्वर द्वीपकी चारो दिशाओंमें है । इसलिये चारों दिशाओं में मिलकर सब बावन चैत्यालय होते हैं । इन चैत्यालयोंमें इन्द्र आकर पूजा करते हैं ।

आषाढकार्तिकाख्ये फाल्गुनमासे च शुक्लपक्षेष्टम्याः ।

आरभ्याष्टदिनेषु च सौधर्मप्रमुखविबुधपतयो भक्त्या ॥ १३ ॥

तेषु महामहमुचित प्रचुराक्षतगंधपुष्पधूपैर्दिव्यैः ।

सर्वज्ञप्रतिमानामप्रतिमानां प्रकुर्वते सर्वहितम् ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः— (आषाढकार्तिकाख्ये च फाल्गुनमासे) आषाढ, कार्तिक और फाल्गुन मासमें (शुक्लपक्षेष्टम्या) शुक्लपक्षकी आठमीसे (आरभ्य) प्रारंभ करके (अष्टदिनेषु च) आठ दिन तक (सौधर्मप्रमुखविबुधपतयः भक्त्या) सौधर्म इन्द्रको आदि लेकर समस्त इन्द्र बड़ी भक्तिसे 'बहा पर जाते हैं । (अप्रतिमाना) जिनकी समता—वराबरी ससारभरमें कही नहीं है ऐसी (तेषु सर्वज्ञप्रतिमानां) बहा पर विराजमान भगवान् सर्वज्ञदेवकी प्रतिमोकी (दिव्यैः प्रचुराक्षतगंधपुष्पधूपैः) बहुतसे दिव्य अक्षतोंसे, दिव्यगंधसे, दिव्यपुष्पोंसे और दिव्य धूपसे (सर्वहितं) समस्त प्राणियोंका हित करनेवाली (उचितं) अपने योग्य

अर्थात् इ द्रोके द्वारा ही करने योग्य ऐसी (महामंडं) महामह नामकी पूजा (प्रकुर्वते) करते हैं ।

भेदेन^१ वर्णना का सौधर्मः स्नपनकत्तृतामापन्नः ।

परिचारकभावमिताः शेषेन्द्रारुन्द्रचन्द्रनिर्मलयशसः ॥ १५ ॥

मंगलपात्राणि पुनस्तद्देव्यो विभ्रतिस्र शुभगुणाढ्याः ।

अप्सरसो नर्तक्यः शेषसुरास्तत्र लोकनाव्यग्रधियः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—(का भेदेन वर्णना) उन नन्दीश्वर द्वीपके चैत्यालयोंको विशेष वर्णन—माहात्म्य क्या कहे, जहां (सौधर्मः स्नपनकत्तृतां आपन्नः) सौधर्म इन्द्र स्वयं उन प्रतिमाओंके अभिषेक करने का काम करता है, (रुन्द्रचन्द्रनिर्मलयशसः शेषेन्द्राः परिचारकभावं इताः) पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान जिनका निर्मल यश फैला हुआ है ऐसे वाकी के इन्द्र सब उस सौधर्म इन्द्रके परिचारक-सहायक बन जाते हैं अर्थात् उस महाभिषेकमें सहायता देते हैं—अन्य सब काम करते हैं ।

(पुनः शुभगुणाढ्याः तद्देव्यः) तथा निर्मल गुणोंको धारण करनेवालीं उन सौधर्म आदि इन्द्रोंकी महादेवियां (मंगलपात्राणि^२ विभ्रतिस्र) आठ महा-मंगल द्रव्य धारण करती हैं, (अप्सरसः नर्तक्यः) अप्सरायें नृत्य करनेवाली होती हैं (तत्र शेषसुराः लोकनाव्यग्रधियः) और वहां वाकीके सब देव तथा देवियां उस अभिषेकको देखने में व्यग्रचित्त रहते हैं ।

वाचस्पतिवाचामपि गोचरतांसंव्यतीत्य यत्क्रममाणम् ।

विबुधपतिविहितविभवं मानुषमात्रस्य कस्य शक्तिः स्तोतुम् ॥१७॥

अन्वयार्थः—(विबुधपतिविहितविभवं) सौधर्मादिक इन्द्रोंके द्वारा किया गया वह पूजावैभव (यत्क्रममाणं) जो उन्हींके द्वारा प्रवर्तमान है उसका वर्णन

१-भेदेन-विशेषण ।

२-मंगलपात्राण्यष्टौ—श्लोकः—

छत्रं ध्वजं कलशचामरसुप्रतीका,
भृंगारतालमतिनिर्मलदर्पणं च ।
शंसन्ति मंगलमिदं निपुणस्वभावाः,
द्रव्यस्वरूपमिह तीर्थकृतोऽष्टधैव ॥

[२१०]

(वाचस्पतिवाचां अपि गोचरतां संव्यतीय) बृहस्पतिके वचनोंकी शक्तिके भी बाहर है—उस पूजनकी शोभा और भक्ति का वर्णन बृहस्पति भी नहीं कर सकता फिर भला (मानुषमात्रस्य कस्य स्तोतु शक्तिः) उन चैत्यालयोंकी स्तुति करने में हम मनुष्योंकी शक्ति क्या काम दे सकती है अर्थात् उनकी स्तुति करना मनुष्यमात्रकी शक्तिके बाहर है ।

निष्ठापितजिनपूजाश्चूर्णस्नपनेन दृष्टविकृतविशेषाः ।

सुरपतयो नन्दीश्वरजिनभवनानि प्रदक्षिणीकृत्य पुनः ॥ १८ ॥

पचसु मंदरगिरिषु श्रीभद्रशालनंदनसौमनसम् ।

पाण्डुकवनमिति तेषु प्रत्येकं जिनगृहाणि चत्वार्येव ॥ १९ ॥

तान्यथ परीत्य तानि च नमसित्वा कृतसुपूजनास्तत्रापि ।

स्वास्पदमीयुः सर्वे स्वास्पदमूल्यं स्वचेष्टया संगृह्य ॥ २० ॥

अन्वयार्थः — (चूर्णस्नपनेन .) सुगन्धित चूर्णसे जिन्होने महाभिषेक पूर्वक (निष्ठापितजिनपूजाः) जिन पूजा पूर्ण करली है, इसीलिये जिनको महा आनंद आरहा है उस आनंदसे (दृष्टविकृतविशेषाः) जिनकी आकृति कुछ विकृत हो रही है ऐसे (सुरपतः) इन्द्र (पुनः) फिर (नन्दीश्वरजिनभवनानि) नदीश्वरद्वीप के उन चैत्यालयों की (प्रदक्षिणीकृत्य) प्रदक्षिणा देते हैं ।

फिर वे इन्द्र (पचसुमंदरगिरिषु , पाचों मेरुपर्वत संबंधी (श्रीभद्रशालनंदनसौमनसं पाण्डुकवन इति तेषु चत्वारि एव प्रत्येकं जिनगृहाणि) भद्रशाल, नंदन, सौमनस और पाण्डुकवन इसप्रकार चार वनोंमें प्रत्येकमें चार चार जिनमंदिरों की (अथ तानि परीत्य) पहले प्रदक्षिणा देकर (च तानि नमसित्वा) और उनकी स्तुति करके (कृतसुपूजनाः) ब्रह्म उच्चम रीतिसे पूजा करते हैं । (तत्रापि) वहा (स्वचेष्टया) जो अभिषेक-पूजनादिक किया है उसके बदले (स्वास्पद-मूल्यं संगृह्य) अपने देवपदके योग्य महापुण्य संचय करके (सर्वे) सब इन्द्रादि (स्वास्पदं ईयुः) अपने अपने स्थानको चले जाते हैं ।

एक एक मेरु पर्वत पर चार चार वन हैं । भद्रशाल, नंदन, सौमनस और पाण्डुक । मेरु पर्वतोंके सबसे नीचे चारों ओर भद्रशाल वन हैं—इनके ऊपर मेरु पर्वतके चारों ओर नंदनवन हैं, उसके ऊपर तीसरी कटनी पर चारों ओर सौमनस वन हैं और उनके ऊपर चारों ओर पाण्डुक वन हैं । इस प्रकार पाचों

मेरु संबंधी बीस वन हैं । इन वनों की चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय । इस प्रकार पाँचों मेरु पर्वतों पर अस्सी चैत्यालय हैं ।

चैत्यालयोंकी विभूति—

सहतोरणसद्वेदीपरीतवनयागवृक्षमानस्तभ—

ध्वजपंक्तिदशकगोपुरचतुष्टयत्रितयशालमंडपवर्यैः ॥ २१ ॥

अभिषेकप्रेक्षणिका क्रीडनसंगीतनाटकालोकगृहैः ।

शिल्पिविकल्पितकल्पनसंपल्पातीतकल्पनैः समुपेतैः ॥ २२ ॥

वापीसत्पुष्करिणीसुदीर्घिकाद्यंबुसंसृतैः समुपेतैः ।

विकसितजलरुहकुसुमैर्नभस्यमानैः शशिग्रहर्क्षैः शरदि ॥ २३ ॥

भृंगाराब्दककलशाद्युपकरणैष्टशतकपरिसंख्यानैः ।

प्रत्येकं चित्रगुणैः कृतज्ञणज्ञणनिनदविततघंटाजालैः ॥ २४ ॥

प्रविभाजंते नित्यं हिरण्ययानीश्वरेशिनां भवनानि ।

गंधकुटीगतमृगपतिविष्टरुचिराणि विविधविभवयुतानि ॥ २५ ॥

अन्वयार्थः—वे अकृत्रिम जिन चैत्यालय (सहतोरणसद्वेदीपरीतवनयागवृक्षमानस्तभध्वजपंक्तिदशकगोपुरचतुष्टयत्रितयशालमंडपवर्यैः) अकृत्रिम तोरणों से, चारों ओर होनेवाली वेदीसे, चारों ओर रहनेवाले वनोंसे, यागवृक्षोंसे, मानस्तभोंसे दश दश प्रकारकी ध्वजाओंकी पंक्तिओसे, चार चार गोपुरोंसे, तीन तीन कोटोंसे, तीन तीन शालाओंसे, उत्तम उत्तम मंडपोंसे सुशोभित हैं । (अभिषेकप्रेक्षणिकाः) अभिषेक जिन मंडपोंमें बैठकर देखते हैं ऐसे मंडप हैं (क्रीडनसंगीतनाटकालोकगृहैः) क्रीडाभूमि, संगीतभूमि, नाटकशालाओं से सुशोभित हैं (शिल्पिविकल्पितकल्पनसंपल्पातीतकल्पनैः समुपेतैः) यह रचना उनको बनानेवाले कारीगरों द्वारा कल्पना की हुई रचनाके भेदोंके विचार से सर्वथा रहित है अर्थात् किसी चतुर कारीगरने भी उनके बनानेकी कल्पना नहीं की है—वे सब तोरण आदि अकृत्रिम हैं ऐसी अकृत्रिम शोभाओंसे वे सब अकृत्रिम चैत्यालय शोभायमान हैं (वापीसत्पुष्करिणीसुदीर्घिकाद्यंबुसंसृतैः समुपेतैः) गोल वापिकाओंसे, चौकोर वापिकाओंसे, बहुत गहरी वापिकाओंसे सुशोभित हैं, वापिकाएं सुन्दर निर्मल जलसे भरी हुई हैं, (विकसितजलरुहकुसुमैः) खिले हुये कमलोंके पुष्पोंसे शोभित हैं, (शरदि शशिग्रहर्क्षैः नभस्यमानैः) जैसे शरद

ऋतुमें च द्रमा, प्रह, नक्षत्रोंसे आकाशकी जो शोभा होती है उससे कहीं अधिक शोभा वापिकाओं की है (प्रत्येकं भृगाराब्दककलशाद्युपकरणैश्चतकपरिसंख्यानैः) प्रत्येक चैत्यालय एकसौ आठ भृगार, दर्पण, कलश आदि मंगल द्रव्योंसे सुशोभित है, (चित्रगुणैः) अनेक प्रकारके गुणोंसे शोभायमान हैं, (कृतभ्रणभ्रणनिन्दविततघटाजालैः) भ्रणभ्रण शब्द करते हुये बहुत बड़े-बड़े घटाओं के समूह पंक्ति बद्ध होकर उन चैत्यालयों में लटक रहे हैं (गंधकुटी गतमृगपतिविष्टरुचिराणि विविधविभवयुतानि हिरयमयानि ईश्वरेशिनां भवनानि नित्य प्रविभाजते) मनोहर गंधकुटी, सुन्दर सिंहासन से सुशोभित, अनेक प्रकार की विभूतियोंसे युक्त, सुवर्णमयी ऐसे जिनेन्द्रभगवानके चैत्यालय सदैव दैदीप्यमान और शोभायमान हो रहे हैं ।

प्रतिमाओंका वर्णन—

येषु जिनानां प्रतिमाः पञ्चशतशरासनोच्छ्रिताः ।

मणिकनकरजतविकृता दिनकरकोटिप्रभाधिकप्रभदेहाः ॥ २६ ॥

तानि सदा वन्देऽहं भानुप्रतिमानि यानि कानि च तानि ।

यशसां महसां प्रतिदिशमतिशयशोभाविभाजि पापविभजि ॥ २७ ॥

अन्वयार्थः— (येषु) जिन चैत्यालयों में (जिनानां प्रतिमाः) जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाएँ (पञ्चशतशरासनोच्छ्रिताः) पाचसौ धनुष ऊंची (सत्प्रतिमाः) अत्यन्त मनोहर और सुन्दर आकारवाली हैं । (मणिकनकरजतविकृताः) मणि, सुवर्ण व चादी की बनी हुई हैं, (दिनकरकोटिप्रभाधिकप्रभदेहाः) करोड़ों सूर्योंकी कातिसे भी अधिक जिनके शरीरकी काति दैदीप्यमान है, (भानुप्रतिमानि) वे सब अकृत्रिम चैत्यालय सूर्यके विमानके समान दैदीप्यमान, (यानि-कानि च तानि^१) जो कुछ हैं जैसे हैं बस बेही हैं—अद्वितीय है, (यशसां^२ महसां^३) यश व तेजके स्थान हैं, (प्रतिदिशं^४ अतिशयशोभाविभाजि) प्रत्येक दिशामें होनेवाली अपूर्व शोभासे सुशोभित हैं, (पापविभजि) और समस्त पापोंको

१-अनिर्दिष्टस्वरूपाणि ।

२-कीर्तिना ।

३-तेजसा ।

४-दिशं प्रति-प्रतिदिशं, सर्वास्तु दिक्षु ।

नाश करनेवाले हैं ऐसे (तानि) उन अकृत्रिम चल्यालयोको (अहं) में (सद) सदैव (वंडे) नमस्कार करता हूँ ।

तीर्थकरोकी स्तुति—

सप्तत्यधिकशतप्रियधर्मक्षेत्रगततीर्थकरवरवृषभान् ।

भूतभविष्यतसंप्रतिकालभवान् भवविहानये विनतोऽस्मि ॥२८॥

अन्वयार्थः—(सप्तत्यधिकशतप्रियधर्मक्षेत्रगततीर्थकरवरवृषभान्) जिनको धर्म अत्यन्त प्रिय है ऐसे एकसौ सत्तर क्षेत्रोंमें जो श्रेष्ठसे श्रेष्ठ तीर्थकर होते हैं— (भूतभविष्यतसंप्रतिकालभवान्) उन तीर्थकर भूत, भविष्यत् और वर्तमानकाल में होनेवालोको (भवविहानये) जन्म-मरणरूप संसारको नाश करनेके लिये (विनतोऽस्मि) नमस्कार करता हूँ ।

वृषभदेवका वर्णन—

अस्यामवसर्पिण्यां वृषभजिनः प्रथमतीर्थकर्ता भर्ता ।

अष्टापद्गिरिमस्तकगतस्थितो मुक्तिमाप पापान्मुक्तः ॥ २९ ॥

अन्वयार्थः—(अस्यां अवसर्पिण्यां) इस अवसर्पिणीकालमें (वृषभजिनः प्रथमतीर्थकर्ता भर्ता) चौबीस तीर्थकरोमें से वृषभदेवस्वामी प्रथम तीर्थकर हुये और असि मसि आदि छहों कर्मोंका उपदेश देकर सबके स्वामी थे । पोपक थे । वे (पापान्मुक्तः) समस्त पापोंको नष्टकर (अष्टापद्^३गिरिमस्तकगत^३स्थितः^४) कैलाशपर्वतके शिखरपर से, कायोत्सर्ग आसनसे (मुक्तिं आप^५) मोक्ष पधारे ।

भगवान् वासुपूज्यकी स्तुति—

श्रीवासुपूज्यभगवान् शिवासु^६ पूजासु^७ पूजितस्त्रिदशानाम् ।

चंपायां दुरितहरः^८ परमपदं^९ प्रापदापदामन्तगतः ॥ ३० ॥

अन्वयार्थः—(दुरितहरः) समस्त कर्मोंको नाश करनेवाले (आपदा अंतगतः) आपत्तियोंसे रहित (शिवासु पूजासु) सर्वोत्तम पंचकल्याणकों में (त्रिदशाना पूजितः) इन्द्रादिकदेवों के द्वारा पूज्य ऐसे (श्रीवासुपूज्यभगवान्) श्री वासुपूज्य स्वामी १२ वे तीर्थकर (चंपायां) चम्पापुरसे (परमपदं प्रापत्) मोक्षको प्राप्त हुये ।

१-लोकानां पोपकः—भर्ता । २-अष्टापदः—कैलाशः । ३-गतः—प्राप्तः ।

४-स्थितः—ऊर्ध्वकायोत्सर्गोपितः । ५-प्राप्तवान् । ६-शिवासु—शोभनासु ।

७-पूजानु—पञ्चकल्याणरूपानु । ८-दुरितहरः—अष्टकर्मध्वंसी । ९-परमपदं—मोक्षं ।

नेमिनाथस्वामीकी स्तुति—

मुदितमतिबलमुरारिप्रपूजितो जितकषायरिपुरथ जातः ।

वृहदूर्जयन्तशिखरे शिखामणिस्त्रिभुवनस्य नेमिर्भगवान् ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ.— (मुदितमतिबलमुरारिप्रपूजितः) कृष्ण और बलदेव दोनों भाइयोंने अत्यन्त प्रसन्न होकर जिनकी पूजाकी है, (अथ जितकषायरिपुः) तथा जिन्होंने समस्त कषायरूपी शत्रुओंको जीत लिया है, (त्रिभुवनस्य शिखामणिः) जो तीनों लोकोके चूडामणि हैं ऐसे (भगवान् नेमिः) श्री भगवान् नेमिनाथ (वृहदूर्जयन्तशिखरे) बड़े गिरनार पर्वतसे (जातः) परम सिद्धपदको प्राप्त हुये ।

श्रीमहावीर स्तुति—

पावापुरवरसरसां मध्यगतः सिद्धिवृद्धितपसां महसाम् ।

वीरो नीरदनादो भूरिगुणश्चारुशोभमास्पदमगमत् ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थः— (सिद्धिवृद्धितपसां) जो अपने इच्छित कार्यों को उत्पन्न करने, उत्तर क्षमादि गुणोंका उत्कर्ष करने और अनशन आदि महातपश्चरण करनेमें सर्वोत्तम हैं, (नीरदनादः) जिनकी दिव्यध्वनिका शब्द मेघकी गर्जना के समान है, (भूरिगुणः) जिनके गुण अनंत हैं, (महसा मध्यगतः) जो महातपस्वी हैं ऐसे (वीरः) श्री वीर भगवान् (पावापुरसरसा) पावापुर नगर के समीपवर्ती उत्तम सरोवरसे (चारुशोभं आस्पद अगमत्) अनंत सुखके स्थानमोक्षस्थानमें जा विराजमान हुए ।

बाकी बीस तीर्थकरोंका वर्णन—

सम्मदकरिवनपरिवृतसम्मदगिरीन्द्रमस्तकेविस्तीर्णं ।

शेषा ये तीर्थकराः कीर्तिभृतः प्रार्थितार्थसिद्धिमवापन् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थः— (सम्मदकरिवनपरिवृतसम्मदगिरीन्द्रमस्तके विस्तीर्णं) जिसमें मदनमत्त हाथी चारों ओर फिर रहे हैं ऐसे वनोंसे घिरे हुए सम्मदशिखर पर्वतके विशाल मस्तकपरसे (कीर्तिभृतः) अनंत कीर्तिको धारण करनेवाले (शेषाः ये तीर्थकराः) बाकीके जो बीस तीर्थकर (प्रार्थितार्थसिद्धिं अवापन्) सबके द्वारा प्रार्थनीय सिद्धि-मोक्षको प्राप्त हुये ।

शेषाणां केवलानां अशेषमतवेदिगणभृतां साधूनां ।

गिरितलविवरदरीसरिदुरुवनतरुविटपिजलधिदहनशिखासु ॥ ३४ ॥

[२१५]

मोक्षगतिहेतुभूतस्थानानि सुरेन्द्ररुद्रभक्तिनुतानि ।

मंगलभूतान्येतान्यंगीकृतधर्मकर्मणामस्माकम् ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थः— (शेषाणां केवलिनां) इन तीर्थकरोंके सिवाव अन्यसामान्य-केवली (अशेषमतवेदिगणभृता) समस्त मतोंको जाननेवाले गणधरदेव (साधूनां) तथा सामान्य साधु जहा जहासे मोक्ष पधारे है ऐसे (गिरितलविवरदरीसरिदुरु-वनतरुविटपिजलघिदहनशिखासु) पर्वत, पर्वतके शिखर, पर्वतोंके दर्रे (घाटी) गुफाये, नदी, बड़े बड़े वन, वृक्ष, वृक्षोंके स्कंध, समुद्र और अग्निकी शिखाए आदि स्थान हैं जिनको (सुरेन्द्ररुद्रभक्तिनुतानि) इन्द्रादिकदेव बड़ी भक्तिसे नमस्कार करते हैं, (मोक्षगतिहेतुभूत स्थानानि) मोक्षके कारणभूत और (मंगलभूतानि) सबका कल्याण करनेवाले है ऐसे (एतानि) ये स्थान (अंगीकृत-धर्मकर्मणां अस्माकं) धार्मिक कार्योंको स्वीकार करनेवाले हमलोगोंको भी मंगल करनेवाले हों ।

जिनपतयस्तत्प्रतिमास्तदालयास्तन्निषद्यका स्थानानि ।

ते ताश्च ते च तानि च भवन्तु भवघातहेतवो भव्यानाम् ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थः— (जिनपतयः) चौबीस तीर्थकर (तत्प्रतिमाः) उनकी प्रतिमा (तदालयाः) उनके जिनालय (तन्निषद्यकास्थानानि) उनके निर्वाण क्षेत्र (ते च ताः च ते च तानि) वे जिनेन्द्र, वे जिनप्रतिमाए, वे जिनालय और वे निर्वाणभूमियां (भव्यानां) भव्यजीवोंको (भवघातहेतवः) संसार नाशका कारण (भवन्तु) होओ ।

तीनों समय नदीश्वरभक्ति करनेका फल—

संध्यासु तिसृषुनित्यं पठेद्यदि स्तोत्रमेतदुत्तमयशसांम् ।

सर्वज्ञानां सार्वं लघु लभते श्रुतधरेडितं पदममितम् ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थः— ('य.') जो (उत्तमयशसां) जिनका यश संसारमें उत्तम है ऐसे (सर्वज्ञाना) भगवान् सर्वज्ञदेवका (एतत् स्तोत्रं) यह स्तोत्र (यदि) यदि (नित्यं) सदैव (तिसृषुसंध्यासु) तीनों संध्यासमय—प्रातःकाल, मध्याह्न-काल, सायंकाल (पठेत्) पढ़ता है—वह (लघु) शीघ्र ही (सार्वं) समस्त जीवोंका कल्याण करनेवाले (श्रुतधरेडितं) गणधर देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे (अमितं पदं लभते) अनन्त काल तक रहनेवाले मोक्षपदको प्राप्त करता है ।

अरहंतोंके शरीर सम्बन्धी दश अतिशय—

नित्यं निःस्वेदत्वं निर्मलता क्षीरगौररुधिरत्वं च ।

स्वाद्याकृतिसंहनने सौरूप्यं सौरभं च सौलक्ष्यम् ॥ ३८ ॥

अप्रमितवीर्यता च प्रियहितवादित्वमन्यदमितगुणस्य ।

प्रथिता दशविख्याता स्वतिशयधर्माः स्वयंभुवो देहस्य ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थः— (नित्यं निःस्वेदत्वं) कमी शरीरमें पसीना न आना (निर्मलता) मलमूत्र नहीं होना (च क्षीरगौररुधिरत्वं) दूधके समान सफेद रुधिरका होना (स्वाद्याकृतिसंहनने) समचतुरस्र सस्थान, वज्रवृषभनाराचसंहनन होना (सौरूप्य) अत्यन्त सुन्दर शरीर होना (च सौरभ) सुगन्धमय शरीर होना (सौलक्ष्यं) शरीरपर उत्तम लक्षणोंका होना (१००८ लक्षण) (अप्रमित-वीर्यता) अनन्तवीर्य होना (च प्रियहितवादित्वं) हितकारी एवं मधुर वचनोंका निकलना ('इति' प्रथिता स्वतिशयधर्माः) ये प्रसिद्ध-विख्यात स्वाभाविक अतिशय (अन्यत् अमितगुणस्य) अन्य अनन्त गुणोंको धारण करनेवाले (स्वयं-भुवः देहस्य) तीर्थकरदेवके शरीरमें (दशविख्याताः) दश प्रकारके कहे गये हैं ।

केवलज्ञानके दश अतिशय—

गव्यूतिशतचतुष्टयसुमिक्षतागगनगमनमप्राणिवधः ।

भुक्त्युपसर्गाभावश्चतुरास्यत्वं च सर्वविद्येश्वरता ॥ ४० ॥

अच्छायत्वमपक्ष्यस्पन्दश्च समप्रसिद्धनखकेशत्वं ।

स्वतिशयगुणा भगवतो घातिक्षयजा भवन्ति तेऽपि दशैव ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थः— (गव्यूति 'शतचतुष्टयसुमिक्षतागगनगमनमप्राणि'वधः)

चारसौ कोशतक सुमिक्षता होना—दुष्काल का न पड़ना, आकाशमें गमन करना, किसी जीवको बाधा न पड़ना (भुक्त्युपसर्गाभावः^३) कवलाहार प्रहण न करना, किसी प्रकारका उपसर्ग न होना (चतुरास्यत्वं^४) चारों दिशाओंमें चार मुखका दिखाई देना (च सर्वविद्येश्वरता) समस्त विद्याओंका ईश्वरपना प्रगट

१-गव्यूतिः—क्रोशमेकं ।

२-अप्राणिवधः—जीवघाताभावः ।

३-भुक्त्युपसर्गाभावः—भुक्तिः,— भोजनं, कवलाहारः । उपसर्गः उपद्रवः तयोरभावः ।

४-चतुरास्यत्वं—चतुर्मुखत्वं ।

होना (अञ्छायत्वं^१) शरीरकी छायाका न पड़ना (अपद्मस्पदः^२) नेत्रों का टिमकारा न लगना (च समप्रसिद्धनखकेशत्वं) और नखकेशोंका न बढ़ना ये (स्वतिशयगुणाः) स्वाभाविकगुण (भगवतः) भगवान् तीर्थंकर परमदेव के (घातिक्षयजाः) घातिया कर्मोंके नाश होनेपर (तेऽपि दशएव भवन्ति) दश ही होते हैं । अर्थात् केवलज्ञानके ये अतिशय भी दश ही होते हैं ।

देवकृत चौदह अतिशय—

सार्वाधर्मागधीया भाषा मैत्री च सर्वजनताविषया ।

सर्वर्तुफलस्तत्रकप्रवालकुसुमोपशोभिततरुपरिणामा ॥ ४२ ॥

आदर्शतलप्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा ।

विहरणमन्वेत्यनिलः परमानन्दश्च भवति सर्वजनस्य ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थः— (सार्वार्धर्मागधीया भाषा) समस्त जीवोंका कल्याण करनेवाली भगवानकी दिव्यध्वनिका अर्धमागधी भाषा रूप होना (च सर्वजनताविषया मैत्री) समवशरणमें आनेवाले समस्त प्राणियोंका अपना जन्मसे होनेवाला वैर विरोध छोड़कर मैत्री भावसे रहना (सर्वर्तुफलस्तत्रकप्रवालकुसुमोपशोभिततरुपरिणामाः) वहां की पृथ्वीके वृक्षोंका छहों ऋतुओंमें होनेवाले फल, गुच्छे, पत्ते और फूलों से सुशोभित होना (च मही रत्नमयी मनोज्ञा आदर्शतलप्रतिमा जायते) वहां की पृथ्वीका रत्नमयी, सुन्दर, दर्पण-समान अत्यंत निर्मल होना (अनिलयः विहरण मन्वेति) भगवान् जिस दिशाकी ओर विहार करते हैं-वायुका भी उसी दिशाकी ओर बहना (च सर्वजनस्य परमानन्दः भवति) बहापर आनेवाले समस्त जीवोंको महा आनन्द का होना ।

मरुतोऽपि सुरभिगंधव्यामिश्रा योजनान्तरं भूभागं ।

व्युपशमितधूलिकंटकतृणकीटकशर्करोपलं प्रकुर्वन्ति ॥ ४४ ॥

तदनु स्तनितकुमारा विद्युन्मालाविलासहासविभूषाः ।

प्रकिरन्ति सुरभिगंधिं गधोदकवृष्टिमाज्ञया त्रिदशपतेः ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थः— (सुरभिगंधव्यामिश्रा मरुतः अपि योजनान्तरं भूभागं व्युपशमितधूलिकंटकतृणकीटकशर्करोपलं प्रकुर्वन्ति) जहां भगवान् विहार करते हैं

१-अञ्छायत्वं—प्रतिबिम्बरहितता ।

२-अपद्मस्पदः—चक्षुः पद्मणा चलनाभावः ।

वहां पर सुगंधसे मिली हुई वायु एक योजनतककी भूमिको धूल, काटे, तृण, कीड़े और बालू रेती, पत्थर—आदिको हटाकर स्वच्छ कर देती है (तदनु विद्यु-न्मालाविलासहासविभूषाः स्तनितकुमाराः त्रिदशपतेः आज्ञया सुरभिगंधि गंधो-दकवृष्टिं प्रकिरंति) उसके अनन्तर विजलीकी चमचमार और बादलोंकी गर्जना ही जिनके आभूषण हैं ऐसे स्तनितकुमार जातिके देव इन्द्रकी आज्ञासे सुगंधसे मिली हुई गंधोदकवृष्टि करते हैं ।

वरपद्मरागकेसरमतुलसुखस्पर्शहर्ममयदलनिचयम् ।

पादन्यासे पद्मं सप्त पुरः पृष्ठतश्च सप्त भवन्ति ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थः— (वरपद्मरागकेसरं अतुलसुखस्पर्शहर्ममयदलनिचयं पद्मं पादन्यासे सप्त पुरः च सप्त पृष्ठतः भवन्ति) उत्तम पद्मरागमणियोंका जिसमें केशर है, जिनका स्पर्श अत्यन्त सुखकर है, सुवर्णमय जिनके पत्ते हैं ऐसे कमल भगवान्के पादन्यासके—चरण रखनेके समय—चलते समय सात कमल आगे सात कमल पीछे होते हैं ।

भावार्थ—भगवान् तीर्थकर परमदेव जब विहार करते हैं तब देव उन चरण कमलके नीचे कमलोंकी रचना करते हैं । एक कमल चरण कमलके नीचे रहता है, सात आगे होते हैं और सात पीछे होते हैं । इस प्रकार सब पन्द्रह कमल होते हैं । अथवा 'च' शब्दसे अन्य समस्त कमलोंकी सख्या ले लेनी चाहिये । सब कमल दोसौ पच्चीस होते हैं । एक कमल भगवान्के चरण कमलके नीचे रहता है । सात सात कमल आठो दिशाओंमें तथा उन आठों दिशाओंके मध्य के आठों भागोंमें रहते हैं । इस प्रकार एकसौ तेरह कमल होते हैं तथा उन सोलह पंक्तियोंके मध्यभागमें सात सात कमलोंकी पंक्ति और होती है । इस प्रकार एकसौ बारह कमल ये होते हैं । सब मिलाकर दोसौ पच्चीस कमल होते हैं । अथवा यों समझ लेना चाहिये कि एक कमल भगवान्के चरण कमल के नीचे रहता है । सात कमल आगे होते हैं, सात कमल पीछे होते हैं । ये सब पन्द्रह कमल होते हैं । इनमेंसे एक एक कमलके दाईं ओर सात सात कमल होते हैं और बाईं ओर भी सात सात कमल होते हैं । इस प्रकार पन्द्रह मध्यके कमल तथा एकसौ पांच दाईं ओरके कमल और एकसौ पांच बाईं ओर के कमल होते हैं । सब मिलाकर दोसौ पच्चीस हो जाते हैं ।

फलभारनम्रशालित्रीह्यादिसमस्तसस्यधृतरामांचा ।

परिहृषितेव च भूमिस्त्रिभुवननाथस्य वैभवं पश्यन्ती ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थः—(त्रिभुवननाथस्य वैभवं पश्यन्ती परिहृषिता एव च भूमिः फलभारनम्रशालित्रीह्यादिसमस्तसस्यधृतरामांचा) तीनलोकके नाथ भगवान् के वैभवको देखकर मानो हर्षित ही हो रही है इस प्रकार पृथिवी फलोंके भारसे नम्रित और शालि आदि समस्त धान्यके निमित्तसे रोमाचित हुई के समान दिखती है ।

शरद्दुदयविमलसलिलं सर इव गगन विराजते विगतमल ।

जहति च दिशस्त्रिमिरिकां विगतरजःप्रमृतिजिह्वताभावं सद्यः ॥४८॥

अन्वयार्थः— (शरद्दुदयविमलसलिलं सर इव विगतमलं गगनं विराजते दिशः तिमिरिकां च जहति, सद्यः विगतरजःप्रमृतिजिह्वताभावं) उस समय शरद ऋतुमेंके आनेसे जिसका जल अत्यन्त निर्मल हो गया है ऐसे सरोवरके समान निर्मल आकाश (बादल आदि सब दोषोंसे रहित) शोभित होता है, समस्त दिशाएँ अंधकारको छोड़ देती हैं, धूल रहित हो जाती हैं, और मी सब तरहकी मलिनता से रहित होकर शीघ्र ही निर्मल हो जाती हैं ।

एतेतेति त्वरितं ज्योतिर्व्यन्तरदिवौकसाममृदभुजः ।

कुलिशभृदाज्ञापनया कुर्वत्यन्ये समन्ततो व्याह्वानम् ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थः— (ज्योतिर्व्यन्तरदिवौकसां अन्ये अमृतभुजः कुलिशभृदाज्ञापनया समन्ततः एत एत इति त्वरितं व्याह्वानं कुर्वति) ज्योतिषीदेव, व्यन्तरदेव, कल्पवासीदेव और भवनवासीदेव इन्द्रकी आज्ञा से चारों ओर परस्पर 'आओ, आओ' इस प्रकार शोभता से बुलाते हैं ।

स्फुरदरसहस्ररुचिरं विमलमहारत्नकिरणनिकरपरीतम् ।

प्रहसितकिरणसहस्रद्युतिमण्डलमग्रगामि धर्मसुचक्रम् ॥ ५० ॥

अन्वयार्थः— (स्फुरत् अरसहस्ररुचिरं विमलमहारत्नकिरणनिकरपरीतं प्रहसितकिरणसहस्रद्युतिमण्डलं धर्मसुचक्रं अग्रगामि) जो दैदीप्यमान एक हजार आरों से शोभित है, चारों ओर अत्यन्त निर्मल महारत्नोंकी किरणों के समूहसे शोभायमान है, जो अपनी कांतिसे सूर्यकी कांतिको मी हंसती है—तिरस्कृत करता है ऐसा धर्मचक्र भगवान्के विहार करते समय सबसे आगे आगे चलता है ।

इत्यष्टमंगलं च खादर्शप्रभृति भक्तिरागपरीतैः ।

उपकल्पप्यन्ते त्रिदशैरेतेऽपिनिरुपमातिशेषाः ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थः—इति खादर्शप्रभृति अष्टमंगलं च भक्तिरागपरीतैः त्रिदशैः
निरुपमातिशेषाः एतेऽपि उपकल्प्यन्ते) इसीप्रकार अर्थात् धर्मचक्रके समान
दर्पण आदि आठ मंगलद्रव्य भी भगवानके आगे रहते हैं । भक्तिके राग से
सुशोमित देव इन उपमा रहित १४ अतिशयोको धारण करते हैं ।

जन्मके १०, केवलज्ञानके १० और देवकृत १४ अतिशय इसप्रकार सब
३४ अतिशयोंका वर्णन किया ।

आठ प्रातिहार्योंका वर्णन—

—अशोकवृक्ष—

वैद्ध्यरुचिरविटपप्रवालमृदुपल्लवोपशोमितशाखः ।

श्रीमानशोकवृक्षो वरमरकतपत्रगहनबहलच्छायः ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थः—(वैद्ध्यरुचिरविटपप्रवालमृदुपल्लवोपशोमितशाखः) जिसका
विस्तार वैद्ध्यर्मणिकी कांतिके समान अत्यन्त सुन्दर है, जिसकी शाखाएँ नवीन
अंकुरोंसे और कोमल पत्तोंसे सुशोमित है (वरमरकतपत्रगहनबहलच्छायः)
उत्तम मरकतमणिके समान जिसके हरे पत्ते हैं, पत्तोंके अधिक होनेसे जिसकी
छाया बहुत बड़ी और घनी है ऐसा अनेक प्रकारकी शोभासे सुशोमित (श्रीमान-
शोकवृक्षः) श्री जिनेन्द्र भगवानके पास होनेवाला शोभनीक 'अशोकवृक्ष'
होता है ।

पुष्पवृष्टि—

मंदारकुन्दकुवलयनीलोत्पलकमलमालतीबकुलाद्यैः ।

समदभ्रमरपरीतैर्व्यामिश्रा पतति कुसुमवृष्टिर्नभसः ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थः—(समदभ्रमरपरीतैः) जिसके चारों ओर मदोन्मत्त भ्रमर फिर
रहे हैं ऐसे (मदारकुन्दकुवलयनीलोत्पलकमलमालतीबकुलाद्यैः) मंदार, कुन्द,
पत्रिविकासी कमल, नील कमल, श्वेत कमल, मालती, बकुल आदि (व्यामिश्रा)
मेले हुये पुष्पों द्वारा (नभसः) आकाश से (कुसुमवृष्टिः पतति) सदा पुष्प-
वृष्टि होती रहती है ।

चामर

कटकटिसूत्रकुण्डलकेयूरप्रभृतिभूषितांगौ स्वंगौ ।

यक्षौ कमलदलाक्षौ परिनिक्षिपतः सलीलचामरयुग्मम् ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थः— (कटकटिसूत्रकुण्डलकेयूरप्रभृतिभूषितांगौ) कड़े, करधनी-कदोरा, कुण्डल, बाजूबंद आदि आभूषणोंसे जिनके शरीर सुशोभित हो रहे हैं, (स्वंगौ) स्वाभाविक रीतिसे जिनके अंग सुन्दर हैं (कमलदलाक्षौ) और कमल के दलके समान जिनके सुन्दर नेत्र हैं ऐसे (यक्षौ) दो यक्ष (सलीलचामर-युगलं) आनन्द पूर्वक-लीलापूर्वक दो चमरों को (परिनिक्षिपतः) ढोरते रहते हैं ।

भामंडल—

आकस्मिकमिव युगपद्दिवसकरसहस्रमपगतव्यवधानम् ।

भामंडलमविभावितरात्रिंदिवभेदमतितरामाभाति ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थः— (आकस्मिक इव युगपद्दिवसकरसहस्रं अपगतव्यवधानं अविभावितरात्रिंदिवभेदं भामंडलं मतितरां आभाति) अकस्मात्—सहसा मानो एक साथ हजारों सूर्य व्यवधान रहित उदय हुये हों, रात्रिदिनका भेद भी जिससे नष्ट हो जाता है ऐसा भामंडल अत्यन्त दैदीप्यमान होता रहता है ।

दुंदुभिवाद्य—

प्रबलपवनाभिघातप्रक्षुभितसमुद्रघोसमंद्रध्वानम् ।

दंध्वन्यते सुवीणावंशादिसुवाद्यदुंदुभिस्तालसमम् ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थः— (प्रबलपवनाभिघातप्रक्षुभितसमुद्रघोषमन्द्रध्वानम्) प्रबल वायुके घातसे शोभित हुये समुद्रके गभीर शब्दके समान जिनके मनोहर शब्द हो रहे हैं ऐसे (सुवीणावंशादिसुवाद्यदुंदुभिः तालसमं दंध्वन्यते) बीणा, वंशी-त्रसरी आदि सुन्दर बाजोंके साथ दुंदुभि बाजे तालके साथ बड़ी मनोहर ध्वनि से बजते रहते हैं ।

तीन छत्र—

त्रिभुवनपतितालाञ्जनमिंदुत्रयतुल्यमतुलमुक्ताजालम् ।

छत्रत्रयं च सुवृहद्वैडूर्यविकल्पदंडमधिकमनोज्ञम् ॥ ५७ ॥

अन्वयार्थः— (त्रिभुवनपतितालाञ्जनं) जो तीनों लोकोके स्वामीपने के

[२२२]

विद्ध हैं, (इन्दुत्रयतुल्यं) जो ऊपर नीचे रखे हुये तीन चन्द्रमाश्रुके समान हैं (अतुलमुक्ताजालं) जिनमें उपमा रहित अनेक मोनियोंकी झालरें लगी हुई हैं (अधिकमनोज्ञं) जो बहुत ही मनोज्ञ हैं—मनोहर है (सुवृहद्वैडूर्यविकलुप्त-दंडं) और जिनके दंड बड़ी-बड़ी वैडूर्य मणियोंके बने हुये हैं ऐसे (छत्रत्रयं च) तीन छत्र भी भगवानके ऊपर सदा सुशोभित होते रहते हैं ।

दिव्यध्वनि—

ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोत्रहृदयहारिगभीरः ।

ससलिलजलधरपटलध्वनितमिव प्रवितान्तराशावलयम् ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थः—(ससलिलजलधरपटलध्वनित इव) पानीसे भरे हुये बादलों की गर्जनाके समान (प्रवितान्तराशावलयं) समस्त दिशाश्रुके समूहमें व्याप्त श्रोत्रहृदयहारिगभीरः) और कानोंको तथा मनको अत्यन्त सुख देनेवाली (ध्वनिः अपि एकं योजनं प्रजायते) ऐसी भगवान्की दिव्यध्वनि एक योजन तक पहुँचती है ।

सिंहासन—

स्फुरितांशुरत्नदीधितिपरिविच्छुरितामरेन्द्रचापच्छायम् ।

ध्रियते मृगेन्द्रवर्यैः स्फटिकशिलाघटितसिंहविष्टरमतुलम् ॥ ५९ ॥

अन्वयार्थः—(स्फुरितांशुरत्नदीधितिपरिविच्छुरितामरेन्द्रचापच्छाय) जिन की किरणों चारों ओर फैल रही हैं ऐसे रत्नोंकी किरणोंसे जिसने इन्द्र धनुष भी अनेक रंगका बना दिया है ऐसा (अतुल) ३ नुपम (स्फटिकशिलाघटितसिंह विष्टरं) स्फटिक पाषाणका बनाया हुआ अत्यन्त उत्कृष्ट सिंहासन (मृगेन्द्र-वर्यैः) सिंहोंके द्वारा (ध्रियते) धारण किया जाता है ।

यस्येह चतुस्त्रिंशत्प्रवरगुणा प्रातिहार्यलक्ष्यम्यश्वाष्टौ ।

तस्मै नमो भगवते त्रिभुवनपरमेश्वरार्हते गुणमहते ॥ ६० ॥

अन्वयार्थः—(यस्य इह) जिनके इसप्रकार (चतुस्त्रिंशत्प्रवरगुणाः) उत्तम गुणोंको धारण करनेवाले चौतीस अतिशय हैं (च अष्टौ प्रातिहार्यलक्ष्यः) और आठ प्रातिहार्य की विभूतियाँ हैं, जो (गुणमहते) गुणोंसे पूज्य हैं (त्रिभुवनपरमेश्वरार्हते) तीनों लोकोंके परमेश्वर हैं, केवलज्ञानसे सुशोभित हैं ऐसे (तस्मै भगवते नमः) उन भगवान् अरहंत प्रभुके लिये नमस्कार हो ।

[२२३]

इसके आगे कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

आलोचना-- -

इच्छामि भंते ! पंढीसरभक्तिकाउत्सर्गो कहो तस्सा लोचउं । पंढी-
सरदीवम्मि, चउदिसविदिसासु अंजणदधिमुहरदिकरपुरुणगवरेसु जाणि
जिणचेइयाणि ताणि सव्वाणि तीसुवि लोएसु भवगवासियवाणवितरजोइ-
सिकप्यवासियत्ति चउविहा देवा सपरिवारा दिव्वेहि गंधेहि, दिव्वेहि
पुप्फेहि; दिव्वेहि धुव्वेहि, दिव्वेहि चुण्णेहि. दिव्वेहि वासेहि, दिव्वेहि
ण्हाणेहि आषाढकत्तियफागुणमासाणं अट्टमिमाइं काउण जाव पुण्णिमंति
णिच्चकालं अंचंति, पूजंति, वंदंति, णमंसंति । पंढीसरमहाकल्लाणं करंति
अहमवि इह संतो तत्थसंताइं णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि,
दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, वोहिलाहो, सुगइगमणं, जिणगुणसंपत्तिहोऊ
मज्झं ।

अर्थ—हे भगवन् ! मैं नदीश्वरभक्ति कर कायोत्सर्ग करता हूँ । इसमें जो
दोष हुए हों उनकी आलोचना करना चाहता हूँ तन्दीश्वरद्वीपमें चारों दिशाओं
में तथा निदिशाओंमें अंजनगिरि, दधिमुख, रतिकर पर्वत हैं । चारों दिशाओं
में श्यामवर्णके चार अंजनगिरि पर्वत हैं । एक एक अंजनगिरि पर्वतके चारो
ओर एक एक विशाल ब्रावडी है, उसके मध्यभागमें एक एक दधिमुख पर्वत
है । इस प्रकार एक अंजनगिरि सम्बन्धी चारों ब्रावडियोंमें चार ददिमुत्र हैं ।
उन चारों ब्रावडियों के चारों कोनों पर रतिकर हैं परंतु अकृत्रिम चैत्यालय
अंजनगिरिकी ओर मीतरी कोने पर हैं । इसलिये आठ रतिकरों पर ही चैत्या-
लय हैं तथा अंजनगिरि पर तथा चारों दधिमुखों पर चैत्यालय हैं । इस प्रकार
एक दिशामें तेरह चैत्यालय हैं । चारों दिशाओंमें ब्रावन चैत्यालय हैं । तीनों
लोकोमें रहनेवाले भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी और कल्पवासी चारो प्रकार
के देव सपरिवार आते हैं और आषाढ, कार्तिक. फाल्गुन महीनेकी शुक्ला अष्टमी
से लेकर पौर्णमासीपर्यंत दिव्यगंध, दिव्यपुष्प, दिव्यधूप, दिव्यचूर्ण, दिव्यबल
और दिव्य अमिषेक से सदा अर्चा करते हैं, पूजा करते हैं. वंदना करते हैं.
और नमस्कार करते हैं । इसप्रकार नन्दीश्वर पर्वका महाउत्सव करते हैं । मैं
यहां रहकर ही उत्सरीतिसे सदा अर्चा करता हूँ. पूजा करता हूँ, वंदना करता

हूं और नमस्कार करता हूं। मेरे दृःखोंका नाश हो, कर्मोंका नाश हो, मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो और भगवान् जिनन्द्रदेवके गुणोंकी प्राप्ति हो।

इति नन्दीश्वरभक्तिः ।

अथ क्षेपकश्लोकानि ।

गत्वा चितेर्वियति पञ्चसहस्रदण्डान् । सोपानविंशतिसहस्रविराज-
माना ॥ रेजे सभा धनदयक्षकृता यदीया तस्मै नमस्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय
॥ १ ॥ शालोऽथ वेदिरथवेदिरतोऽपि शालो, वेदी च शाल इह वेदिर-
तोऽपि शालः ॥ वेदी च भाति सदसि क्रमतो यदीये तस्मै नगस्त्रिभुवन-
प्रभवे जिनाय ॥ २ ॥ प्रासादचैत्यनिलयाः परिखात वल्लिः । प्रोद्यान-
केतुसुरवृक्षगृहांगणाश्च ॥ पीठत्रयं सदसि यस्य सदा विभाति । तस्मै नम-
स्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय ॥ ३ ॥ मालामृगेन्द्रकमलांबरवैनतेय-मातंगगोप-
तिरथांगमयूरहंसाः ॥ यस्य ध्वजा विजयिनो भुवने विभाति । तस्मै नम-
स्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय ॥ ४ ॥ निर्ग्रथकल्पवनितात्रतिका भभौभनागस्त्रियो
भवनभौमभकल्पदेवाः । कोष्ठस्थिता नृपशवोऽपि नमन्ति यस्य तस्मै नम-
स्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय ॥ ५ ॥ भाषाप्रभावलयविष्टरपुष्पवृष्टिः पिंडिद्रुम-
स्त्रिदशदुंदुमिचामराणि । छत्रत्रयेण सहितानि लसन्ति यस्य तस्मै नमस्त्रि-
भुवनप्रभवे जिनाय ॥ ६ ॥ भृंगारतालकलशध्वजसुप्रतीक-श्वेतातपत्र-
वरदर्पणचामराणि ॥ प्रत्येकमष्टशतकानि विभाति यस्य तस्मै नमस्त्रिभुवन-
प्रभवे जिनाय ॥ ७ ॥ स्तंभप्रतोलिनिधिमार्गतडागवापी क्रीडाद्रिधूपघट-
तोरणनाट्यशालाः । स्तूपाश्च चैत्यतरवो विलसन्ति यस्य तस्मै नमस्त्रिभु-
वनप्रभवे जिनाय ॥ ८ ॥ सेनापतिस्थपतिहर्म्यपतिद्विपाश्च स्त्रीचक्रचर्म-
मणिकाकिणिकापुरोधाः । छत्रासिदंडपतयः अणमन्ति यस्य तस्मै नमस्त्रि-
भुवनप्रभवे जिनाय ॥ ९ ॥ पद्मःकालो महाकालः सर्वरत्नश्च पांडुकः ।

[२२५]

नैसर्गो माणवःशङ्खः पिंगला निधयो नव ॥ एतेषां पतयः प्रणमंति यस्य
तस्मै नमस्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय ॥ १० ॥ खवियघणघाइकम्मा चउती-
सातिसयविसैसपञ्चकह्लाणा । अट्टवरपाडिहेरा अरहंता मङ्गला मज्झं ॥११॥

चैत्यभक्तिः ।

हरिणी छन्दः—

जयति^१ भगवान्^२ हेमाम्भोजप्रचारविजृम्भिता—
वमरमुकुटच्छायोद्गीर्णप्रभापरिचुम्बितौ^३ ।

कलुषहृदया^४ मानोद्धान्ताः^५ परस्परवैरिणः,^६

विगतकलुषाः^७ पादौ यस्य प्रपद्यविश्वसुः^८ ॥ १ ॥

अन्वयार्थः— (हेमाम्भोजप्रचारविजृम्भितौ) स्वर्णके कमलोंपर दूसरे मनुष्योंके लिये असंभव ऐसे क्रमसे पैर रखनेके क्रमसे रहित जिनका गमन शोभा-
यमान होता है और (वमरमुकुटच्छायोद्गीर्णप्रभापरिचुम्बितौ) देवोंके मुकुटो
में लगे हुये मणियोंसे जो प्रभा निकलती है उसके संयोगसे जिनके चरण स्पर्श
किये गये हैं ऐसे (यस्य) जिन जिनेन्द्र भगवान्के (पादौ) दोनों चरणकमलों
का (प्रपद्य) आश्रय लेकर (कलुषहृदयाः) क्रूर हृदयवाले (मानोद्धान्ताः)
अहंकारभावके कारण आत्मस्वभावसे च्युत हुए (परस्परवैरिणः) परस्परमें
वैर रखनेवाले सर्प नौला आदिक जीव (विगतकलुषाः) वैरभावसे रहित होकर
(विश्वसुः) परस्पर विश्वासको प्राप्त होते हैं वे (भगवान्) श्री जिनेन्द्र भग-
वान् (जयति) जयवन्त होओ ।

१—सर्वोत्कर्षण वर्तते ।

२—इन्द्रादीना पूज्यः केवलज्ञानसम्पन्नो वा ।

३—संक्लिष्टौ, आलिङ्गिनौ ।

४—क्रूरमनसाः

५—मानेनाहंकारेण स्तब्धत्वेन उत्क्रान्ताः, यथावदात्मस्वरूपात्प्रच्यविताः ।

६—अहिनकुलादयः ।

७—विनष्टक्रूरभावाः ।

८—विश्वासं गताः ।

विशेष—भगवान् अरहंतदेव जब विहार करते हैं तब आगे पीछे पैर रखते हुये नहीं चलते किंतु दोनों चरण कमल समान रखते हुये-एक साथ उठाते हुये विहार करते हैं । वे आकाश में विहार करते हैं । चरण कमलों के नीचे देव लोग सुवर्णमय कमलोंकी रचना करते जाते हैं । उस समय भगवान्के चरण कमलों की शोभा बड़ी ही अच्छी जान पड़ती है ।

तदनु जयति श्रेयान्धर्मः प्रवृद्धमहोदयः ।

कुगतिविपथक्लेशाद्यसौ विपाशयति प्रजाः ।

परिणतनयस्यांगीभावाद्विविक्तविकल्पितम्,

भवतु भवतस्त्रातृ त्रेधा जिनेन्द्रवचोऽमृतम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थः— (तदनु) श्री अरहंत परमेष्ठीको नमस्कार करने के बाद (श्रेयान्) अत्यंत प्रशंसनीय—स्वर्गादिक पदकी प्राप्ति रूप (प्रवृद्धमहोदयः) जिसका उदय अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हो गया है (कुगतिविपथक्लेशाद्यः^१) नरकादि दुर्गति, मिथ्यादर्शन आदि खोटे मार्ग और दुःखोंसे (प्रजाः^२) जो समस्त प्रजाको (विपाशयति^३) छुड़ाता है (असौ धर्मः^४) ऐसा जिनधर्म (जयति) चिरकाल तक जयशील होओ । (परिणतनयस्य^५ अंगीभावात्) द्रव्यार्थिकनयको गौणकरके-पर्यायार्थिकनयको मुख्य करके (विविक्तविकल्पितं*) गणधरादिके द्वारा रचे गये (त्रेधा) तीन प्रकारके—उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप अथवा अंग, पूर्व, अंगबाह्यस्वरूप (जिनेन्द्रवचः अमृतं) जिनेन्द्र भगवान्के वचनरूपी अमृत (भवतः) आप लोगोंको (त्रातृ^६ भवतु) संसारसे पार करने वाले-संसारके दुःखोंसे बचानेवाले होओ ।

तदनु जयताञ्जैनी वित्तिः प्रभंगतरंगिणी ।

प्रभवविगमध्रौव्यद्रव्यस्वभावविभाविनी ॥

१—कुत्सिता गतिः कुगतिः । विरूपकः पंथाः—विपथो मिथ्यादर्शनादिः । क्लेशो दुःखं ।

२—लोकान् । ३—पाशाद्विमोचयति ।

४—नरकादिषु गतिषु पततः प्राणिनो घर्ततीति धर्म उत्तमत्तमादिलक्षणश्चारित्रस्वरूपो वा ।

५—विविधपर्यायरूपतया परिणमते यत्तत्परिणतं द्रव्यमुच्यते तत्र नयः परिणतनयो द्रव्यार्थिकनयः तस्य अङ्गीभावात् अप्रधानभावात् पर्यायार्थिकनयप्राधान्यादित्यर्थः ।

गणधरादिभिः रचितं । * ६—त्रातृ—रत्नकं ।

निरुपमसुखस्येदं द्वारं विघटय निरर्गलम् ।

विगतरजसं मोक्षं देयान्निरत्ययमव्ययम् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ— (तदनु) तत्पश्चात् (प्रभंगतरंगिणी) जिसमें 'स्यादस्ति, स्यान्नास्ति' इत्यादि मगरूपी तरंगे उठती हैं—(प्रभवविगमध्रौव्यद्रव्यस्वभावविभाविनी) जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यस्वरूप द्रव्यके स्वभावको प्रकाशित करने वाला है ऐसा (जैनी वित्तिः) यह जिनेन्द्रदेव संबन्धी केवलज्ञान (जयतात्) जयवन्त होओ—मति ज्ञानादिककी अपेक्षा उत्कर्षरूप से रहो । (इदं) इस प्रकार अरहंतदेव, वीतरागधर्म, स्याद्वादरूप वाणी और केवलज्ञान स्तुति किये गये थे चारों (निरुपमसुखस्य द्वारं) निरुपमसुखके द्वाररूप (मोक्षं) मोक्षको (निरर्गलं) अर्गल रहित—खुले हुये कपाटयुगलके समान मोहनीयकर्मको व अंतरायकर्मको (विघटय) नाश करके (निरत्ययं, अव्ययं, विगतरजसं) व्याधि रहित, अविनाशी, ज्ञानावरणी दर्शनावरणीकर्म रहित (देयात्) मोक्षपदको देवें ।

आर्या—

अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः ।

सर्वजगद्बंधेभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः— (सर्वजगद्बंधेभ्यः) तीनों लोकोंके समस्त प्राणियो द्वारा वंदनीय (सर्वत्र सर्वेभ्यः अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायेभ्यः तथा च साधुभ्यः) सब स्थानोंके समस्त अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्यायोंको और समस्त साधुवोंको (नमोऽस्तु) नमस्कार हो ।

अरहंतदेवको पुनः नमन—

मोहादिसर्वदोषारिघातकेभ्यः सदाहतरजोभ्यः ।

विरहितरहस्कृतेभ्यः पूजार्हेभ्यो नमोऽर्हद्भ्यः ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—(मोहादिसर्वदोषारिघातकेभ्यः) मोहादि सर्व दोषोंको घात करनेवाले (सदाहतरजोभ्यः) सर्वदाके लिये जिन्होंने ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण कर्मका नाश कर दिया है (विरहितरहस्कृतेभ्यः) अंतरायकर्मका भी जिन्होंने नाश कर दिया है (पूजार्हेभ्यः) इन्द्रादिक देवोंसे पूजनीक ऐसे (अर्हद्भ्यः नमः) अरहंतोंको नमस्कार हो ।

[२२८]

धर्मको नमस्कार—

क्षान्त्यार्जवादिगुणगणसुसाधनंसकललोकहितहेतुम् ।

शुभधामनि धातारं वंदे धर्म जिनेन्द्रोक्तम् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः— (क्षान्त्यार्जवादिगुणगणसुसाधनं) उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि दश धर्मरूपी गुणोंके समूहका जो साधन हैं, (सकललोकहित-हेतुं) समस्त प्राणियोंके जो हितका कारण है (शुभधामनि धातारं) जो, उत्तम स्थान जो मोक्ष उसमें रखनेवाला है ऐसे (जिनेन्द्रोक्तं) भगवान् जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुये (धर्म वंदे) धर्मको नमस्कार करता हूँ ।

जिनवाणीकी स्तुति—

मिथ्याज्ञानतमोवृतलोकैकज्योतिरमितगमयोगि ।

सांगोपांगमजेयं जैनं वचनं सदा वंदे ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः— (मिथ्याज्ञानतमोवृतलोकैकज्योतिः) जो मिथ्याज्ञानरूपी अंधकारसे आच्छादितसे लोगोंको अद्वितीय ज्योतिरूप है (अमितगमयोगि) असंख्यातरूप समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाला जो श्रुतज्ञान उसका जिस जिनवाणीके साथ कार्यकारणभावसम्बन्ध है (सांगोपांगं) जो आचारादि अंग और पूर्व वस्तु आदिक उपांगसे युक्त है (अजेयं) एकांतवादियोंके द्वारा जो जीता नहीं जा सकता ऐसे (जैन वचनं) जिनेन्द्रदेवके वचनोंको (सदा वंदे) सर्वदा वंदना करता हूँ ।

भगवान्की प्रतिमाको नमस्कार—

भवनविमानज्योतिर्व्यंतरनरलोकविश्वचैत्यानि ।

त्रिजगदभिवंदितानां त्रेधा वदे जिनेन्द्राणाम् ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः— (त्रिजगदभिवंदितानां) जिनको तीनों लोकोंके समस्त प्राणी नमस्कार करते हैं ऐसी (जिनेन्द्राणां) जिनेन्द्रदेव की (भवनविमान-ज्योतिर्व्यंतरलोकविश्वचैत्यानि) भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवोंके समस्तनिवासस्थानोंमें और मनुष्य लोकमें-मध्यलोकमें भी सब जगह विराजमान प्रतिमाएँ हैं उन सबको (त्रेधा) मन, वचन, कायसे वंदे नमस्कार करता हूँ ।

चैत्यालकी स्तुति—

भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयाधिपाभ्यर्च्यतीर्थकर्तृणाम् ।

वंदे भवाग्निशान्त्यै विभवानामालयालीस्ताः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः— (विभवानां^१) जो जन्ममरणरूप संसार से सर्वथा रहित हैं (भुवनत्रयाधिपाभ्यर्च्यतीर्थकर्तृणा) तीन लोकोके स्वामी जो देवेन्द्र, नरेन्द्र, धरणेन्द्र आदिके द्वारा सदापूज्य ऐसे तीर्थकर परमदेवके (यालयालीः) भवन चैत्यालय (भुवनत्रये अपि) इन तीन लोकोमें जितने हैं (ताः) उन सबको मैं (भवाग्निशान्त्यै) अनेक प्रकारके दुःखरूप संतापका कारण ऐसी संसाररूपी अग्निको शांत करनेके लिये (वंदे) नमस्कार करता हूँ ।

स्तुतिका उपसंहार तथा फल याचना—

इति पञ्चमहापुरुषाः प्रणुता जिनधर्मवचनचैत्यानि ।

चैत्यालयाश्च विमलां दिशन्तु बोधिं बुधजनेष्टाम् ॥ १० ॥

अन्वयार्थः— (इति) इसप्रकार (पञ्चमहापुरुषाः^२) पंच परमेष्ठियों की (जिनधर्मवचनचैत्यानि) जिनधर्म, जिनवचन जिनवाणी, जिनप्रतिमा (च चैत्यालयाः) और जिनालयोंकी (प्रणुता^३) स्तुतिकी है । अतः ये सब (विमलां^४) अत्यन्त निर्मल (बुधजनेष्टा^५) गणधरादिक विद्वानोंको भी इष्ट (बोधिं^६) ऐसे रत्नत्रयको (दिशन्तु^७) देवें ।

कृत्रिम-अकृत्रिम जिन प्रतिमाओंकी स्तुति—

अकृतानि कृतानि चाप्रमेयद्युतिमति द्युतिमत्सु मंदिरेषु ।

मनुजामरपूजितानि वंदे प्रतिर्विवा नि जगत्त्रये जिनानाम् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः— (जगत्त्रये) तीनों लोकोंमें (द्युतिमत्सु मंदिरेषु) अत्यन्त दैदीप्यमान समस्त जिनालयोंमें (जिनानां) भगवान् जिनेन्द्रदेवकी (मनुजामरपूजितानि) मनुष्य और देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे (अप्रमेयद्युतिमंति कृतानि च अकृतानि प्रतिर्विवा नि वंदे) अपार-अत्यन्त दैदीप्यमान कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाओंको नमस्कार करता हूँ ।

१-विनष्टसंसारणा ।

२-पंच परमेष्ठिनः ।

३-स्तुताः ।

४-निर्मला, न्यायिकी ।

५-गणधरदेवादयस्तेषामभिप्रेताम् ।

६-सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यप्राप्ति । ७-प्रयच्छंतु ।

द्युतिमण्डलभासुरांगयष्टीः प्रतिमा अप्रतिमा जिनोत्तमानाम् ।

भुवनेषु विभूतये प्रवृत्ता वपुषा प्राञ्जलिरस्मि वंदमानः ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—(द्युतिमण्डलभासुरांगयष्टीः) कातिमण्डलसे जिनका शरीर दैर्घ्यमान हो रहा है ऐसी (भुवनेषु प्रवृत्ताः) तीनो लोकोमें विराजमान (जिनोत्तमाना) देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान् की (वपुषा अप्रतिमाः प्रतिमाः) तेजसे या स्वस्वरूपसे उपमा रहित प्रतिमाओंको (विभूतये) अरहत आदि परमेष्ठियोकी विशेष विभूति प्राप्त करनेके लिये अथवा स्वर्ग, मोक्ष देनेवाले पुण्य की प्राप्तिके लिये (वंदमानः) नमस्कार करता हुआ (प्राञ्जलिः अस्मि) हाथ जोड़कर खड़ा होता हू ।

विगतायुधविक्रियाविभूषाः प्रकृतिस्थाः कृतिनां जिनेश्वराणाम् ।

प्रतिमाः प्रतिमागृहेषु कान्त्याप्रतिमाः कल्मषशान्तयेऽभिवंदे ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः—(कृतिना जिनेश्वराणा) कृतकृत्य जिनेन्द्र भगवान्की (विगतायुधविक्रियाविभूषाः) आयुध-शस्त्र, नानाप्रकारके विकार और अलकारों से रहित (प्रकृतिस्थाः) अपने स्वरूपमें स्थित (कान्त्या अप्रतिमाः) तेज-कांति से अतुल्य अनुपम (प्रतिमागृहेषु प्रतिमाः) ऐसी जिनालयमें स्थित प्रतिमाओंको (कल्मषशान्तये अभिवंदे) मैं अपने पापोको नाश करनेके लिये सन्मुख होकर वदना करता हू ।

कथयन्ति कषायमुक्तिलक्ष्मीं^१ परया^२ शान्ततया भवान्तकानाम् ।

प्रणमस्यभिरूपमूर्तिमंति^३ प्रतिरूपाणि^३ विशुद्धये^४ जिनानाम् ॥१४॥

अन्वयार्थः—(भवान्तकाना जिनाना) जन्ममरणरूप संसारको नाश करनेवाले भगवान् जिनेन्द्रदेवकी (अभिरूपमूर्तिमंति) चारों ओरसे अत्यन्त सुन्दरताको धारण करनेवाली (प्रतिरूपाणि) जो प्रतिमाएँ (परया शान्ततया) अपनी अत्यन्त शांतताके द्वारा (कषायमुक्तिलक्ष्मीं कथयन्ति) कषायोंके अभाव होनेसे प्राप्त होनेवाली अंतरगबहिरंग लक्ष्मीकी प्राप्तिको सूचित करती हैं, उन

१-कषायाणा मुक्तिरभाव. तस्याः लक्ष्मी-रूपत्ति ।

२-परमोपशांतमूर्त्या ।

३-प्रतिविंबानि ।

४-कर्ममलप्रक्षालनाय ।

प्रतिमाओंको (विशुद्धये) अपने कर्मरूपी मलको दूरकर आत्माको अत्यत विशुद्ध बनानेके लिये (प्रणमामि) नमस्कार करता हूँ ।

स्तुतिके फलकी प्रार्थना—

यदिदं मम सिद्धभक्तिनीतं सुकृतं दुष्कृतवर्त्मरोधि तेन ।

पटुना जिनधर्म एव भक्तिर्भवताज्जन्मनि जन्मनि स्थिरामे ॥१५॥

अन्वयार्थः—(सिद्धभक्तिनीतं) तीनो लोकोंमें प्रसिद्ध ऐसी भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाओंकी भक्ति करनेसे (मम) मुझे (यत् इदं) जो कुछ (सुकृतं^१) पुण्यकी प्राप्ति हुई है, जिससे (दुष्कृतवर्त्मरोधि) मन, वचन, कायके द्वारा होनेवाला समस्त पाप रुक जाता है ऐसे (पटुना^२ तेन) अत्यन्त सामर्थ्यको धारण करनेवाले उस पुण्यसे (मे जन्मनि^३ जन्मनि) मुझे जन्म जन्ममें-भव भवमें (स्थिरा^४) सदा स्थिर रहनेवाली (जिनधर्मे एव भक्तिः भवतात्) जिनधर्मकी ही भक्ति प्राप्त हो ।

चारों प्रकारके देवोंके विमानोंमें व मनुष्यलोकमें होनेवाले चैत्यालयोंकी

स्तुति—

—अनुष्टुप्—

अर्हतां सर्वभावानां^५ दर्शनज्ञानसंपदाम्* ।

कीर्तियिष्यामि^६ चैत्यानि^७ यथाबुद्धि^८ विशुद्धये^९ ॥१६॥

अन्वयार्थः—(सर्वभावानां) समस्त पदार्थोंको एक साथ जाननेवाले, (दर्शनज्ञानसंपदां) ज्ञायिकदर्शन, ज्ञायिकज्ञानरूपी सपत्तिको धारण करने वाले अथवा ज्ञायिकदर्शन, ज्ञायिकज्ञानसे प्रगट होनेवाली समवशरणादि विभूति

१—पुण्यं ।

३—भवे भवे ।

२—समर्थेन ।

४—अविचला ।

५—सर्वे-निशेषाः मात्राः-पदार्थाः विषयो येषा ।

*दर्शनज्ञानयोः ज्ञायिकरूपयोः संपद् येषा, तयोर्वा सतोः संपत्समवशरणादिविभूतिर्येषाम् ।

६—स्तोत्रे ।

७—प्रतिविंबानि ।

८—स्वमतिविभवानतिक्रमेण ।

९—कर्ममलप्रक्षालनाय ।

को धारण करनेवाले (अर्हतां) भगवान् जिनेन्द्रदेवकी (चैल्यानि) जितनी प्रतिमाएँ हैं उनकी मैं (विशुद्धये) कर्मोको नाश करनेके लिये (यथाबुद्धि) बुद्धिके अनुसार (कीर्तियिष्यामि) स्तुति करूंगा या करता हूँ ।

श्रीमद्भावनवासस्था स्वयंभासुरमूर्तयः ।

वंदिता नो विधेयासुः^१ प्रतिमाः परमां^२ गतिम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः—(स्वयंभासुरमूर्तयः) जिनकी मूर्ति अपने आप दैदीप्यमान हो रही हैं ऐसी (प्रतिमाः) भगवान् जिनेन्द्रदेवकी जो प्रतिमायें (श्रीमद्भावनवासस्थाः) बड़ी विभूतको धारण करनेवाले भवनवासियोंके भवनोंमें विराजमान हैं (वंदिता) उनकी वंदना करनेसे (नः) हमको (परमां गतिं) मोक्षरूप परमगतिको (विधेयासुः) दें ।

यावन्ति^३ संति लोकेऽस्मिन्नकृतानि^४ कृतानि च ।

तानि सर्वाणि चैल्यानि वंदे भूयांसि^५ भूतये^६ ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः—(अस्मिन् लोके) इस मध्यलोकमें (यावन्ति भूयांसि) जो बहुत सी (अकृतानि च कृतानि) अकृत्रिम और कृत्रिम (चैल्यानि) प्रतिमाएँ (संति) हैं (तानि सर्वाणि) उन सबको मैं (भूतये) मोक्षकी परमविभूति प्राप्त करनेके लिये (वंदे) नमस्कार करता हूँ ।

ये व्यन्तरविमानेषु स्थेयांसः^७ प्रतिमागृहाः ।

ते च संख्यामतिक्रांताः^८ सन्तु नो दोषविच्छिदे^९ ॥ १९ ॥

अन्वयार्थः—(व्यन्तरविमानेषु) व्यन्तरदेवोंके विमानोंमें (ये स्थेयांसः) जो सदा स्थिर रहनेवाले (प्रतिमागृहाः) प्रतिमाओंके स्थान हैं—चैत्यालय हैं (ते च संख्यां अतिक्रांताः) उनकी संख्या असंख्यात है, वे सब चैत्यालय (नः) हमारे (दोषविच्छिदे) रागद्वेषादि दोषोंको नाश करनेवाले (संतु) हों ।

ज्योतिषामथ लोकस्य भूतयेऽद्भुतसंपदः^{१०} ।

गृहाः स्वयंभुवः^{११} संति विमानेषु नमामि तान् ॥ २० ॥

१-क्रियासुः । २-मुक्तिं । ३-यत्परिमाणानि । ४-तिर्यग्लोके ।

५-प्रचुरतराणि । ६-विभूत्यर्थं । ७-अतिशयेन स्थिराः, सर्वदावस्थायिनः । ८-असंख्याताः ।

९-दोषशान्तये-रागाद्युपरमाय । १०-विभूतिनिमित्तं । ११-अर्हतः ।

अन्वयार्थः— (अथ) तत्पश्चात् (ज्योतिषां लोकस्य) ज्योतिषी देवोंके (विमानेषु) विमानोंमें जो (स्वयंभुवः) जिनेन्द्रदेवके (अद्भुतसंपदः) अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली संपत्तिको धारण करनेवाले (गृहः सति) चैत्यालय हैं (तान्) उनको मैं (भूतये) समवसरणादि विभूति प्राप्त करनेके लिये (नमामि) नमस्कार करता हूँ ।

वदे सुरति^१रीटाग्रमणिच्छायाभिषेचनम् ।

याः क्रमेणैव सेवन्ते तदर्चाः सिद्धिलब्धये ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—(सुरकिरीटाग्रमणिच्छायाभिषेचनं) वैमानिक देवोंके मुकुटोंके अग्रभागमें लगी हुई मणियोंकी कातिसे जिनके चरण कमलोका अभिषेक किया जाता है, (तदर्चाः) उन्हीं वैमानिक देवोंसे पूजनीक (याः क्रमेण एव सेवन्ते) जो चरण कमलोसे ही पूजे जाते हैं अर्थात् देव भगवानके चरण कमल की ही पूजा करते हैं , उन प्रतिमाओंको मैं (सिद्धिलब्धये) मोक्ष प्राप्तिके लिये (वंदे) नमस्कार करता हूँ ।

स्तुतिके फलकी प्रार्थना—

इति स्तुतिपथातीतश्रीभृतामर्हतां मम ।

चैत्यानामस्तु संकीर्ति^२ सर्वास्रवनिरोधिनी ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः—(इति) इसप्रकार (स्तुतिपथातीतश्रीभृता अर्हतां) जिनकी स्तुति करनेके लिये अशक्य है, ऐसे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मीको धारण करने वाले अरहंत परमेष्ठीकी (चैत्यानां संकीर्तिः) प्रतिमाओंकी स्तुति (मम) मुझे (सर्वास्रवनिरोधिनी अस्तु) समस्त कर्मोंके आस्रवको रोकनेवाली हो—मोक्ष प्राप्त करानेवाली हो ।

महानदकी उपमा सहित अरहंतदेवका स्वरूप—

स्कदच्छदः—

अर्हन्महानदस्य त्रिभुवनभव्यजनतीर्थयात्रिकदुरितम् ।

प्रक्षालनैककारणमतिलौकिककुहकतीर्थमुत्तमतीर्थम् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थः— (त्रिभुवनभव्यजनतीर्थयात्रिकदुरितं) जो तीन लोकवर्ती

(१) किरीट अ इत्यपि पाठः ।

(२) स्तुतिः ।

भव्यजीवरूपी तीर्थकी प्राप्ति करनेवालोंके पापका को (५ ज्ञाननेवकारण) प्रक्षालन करनेमें एक अद्वितीय कारण है। (अतिलौकिक कुडव तीर्थ उत्तमतीर्थ) जो लौकिक व्यवहारियों जनोंके द्वारा माने हुए छोटे तीर्थको उलझन करनेवाला है और जो अम.धा.ण है रेरा (अहंमहानदस्य) अरहत परमेश्वरका महान् द्वादशागन्धरी तीर्थ अथवा जिनधर्मरूपी तीर्थ हम लोगोंके पापपंकको दूर करे।

भावार्थ.— नदियोंका प्रवाह पूर्व दिशाकी ओर होता है परंतु जिनकी प्रवाह पश्चिमकी ओर हो उनको 'नद' कहते हैं। आचार्यने भगवान् अरहतदेवको भी एक नद बनाया है। क्योंकि संसाररूपी नदीका प्रवाह अनादि कालसे चल रहा है। भगवान् अरहतदेवका प्रवाह उससे सर्वथा विपरीत है। जीवोंका प्रवाह नमारकी ओर जा रहा है और अरहत भगवान्का प्रवाह मोक्षकी ओर जा रहा है। इसीलिये इनको आचार्यने 'नद' की उपमा दी है। यह अरहतरूपी 'नद' बहुत विस्तृत है, इसलिये इसको 'महानद' कहते हैं। जिसप्रकार महानदमें तीर्थ होते हैं उसीप्रकार इसमें भी ग्यारह अग, चौदह पूर्वरूपी उत्तमतीर्थ है। जिनके द्वारा यह जीव संसारसे पार हो जाय उनको 'तीर्थ' कहते हैं। इन द्वादशागसे संसारके प्राणी निर जाते हैं, इसलिये इस द्वादशागको निरूपण करनेवाला भगवानका मत सबसे उत्तम तीर्थ है। नदोंके तीर्थसे शरीरका मल दूर होता है परंतु भगवान् अरहतदेवरूपी महानदके तीर्थमें स्नान करनेसे पापरूपी समस्त मल नष्ट हो जाते हैं और भव्यजीवोंको मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। संसारमें अन्य जितने तीर्थ हैं, सब दंभ और ढोंगसे भरे हुए हैं परंतु भगवान् अरहतरूपी महानदका तीर्थ उन सबको नीचा दिखाना है और अपनी उत्तमता प्रगट करता है। यह तीर्थ असाधारण है, सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोकोंमें यात्रा करनेवाले भव्यजीवोंके पापोंको नाश करनेमें यह अरहत भगवान्रूपी महानदका तीर्थ एक अद्वितीय कारण है, इसीलिए यह एक अलौकिक और महाउत्तमतीर्थ है। ऐसा यह भगवान् अरहतदेवरूपी महानदका तीर्थ मेरे सब पापोंको नाश करो।

कदाचित् कोई यह कहे कि तीर्थका प्रवाह बहता है, इस अरहतदेवरूपी महानदका प्रवाह नहीं बहता होगा। उसके लिये आचार्य कहते हैं—

लोकालोकसुतत्त्वप्रत्यवबोधनसमर्थदिव्यज्ञान— ।

प्रत्यहवहत्प्रवाहं व्रतशीलामलविशालकूलद्वितयम् ॥ २४ ॥

[२३५]

7

अन्वयार्थः— (लोकालोकसुतत्त्वप्रत्यवबोधनसमर्थदिव्यज्ञानप्रत्यहवहप्रवाहं) लोक और अलोक का जो स्वरूप है—जीवादिक पदार्थोंका जो यथार्थ स्वरूप है उसको पूर्णरूपसे जाननेकी सामर्थ्य रखनेवाला जो केवलज्ञानरूप दिव्यज्ञान है उसका प्रवाह इस भगवान् अरहंतदेवरूपी महानद से प्रतिदिन बहता रहता है और (व्रतशीलामलविशालकूलद्वितयम्) पाच, महाव्रत और अठारह हजार भेदोंके लिये हुये शीलये दोनों ही उस महानदके निर्मल और विस्तीर्ण किनारे हैं।

यहांपर कदाचित् कोई यह कहे कि महानदके किनारे राजहंस रहते हैं, वह गंभीर शब्दसे गर्जता रहता है और बालूसे सुशोभित रहता है ये सब शोभाएं इस अरहंतदेवरूपी महानदमें नहीं होंगी। इसके लिये आचार्य कहते हैं—

शुक्लध्यानस्तिमितस्थितराजद्राजहंसराजितमसकृत्—

स्वाध्यायमंद्रघोषं नानागुणसमितिगुप्तिसिकतासुभगम् ॥२५॥

अन्वयार्थः— इस अरहंतदेवरूपी महानदके किनारे (शुक्लध्यानस्तिमितस्थितराजद्राजहंसराजितं) शुक्लध्यान रूपी राजहंस अत्यंत स्थिरताके साथ खड़े हुए बहुत ही अच्छे जान पड़ते हैं, उनसे यह महानद बहुत ही शोभायमान रहता है (असकृत्स्वाध्यायमंद्रघोषं) लाभ, पूजा, कीर्तिकी इच्छाके विना जो सर्वदा स्वाध्याय होता रहता है, उसकी गंभीर ध्वनि उस महानदकी मनोहर ध्वनि होती रहती है (नानागुणसमितिगुप्तिसिकतासुभगम्) अनेक प्रकारके—चौरासीलाख सख्याको धारण करनेवाले उत्तर गुण, पाच समिति तीन गुप्ति ये ही सब उस महानदमें सुन्दर बालू है, उसमें वह महानद अपूर्व ही शोभा को धारण करता है। ऐसा वह अरहंतदेवरूपी महानद मेरे सब पापोंको दूर करो।

कदाचित् कोई यह कहे कि अन्य महानदोंके तीर्थमें भ्रमर पड़ते हैं, चारों ओर पुष्पलताएं होती हैं और उसमें सदा लहरें उठती रहती हैं। यह सब शोभा इस अरहंतदेवरूपी महानद में नहीं है। इसलिये आचार्य कहते हैं—

क्षान्त्यावर्तसहस्रं सर्वदयाविकचकुसुमविलसल्लतिकम् ।

दुःसहपरीपहाख्यदुत्तरंगत्तरंगभंगुरनिकरम् ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः— (क्षान्त्यावर्तसहस्रं) भगवान् अरहंतदेवरूपी महानदमें उत्तमक्षमाके हजारों भ्रमर सदा पड़ते रहते हैं (सर्वदयाविकचकुसुमविलसल्लतिकं)

[२३६]

समस्त प्राणियोंकी दया ही खिले हुये फूलोंसे सुशोभित रहनेवाली लता वहांपर सदा शोभाको बढ़ाती रहती है तथा (दु सहपरीपहाइयद्रुततरंगत्तरंभंगुरनिकरं) जो बड़ी कठिनतासे सही जा सके ऐसी क्षुधा, पिपासा आदि बाईस परिषह ही उसमें अतिशीघ्रताके साथ चारों ओर फैलती हुई और क्षणक्षणमें नाश होती हुई लहरें सदा उठती रहती हैं । ऐसा वह अरहंतदेवरूपी महानद मेरे समस्त पापोंको दूर करे ।

कदाचित् कोई यह कहे कि महानदमें फेन या झाक नहीं होते, शैवाल या काई नहीं होती, कीचड़ नहीं होती और मगर मच्छ नहीं होते । तमी उस तीर्थकी सेवाकी जाती है परंतु इस महानदरूपी तीर्थमें ये होंगे । इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं—

व्यपगतकषायफेनं रागद्वेषादिदोषशैवलरहितम् ।

अत्यस्तमोहकर्दममतिदूरनिरस्तमरणमकरप्रकरम् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थः—फेन पानीको शुद्ध नहीं होने देता-मलिन कर देता है । जिस प्रकार तीर्थमें फेन नहीं होता उसीप्रकार अरहंतदेवरूपी महानदमें (व्यपगत-कषायफेनं) आत्माको कलुषित करनेवाला कषायरूपी फेन सर्वथा नहीं होता । जिसप्रकार तीर्थमें शैवाल-काई नहीं होती क्योंकि काई होनेसे मनुष्य पैर फिसल कर गिर पड़ता है । उसीप्रकार अरहंतदेवरूपी महानदमें (रागद्वेषादिदोषशैवलरहित) रागद्वेष आदि दोषरूपी शैवाल नहीं होते । जिसप्रकार शैवाल गिरने का कारण है उसीप्रकार रागद्वेष आदि दोष भी व्रतियोंको अपने व्रतसे गिरा देते हैं, इसीलिये वे अरहंतदेवरूपी महानदमें कभी नहीं होते और इसीलिये उनका आत्मारूपी जल अत्यन्त निर्मल और शुद्ध रहता है । जिसप्रकार महानद में कीचड़ नहीं होती—यदि कीचड़ हो तो पानी गंदला हो जाता है । यदि कीचड़ न हो तो पानी स्वच्छ निर्मल रहता है । और उसके मीतरके पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं उसीप्रकार भगवान् अरहंतदेवरूपी नदमें (अत्यस्तमोहकर्दमं) मोहरूपी कीचड़ सर्वथा नहीं होती । यह मोह ही आत्माको गंदला बना देता है । मोह न होने से यह आत्मा अत्यन्त निर्मल और शुद्ध हो जाता है फिर उसमें समस्त पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं । जिसप्रकार तीर्थमें मगर मच्छ नहीं होते-यदि मगर मच्छ हों तो स्नान करनेवालोका शरीर नष्ट हो जाय । उसीप्रकार भगवान्

अरहंतदेवरूपी महानदमें (अतिदू निरस्तमरणमकरप्रवर) मरण रूपी मगर मच्छोका समूह सर्वथा नहीं होता । यदि मरण हो तो शरीर भी नष्ट हो जाय परंतु भगवान् अरहंतदेवरूपी महानद मोक्षका साक्षरत्त करण है । इसीलिये उसमें मरणरूपी मगर मच्छोका समूह बहुत दूर रहता है । इसप्रकार अत्यन्त निर्मल वह भगवान् अरहंतदेवरूपी महानद मेरे समस्त पापोंको दूर करो ।

कदाचित् कोई यह कहे कि तीर्थके किनारे अनेक पक्षी शब्द करते रहते हैं, आते हुये पानीको बंद करनेके लिये और भरे हुये पानीका निकालनेके लिये मार्ग होते हैं । ये सब बातें इस नदमें नहीं होगी । इसके लिये आचार्य कहते हैं—

ऋषिवृषभस्तुतिमन्द्रोद्रेकितनिर्घोषविविधविहगध्वानम् ।

विविधतपोनिधिपुलिनं सास्त्रवसंवरणनिर्जरानिःस्रवणम् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थः—(ऋषिवृषभस्तुतिमन्द्रोद्रेकितनिर्घोषविविधविहगध्वान) ऋषियों में श्रेष्ठ ऐसे गणधरादिक देव जो भगवान्की स्तुति करते हैं उनके जो अत्यन्त गंभीर और मनोज्ञ शब्द होते हैं उन शब्दोंके द्वारा होनेवाला जो शास्त्रोका पाठ है वही पाठ उस अरहंतदेवरूपी महानदमें अनेक प्रकारके पक्षियोंके शब्द समझने चाहिये । जिसप्रकार तीर्थमें ऊंचे किनारे होते हैं—जहापर बहनेवाले लोग तिरकर पहुच जाते हैं उसीप्रकार उस अरहंतदेवरूपी महानदमें (विविध-तपोनिधिपुलिन) अनेक प्रकारके तपश्चरणको करनेवाले महामुनिराज ही ऊंचे किनारे हैं । जो प्राणी इस संसाररूपी महानदीमें बहते जा रहे हैं उनको पकड़ कर पार लगानेवाले वे मुनिराज ही हैं, इसलिये वे ही मुनिराज उस महानदके ऊंचे किनारे हैं ! जिसप्रकार तीर्थमें पानी अधिक होनेपर आता हुआ पानी रोक दिया जाता है और उसमें भरा हुआ पानी निकाल दिया जाता है । आते हुये पानीको रोकने और भरे हुए पानीको निकालनेका सुभीता रहता है उसीप्रकार इस अरहंतदेवरूपी महानदमें (सास्त्रवसंवरणनिर्जरानिःस्रवण) कर्मोंके आनेके मार्ग सब बंद हो जाते हैं तथा जो पहलेके कर्म होते हैं उनकी सदा निर्जरा होती रहती है । इसप्रकार वह महानद संवर और निर्जरा दोनोंसे सुशोभित रहता है । ऐसा वह अरहंतदेवरूपी महानद मेरे समस्त पापोंको दूर करो ।

गणधरचक्रधरेन्द्रप्रभृतिमहाभव्यपुण्डरीकैः पुरुषैः ।

बहुभिः स्नातं भक्त्या कलिकलुषमलापकर्षणार्थममेयम् ॥२९॥

अन्वयार्थः— यह श्री अरहंतदेवरूपी महानद (अमेयं) अत्यन्तविशाल है, (कलिकलुषमलापकर्षणार्थ) इस कालमें होनेवाले पापरूपी मलोको दूर करनेके लिये (बहुभिः अनेक गणधरचक्रधरेन्द्रप्रभृतिमहाभव्यपुडरीकैः पुरुषैः भक्त्या स्नातं) गणधर, चक्रवर्ती और इन्द्र आदि प्रधान प्रधान महाभव्य-पुरुषोको बड़ी भक्तिके साथ स्नान करने योग्य है अर्थात् ये सब महाभव्यपुरुष इस महानदमें सदा स्नान किया करते हैं और कर्मरूपी मलोको दूर कर अपने आत्माको अत्यन्त निर्मल बनाया करते हैं ।

अवतीर्णवतः स्नातुं ममापि दुस्तरसमस्तदुरितं दूरम् ।

व्यवहरतु परमपावनमनन्यजय्यस्वभावभावगंभीरम् ॥ ३० ॥

अन्वयार्थः—(परमपावनं) श्री अरहंतदेवरूपी महानद तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है-परम पवित्र है, (अनन्यजय्यस्वभावभावगंभीर) परवादी जिनका कमी खंडन नहीं कर सकते ऐसे जीवादिक पदार्थोंसे अत्यन्त गंभीर है [जीवादिक पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप और उनके अनन्तगुणोंका वर्णन जैसा भगवान् अरहंत देवके शासनमें है वैसा और किसी मलमें नहीं है] ऐसे इस अरहंत-देवरूपी महानदमें (स्नातुं) स्नान करनेके लिये—कर्मरूपी मलोको धो डालने के लिये मैं भी (अवतीर्णवतः) उतर पड़ा हूं, इसलिये हे भगवन् ! (ममापि दुस्तरसमस्तदुरितं दूरं व्यवहरतु) मेरे अनन्त समस्त पापोंको-समस्त कर्मोंको बहुत शीघ्र दूर कर दीजिये ।

जिनेन्द्रके रूपका वर्णन—

पृथ्वीछन्दः—

अताम्रनयनोत्पल सकलकोपवन्हेर्जयात् ।

कटाक्षशरमोक्षहीनमविकारतोद्रेकतः ॥

विषादमदहानितः प्रहसितायमानं सदा ।

मुखं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यंतिकीम् ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थः— हे प्रमो ! (सकलकोपवन्हेः जयात्) संपूर्ण क्रोधरूपी वह्निको—अग्निको जीत लेनेसे (अताम्रनयनोत्पलं) आपके ये नेत्र कमल थोड़े लाल हैं (अविकारतोद्रेकतः) वीतरागताके परमप्रकर्षको प्राप्त हो जाने के कारण (कटाक्षशरमोक्षहीनं) कटाक्षरूपी वाणोंके छोड़नेसे रहित हैं (विषा-

दमदहानितः) विषाद और अहंकारके नष्ट हो जाने के कारण (सदा प्रह-
सितायमानं) निरंतर हंसते हुएकी तरह (ते मुखं) आपका ये मुख (आत्यंतिकी)
अत्यंत (हृदयशुद्धिं) हृदयकी शुद्धिको ही (कथयति इव) मानो कहता है ।

.निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदयात् ।

निरम्बरमनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषतः ॥

निरायुधसुनिर्भयं विगतहिंस्यहिसक्रमात् ।

निरामिषसुतृप्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात् ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थः—(विगतरागवेगोदयात्) जिनेन्द्र भगवान् का स्वरूप राग
के वेगके उदयका अभाव हो जानेसे (निराभरणभासुरं) आभरणके बिना भी
सुन्दर है, (प्रकृतिरूपनिर्दोषतः) निर्दोष प्रकृति स्वरूप होनेके कारण (निरं-
बरमनोहरं) बिना वल्लके ही सुन्दर है, (विगतहिंस्यहिसक्रमात्) हिंस्य और
हिसक भावके नष्ट हो जानेसे (निरायुधसुनिर्भयं) बिना आयुधके ही निर्भय
है विविधवेदनानां क्षयात्) जन्म, मरण आदि नानाप्रकारकी वेदनाओके नष्ट
हो जाने से (निरामिषसुतृप्तिमद्) भोजनादिसे रहित होकर भी अत्यन्त तृप्तिको
प्राप्त हैं ।

मितस्थितनखांगजं गतरजोमलस्पर्शनम् ।

नवाम्बुरुहचंदनप्रतिमदिव्यगंधोदयम् ॥

रवीन्दुकुलिशादिदिव्यबहुलक्षणालंकृतम् ।

दिवाकरसहस्रभासुरमपीक्षणानां प्रियम् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थः—(मितस्थितनखांगजं) जिनेन्द्र भगवान् के शरीरके नख और
केश परिमित रहते हैं—बृद्धिको प्राप्त नहीं होते हैं, (गतरजोमलस्पर्शनं) रजो-
मलके स्पर्शसे रहित हैं (नवाम्बुरुहचंदनप्रतिमदिव्यगंधोदयं) नवीन कमल
और चन्दनके सदृश, दिव्य जिनके शरीरमें सुगंध आती है (रवीन्दुकुलिशादि-
दिव्यबहुलक्षणालंकृतं) सूर्य, चन्द्र, वज्र इत्यादि दिव्य एक हजार आठ लक्षणों
से जो शोभायमान हैं (दिवाकरसहस्रभासुरं अपि ईक्षणानां प्रियं) और हजारों
सूर्यके समान दैदीप्यमान होते हुये भी देखनेवालोको जो अत्यन्त प्रिय हैं ।

हितार्थपरिपंथिभिः प्रवलरागमोहादिभिः ।

कलंकितमना जनो यदभिर्वीच्यशोशुष्यते ॥

सदाभिमुखमेव यज्ञगति पश्यतां सर्वतः ।

शरद्विमलचन्द्रमण्डलमिवोत्थितं दृश्यते ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थः— (हितार्थपरिपंथिमिः प्रबलरागमोहादिभिः) हितरूपी अर्थ जो मोक्ष उसको चुरानेवाले ऐसे जो प्रबल राग और मोहादिक उनसे (कलंकितमना जनः) जिसका मन दूषित है ऐसा मनुष्य भी (यद् अमिवीक्ष्य) जिस सुन्दररूपको देखकर (शोशुष्यते) शुद्ध हो जाता है, उसीप्रकार (जगति) संसारमें (यत् सदाभिमुख एव पश्यता सर्वतः) जिनेन्द्र भगवानके विरागी मुखको देखनेवालोंको चारों ओर वह (शरद्विमलचन्द्रमण्डलं इव उत्थितं दृश्यते) शरदऋतुमें उदयको प्राप्त हुए स्वच्छ पूर्ण चन्द्रमाके समान दीखता है ।

तदेतदमरेश्वरप्रचलमौलिमालामणि—

स्फुरत्किरणचुंबनीयचरणारविंदद्वयम् ।

पुनातु भगवज्जिनेन्द्र तव रूपमन्धीकृतम् ।

जगत्सकलमन्यतीर्थगुरूपदोषोदयैः ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थः— (अन्यतीर्थगुरूपदोषोदयैः) मिथ्या तीर्थके छोटे उपदेश से उत्पन्न हुए दोषोंसे (अन्धीकृत सकल जगत्) अघे हुए इस सम्पूर्ण जगत् को (भगवत् जिनेन्द्र !) हे भगवन् जिनेन्द्र ! (तत् एतत् अमरेश्वरप्रचलमौलि-मालामणिस्फुरत्किरणचुंबनीयचरणारविंदद्वयं तव रूपं पुनातु) इन्द्रादिकके नमस्कार करते समय उनके मुकुटके मणियोंकी कांतिसे जिनके दोनों चरण रूपी कमल स्पर्श किये गये हैं ऐसा अत्यन्त मनोहर आपका सुन्दर रूप पवित्र करो ।

इसके बाद कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

आलोचना—

इच्छामि भंते चेइयमचि काउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं । अहलोय-तिरियलोयउड्ढलोयम्मि किट्टिमाकिट्टिमाणि जाणि जिणचेइयाणि ताणि सव्वाणि तिसुवि लोएसु भवणवासियवाणवितरजोइसियकप्पवासियत्ति चउविहादेवा सपरिवारा दिव्वेण गंधेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण, दिव्वेण ण्हाणेण, णिच्चकालं अंचंति, पुब्जंति, वदंति, णमंसंति, । अहमवि इह संतो दत्थ संताई णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसाभि,

दुःखकषाओ, कम्पकषाओ, चोहिलाहो, सुगङ्गमणं, समाहिमरणं, जिण-
गुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

अर्थ—हे भगवन् ! मैं चैत्यभक्ति कर कायोत्सर्ग करता हूँ । इसमें जो दोष
लगे हों उनकी आलोचना करना चाहता हूँ । अधोलोक, मध्यलोक व ऊर्ध्व-
लोकमें जो कृत्रिम वा अकृत्रिम चैत्यालय हैं इन सबकी तीनों लोकोमें रहनेवाले
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी चारों प्रकारके देव परिवारको
साथ लेकर दिव्य गंधसे, दिव्य चूर्णसे, दिव्य वस्त्रसे, और दिव्य अभिषेकसे,
सदा अर्चा करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, और नमस्कार करते हैं ।
मैं भी यहां ही रहकर उसीप्रकारसे सदा समस्त चैत्यालयोंकी अर्चा करता हूँ,
पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, और नमस्कार करता हूँ । मेरे दुःखोंका नाश
हो, कर्मोंका नाश हो, मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो, समाधि-
मरणकी प्राप्ति हो, और भगवान् जिनेन्द्रदेवके समस्त गुणोंकी तथा विभूतियों
की प्राप्ति हो ।

इति चैत्यभक्तिः ।

क्षेपक श्लोकः—

मानस्तभाः सरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी । प्रकारो नाट्य-
शाला द्वितयमुपवनं वेदिकांतर्ध्वजाद्याः ॥ शालःकल्पदुमाणां सुपरिवृत-
वनं स्तूपहर्म्यावली च । प्राकारःस्फाटिकोन्तर्नृसुरमुनिसभा पीठिकाग्रे
स्वयंभूः ॥ १ ॥ वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु, नंदीश्वरे यानि च मदरेषु । याव-
न्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वंदे जिनपुङ्गवानाम् ॥ २ ॥ अवनित-
लगतानां कृत्रिमाऽकृत्रिमाणाम् । वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानाम् ॥
इह मनुजकृतानां देवराजार्चितानाम् । जिनवरनिलयानां भावतोऽहं सरामि
॥ ३ ॥ जम्बुधातकिपुष्करार्द्धवसुधाक्षेत्रत्रये ये भवाश्चंद्रांभोजशिखण्डि-
कण्ठकनकप्रावृद्धनाभाजिनः । सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मन्धनाः
मृतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनोभ्यो नमः ॥ ४ ॥ श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ

रजतगिरिवरे शान्मलौ जंबुवृक्षे, वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकररुचके कुण्डले
 मानुषांके । इष्वाकारेऽज्जनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यंतरे स्वर्गलोके । ज्योति-
 लोकेऽभिवंदे भुवनमहितले यानि चैत्यानि तानि ॥ ५ ॥ देवासुरेन्द्रनरना-
 गसमर्चितेभ्यः, पापप्रणाशकरभव्यमनोहरेभ्यः । घंटाध्वजादिपरिवार-
 विभूषितेभ्यो,—नित्यं नमो जगति सर्व जिनालयेभ्यः ॥ ६ ॥

अथ कल्याणालोचना

परमप्पड् वद्धमई परमेष्ठीणं करोमि णवकारं ।

सगपर सिद्धिणिमित्तं कल्याणालोचना बोच्छे ॥ १ ॥

परमात्मानं वद्धितमतिं परमेष्ठिनं करोमि नमस्कारम् ।

स्वकपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोचनां वदये ॥

अर्थ—जिनका ज्ञान अनंत परिणाम तक बढ़ा हुआ है ऐसे अरहंत परमेशी
 को मैं नमस्कार करता हूँ तथा अपने आत्माकी सिद्धिके लिये और अन्य जीवों
 के कल्याणकी सिद्धिके लिये मैं कल्याणालोचना कहता हूँ ।

रे जीवा णंत भवे संसारे संसरंत बहुवारं ।

पत्तो ण बोहिलाहो मिच्छत्तविजभपयडीहिं ॥ २ ॥

रे जीव अनंतभवे संसारे संसस्ता बहुवारम् ।

प्राप्तो न बोधिलाभः मिथ्यात्वबिजंमितप्रकृतिभिः ॥

रे जीव ! मिथ्यात्वकर्मकी बढ़ी हुई प्रकृतियोंके द्वारा इस अनंत जन्ममरण
 रूप संसारमें तूने अनंतवार परिभ्रमण किया परंतु अबतक तुम्हें रत्नत्रयकी प्राप्ति
 कभी नहीं हुई ।

संसारभ्रमणगमणं कुणत आराहिओ ण जिणधम्मो ।

तेणविणा वर दुक्खं पत्तोसि अणतवाराहं ॥ ३ ॥

संसार भ्रमणगमणं कुर्वन् आराधितो न जिनधर्मः ।

तेन विना वरं दुःख प्राप्तोऽसि अनन्तवारम् ॥

अर्थ—इस संसारमें परिभ्रमण करते हुये तूने जिनधर्मका आराधन कभी
 नहीं किया और उसी दिन धर्मके विना इस संसारमें तुम्हें अनन्तवार महा दुःख

प्राप्त हुए हैं ।

संसारे णिवसन्ता अगंतमरणाइ पाविओसि तुमं ।
केवलिणा विणतेसिं संखापज्जत्ति णो हवइ ॥ ४ ॥

संसारे निवसन् अनन्तमरणानि प्राप्तेऽसि त्वम् ।
केवलिना विना तेषां संख्या पर्याप्तिर्न भवति ॥४॥

अर्थ—इस संसारमें निवास करते हुये तूने अनन्तवार मरण किये परंतु केवल उस एक जैनधर्मके विना उन मरणोंकी संख्या पूरी नहीं हुई, अर्थात् जन्ममरण का अंत नहीं हुआ ।

ति णिसया छत्तीसा अवाट्टिसहस्सवार मरणाइं ।
अंतो मुहुत्तमज्जे पत्तोसि णिगोयमज्झम्मि ॥ ५ ॥
त्रीणिशतानि षट्त्रिंशानि पट्षष्टि सहस्रवारमरणानि ।
अंतर्मुहूर्तमध्ये प्राप्तोऽसि निगोदमध्ये ॥ ५ ॥

अर्थ—हे जीव ! तूने निगोदमें अंतर्मुहूर्तकालमें छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार मरण किया ।

वियलिंदिये असीदी सट्ठी चालीसमेव जाणेहि ।
पंचेदिय चउवीसं खुद्दभवंतोमुद्दुत्तस्म ॥ ६ ॥

विकलेन्द्रिये अशीति षष्टि चम्वारिशत् एव जानीहि ।
पंचेन्द्रिये चतुर्विंशति श्रुद्रभवान् अन्तर्मुहूर्ते ॥

अर्थ—हे जीव ! तूने दो इन्द्रिय अवस्थामें अंतर्मुहूर्त कालमें अस्सी लुब्ध-
भव धारण किये । तेइन्द्रिय अवस्थामें साठ लुब्धभव धारण किये, चौइन्द्रिय पर्याय
में चालीस लुब्धभव धारण किये और पंचेन्द्रिय पर्यायमें चौबीस लुब्धभव धारण
किये ।

आण्णोण्णं खज्जन्ता जीवा पावन्ति दारुणं दुक्खं ।
ण हु तेसिं पज्जत्ती कहपावइ धम्ममइसुएणो ॥ ७ ॥

अन्योन्यं कुध्यन्ते जीवा प्राप्नुवन्ति दारुणं दुःखम् ।
न खलु तेषां पर्याप्तीः कथं प्राप्नोति धर्ममतिशून्यः ॥

अर्थ परस्पर एक दूसरेके साथ क्रोध करते हुये ये जीव अत्यन्त घोर दुःख
पाते हैं । उनकी कभी पर्याप्ति ही पूरी नहीं होती फिर भला धैर्यरूप बुद्धिसे सर्वथा
रहित वे जीव उस जिन धर्मको कैसे धारण कर सकते हैं ।

मायापिया कुण्डबो सुजणजण कोवि णायई सत्थे ।
एगागी भमइ सदा णहि वीओ अत्थि संसारे ॥ ८ ॥

माता पिता कुटुम्बः स्वजनजनः कोपि नायाति सह ।
एकाकी भ्रमति सदा न हि द्वितीयोअस्ति संसारे ॥

इस संसारमें परिभ्रमण करते हुये इस जीवके साथ माता पिता कुटुम्बी लोग तथा अपने परिवारके मनुष्योंमें से कोई भी साथ नहीं जाता । यह जीव सदा अकेला परिभ्रमण किया करता है । इसका साथी कोई दूसरा नहीं होता ।

आउक्खएवि पत्ते ण समत्थो कोवि आउदाणेय ।
देवेदो ण णरेदो मण्णिसोसह मंतजालाई ॥ ९ ॥

आयुः क्षयेपि प्राप्ते न समर्थः कोपि आयुदाने च ।
देवेन्द्रो न नरेन्द्रः मण्यौषधमन्त्रजान्तानि ॥ ९ ॥

अर्थ—जब आयुका अंत आ जाता है आयुपूरी हो जाती है तब कोई भी इस आयुको नहीं बढ़ा सकता । न देवोंका इन्द्र किसीकी आयु बढ़ा सकता है न चक्रवर्ती बढ़ा सकता है और न मणि, औषधि वा मंत्रोंके समूह आयुको बढ़ा सकते हैं ।

संपडि जिणवरधम्मो लद्धोसि तुमं विसुद्धजोएण ।
स्वामसु जीवा सव्वे पत्तेसमये पयत्तेण ॥ १० ॥

सम्प्रति जिनवरधर्मो लब्धोऽसित्वं विशुद्धयोगेन ।
धम्मस्व जीवान् सर्वान् प्रत्येकसमये प्रयत्नेन ॥

अर्थ—इस समय योगोंकी वा मन वचन कायकी विशुद्धि होनेसे तुम्हें इस जैनधर्मकी प्राप्ति हुई है इसलिये बड़े प्रयत्नके साथ प्रत्येक समय में तू समस्त जीवोंको क्षमा कर । उनपर क्षमा धारण कर ।

तिणिसया तेसट्ठि मिच्छत्ता दंमणस्स पडिवक्खा ।
अएणाणे सदहिया मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ ११ ॥

त्रीणि शतानि त्रिषष्टिमिथ्यात्वानि दर्शनस्य प्रतिपक्षाणि ।
अज्ञानेन श्रद्धितानि मिथ्या मे दुष्कर्तं भवतु ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनके प्रतिपक्षी वा विरोधी मिथ्यात्वके तीन सौ तिरेसठ भेद हैं । यदि उनका मैंने अपने अज्ञानसे श्रद्धान किया हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या हैं ।

महुमज्जमंसजूआपभिदीवसणाइ सत्तमेयाइं ।

णियमो ण कथं च तेसिं मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ १२ ॥

मधुमांसमद्यदूतप्रभृतीनि व्यसनानि सप्त भेदानि ।

नियमो न कृतः च तेषां मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥

अर्थ—मधु, मास, मद्य और जूआ आदिको लेकर जो व्यसनोंके सात भेद हैं उनको त्याग करनेका यदि मैंने नियम न किया हो तो वह सब मेरा पाप मिथ्या हो ।

अणुवयमहव्वया जे जमणियमासीलसाहुगुरुदिण्णा ।

जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ १३ ॥

अणुव्रतमहाव्रतानि यानि यमनिवमशीलानि साधुगुरुदत्तानि ।

यानि यानि विराधितानि खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ १३ ॥

अर्थ—साधुओंने वा गुरुओंने मुझे जो अणुव्रत दिये हों और उनमेंसे जिन जिनकी विराधना हुई हो वह सब मेरा पाप मिथ्या हो ।

णिच्चिदरधादुसत्तय तरुदसवियल्लिंदिएसु छ्चवेव ।

सुरणरयतिरियचउरो चउदस मणुए सदसहस्सा ॥ १४ ॥

एदे सव्वे जीवा चउरासीलक्खजोणिवसि पत्ता ।

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ १५ ॥

नित्येतरधातुसप्त तरुदश विकलेन्द्रियेषु षट् चैव ।

सुरनारकतिर्यक्षु चत्वारः चतुर्दश मनुष्ये शतसहस्राणि ॥ १४ ॥

एते सर्वे जीवाश्चतुरशीतिलक्षयोनिवशे प्राप्तः ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ १५ ॥

अर्थ—नित्य निगोदकी सातलाख, इतर निगोदकी सातलाख, पृथिवी कायिककी सातलाख, जल कायिककी सातलाख अग्निकायिककी सातलाख वायु-कायिककी सातलाख, दो इन्द्रियकी दो लाख, ते इन्द्रियकी दो लाख, चौइन्द्रिय की दो लाख, देवोंकी चार लाख, नारकियोंकी चार लाख, पंचेन्द्रिय तिर्यच की चार लाख और मनुष्योंकी दश लाख । इस प्रकार समस्त जीवोंकी चौरासी लाख योनियोंमें प्राप्त हुए जीवोंमेंसे जिन जिन जीवोंकी विराधना मुझसे हुई हो वह सब मेरा पाप मिथ्या हो ।

पुढवीजलग्निवाओ तेओवि वण, फई य वियलतया ।
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ १६ ॥

पृथ्वीजलग्निवायुतेजोवनस्पतयश्च विकलत्रयाः ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ १६ ॥

अर्थ—पृथ्वीकायिक जीव, जलकायिक जीव, अग्निकायिक जीव, वायुका-
यिक जीव, वनस्पतिकायिक जीव और विकलत्रय जीवोंमें से जो जो मुझसे
विराधे गये हों उनकी विराधना से होनेवाला सब पाप मेरा मिथ्या हों ।

मल सत्तरा जिणुत्ता वयविसये जा विराहणा विविहा
सामइया खमइया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ १७ ॥

मलसप्ततिः जिनोक्ता व्रतविषये वा विराधना विविधा ।

सामायिक क्षमादिका मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ १७ ॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्रदेवने व्रतोंके सत्तर अतीचार बतलाये हैं उनमें से
जो जो अतीचार लगे हो वा व्रतोंमें अनेक प्रकार से विराधना हुई हों वा सामा-
यिक और क्षमाभावोंकी विराधना हुई हो वे सब मेरे पाप मिथ्या हों ।

फलफुल्लच्छिवल्ली अण्णगल ण्हाणं च धोवणाईहिं ।

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ १८ ॥

फलपुष्पत्वग्बल्ली अणालितस्नानं च प्रक्षालनादिभिः ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ १८ ॥

अर्थ—फल, पुष्प, छाल, लता आदिको काममें लाने में जो जीवोंकी विरा-
धना हुई हो, बिना छुने जलसे स्नान करनेमें जिन जीवोंकी विराधना हुई हो,
वस्त्रादिकके धोनेमें जो जीवोंकी विराधना हुई हो उन सबसे होनेवाले मेरे पाप
सब मिथ्या हों ।

णो शीलं णेव खमा विणओ तवो ण संजमोवासा ।

ण कया ण भाविकया मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ १९ ॥

न शीलं नैव क्षमा विनयस्तपो न संयमोपवासाः ।

न कृता न भाविनी कृता मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ १९ ॥

अर्थ—मैंने जो शील पालन न किया हो, क्षमा, धारण न की हो, विनय
न किया हो, तप न किया हो, संयम पालन न किया हो, उपवास न किया हो
तथा न इनकी भावना की हो । वह समस्त मेरा पाप मिथ्या हो ।

कंदफलमूलवीया सचित्तरयणीयभोजनाहारा ।

अण्णारो जे वि कया मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ २० ॥

कन्दफलमूलवीजानि सचित्तरजनोभोजनाहाराः ।

अज्ञानेन ये पि कृता मिथ्याऽमे दुष्कृतं भवतु ॥ २० ॥

अर्थ—यदि मैंने अपने अज्ञानसे कंद, मूल, फल, वीज, खाये हो। अन्य सचित्त पदार्थोंका भक्षण किया हो वा रत्रिमें भोजन किया हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या हों।

णो पूया जिणचरणे ण पत्तदाणं न चेइयागमणं ।

ण कया ण भाविय मये मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ २१ ॥

नो पूजा जिणचरणे न पात्रदानं नचेर्यागमनम् ।

न कृता न भाविता मया मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ २१ ॥

अर्थ—मैंने भगवानके चरण कमलोंकी पूजा न की हो, पात्र दान न दिया हो, ईर्यासमिति पूर्वक गमन न किया हो, ये सब काम न किये हों, न इनकी भावना की हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या हों।

वंभारंभपरिग्गह सावज्जा बहु पमाददोसेण ।

जीवा विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ २२ ॥

ब्रह्मारंभपरिग्रहसावधानि बह्वनि प्रमाददोषेण ।

जीवा विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ २२ ॥

अर्थ—मैंने अपने प्रमाद जन्य दोषसे ब्रह्मचर्य, आरंभ और परिग्रहमें बहुत से पाप किये हों तथा उनमें जीवोंकी विराधना हुई हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या हों।

सत्तासउखित्तभवा तीदाणागयसुवट्टमाणजिणा ।

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ २३ ॥

सप्ततिशतक्षेत्रभाषाः अतीदानागतवर्तमानजिनाः ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ २३ ॥

अर्थ—एकसौ सत्तर कर्मभूमियोंमें होनेवाले भूत भविष्यत् वर्तमानकाल सम्बन्धी तीर्थंकरोंकी जो विराधना की हो उनका अनादर किया हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या हों।

अरुहासिद्धाश्चिरिया उवज्ञाया साहु पञ्चपरमेष्ठी ।

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ २४ ॥

अर्हत्सिद्धाचार्या उपाध्यायाः साधवः पञ्चपरमेष्ठिनः ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ २४ ॥

अर्थ—भगवान् अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठीकी जो जो विराधनाकी हो इनकी आज्ञा भंग की हो वा अनादर किया हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या हो ।

जिणवयणधम्मचेइयजिणपडिमा किट्ठिमाअकिट्ठिमया ।

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ २५ ॥

जिनवचनं धर्मः चैत्यं जिनप्रतिमा कृत्रिमा अकृत्रिमाः ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ २५ ॥

अर्थ—जिनवचन, जिनधर्म, जिन चैत्यालय और कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाओंकी जो विराधना की हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या हों ।

दंसणणाणचरित्ते दोसा अट्टट्टपञ्चमेयाइं ।

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ २६ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रे दोषा अष्टाष्टपञ्चमेदाः ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ २६ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनके आठ दोष हैं, सम्यग्ज्ञानके आठ दोष हैं और सम्यक्चारित्रके पांच दोष हैं इनमेंसे जो जो दोष मैंने लगाये हों तो उनसे होनेवाले मेरे सब पाप मिथ्या हों ।

मइसुइओहीमणपज्जय तहा केवलं च पचमयं ।

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ २७ ॥

मत्तिः श्रुतं अवधिः मनःपर्ययः तथा केवलं च पञ्चमकम् ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ २७ ॥

अर्थ—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्ययज्ञान और केवलज्ञान इन पांचों ज्ञानोंमें से जिस किसी ज्ञानकी विराधना हुई हो तो वह मेरा पाप मिथ्या हो ।

आयारादी अंगा पुव्वपइण्णा जिणेहिं पण्णत्ता ।

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ २८ ॥

[२४६]

आचारांगादीनि अंगानि पूर्वप्रकीर्णकानि जिनैः प्रणीतानि ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ २८ ॥

आचाराग आदि ग्यारह अंग और चौदह पूर्वोका स्वरूप जो भगवान् जिनेन्द्रदेवने कहा है । उसमें जो कुछ मुझसे विराधना हुई हो तो वह सब मेरा पाप मिथ्या ही ।

पंच महव्यजुत्ता अष्टादससहस्रसीलकयसोहा ।

जे जे विराधिया खलु मिच्छा मे दुष्कृतं हुज्ज ॥ २९ ॥

पञ्चमहाव्रतयुक्ता अष्टादशसहस्रशीलकृतशोभाः ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ २९ ॥

अर्थ—जो पंच महाव्रतोसे सुशोभित हैं और अठारह हजार शीलोसे जिनकी शोभा बढ़ रही है ऐसे भगवान् अरहंत देवकी जो कुछ विराधना हुई हो तो वह सब मेरा पाप मिथ्या हो ।

लोए पियरसमाणा रिद्धिपवण्णा महागणवइया ।

जे जे विराधिया खलु मिच्छा मे दुष्कृतं हुज्ज ॥ ३० ॥

लोके पितृसमाना ऋद्धिप्रपन्ना महागणपतयः ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ ३० ॥

अर्थ—अनेक ऋद्धियोंको धारण करने वाले गणधरदेव इस संसारमें पिता के समान हैं क्योंकि वे सब ऋषियोंके गुरु हैं, उनकी जो कुछ मुझसे विराधना हुई हो तो वह सब मेरा पाप मिथ्या हो ।

णिगंथ अज्जियाओ सद्धा सद्धी य चउविहो संघो ।

जे जे विराधिया खलु मिच्छा मे दुष्कृतं हुज्ज ॥ ३१ ॥

निर्ग्रंथा आर्यिकाः श्रावकाः श्राविकाः च चतुर्विधः संघः ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ ३१ ॥

अर्थ—निर्ग्रंथमुनि, श्रजिका, श्रावक श्राविका इन चार प्रकारके संघोंमें से जिस किसीकी विराधना हुई हो तो वह सब मेरा पाप मिथ्या हो ।

देवा सुरा मणुस्सा णेरइयातिरियजोणिगयजीवा ।

जे जे विराधिया खलु मिच्छा मे दुष्कृतं हुज्ज ॥ ३२ ॥

देवा असुरा मनुष्या नारकाः तिर्यग्योनिगत जीवाः ।

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ ३२ ॥

अर्थ-वैमानिक देव, भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी देव, मनुष्य, नारकी, और तिर्यच गतिमें रहनेवाले जीवोंकी जो विराधना हुई हो और उससे, जो पाप हुये हो वे सब मिथ्या हों ।

कोहो माणो माया लोहो एदेय रायदोसाइं ।

अण्णाणे जे वि कया मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ ३३ ॥

क्रोधो मानो माया लोभः एते रागद्वेषाः ।

अज्ञानेन ये पि कृता मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ ३३ ॥

अर्थ-मैने अपने अज्ञानसे जो क्रोध मान माया लोभ आदि राग द्वेष किये हों वे सब मेरे पाप मिथ्या हों ।

परवत्थं परमहिला प्रमादजोएण अज्जियं पावं ।

अण्णावि अकरणीया मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ ३४ ॥

परवस्त्रं परमहिला प्रमादयोगेनार्जितं पापम् ।

अन्येपि अकरणीया मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ ३४ ॥

अर्थ-परवस्त्र और परस्त्री आदिके संबंधसे प्रमाद योग पूर्वक जो पाप मैने किये हों अथवा और जो जो न करने योग्य कार्य किये हों वे सब मेरे पाप मिथ्या हों ।

इक्को सहावसिद्धो सोह अप्पा वियप्पपरिमुक्को ।

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥ ३५ ॥

एकः स्वभावसिद्धः स आत्मा विकल्पपरिमुक्तः ।

अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ ३५ ॥

अर्थ-जो आत्मा एक है स्वभावसे ही सिद्ध है और सब तरहके विकल्पों से रहित है ऐसे एक परमात्माकी ही मैं शरण जाता हूं ऐसे परमात्माके सिवाय अन्य कोई भी मेरे लिये शरण नहीं है ।

अरस अरूव अगंधो अन्ववाहो अणंतणाणमओ ।

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥ ३६ ॥

अरसः अरूपः अगंधः अव्याबाव अनन्तज्ञानमयः ।

अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ ३६ ॥

अर्थ-जो परमात्मा रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, सब तरहकी बाधाओंसे रहित है और अनन्तज्ञान स्वरूप है ऐसा एक परमात्मा ही मुझे

शरण है अन्य कोई भी मुझे शरण नहीं है ।

णोयपमाणं णाणं समए इक्केण हुंति ससहावे ।

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ३७ ॥

ज्ञेयप्रमाणं ज्ञानं समयेन एकेन भवति स्वस्वभावे ।

अन्ये न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ ३७ ॥

अर्थ—परमात्माका वह अनंतज्ञान यद्यपि अपने स्वभावमें ही स्थिर रहता है तथापि वह प्रत्येक समयमें समस्त ज्ञेय पदार्थोंको जानता रहता है । ऐसा वह परमात्मा ही मुझे शरण है परमात्माके सिवाय अन्य कोई भी मुझे शरण नहीं है ।

एयाणोयवियप्पप्पसाहणे सयसहावसुद्धगई ।

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ३८ ॥

एकानेकविकल्पप्रसाधने स्वकस्वभावशुद्धगतिः ।

अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ ३८ ॥

अर्थ—उस परमात्माको चाहे एक प्रकारसे सिद्ध किया जाय और चाहे अनेक प्रकारसे सिद्ध किया जाय वह सदा अपने ही स्वभावमें शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्थित रहता है । ऐसा वह परमात्मा ही मुझे शरण है उसके सिवाय अन्य कोई भी मुझे शरण नहीं है ।

देहपमाणो णिच्चो लोयपमाणो वि धम्मदो होदि ।

अण्णो ण मज्झ सरणां सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ३९ ॥

देहप्रमाणः नित्यः लोकप्रमः अपि धर्मतो भवति ।

अन्यो न मम शरणं शरणे स एकः परमात्मा ॥ ३९ ॥

अर्थ—वह परमात्मा नित्य है, शरीरके प्रमाणके बराबर है, और प्रदेशोंके द्वारा लोक प्रमाण है ऐसा वह परमात्मा ही मुझे शरण है उसके सिवाय अन्य कोई भी मुझे शरण नहीं है ।

केवलदंसणणाणं समये इक्केण दुण्णिउवओंगा ।

अण्णो ण मज्म सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ४० ॥

केवलदर्शनज्ञाने समयेनैकेन द्वौ उपयोगी ।

अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ ४० ॥

अर्थ—उन परमात्माके एकही समयमें केवलदर्शन और केवलज्ञान दोनों

ही उपयोग एकसाथ होते हैं। वह परमात्मा ही मुझे शरण है। अन्य कोई शरण नहीं है।

सगरूढ सहजसिद्धो विहावगुणमुक्ककम्मवावारी ।

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ४१ ॥

स्वरूप सहजसिद्धो विभावगुणमुक्क कर्म व्यापारः ।

अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ ४१ ॥

अर्थ—वह परमात्मा अपने स्वभाविक स्वरूपमें ही लीन रहते हैं, स्वाभाविक स्वभावसे ही सिद्ध है और रागद्वेषादिक वैभाविक गुणोंसे रहित होनेके कारण समस्त कर्मोंके व्यापारसे रहित है। ऐसे वे परमात्माही मुझे शरण है। उनके सिवाय अन्य कोई भी मुझे शरण नहीं है।

सुण्णो णेय असुण्णो खोकम्मो कम्मवज्जिओ णाणं ।

अएणो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ४२ ॥

शून्यो नैवाशून्यो नोकर्मकर्मवर्जितो ज्ञानम् ।

अन्यो न मम शरणां शरणं स एकः परमात्मा ॥ ४२ ॥

अर्थ—वह परमात्मा रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित होनेके कारण शून्यरूप है तथा ज्ञानमय आत्मास्वरूप होनेके कारण शून्यरूप नहीं भी है। उस परमात्माका ज्ञान नोकर्मोंसे भी रहित है और ज्ञानावरणादिक कर्मोंसे भी रहित है। ऐसा वह परमात्मा मुझे शरण है, उसके सिवाय मुझे और कोई शरण नहीं है।

णाणाउ जो ण भिण्णो वियप्पभिण्णो सहावसुक्खमओ ।

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ४३ ॥

ज्ञानतो यो न भिन्नः विकल्पभिन्नः स्वभावसुखमयः ।

अन्यो न मम शरणां शरणं स एकः परमात्मा ॥ ४३ ॥

अर्थ—जो परमात्मा अपने केवलज्ञानसे कर्मी भिन्न नहीं होता, परंतु जब तरहके विकल्पोंसे वह सदा भिन्न रहता है, स्वाभाविक सुखस्वरूप है। ऐसा परमात्मा ही मुझे शरण है ऐसे परमात्माके सिवाय अन्य कोई शरण नहीं है।

अच्छिण्णोवच्छिण्णो पमेय रूवत्त गुरुलहू चेव ।

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ४४ ॥

अच्छिन्नोवच्छिन्नः प्रमेयरूपत्व अगुरुलघुत्वं चैव ।

अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ ४४ ॥

[२५३]

अर्थ—जो कमी किसी प्रकार छिन्न भिन्न नहीं होता, जो अखण्ड स्वरूप है तथा अवच्छिन्न है, अंतिम शरीरके प्रमाणके समान है अथवा असंख्यात प्रदेशमय है। जो ज्ञानके द्वारा समस्त पदार्थोंके समान है अर्थात् समस्त पदार्थों का ज्ञाता है और अगुरु लघु गुणसे सुशोभित है ऐसा परमात्मा ही मुझे शरण है। उसके सिवाय अन्य कोई भी शरण नहीं है।

सुहअसुहभावविगओ सुद्धसहावेण तम्मयं पत्तो ।

अएणो ण मज्झ सरणां सरणं सो एकक परमप्पा ॥ ४५ ॥

शुभाशुभभावविगतः शुद्धस्वभावेन तन्मर्थ प्राप्तः ।

अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ ४५ ॥

अर्थ—जो शुभभाव और अशुभ भाव दोनोंसे रहित है। जो केवल शुद्ध-स्वभावके द्वारा अपने ही आत्मामें तल्लीन है। अथवा जो केवल अपने शुद्ध-स्वभावमें ही लीन है ऐसा ही परमात्मा मुझे शरण है। इसके सिवाय अन्य कोई भी मुझे शरण नहीं है।

एणो इत्थी ण णउंसो एणो पुंसो एव पुण्णभावमओ ।

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एकक परमप्पा ॥ ४६ ॥

न स्त्री न नपुंसकः न पुमान् नैव पुण्यपापमयः ।

अन्यो न मम शरणं शरणं सः एकः परमात्मा ॥ ४६ ॥

अर्थ—जो न स्त्री है, न नपुंसक है, न पुरुष है और न पुण्यपाप रूप है, ऐसा परमात्मा ही मुझे शरण है। उसके सिवाय अन्य कोई भी शरण नहीं है।

ते को ण होदि सुयणो तं कस्स ण बंधवो ण सुयणो वा ।

अप्पा हवेह अप्पा एगागी जाणगो सुद्धो ॥ ४७ ॥

तव को न भवति स्वजनः त्वं कस्य न बंधुः स्वजनो वा ।

आत्मा भवेत् आत्मा एकाकी ज्ञायकः शुद्धः ॥ ४७ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! इस संसारमें तेरा कोई कुटुम्बी नहीं है तथा तू भी किसी का भाई वा कुटुम्बी नहीं है। यह आत्मा सदा आत्मा ही रहता है अकेला ही रहता है, समस्त पदार्थोंका जानना इसका स्वभाव है और यह सदा शुद्ध है।

जिणदेवो होउ सया मई सु जिणसासणे सया होऊ ।

सण्णासेण य मरणं भवे भवे मज्झ संपदओ ॥ ४८ ॥

जिनदेवो भवतु सदा मतिः सुजिनशासने सदा भवतु ।
सन्यासेन च मरणं भवे भवे मम सम्पत् ॥ ४८ ॥

अर्थ—मैं जिनदेवकी ही सदा सेवा करता रहूँ जिन देवके सिवाय अन्य किसीको देव न मानूँ । मेरी बुद्धि सदा जिनशासनमें वा धर्ममें ही बनी रहे । जैन धर्मको छोड़ कर अन्य किसी धर्ममें मेरी बुद्धि न जाय । मेरा मरण सदा समाधि पूर्वक ही हो समाधि मरणके सिवाय अन्य मरण न हो । यह नपत्ति मुझे भव भवमें प्राप्त हो ।

जिणो देवो जिणो देवो जिणो देवो जिणो जिणो ।
दयाधम्मो दयाधम्मो दयाधम्मो दया सया ॥ ४९ ॥
जिनो देवो जिनो देवो जिनो देवो जिनो जिनः ।
दयाधर्मो दयाधर्मो दयाधर्मो दया सदा ॥ ४९ ॥

अर्थ—इस तत्सारमें देव जिन ही हैं, देव जिन ही हैं देव जिन ही हैं भगवान् जिनेन्द्रदेव अरहंत देव ही देव हैं अन्य कोई देव देव नहीं है । धर्म दयारूप ही है, धर्म दयामय ही है, धर्म दया ही है । धर्म सदा दयामय ही होता है दया के सिवाय अन्य कोई धर्म हो ही नहीं सकता ।

महासाहू महामाहू महामाहू दिगवरा ।

एव तच्च सदा हुज्ज जाव णो सुत्तिसंगमो ॥ ५० ॥

महा साधवः महा साधवः महासाधवो दिगंबराः ।

एवं तत्त्वं सदां भवतु यादन्न मुक्तिसंगमः ॥ ५० ॥

अर्थ—महासाधु दिगम्बर ही होते हैं महासाधु दिगम्बर ही होते हैं महासाधु दिगम्बर ही होते हैं । हे प्रभो ! जबतक मुझे मोक्षकी प्राप्ति न हो तबतक मेरे हृदयमें यही तत्व सदा बना रहे ।

भावार्थ—तबतक मैं दया मय धर्मको मानता रहूँ जिनेन्द्रदेवको देव मानता रहूँ और निर्ग्रन्थ मुनियोंको साधु वा गुरु मानता रहूँ ।

एवमेव गओकालो अणंतो दुक्खसंगमे ।

जिणोवदिट्ठसण्णासे ण यत्तारोहणा कया ॥ ५१ ॥

एवमेव गतः कालः अनन्तो दुःखसंगमे ।

जिनोपदिट्ठसन्यासे न यत्तारोहणा कृता ॥ ५१ ॥

अर्थ—आजतक मेरा अनंत काल दुःख भोगते ही व्यर्थ बीत गया । मैंने

अबतक भगवान् जिनेन्द्र देवके कहे हुए समाधि मरणके लिए यत्न पूर्वक कभी प्रयत्न नहीं किया ।

भावार्थ—समाधि मरण कभी धारण नहीं किया ।

संपद् एव संपत्ताराहणा जिणदेशिया ।

किं किं ण जायदे मज्झ सिद्धिसंदोहसंपद् ॥ ५२ ॥

सम्प्रति एव सम्प्राप्ता आराधना जिनदेशिता ।

का का न जायते मम सिद्धिसंदोहसम्पत्तिः ॥ ५२ ॥

अर्थ—अब इस समय मुझे भगवान् जिनेन्द्र देवकी कही हुई आराधना प्राप्त हुई है इनके प्राप्त होने से अब इस संसारमें ऐसी कौनसी सिद्धियोंकी समूह रूप संपत्ति हैं जो मुझे प्राप्त न हो ।

भावार्थ—अब इन आराधनाओंके पालन करनेसे मुझे समस्त सिद्धिया प्राप्त हो जायेंगी ।

अहो धम्ममहो धम्मं अहो मे लद्धि णिम्मला ।

संजादा संपया सारा जेण सुक्खपरूपमं ॥ ५३ ॥

अहो धर्मः अहो धर्मः अहो मे लब्धिनिर्मला ।

संजाता सम्पत् सारा येन सुखं अनुपमम् ॥ ५३ ॥

अर्थ—यह जिनदेवका कहा हुआ दयाधर्म बड़ा ही आश्चर्य कारक है तथा यह धर्म सबसे उत्तम है और यह मुझे प्राप्त हुई अत्यंत निर्मल काल लब्धिभी अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली है । इस निर्मल काललब्धि और जिनधर्म के प्रसादसे मुझे आराधनारूप सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त हुई है इस आराधना रूप संपत्तिसे ही उपमा रहित मोक्ष सुख प्राप्त होता है ।

एवं आराहंतो आलीयणवंदनापडिक्कमणं ।

पावह फलय तेसिं णिद्धिं अजियवम्मेण ॥ ५४ ॥

एवं आराधयन् आलोचनावंदनाप्रतिक्रमणानि ।

प्राप्नोति फलं च तेषां निर्दिष्टमजितब्रह्मणा ॥ ५४ ॥

अर्थ—इस प्रकार आलोचना वंदना और प्रतिक्रमणकी आराधना करनेसे भगवान् जिनेन्द्र देवका कहा हुआ मोक्ष फल प्राप्त होता है ।

अथ चतुर्विंशि वंदना ।

प्राग्दिग्विदिगन्तरि, केवलिजिनसिद्ध साधुगणदेवाः । ये सर्वद्विस-
मृद्धा, योगिगणास्तानऽहं वन्दे ॥ १ ॥ दक्षिणदिग्विदिगन्तरि, केवलि-
जिनसिद्धसाधुगणदेवाः । ये सर्वद्विसमृद्धा० ॥ २ ॥ पश्चिमदिग्विदिगन्तरि
केवलिजिनसिद्धसाधुगणदेवाः । ये सर्वद्विसमृद्धा० ॥ ३ ॥ उत्तरदिग्वि-
दिगन्तरि, केवलिजिनसिद्धसाधुगणदेवाः । ये सर्वद्विसमृद्धा० ॥ ४ ॥

इति चतुर्विंशि वंदना ।

सर्वदोषप्रायश्चित्तविधिलिख्यते ।

ॐ ह्रीं अर्ह अ सि आ उ सा त्रयस्त्रिंशदत्यासादनात्यागानुष्ठितप्रो-
षधोद्योतनाय नमः ॥ १ ॥ ॐ ह्रीं अर्ह अर्हिसामहात्रतस्यात्यासादनात्या-
गायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ २ ॥ ॐ ह्रीं अर्ह सत्यमहात्रतस्या-
त्यासादनात्यागानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ ३ ॥ ॐ ह्रीं अर्ह अचो-
र्यमहात्रतस्यात्यासादनात्यागानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ ४ ॥ ॐ
ह्रीं अर्ह ब्रह्मचर्यमहात्रतस्यात्यासादनात्यागानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः
॥ ५ ॥ ॐ ह्रीं अर्ह अपरिग्रहमहात्रतस्यात्यासादनात्यागानुष्ठितप्रोष-
धोद्योतनाय नमः ॥ ६ ॥ ॐ ह्रीं अर्ह ईर्यासमितेरत्यासादनात्यागानु-
ष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ ७ ॥ ॐ ह्रीं अर्ह भाषासमिरेत्यासादनात्या-
गायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ ८ ॥ ॐ ह्रीं अर्ह एषणासमिरेत्या-
सादनात्यागानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ ९ ॥ ॐ ह्रीं अर्ह आदा-
ननिक्षेपणसमिरेत्यासादनात्यागानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ १० ॥
ॐ ह्रीं अर्ह उत्सर्गसमिरेत्यासादनात्यागानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः
॥ ११ ॥ ॐ ह्रीं अर्ह मनोगुप्तेरत्यासादनात्यागानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय
नमः ॥ १२ ॥ ॐ ह्रीं अर्ह वचोगुप्तेरत्यासादनात्यागानुष्ठितप्रोषधो-
द्योतनाय नमः ॥ १३ ॥ ॐ ह्रीं अर्ह कायगुप्तेरत्यासादनात्यागानुष्ठि-

तप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ १४ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं जीवास्तिकायिकस्यात्या-
 सादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ १५ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं पुद्ग-
 लास्तिकायिकस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ १६ ॥
 ॐ ह्रीं अर्हं धर्मास्तिकायिकस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय
 नमः ॥ १७ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं अधर्मास्तिकायिकस्यात्यासादनात्यागायानु-
 ष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ १८ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं आकाशास्तिकायिक-
 स्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ १९ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं
 पृथ्वीकायिकस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ २० ॥
 ॐ ह्रीं अर्हं अपृथ्वीकायिकस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः
 ॥ २१ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं तेजः कायिकस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्यो-
 तनाय नमः ॥ २२ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं वायुकायिकस्यात्यासादनात्यागाया-
 नुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ २३ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं वनस्पतिकायिकस्यात्या-
 सादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ २४ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं त्रस-
 कायिकस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ २५ ॥ ॐ
 ह्रीं अर्हं जीवपदार्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः
 ॥ २६ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं अजीवपदार्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्यो-
 तनाय नमः ॥ २७ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं आसन्नपदार्थस्यात्यासादनात्यागायानु-
 ष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ २८ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं बन्धपदार्थस्यात्यासादना-
 त्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ २९ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं संवरपदार्थ-
 स्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ ३० ॥ ॐ ह्रीं अर्हं
 निर्जरापदार्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ ३१ ॥
 ॐ ह्रीं अर्हं मोक्षपदार्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः
 ॥ ३२ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं पुण्यपदार्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्यो-
 तनाय नमः ॥ ३३ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं पापपदार्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठि-
 तप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ ३४ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं सम्यग्ज्ञानाय नमः ॥ ३५ ॥
 ॐ ह्रीं अर्हं सम्यग्दर्शनाय नमः ॥ ३६ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं सम्यक्चारित्राय
 नमः ॥ ३७ ॥

इति सर्वदोषप्रायश्चित्तविधिः ।

[२५८]

अथ सामायिक पाठः ।

सिद्धवस्तुवचो भक्त्या, सिद्धान् प्रणमतः सदा । सिद्धकार्याः शिवं
प्राप्ताः, सिद्धिं ददतु नोऽव्ययाम् ॥ १ ॥ नमोस्तु धौतपापेभ्यः, सिद्धे-
भ्यः ऋषिसंसदि । सामायिकं प्रपद्येऽहं, भवभ्रमणसूदनम् ॥ २ ॥ साम्यं
मे सर्वभूतेषु, वैरं मम न केनचित् । आशां सर्वां परित्यज्य, समाधिमहमा-
श्रये ॥ ३ ॥ रागद्वेषान्मक्त्वाद्वा, हा मया ये विराधिताः । क्षमन्तु जंत-
वस्ते मां, क्षाम्यन्तु सदा तेभ्यः क्षमाम्यहं ॥ ४ ॥ मनसा वपुषा वाचा,
कृतकरितसम्मतैः । रत्नत्रयभवं दोषं, गर्हे निन्दामि वर्जये ॥ ५ ॥ तैरश्च
मानवं दैवसुपसर्गं सहेऽधुना । कायाहारकषायादीन्, संत्यजामि त्रिशुद्धितः
॥ ६ ॥ रागद्वेषं भयं शोकं, प्रहर्षैत्सुक्यदीनताः । व्युत्सृजामि त्रिधा
सर्वमरतिं रतिमेव च ॥ ७ ॥ जीवने मरणे लाभेऽलाभे, योगे विपर्यये ।
बन्धावरौ सुखे दुःखे, सर्वदा समता मम ॥ ८ ॥ आत्मैव मे सदा ज्ञाने,
दर्शने चरणे तथा । प्रत्याख्याने मन्मात्मैव, तथा संवरयोगयोः ॥ ९ ॥
एको मे शाश्वतश्चात्मा, ज्ञानदर्शनलक्षणः । शेषा वहिर्भवा भावाः, सर्वे
संयोगलक्षणाः ॥ १० ॥ संयोगधूला जीवेन, प्राप्ता दुःखपरम्परा ॥ तस्मा-
त्संयोगसम्बन्ध, त्रिधा सर्वं त्यजाम्यहम् ॥ ११ ॥ एवं सामायिकात्स-
म्यक, सामायिकमखंडितम् । वर्तते मुक्तिमानिन्या, वशीभूताय ते नमः ॥ १२ ॥

इति सामायिक पाठः ।

आचार्यशान्तिसागरस्तुतिः ।

पूज्यातिपूज्यैर्यतिभिस्सुबद्धं संसारगम्भीरसमुद्रसेतुम् । ध्यानैकनिष्ठा-
गरिमागरिष्ठं, आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम् ॥ १ ॥ ध्यानादिसैन्यं परि-

वर्धय पूर्णं, कर्मारिवर्गं प्रणिहृत्य वेगात् । नीरागस्वातंत्र्यपदे प्रतिष्ठं, आ०
 ॥ २ ॥ यो मृद्व्यस्त्रिर्मुनिनायकानां, आचारपारं गतवान्समग्रं । ध्यान-
 प्रभावेण प्रवृद्धदीप्तिः, आ० ॥ ३ ॥ दुर्जेयकं द्वादशधा कषायं, जित्वा
 निजात्मानुभवैकशुद्ध्या । षष्ठे गुणे सप्तमके गतं तं, आ० ॥ ४ ॥ आभ्य-
 न्तरो बाह्य उपाधिभारः, दूरीकृतो येन वितृष्णभावात् । दैगम्बरं सुन्दर-
 दिव्यकायं, आ० ॥ ५ ॥ धर्माभूतं पाययति प्रभूतं, यो भव्यजीवान्
 करुणास्वरूपः । स्वात्मस्वरूपं च चकार तेभ्यः आ० ॥ ६ ॥ योऽनेक-
 साधून् विषयेष्वरक्तान्, निर्ग्रथलिङ्गे विधिना चकार । गुरुपरागोपि च
 वीतरागः, आ० ॥ ७ ॥ महागभीरं विशदीकृतार्थं, शास्त्राब्धिपारे गत-
 वान् समग्रम् । तथापि प्रज्ञामदताविक्तः, आ० ॥ ८ ॥ यथा कुन्दकुन्दः
 सुरैर्वधपादः, अभूत्साधुसंसेव्यमानप्रपादः । तथैवाधुना लोकपूज्यं यती-
 न्द्रं भजे स्त्रिवर्यं सदा साधुवंधम् ॥ ९ ॥ यथा दुष्टजीवेन घोरोपसर्गाः
 कृताः पार्श्वनाथे त्रिलोकैकपूज्ये । तथा दुष्टलोकोपसर्गं सहिष्णुं भजे०
 ॥ १० ॥ यतीनामनेके यथा शिष्यवर्गाः, प्रभोः कुन्दकुन्दस्य स्त्रेरभूवन् ।
 तथैवाधुना साधुसंदोहशिष्यम्, भजे० ॥ ११ ॥ यथा सूत्रचिन्हं हि रत्न-
 त्रयस्य, पुरा भारते पूर्वदूज्यैर्निरुक्तम् । तथैवाधुना सूत्रचिन्हं दधान,
 भजे० ॥ १२ ॥ शान्तेरगारं विनष्टारिमारं जगत्कञ्जमित्रं गुणाढ्यं पवि-
 त्रम् । वरिष्ठैः सुपूज्यं गरिष्ठप्रधानं, भजे० ॥ १३ ॥ गुरुर्भीमगौडा महा-
 शक्तिशाली, स्वामाता सती सत्यरूपा सुरूपा । तयोः पुत्ररत्नं जिताक्षा-
 रियत्नं, भजे० ॥ १४ ॥ जगद्गच्छरीं कर्तयित्वा कृपाणीं, गृहीत्वा शुभ-
 ध्यानरूपां स्वभावात् । प्रपेदे गुणं सप्तमञ्चैकहीनं, भजे० ॥ १५ ॥
 गुणारामनीरं भवाम्भोधितीरं, सदा निर्विकारं गृहीतात्मसारम् । कषायादि-
 दुर्दण्डभेदं भजे० ॥ १६ ॥ महद्ब्रह्माननिष्ठं महत्सु प्रकृष्टं, महर्षिप्रतिष्ठं
 वचो यस्य मिष्टम् । चिदानंदरूपे स्वरूपे प्रविष्टं, भजे० ॥ १७ ॥ निर्ग्रथ-
 साधुमधुपत्रजराजमाना, त्वत्पादपद्मकलिका धवलाभिरामा । नक्षत्रचन्द्र-
 परिवेष्टितचन्द्रबिम्बः, देवैः सुदृष्टिशुचिभिर्मघवा यथा वा ॥ १८ ॥
 यत्पादसेवनरताः खलु भव्यलोकाः, संसारतो झटिति यांति विरक्तिवु-

द्विम् ॥ यद्गीः प्रशस्यमहनीयसुहेतुपूना, पञ्चाननस्य समतां सदसि व्य-
नक्ति ॥ १९ ॥ मिथ्यान्धकारपटलं प्रविहाय शीघ्रं, तत्त्वप्रसारकिरणैः
सुखदैः समन्तात् । श्रद्धापरायणजनाम्बुजकोरकांश्रं, सन्तोषयन् विगतता-
परविस्त्वमेव ॥ २० ॥ मिथ्यान्धकारपरिमर्दनरश्मिजालं, ज्ञानप्रकाशितज-
गत्प्रविकाशिष्यैः । ध्यानैकताननियतं मुनिराजसेव्यं, आचार्यवर्यगुरुपा-
दमहं नमामि ॥ २१ ॥ गुणास्त्वदीयाः धवलाः गभीराः, सुरेन्द्रनागेन्द्र-
नरेन्द्रपूज्याः । विभांति सूरैः ! तव दिव्यदेहे, ततोसि पूज्यः खलु विश्व-
लोके ॥ २२ ॥ दर्श दर्श सूरिशान्तस्वरूपं पायं पायं वाक्यपीयूषधाराम् ।
स्मारं स्मारं तद्गुणान् स्पृष्टपादाः, जाताः शान्ताः साधवोऽक्षेष्वरक्ताः ॥ २३ ॥
चित्ते चित्ते शान्तमूर्तेः सुबोधः, बोधे तत्स्वरूपानुरूपम् । रूपे रूपे स्वा-
त्मवृत्तौ प्रवृत्ति वृत्तौ वृत्तौ कुन्थुनेमीन्दुवीराः ॥ २४ ॥ आसीद्यः खलु
दक्षिणायनकरः पश्चादुदीच्यां भक्तः । ज्ञानध्यानतपःप्रभामयवपुः संघार-
यन् दीप्तिमान् ॥ सम्यग्ज्ञानमरीचिभिर्विकसिता आशाश्च येनाखिलाः ।
सोऽयं सूरिरपूर्वभानुरुदितो लोके सदा शान्तिदः ॥ २५ ॥ सुखदयाखिल-
बोधविधानया, विधिविशाखिकठोरकुठारया । विगतरागगुरुर्जिनदीक्षया,
तरति तारयति भ्रमजालतः ॥ २६ ॥

इति आचार्यशान्तिसागरस्तुतिः ।

दैवासिकरात्रिकप्रतिक्रमणम् ।

जीवे प्रमादजनिताः प्रचुराः प्रदोषा, यस्मात्प्रतिक्रमणतः प्रलयं प्रया-
न्ति । तस्मात्तदर्थममलं मुनिबोधनार्थं, वक्ष्ये विचित्रभवकर्मविशोधनार्थम्
॥ १ ॥ पापिष्ठेन दुरात्मना जडधिया मायाविना लोमिना । रागद्वेषमली-
मसेन मनसा दुष्कर्म यन्निर्मितम् ॥ त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र ! भवतः श्री-
पादमूलेऽधुना । निन्दापूर्वमहं जहामि सततं वर्वतिष्ठुः सत्पथे ॥ २ ॥
खम्मामि सव्वजीवाणं सव्वे जीवा खमंतु मे । मित्ती मे सव्वभूदेसु वेरं

मज्झं ण केण वि ॥ ३ ॥ रागबंधपदोसं च हरिसं दीणभावयं । उस्सु-
:गरं भयं योगं रदिमरदिं च वोस्सरं ॥ ४ ॥ हा ! दुड्ढकयं हा ! दुड्ढ-
चिंतियं भासियं च हा दुड्ढं । अंतोअंतो उज्झमि पच्छुत्तावेण वेदंतो
॥ ५ ॥ दन्वे खेत्ते काले भावे य कदावराहसोहणयं । णिंदणगरहणजुत्तो
मणवचकाएण पडिकमणं ॥ ६ ॥ एकेन्द्रिया द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाश्चतुरि-
न्द्रियाः पञ्चेन्द्रियाः पृथ्वीकायिका अप्कायिकास्तेजःकायिका वायुकायिका
वनस्पतिकायिकास्त्रसकायिकाः, एतेषां उचापनं, परितापनं, विराधन,
उपघातः कृतो वा कारितो वा क्रियमाणो वा समनुमतस्तस्य मिथ्या मे
दुष्कृतम् । व्रतसमितीन्द्रियरोधा लोच आवश्यकमचेलमस्नानं । क्षितिश-
यनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तश्च ॥ १ ॥ एते खलु मूलगुणाः
श्रमणानां जिनवेरेः प्रज्ञप्ताः । अत्र प्रगादकृतादतिचारान्निवृत्तोऽहम् ॥२॥
छेदोपस्थापनं भवतु मम ।

पञ्चमहाव्रतपञ्चसमितिपञ्चेन्द्रियरोधलोचपडावश्यक क्रियाः, अष्टा-
विंशतिमूलगुणाः, उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्य-
ब्रह्मचर्याणि दशलाक्षणिको धर्मः, अष्टादशशीलसहस्राणि, चतुरशीति-
लक्षगुणाः, त्रयोदशविधं चारित्रं, द्वादशविधं तपश्चेति सकलं सम्पूर्णम-
र्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुसाक्षिकं सम्यक्त्वपूर्वकं दृढव्रतं सुव्रतं समा-
रूढं (ते ?) मे भवतु ।

“अथ सर्वातिचारविशुद्ध्यर्थं दैवसिकप्रतिक्रमणक्रियायां कृतदोषनि-
राकरणार्थं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजावन्दनास्तवसमेतं
आलोचनासिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्” इति प्रतिज्ञाप्य “णमो अरि-
हंताणं” इत्यादि सामायिकदण्डकं पठित्वा कायोत्सर्गं कुर्यात् । “थोस्सामि”
इत्यादि चतुर्विंशतिस्तव पठेत् । श्रीमते वर्धमानाय नमो नमितविद्विषे । यज्ज्ञा-
नान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोष्पदायते ॥ १ ॥ तवसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे
चरित्तसिद्धे य । णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥ २ ॥
इच्छामि भंते ! सिद्धभक्तिकाओस्सग्गो कओ तरसालोचेउं, सम्मणाणस-
म्मदंसणसम्मचरित्तजुत्ताणं, अट्टविहकम्ममुक्काणं, अट्टगुणसम्पण्णाणं, उड्-

प्रथमं महाव्रतं प्राणातिपाताद्विरमणं, द्वितीयं महाव्रतं मृषावादाद्विरमणं, तृतीयं महाव्रतमदत्तादानाद्विरमणं, चतुर्थं महाव्रतं मैथुनाद्विरमणं, पञ्चमं महाव्रतं परिग्रहाद्विरमणं, षष्ठमणुव्रतं रात्रिभोजनाद्विरमणं, ईर्यासमितौ, भाषासमितौ, एषणासमितौ आदाननिक्षेपणसमितौ, उच्चारप्रस्रवणश्लेष्म-
 शिंघाणकविकृतिप्रतिष्ठापनिकासमितौ, मनोगुप्तौ, वचोगुप्तौ, कायगुप्तौ, ज्ञानेषु, दर्शनेषु, चारित्र्येषु, द्वाविंशतिषु, परीषहेषु, पञ्चविंशतिषु, भाव-
 वासु पञ्चविंशतिषु क्रियासु अष्टादशशीलसहस्रेषु चतुरशीतिगुणशतसह-
 स्रेषु द्वादशानां संयमानां द्वादशानां तपसां, द्वादशानां अङ्गानां, चतुर्द-
 शानां पूर्वाणां, दशानां मुण्डानां, दशानां श्रवणधर्मानां, दशानां धर्म-
 ध्यानां, नवानां ब्रह्मचर्यगुप्तीनां, नवानां नोकषायाणां, षोडशानां, कषायाणां, अष्टानां कर्मणां, अष्टानां प्रवचनमातृकाणां, अष्टानां शुद्धीनां, सप्तानां भवानां, सप्तविधसंसारणां, षण्णां जीवनिकायानां, षण्णां आवश्यकानां, पञ्चानामिन्द्रियाणां, पंचानां महाव्रतानां, पंचानां समि-
 तीनां, पंचानां चारित्र्याणां, चतसृणां संज्ञानां, चतुर्णां प्रत्ययानां, चतुर्णां उप-सर्गाणां, मूलगुणानां, उत्तरगुणानां दृष्टिक्यां, पृष्टिक्यां, प्रादोषिक्यां, परितापनिक्यां, तस्य क्रोधेन, वा मानेन वा मायया वा लोभेन वारागेन वा द्वेषेण वा मोहेन वा हास्येन वा भयेन वा प्रद्वेषेण वा प्रमादेन वा प्रेम्णा वा पिपासया वा लज्जया वा गौरवेण वा एतेषामत्यासनतायां त्रयाणां दण्डानां, तिसृणां लेख्यानां, त्रयाणां गौरवाणां, द्वयोरातरीन्द्रसं-
 क्लेशपरिणामयोः, त्रयाणामप्रशस्तसंक्लेशपरिणामानां, मिथ्यादर्शनमिथ्या-
 ज्ञानमिथ्याचारित्र्याणां मिथ्यात्वप्रायोग्यं असंयमप्रायोग्यं कषायप्रायोग्यं योगप्रायोग्यं अप्रायोग्यसेवनतायां प्रायोग्यगर्हायां, अत्र मे यः कश्चिद्देवा-
 सिकः रात्रिकः अतिक्रमः व्यतिक्रमः अतिचारः अनाचारः आभोगः अनाभोगः तस्य भगवन् ! प्रतिक्रमामि मया प्रतिक्रान्तं, तस्य मे सम्य-
 क्त्वमरणं समाधिमरणं पण्डितमरणं वीर्यमरणं दुःखक्षयः कर्मक्षयः बोधि-
 लाभः सुगतिगमनं समाधिमरणं जिनगुणसंप्राप्तिर्भवतु मम । 'व्रतसमिती'-
 इत्यादि पठेत् । (इति प्रतिक्रमणपीठिकादण्डकाः)

अथ सर्वातिचारविशुद्धयर्थं दैवसिक—(रात्रिक) प्रतिक्रमणक्रियायां कृतदोषनिराकरणार्थं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजाचंदनास्तत्रसमेतं श्रीप्रतिक्रमणभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम् । 'णमो अरहंताणं' (इत्यादि दण्डकं पठित्वा कायोत्सर्गं कुर्यात् । अनन्तरं) 'थोस्सामि' (इत्यादि पठेत्) ।

निषिद्धिकादंडकाः

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरीयाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सच्चसाहूणं ॥

नमो जिनेभ्यः ३, नमो निषिद्धिकायै ३, नमोस्तु तुभ्यं ३, अर्हन् ! सिद्ध ! बुद्ध ! नीरजः ! निर्मल ! सममनः ! शुभमनः ! समयोग ! समभाव ! शल्यघट्टानां शल्यघत्ताण ! निर्भय ! नीराग ! निर्दोष ! निर्मोह ! निर्मम ! निःशङ्क ! निःशल्य ! मानमायामृषामर्दक ! तपः-प्रभावन ! गुण-रत्न-शीलसागर ! अनन्त ! अप्रमेय ! महतिमहावीरवर्धमान बुद्धर्षेणमोऽस्तु तुभ्यं ३ ।

अर्हन्तश्च सिद्धाश्च बुद्धाश्च जिनाश्च केवलिनोऽवधिज्ञानिनो मनःपर्ययज्ञानिनः चतुर्दशपूर्वाङ्गमिनः श्रुतसमितिसमृद्धाश्च, तपश्च द्वादशविधं तपस्विनः, गुणाश्च गुणवन्तश्च, महर्षयः, तीर्थस्तीर्थकराश्च, प्रवचनं प्रवचनी च, ज्ञानं ज्ञानी च, दर्शनं दर्शनी च, संयमः संयताश्चविनयो विनीताश्च, ब्रह्मचर्यवासो ब्रह्मचारी च, गुप्तयश्चैव गुप्तिमन्तश्च, मुक्तयश्चैव मुक्तिमन्तश्च, समितयः समितिमन्तश्च, स्वसमयपरसमयविदः, क्षान्तिक्षयकाश्च क्षान्तिमन्तश्च, क्षीणमोहाः क्षणिवन्तश्च, बोधितबुद्धाश्च बुद्धिमन्तश्च, चैत्यबृक्षाश्च चैत्यानि । (एते सर्वे मम मङ्गलं भवन्तु) ।

ऊर्ध्वाधस्तिरग्लोके सिद्धायतनानि नमस्करोमि, सिद्धनिषिद्धिकाः अष्टापदपर्वते सम्पदे ऊर्ध्वयन्ते चम्पायां पावायां मध्यमायां हस्तिवालिकामण्डपे (नमस्यामीति सम्बन्धः) । या अन्याः काश्चित् निषिद्धिकाः जीवलोके ईषत्प्राग्भारतलगतानां सिद्धानां बुद्धानां कर्मचक्रमुक्तानां नीरजसां निर्म-

लानां गुर्वाचार्योपाध्यायानां प्रवर्तिस्थविरकुलकराणां (नमस्यामि) चतुर्वर्णश्च श्रमणसंघश्च भरतैरावतेषु दशसु पञ्चसु महाविदेहेषु (मम मङ्गलं भूयात्) ये लोके संति साधवः संयता तपस्विन एते मम मंगलं पवित्रं । एतानहं मंगलं करोमि भावतो विशुद्धयः शिरसा, अभिवन्ध सिद्धान् कृत्वाञ्जलिं मस्तके त्रिविधं त्रिकरणशुद्धः ।

१. प्रतिक्रमामि भदन्त ! दैवसिकस्यातिचारस्य अनाचारस्य मनोदुश्चरित्रस्य वचनदुश्चरित्रस्य कायदुश्चरित्रस्य ज्ञानातिचारस्य दर्शनातिचारस्य तपोऽतिचारस्य वीर्यातिचारस्य चारित्रातिचारस्य पञ्चानां महाव्रतानां पञ्चानां समितीनां तिसृणां गुप्तीनां षण्णामावश्यकानां षण्णां जीवनिकायानां विराधनायां पीलः (पीडा) कृतो वा कारितो वा क्रियमाणो वा समनुमतः तस्य मिच्छा मे दुष्कृतम्..... ।

२. अतिगमने निर्गमने स्थाने गमने चक्रमणे उद्धर्त्तने परिवर्तने आकुञ्चने प्रसारणे आमर्शे परिमर्शे उत्स्वपनापिते (पूतकृते वा) दन्तकटकायिने (अतीवकर्कशशब्दे वा) चलिते निषण्णे शयने सुप्तस्योत्थाय उद्भवने उद्भवस्य उपविश्य शयने एकेन्द्रियाणां.....संघट्टनया संघातनया उच्चापनया परितापनया विराधनायां यत्र मे यः कश्चिद्दैवसिको रात्रिकोऽतिक्रमो न्यतिक्रमोऽतिचारोऽनाचारस्तस्य..... ।

३. ऐर्यापथिकायां विराधनायां ऊर्ध्वमुखं चरता वा अधोमुखं चरता वा तिर्यग्मुखं चरता वा दिशामुखं चरता वा विदिशामुखं चरता वा प्राणाचंक्रमणतः बीजचंक्रमणतः हरितचंक्रमणतः उत्तिग-पणक-दकसृष्ट-मर्कटक-तन्तु-सत्वानां चंक्रमणतः पृथ्वीकायिकसंघट्टनया अप्कायिकसंघट्टनया तेजःकायिकसंघट्टनया वायुकायिकसंघट्टनया वनस्पतिकायिकसंघट्टनया त्रसकायिकसंघट्टनया उच्चापनया परितापनया विराधनायां एतस्यां मे यः कश्चिदैर्यापथिक्याम्..... ।

४. उच्चारप्रस्रवणच्चेलसिंहानकविकृतिप्रतिस्थापनिकायां प्रतिस्थापयता ये केचित्प्राणा वा भूत्वा वा जीवा वा सत्त्वा वा संघट्टिता वा संघातिता वा उच्चापिता वा परितापिता वा एतस्मिन्

५. अनेषणया पानभोजनेन पणकभोजनेन व्रीजभोजनेन हरित-
भोजनेन अधःकर्मणा वा पश्चात्कर्मणा वा पुराकर्मणा वा उद्दिष्टकृतेन
निर्दिष्टकृतेन दयासंसृष्टकृतेन रससंसृष्टकृतेन परिसातनिकया प्रतिष्ठापनि-
कया उद्देशिकया निर्देशिकया क्रीतकृते मिश्रे जाते स्थापिते रचिते अनि-
सृष्टे बलिप्राभृते प्राभृते घट्टिते मूर्छिते अतिमात्रभोजने एतस्यां (अनेष-
णया) मे यः कश्चित् गोचरिणः ।

६. स्वमेन्द्रियाया विराधनायां स्त्रीविपरियासिकायां दृष्टिविपरियासि-
कायां मनोविपरियासिकायां वचोविपरियासिकायां कायविपरियासिकायां
भोजनविपरियासिकायां उच्च्यावजायां स्वप्नदर्शनविपरियासिकायां पूर्व-
रते पूर्वखेलिते नानाचिन्तासु विश्रोत्रिकासु, एतस्यां.....।

७. स्त्रीकथायां अर्थकथायां भक्तकथायां राजकथायां चोरकथायां
वैरकथायां परपाषण्डकथायां देशकथायां भाषाकथायां अकथायां विक-
थायां निष्टुरकथायां परपैशून्यकथायां कान्दर्पिक्यां कौतुक्चिकायां डाम्ब-
रिकायां मौखरिकायां आत्मप्रशंसनतायां परपरिवादनतायां परजुगुप्सन-
तायां परपीडनकरायां सावद्यानुमोदनिकायां एतस्यां ।

८. आर्तध्याने रौद्रध्याने इहलोकसंज्ञाया परलोकसंज्ञायां आहारसं-
ज्ञायां भयसंज्ञायां मैथुनसंज्ञायां परिग्रहसंज्ञायां क्रोधशल्ये मानशल्ये माया-
शल्ये लोभशल्ये प्रेमशल्ये पिपासाशल्ये निदानशल्ये मिथ्यादर्शनशल्ये
क्रोधकषाये मानकषाये मायाकषाये लोभकषाये कृष्णलेश्यापरिणामे नील-
लेश्यापरिणामे कापोतलेश्यापरिणामे आरंभपरिणामे परिग्रहपरिणामे
प्रतिश्रयामिलाषपरिणामे मिथ्यादर्शनपरिणामे असंयमपरिणामे कषाय-
परिणामे पापयोगपरिणामे कायसुखामिलाषपरिणामे शब्देषु रूपेषु गंधेषु
रसेषु स्पर्शेषु कायिकाधिकरणिकायां प्रदोषिकायां परिद्रावणिक्यां प्राणा-
तिपातिकासु, एतस्मिन्..... ।

९. एकस्मिन् भावे अनाचारे, द्वयो रागद्वेषयोः, त्रिषु दण्डेषु,
तिसृषु गुप्तिषु त्रिषु, गौरवेषु, चतुःषु, चतसृषु संज्ञाषु, पञ्चसु महाव्र-
तेषु, पञ्चसु समितिषु, षट्सु जीवनिकायेषु, षट्सु आवश्यकेषु सप्तसु

भयेषु, अष्टसु मदेषु नवसु ब्रह्मचर्यगुप्तिषु, दशविधेषु श्रमणधर्मेषु, एका-
दशविधासु उपासकप्रतिमासु, द्वादशविधासु भिक्षुप्रतिमासु, त्रयोदश-
विधेषु क्रियास्थानेषु, चतुर्दशविधेषु भूतग्रामेषु पञ्चदशविधेषु प्रमादस्थानेषु
षोडशविधेषु प्रवचनेषु, सप्तदशविधेषु असंयमेषु अष्टादशविधेषु असम्प-
रायेषु, एकोनविंशतौ नाथाध्ययनेषु, विंशतौ असमाधिस्थानेषु, विंशेषु
सबलेषु, द्वाविंशेषु परीसहेषु, त्रयोविंशेषु सूत्रकृताध्ययनेषु, चतुर्विंशेषु अर्ह-
त्सु, पञ्चविंशतौ भावनासु, पञ्चविंशेषु क्रियास्थानेषु, षड्विंशतौ पृथिवीषु,
सप्तविंशेषु अनगारगुणेषु, अष्टाविंशेषु आचारकल्पेषु एकोनत्रिंशत्सु पापसू-
त्रप्रसङ्गेषु, त्रिंशत्सु मोहनीयस्थानेषु, एकत्रिंशत्सु कर्मविपाकेषु द्वात्रिंशत्सु
जिनोपदेशेषु त्रयस्त्रिंशत्प्रकारायां अत्यासादनतायां, संक्षेपेण जीवानामत्या-
सादनतायां, अजीवानामत्यासादनतायां, ज्ञानस्यात्यासादनतायां दर्शनस्य
अत्यासादनतायां चारित्रस्यात्यासादनतायां तपसःअत्यासादनतायां वीर्यस्य
अत्यासादनतायां तत्सर्वं पूर्वं दुश्चरित्रं गर्हे, प्रत्युत्पन्नं अतिक्रान्तं प्रतिक्रमामि
अनागतं प्रत्याख्यामि, अगर्हितं गर्हे, अनिन्दितं निन्दामि, अनालोचितं
आलोचयामि, अराधनां अभ्युत्तिष्ठामि, विराधनां प्रतिक्रमामि..... ।

१०. इच्छामि भगवन् ! इमं निर्ग्रन्थं प्रवचनं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं
नैकायिकसामायिकं संशुद्धं शल्यघट्टानां शल्यघातनं सिद्धिमार्गं श्रेणिमार्गं,
क्षान्तिमार्गं मुक्तिमार्गं, प्रमुक्तिमार्गं मोक्षमार्गं प्रमोक्षमार्गं निर्याणमार्गं
निर्याणमार्गं सर्वदुःखपरिहाणिमार्गं सुचरित्रपरिनिर्वाणामार्गं अविशंपादकं
समाश्रयन्ति, प्रवचनं उत्तमं, तच्छ्रद्धामि, तत्प्रतिपद्ये, तद्रोचे, तत्सृ-
शामि, इत् उत्तरमन्यन्नास्ति न भूतं [न भवति] न भविष्यति ज्ञानेन
वा दर्शनेन वा चारित्र्येण वा सूत्रेण वा । इतो जीवा सिद्धयन्ति बुद्धयन्ते
मुच्यन्ते परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति परिविजानन्ति, श्रमणोऽ-
स्मि संयतोऽस्मि उपरतोऽस्मि उपशान्तोऽस्मि उपधिनिःकृतिमानमाया-
मृषामिथ्याज्ञानमिथ्यादर्शनमिथ्याचारित्रं च प्रतिविरतोऽस्मि, सम्यग्ज्ञानं
सम्यग्दर्शनं सम्यग्चारित्रं च रोचे, यज्जिनवरैः प्रज्ञप्तं अत्र..... ।

११. प्रतिक्रमामि भदन्त ! सर्वस्य, सर्वकालिक्याः, ईर्यासमितेः

भाषासमितेः एषणासमितेः आदाननिक्षेपणसमितेः उच्चारप्रश्रवण-खेल-
सिंघाणक-विकृतिप्रतिष्ठापनसमितेः मनोगुप्तेः वचोगुप्तेः कायगुप्तेः प्राणा-
तिपाताद्विरमणायाः मृषावादाद्विरमणायाः अदत्तादानाद्विरमणायाः मैथु-
नाद्विरमणायाः परिग्रहाद्विरमणायाः रात्रिभोजनाद्विरमणायाः सर्वविराध-
नायाः सर्वधर्मातिक्रमतायाः सर्वमिथ्याचरितायाः (विशुद्धेर्निमित्तं)
अत्र..... ।

इच्छामि भदन्त ! वीरभक्तिकायोत्सर्गं यो मम दैवसिको रात्रिकोऽ-
तिचारोऽनाचार आभोगोऽनाभोगः कायिको वाचिको मानसिकः दुश्चि-
न्तितः दुर्भाषितः दुष्परिणामितः दुःस्वमितः ज्ञाने दर्शने चारित्रे सूत्रे
सामायिके पञ्चानां महाव्रतानां पञ्चानां समितीनां तिष्ठणां गुप्तीनां षण्णां
जीवनिकायानां षण्णां आवश्यकानां विराधनायां अष्टविधस्य कर्मणाः निर्धा-
तनस्य अन्यथा उच्छ्वासितेन वा निःश्वासितेन वा उन्मिषितेन वा निर्मिषि-
तेन वा खात्कृतेन वा छ्रीत्कृतेन वा जम्भायितेन वा सूक्ष्मैः अङ्गचलाचलैः
दृष्टिचलाचलैः एतैः सर्वैः असमाधिप्राप्तैः आचारैः, यावदर्हतां भगवतां
पर्युपासनं (दैवसिकप्रतिक्रमणायामष्टोत्तरशतोच्छ्वासैः षट्त्रिंशद्द्वारान् पञ्च-
नमस्कारोच्चारणं रात्रिप्रतिक्रमणायां तु चतुःपञ्चाशदुच्छ्वासैः अष्टादशवा-
रान् पञ्चनमस्कारोच्चारणं पर्युपासनं) करोमि तावत्कायं पापकर्म दुश्च-
रितं व्युत्सृजामि ।

मुनिप्रतिक्रमणम्

३. (इच्छामि भन्ते ! अट्टमियम्मि आलोचेउं, अट्टण्ह दिवसाणं
अट्टण्हं राईणं अब्भंतरादो पञ्चविहो आयारो णाणायारो दंसणायारो तवा-
यारो वीरियायारो चरिचायारो वेदि ।

इच्छामि भंते ! पक्खियम्मि आलोचेउं, पण्णरसण्हं दिवसाणं पण्ण-
रसण्हं राईणं अब्भंतराओ पञ्चविहो आयारो णाणायारो दंसणायारो तवा-
यारो वीरियायारो चरिंत्तायारो चेदि ।

इच्छामि भंते ! चाउमासियम्मि आलोचेउं, चउण्हं मासाणं अट्टण्ह
पक्ख्वाणं वीसुत्तरसयदिवसाणं वीसुत्तरसयराईणं अब्भंतराओ पंचविहो
आयारो णाणायारो दंसणायारो तवायारो वीरियायारो चरिंत्तायारो चेदि ।

इच्छामि भंते ! संबच्छरियम्मि आलोचेउं, वारसण्हं मासाणं, चउ-
वीसण्हं पक्ख्वाण, तिण्हं छावट्टिसयदिवसाणं, तिण्हं छावट्टिसयराईणं
अब्भंतराओ पञ्चविहो आयारो णाणायारो दंसणायारो तवायारो वीरिया-
यारो चरिंत्तायारो चेदि ।

तत्थ णाणायारो, काले, विणए, उवहाणे, बहुमाणे, तहेव अणि-
ण्हवणे, विंजण-अत्थ-तदुभये चेदि णाणायारो अट्टविहो परिहाविदो, से
अखहीणं वा, सरहीणं वा, पदहीणं वा, पिंजणहीणं वा, अत्थहीणं वा,
गंथहीणं वा, थएसु वा, थुईसु वा, अत्थक्खाणोसु वा, अणियोगेसु वा
अणियोगहारेसु वा, अकाले सज्झाओ कओ वा, कारिंदो वा, कीरंतो
वा समणुमण्णिदो, काले वा परिहाविदो, अच्छाकारिदं, मिच्छा मेलिदं,
आमेलिदं, वामेलिदं, अण्णहादिण्णं, अण्णहा पडिच्छिद, आवासएसु
परिहीणदाए, तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ १ ॥

दंसणायारो अट्टविहो, णिस्संक्रिय णिक्कंखिय णिब्बिदिगिंछा
अमूढदिट्ठी य, उवगूहण ठिदिकरणं वच्छल्ल पहावणा चेदि । अट्टविहो
परिहाविदो, संकाए कंखाए विदिगिंछाए अण्णदिट्ठीपसंसणणाए परपा-
खण्डपसंसणदाए अणायदणसेवणदाए अवच्छल्लदाए अप्पहावणदाए, तस्स
मिच्छा मे दुक्कडं ॥ २ ॥

तवायारो वारसविहो, अब्भंतरो छब्बिहो बाहिरो छब्बिहो चेदि तत्थ
बाहिरो अणसणं आमोदरियं वित्तिपरिसंखा रसपरिच्चाओ सरीरपरिच्चाओ
विवित्तसयणासणं चेदि । तत्थ अब्भंतरो पायच्छिंतं विणओ वेज्जावच्चं
सज्झाओ ज्ञाणं विउस्सग्गो चेदि । अब्भंतरं बाहिरं वारसविहं तवोकम्मं

ण कदं णिसण्णेण, पडिक्कंतं, तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ३ ॥

वीरियायारो पञ्चविहो परिहाविदो वरवीरियपरिकमेण^१ बहुत्तमा-
रणेण^२ वलेण^३ वीरिएण^४ परिकमेण^५ णिगूहियं तवोकम्मं ण कम्मं णिस-
एणेण पडिक्कंतं तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ४ ॥

चरित्तायारो तेरसविहो परिहाविदो, पञ्चमहव्वयाणि, पञ्च समि-
दीओ, तिगुत्तीओ चेदि । तत्थ पढममहव्वदं पाणादिवादादो वेरमणं । से
पुढविकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, आउकाइया जीवा असंखेज्जासं-
खेज्जा, तेउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, वाउकाइया जीवा असंखेज्जा-
संखेज्जा, वणफफदिकाइया जीवा अणंटाखंत, हरिया वीया अंकुरा छिण्णा
मिण्णा, तस्स उदावणं परिदावणं विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो
वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।

वेइंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, कुक्खिक्खिमि-शङ्ख-खुल्लयवराडय-
अक्ख रिड्ड-गंडवाल-संयुक्क-सिप्पि-पुलविकाइया तेसिं उदावणं परिदा-
वणं विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।

तेइंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, कुंथु-देहिय-विंछियगोभिंद-
गोज्जूव-मक्कण-पिपीलियाइया, तेसिं उदावणं परिदावणं विराहणं उवघादो
कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।

चउरिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, दंसमंसय-मक्खियपयंग-कीड-
भमर- महुरि-गोमक्खियाइया, तेसिं उदावणं परिदावणं विराहणं उव-
घादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे
दुक्कडं ।

पंचिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, अंडाइया पोदाइया जराइया
रसाइया संसेदिमा सम्मुच्छिमा उब्भेदिमा उववादिमा अवि चउरासीदि-
जोणिपमूहसदसहस्सेसु, एदेसिं उदावणं परिदावणं विराहणं उवघादो
कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ १ ॥

आहावरे दुब्बे महव्वदे म्मुसावादादो वेरमणं, से कोहेण वा माणेण

वा माएण वा लोहेण वा राएण वा दोसेण वा मोहेण वा हस्सेण वा
भएण वा पमादेण वा पेम्मेण वा पिवासेण वा लज्जेण वा गारवेण वा
अणादरेण वा केणवि कारणेण जादेण वा सच्चो म्मुसावादो भासिओ
भासाविओ भासिजंतो वि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥२॥

आहावरे तव्वे महव्वदे अदिण्णादाणादो वेरमणं, से गामे वा णयरे
वा खेडे वा कव्वडे वा मंडवे वा मंडले वा पट्टणे वा दोणमुहे वा घोसे
वा आसमे वा सहाए वा संवाहे वा सण्णिवेसे वा तिणं वा कट्ठं वा वियडिं
वा मणि वा एवमाइयं अदत्तं गिण्हियं गेएहाविय गेण्हिज्जंतं समणुमण्णिदो
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ३ ॥

आहावरे चउत्थे महव्वदे मेहुणादो वेरमणं, से देविएसु वा माणु-
सिएसु वा तेरिच्छिएसु वा अचेयणिएसु वा मणुणामणुणेसु रूवेसु मणु-
णामणुणेसु सहेसु मणुणामणुणेसु गंधेसु मणुणामणुणेसु रसेसु मणुणाम-
णुणेसु फासेसु चक्खिदियपरिणामे सोदिंदियपरिणामे घाणिंदियपरिणामे
जिडिंभदियपरिणामे फासिंदियपरिणामे णोइंदियपरिणामे अगुत्तेण अगु-
त्तिंदिएण णवविहं वंभचरियं ण रक्खियं ण रक्खावियं ण रक्खिज्जंतो
वि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ४ ॥

आहावरे पञ्चमे महव्वदे परिग्गहादो वेरमणं, सो वि परग्गहो दुविहो
अब्भंतरो वाहिरो चेदि तत्थ अब्भंतरो परिग्गहो णाणावरणीयं दंसणा-
वरणीयं वेयणीयं मोहणीयं आउग्गं णामं गोदं अंतरायं चेदि अट्टविहो
तत्थ वाहिरो परिग्गहो उवयरण-भंड-फलह पीढ-कमंडलु-संथार-सेज्जउव-
सेज्ज-भत्त-पाणादिभेएण अणयेविहो, एदेण परिग्गहेण अट्टविहं कम्मरयं
वद्धं वद्धावियं वद्धज्जंतं पि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥५॥

आहावरे छट्ठे अणुव्वदे राहभोयणादो वेरमणं, से असणं पाणं खाइयं
रसाइयं चेदि चउन्विहो आहारो, से तिचो वा कड्डुओ वा कसाइलो वा
अमिलो वा महुरो वा लवणो वा दुच्चित्तिओ दुब्भासिओ दुप्परिणामिओ
दुस्सिमिणिओ रत्तीए भुत्तो भुंजवियो भुज्जिजंतो वा समणुमण्णिदो तस्स
मिच्छा मे दुक्कडं ॥ छ ॥

पंचसमिदीओ ईरियासमिदी भासासमिदी एसणासमिदी आदावण-
णिकखेवणसमिदी उच्चारपस्सवणखेलसिंहाणयवियडिपइड्ढावणासमिदी चेदि ।
तत्थ ईरियासमिदी पुच्चुत्तरदक्खिणपच्छिमचउदिसिविदिसासु विहरमा-
णेण जुगंतरदिट्ठिणा दट्ठ्वा डवडवचरियाए पमाददोसेण पाण-भूद-
जीव-सत्ताणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ६ ॥

तत्थ भासासमिदी कक्कसा कडुया परुसा णिट्ठुरा परकोहिणी
मज्झंकिसा अह्माणिणी अणयंकरा छेयंकरा भूयाण वहंकरा चेदि दस-
विहा भासा भासिया भासाविया भासिज्जंतो पि समणुमण्णिदो तस्स
मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ७ ॥

तत्थ एसणासमिदी आहाकम्मेण वा पच्छाकम्मेण वा पुराकम्मेण
वा उद्दिट्ठयडेण वा णिद्दिट्ठयडेण वा कीडयडेण वा साइया रसाइया सहं-
गाला सधूगिया अइगिद्धीए अग्गीव छण्हं जीवणिकायाणं विराहणं काऊण
अपरिसुद्धं भिक्खं अण्णं पाणं आहारादियं आहारियं आहारावियं आहारि-
ज्जंतो पि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ८ ॥

तत्थ अदावणणिकखवणसमिदी चक्कलं वा फलहं वा पोथयं वा
कमंडलं वा वियडिं वा मणिं वा एवमाइया उवयरणं अप्पडिलेहिऊण
गेण्हंतेण वा ठवंतेण वा पाण-भूद-जीव-सत्ताण उवघादो कदो वा
कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ९ ॥

तत्थ उच्चार-पस्सवण-खेल-सिंहाणय-वियडिपइड्ढावणिया समिदी रत्तीए
वा वियाखे वा अचक्खुविसए अवत्थंडिले अब्भोवयासे सणिद्धे सवीए
सहरिए एवमाइयेसु अप्पासुगट्ठाणेसु पइट्ठावंतेण पाण-भूद-जीव-सत्ताणं
उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे
दुक्कडं ॥ १० ॥

तिण्णि गुत्तीओ, मणगुत्तीओ वच्चिगुत्तीओ कायगुत्तीओ चेदि,
तत्थ मणगुत्ती अट्ठे भाणे रुहे भाणे इहलोयसण्णाए परलोयसण्णाए
आहारसण्णाये भयसण्णाए मेहुणसण्णाए परिग्गहसण्णाये एवमाइया जा

मणगुत्ती ण रक्खिया ण रक्खाविया ण रक्खिज्जंतो पि समणुमण्णिदो
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ११ ॥

तत्थ वचिगुत्ती इत्थिकहाए अत्थिकहाए भत्तकहाए रायकहाए चोर-
कहाए वेरकहाए परपासंडकहाए एवमाइयासु जा रक्खिया वचि गुत्ती ण
रक्खिया ण रक्खाविया ण रक्खिज्जंतं पि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा
मे दुक्कडं ॥ १२ ॥

तत्थ कायगुत्ती चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा कट्टकम्मेसु वा
लेप्पकम्मेसु वा एवमाइयासु जा कायगुत्ती ण रक्खिया ण रक्खाविया
ण रक्खिज्जंतो पि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ १३ ॥

णवसु वंभचेरगुत्तीसु, चउसु सण्णासु, चउसु पच्चएसु, दोसु अट्ट-
रुद्धसंकिलेसपरिणामेसु, तीसु अप्पसत्थसंकिलेसपरिणामसु, मिच्छाणाण-
मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्तेसु, चउसु उवसग्गेसु, पञ्चसु चरित्तेसु, छसु
जीवणिकाएसु, छसु आवासएसु, सत्तसु भएसु, अट्टसु सुद्धीसु, (णवसु
वंभचेरगुत्तीसु) दससु समणधम्मेसु, दससु धम्मज्झाणेसु, दससु मुडेसु,
वारसेसु संजमेसु, वावीसाए परीसहेसु, पणवीसाए भावणासु, पणवीसाए
किरियासु, अट्टारससीलसहस्सेसु, चउरासीदिगुणसयसहस्सेसु, मूलगु-
णेसु, उत्तरगुणेसु, अट्टमियम्मि पक्खियम्मि चउमासियम्मि संवच्छरियम्मि
अइक्कमो वदिक्कमो अइचारो अणाचारो आभोगो अणाभोगो जो तं
पडिक्कमामि मए पडिक्कंतं, तस्स मे सम्मत्तमरणं समाहिमरणं पंडियमरणं
वीरियमरणं दुक्खक्खओ कम्मक्खओ वोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं
जिणगुणसम्पत्ति होउ मज्झं ।

प्रतिक्रमणादण्डकः—

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं ॥ १ ॥

णमो जिणाणं, णमो ओहिजिणाणं, णमो परमोहिजिणाणं, णमो

सञ्चोहिजिणाणं, णमो अणंतोहिजिणाणं, णमो कोट्टबुद्धीणं, णमो वीज-
बुद्धीणं, णमो पादाणुसारीणं, णमो संभिण्णसोदारणं, णमो सयबुद्धाणं,
णमो पत्तेयबुद्धाणं, णमो वोहियबुद्धाणं, णमो उज्जुमदीणं, णमो विउल-
मदीणं, णमो दसपुच्चीणं, णमो चउदसपुच्चीणं, णमो अट्टंगमहाणिमिच-
कुसलाणं, णमो विउच्चइड्ढिपत्ताणं, णमो विज्जाहराणं, णमो चारणाणं,
णमो पण्णसमणाणं, णमो आगासगामीणं, णमो आसीविसाणं णमो
दिट्ठविसाणं, णमो उग्गतवाणं, णमो दिच्चतवाणं, णमो तच्चतवाणं, णमो
महातवाणं, णमो घोरतवाणं, णमो घोरगुणाणं, णमो घोरपरक्कमाणं,
णमो घोरगुणवंभयारीणं, णमो आमोसहिपत्ताणं, णमो खेन्लोसहिपत्ताणं
णमो जल्लोसहिपत्ताणं, णमो विप्पोसहिपत्ताणं, णमो सञ्चोसहिपत्ताणं,
णमो मणवलीणं, णमो वचिवलीण, णमो कायवलीणं, णमो खीरसवीणं,
णमो सत्पिसवीण, णमो महुरसवीणं, णमो अभियसवीणं, णमो अक्खीण-
महाणसाणं, णमो बड्ढमाणणं णमो सिद्धायदणाणं, णमो भयवदो मह-
दिमहावीरवड्ढमाणबुद्धरिसीणो चेदि । जस्संतियं धम्मपहं णियच्छे तस्सं-
तियं वेणइयं पउंजे । काएण वाचा मणसावि णिच्चं सक्कारए तं सिरयञ्च-
मेण ॥ १ ॥

सुदं मे आउस्संतो ! इह खलु समणेण भयवदो महदि महावीरेण
महाकस्सवेण सञ्चण्हुणा सञ्चलोगदरिसिणा सदेवासुरमाणुसस्स लोयस्स
आगदिगदिचवणोववादं वंधं मोक्खं इड्ढि ठिदिं जुदिं अणुभागं तक्कं
कलं मणोमाणसियं भूतं कयं पडिसेवियं आदिकम्मं अरुहकम्म सञ्चलोए
सञ्चजीवे सञ्चभावे सञ्चं समं जाणांता पस्संता विहरमाणेण समणणं पञ्च-
महच्चदाणि राईभोयणवेरमणच्छुणाणि सभावणाणि समाउगपदाणि सउत्तर-
पदाणि सम्मं धम्मं उवदेसिदाणि । तं जहा-

पढमे महच्चदे पाणादिवादादो वेरमणां, विदिए महच्चदे मुसावादादो
वेरमणं, तिदिए महच्चदे अदिण्णदाणादो वेरमणं, चउत्थे महच्चदे मेहु-
णादो वेरमणं, पञ्चमे महच्चदे परिग्गहादो वेरमणां, छट्ठे अणुच्चदे राईभोय-
णादो वेरमणं चेदि ।

तत्थ पठमे महव्वदे सव्वं भंते ! पाणादिवादं पच्चक्खामि जावज्जीवं
 तिविहेण मणसा वचिया काएण, से एइंदिया वा, वेइंदिया वा, तेइंदिया
 वा, चउरिंदिया वा, पंचिंदिया वा, पुठविकाइए वा आउकाइए वा तेउ-
 काइए वा वणप्फदिकाइये वा तसकाइए वा अंडाइए वा पोदाइए वा
 जराइए वा रसाइए वा संसेदिमे वा सम्मुच्छिमे वा उब्भेदिमे वा उववा-
 दिमे वा तसे वा थावरे वा बादरे वा सुहुमे वा पाणे वा भूदे वा जीवे
 वा सत्ते वा पज्जत्ते वा अपज्जत्त वा अवि चउरासीदिजोणिपमुहसदसह-
 स्सेसु, णेव सयं पाणादिवादिज्ज णो अण्णेहि पाणे अदिवादावेज्ज अण्णेहि
 पाणे अदिवादिज्जंतो वि ण समणुमणेज्ज तस्स भंते ! अइचारं पडिक-
 मामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं, वोस्सरामि पुण्विचरां भंते ! ज पि मए
 रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसंगदेण सयं पाणे अदिवादाविदे
 अण्णेहि पाणे अदिवादाविदे अण्णेहिं पाणे अदिवादिज्जंते विं समणुमण्णिदे
 तं पि इमस्स णिग्गंथस्स पावयणस्स अणुत्तरस्स केवल्लिपस्स केवल्लिपण-
 त्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स, सच्चाहिठ्ठियस्स विणय मूलस्स खमाव-
 लस्स अट्टारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चउरासीदिगुणसयसहस्सविहूसियस्स
 णववंभचेरुत्तस्स नियतिलक्खणस्स परिचायफलस्स उवसपपहाणस्स
 खंतिमग्गदेसयस्स मुत्तिमग्गपयासयस्स सिद्धिमग्गपज्जवसाहणस्स, से कोहेण
 वा माणेंण वा माएण वा लोहेण वा अण्णाणेण वा अदंसणेण वा अवि-
 रिएण वा असंयमेण वा असमणेंण वा अण्हिगमणेण वा अभिमंसिदाएण
 वा अवोहिदाएण वा रागेण वा दोसेण वा मोहेण वा हस्सेण वा भएण
 वा पदोसेण वा पमादेण वा पेम्मेण वा पिवासेण वा लज्जेण वा गारवेण
 वा आणादरेण वा केण वि कारणेण जादेण वा आलसदाए कम्मभारि-
 गदाए कम्मगुरुगदाए कम्मदुच्चरिदाए कम्मपुरुक्कडदाए तिगारवगुरु-
 गदाए अवहुसुददाए अविदिदपरमट्टदाए तं सव्वं पुव्वं दुच्चरियं गरिहामि
 आगपेसिं च, अपच्चक्खियं पच्चक्खामि, अणालोचियं आलोचेमि अणिं-
 दियं णिंदामि, अगरहियं गरहामि, अपडिककंतं पडिकमामि, विराहणं वोस्स-
 रामि आराहणं अब्भुट्टेमि, अण्णार्थं वोस्सरामि सयणाणं अब्भुट्टेमि, कुदंसणं

वोस्सरासि सम्मदंसणं अब्भुट्ठेमि, कुचरियं वोस्सरामि सुचरियं अब्भुट्ठेमि,
 कुतवं वोस्सरामि सुतवं अब्भुट्ठेमि. अकरणिज्जं वोस्सरामि करणिज्जं अब्भु-
 ट्ठेमि अकिरियं वोस्सरामि किरियं अब्भुट्ठेमि, पाणादिवादं वोस्सरामि
 अभयदाणं अब्भुट्ठेमि, मोसं वोस्सरामि सच्च अब्भुट्ठेमि, अदत्तादाणं वोस्स-
 रामि दिण्णकप्पकिज्जं अब्भुट्ठेमि, अवंभे वोस्सरामि, वंभचरियं अब्भु-
 ट्ठेमि, परिग्गहं वोस्सरामि अयरिग्गहं अब्भुट्ठेमि, राईभोयणं वोस्सरामि
 दिवाभोयणमेगभत्तं पच्चुप्पणं फासुगं अब्भुट्ठेमि, अट्टरुह्ज्झाणं वोस्सरामि
 धम्मसुवकज्झाण, अब्भुट्ठेमि; किण्हणीलकाउल्लेस्सं वोस्सरामि ते उपम्मसु-
 वकल्लेस्सं अब्भुट्ठेमि, आरंभ वोस्सरामि अणारंभं अब्भुट्ठेमि असंजमं वोस्स-
 रामिसंजमं अब्भुट्ठेमि, सग्गंथं वोस्सरामि णिग्गंथं अब्भुट्ठेमि, सचेलं वोस्स-
 रामि अचेल अब्भुट्ठेमि, अलोचं वोस्सरामि लोच अब्भुट्ठेमि, ण्हाणं वोस्सरामि
 अण्हाणं अब्भुट्ठेमि, अखिदिसयणं वोस्सरामि खिदिसयणं अब्भुट्ठेमि, दंत-
 वणं वोस्सरामि अदंतवणं अब्भुट्ठेमि, अट्ठिदि भोयणं वोस्सरामि ठिदिभोयण
 मेगभत्तं अब्भुट्ठेमि अपाणिपत्तं वोस्सरामि पाणिपत्तं अब्भुट्ठेमि, कोहं वोस्स-
 रामि खंतिं अब्भुट्ठेमि, माण वोस्सरामि मद्दवं अब्भुट्ठेमि, मायं वोस्सरामि
 अज्जवं अब्भुट्ठेमि लोहं वोस्सरामि संतोसं अब्भुट्ठेमि अतवं वोस्सरामि
 दुवादसविहतवोकम्मं अब्भुट्ठेमि, मिच्छत्तं परिवज्जामि सम्मत्तं उवसंप-
 ज्जामि, असीलं परिवज्जामि सुसीलं उवसंपज्जामि, ससह्जं परिवज्जामि
 णिसल्लं उवसंपज्जामि, अविणय परिवज्जामि विणयं उवसंपज्जामि, अणा-
 चारं परिवज्जामि आचारं उवसंपज्जामि, उम्मग्ग परिवज्जामि जिणमग्गं
 उवसंपज्जामि अखंतिं परिवज्जामि खंतिं उवसंपज्जामि अगुत्तिं परिव-
 ज्जामि, गुत्तिं उवसंपज्जामि, अस्सुत्तिं परिवज्जामि सुसुत्तिं उवसंपज्जामि,
 असमाहिं परिवज्जामि, सुसमाहि उवसंपज्जामि, ममत्तिं परिवज्जामि णिम-
 मत्तिं उवसंपज्जामि अभावियं भावेमि भावियं ण भावेमि, इमं णिग्गंथं
 पव्वयणं अणुत्तरं केवलियं पडिपुण्णं णेगाइयं सामाइयं संसुद्धं सल्लघट्ठाणं
 सल्लघत्ताणं सिद्धिमग्ग सेट्ठिमग्गं खतिमग्गं मुत्तिमग्गं पमुत्तिमग्गं मोक्ख-
 मग्गं पमोक्खमग्गं णिज्जाणमग्गं शिन्वाणमग्गं सच्चदुक्खपरिहाणिमग्गं

सुचरियपरिणिव्वाणमग्गं जत्थ ठिया जीवा सिज्झति बुज्झंति मुंचंति
परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंतं करंति तं सहामि तं पचियामि तं रोचेमि
तं फासेमि, इदो उत्तरं अण्णत्थि ण भूदं ण भवं ण भविस्सदि, णाणेण
वा दंसणेण वा चरिणेण वा सुत्तेण वा सीलेण वा गुणेण वा तवेण वा
णियमेण वा वदेण वा विहारेण वा आलएण वा अज्जवेण वा लाहवेण
वा अएणेण वा वीरिएण वा समणोमि संजदोमि उवरदोमि उवसंतोमि उव-
धिणियडि माण माया-मोस-मूरण मिच्छाणाण मिच्छादंसण मिच्छाचरिचं
च पडिविरदोमि, सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरिचं च रोचेमि, जं जिणव-
रेहिं षण्णत्तो जो मए देवसिय-राइय-पक्खियचाउम्मासियसंवच्छरिय इरि-
यावहिकेसलोचाइचारस्स संथारादिचारस्स पंथादिचारस्स सव्वादिचारस्स
उत्तमट्टस्स सम्मचरिचं च रोचेमि । पढमे महव्वदे पाणादिवादादो वेरमणं
उवट्ठावणमंडले महत्थे महागुणे महाणुभावे महाजसे महापुरिसाणुचिन्ने
अरहंतसक्खिय सिद्धसक्खियं साहुसक्खियं अप्पसक्खियं परसक्खियं देवा-
तासक्खियं उत्तमट्टमिह इद मे महव्वदं सुव्वदं दढव्वदं होदु, णित्थारयं
पारयं तारयं आराहियं चावि ते मे भवतु ।

प्रथमं महाव्रतं सर्वेषां व्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वकंदृढव्रतं सुव्रतं समा-
रूढं ते मे भवतु ॥ ३ ॥

णमो अरहंतारणं णमो सिद्धारणं णमो आइरीयाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूयां ॥ ४ ॥

—*—

आहावरे विदिए महव्वदे सव्वं भंते ! मुसावादं पच्चक्खामि जाव-
ज्जीवं तिविहेण मणासा वचिया काएण, से कोहेण वा माणेण वा माएण
वा लोहेण वा रागेण वा दोसेण वा मोहेण वा हस्सेण वा भएण वा पदो-
सेण वा पमादेण वा पिम्मेण वा पिवासेण वा लज्जेण वा गारवेण वा
अणादरेण वा केणवि कारणेण जादेण वा णेव सयं मोसं भासेज्ज ण
अणोहिं मोसं भासाविज्ज अणोहि मासं भासिज्जंतं पि या समणुमणिज्ज
तस्स भंते ! अइचारं पडिक्कमामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं, वोस्सरामि

पुञ्चिचरणं भंते ! जं पि मए रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसंगदेण
सयं मोसं भासियं अण्णेहिं मोसं भासावियं अण्णाहिं मोसं भासिज्जंत पि
समणुमण्णिदं इमस्स णिग्गंथस्स पवयणस्स अणुत्तरस्स केवलियस्स केवलि-
पण्णत्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स सच्चहिद्वियस्स विणयमूलस्स खमा-
वलस्स अट्टारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चउरासीदि गुणसयसहस्सविहू-
सियस्स णवसुवभचेरगुत्तस्स णियदिलक्खणस्स परिचागफलस्स उवसम-
पहाणस्स खंतिमग्गदेसगस्स मुत्तिमग्गपयासयस्स सिद्धमग्गपञ्जवसाह-
णस्स.....सम्मणायण सम्मदंसण-सम्पचरिचं च रोचेमि जं जिणवरेहिं
पण्णत्तो इत्थ जो मए देवसिय-राइय-पक्खिय-चउमासिय संवच्छरियइरि-
यावहिकेसलोचाइचारस्सपंथादिचारस्स सन्वातिचारस्स उत्तमडुस्स सम्म-
चरित्तं च रोचेमि, विदिए महव्वदे मुसावादादो वेरमाणं उवट्टाणमंडले
महत्थे महागुणे महाणुभावे महाजसे महापुरिसाणुचिण्णे अरहंतसक्खियं
सिद्धसक्खिय साहुसक्खियं अप्पसक्खिय परसक्खियं देवतासक्खियं उच्चम-
डुम्मि इदं मे महव्वदं सुव्वदं दढव्वदं होदु, णित्थारयं पारयं तारयं आरा-
हियं चावि ते मे भवतु ।

द्वितीयं महाव्रतं सर्वेषां व्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वकं दृढव्रतं सुव्रतं
समारूढं ते मे भवतु ॥ ३ ॥

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरीयाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं ॥ ३ ॥

—*—

आधावरे त्तिदिये महव्वदे सव्वं भंते ! अदत्तादाणं पच्चक्खामि जाव-
ज्जीव त्तिविहेण मणसा वचिया काएण से देसे वा गामे वा णगरे वा
खेडे वा कव्वडे वा मंडवे वा मंडले वा पट्टणे वा दोणमुहे वा घोसे वा
आमणे वा सहाए वा संवाहे वा सण्णिवसे वा तिणं वा कट्टं वा वियडिं
वा मणिं वा खेत्ते वा खले वा जले वा थले वा पहे वा उप्पहे वा रण्णे
वा अरण्णे वा णट्टं वा पमुट्टं वा पडिठं वा अपडिठं वा सुण्हिदं वा दुण्णि-
हिदं वा अप्पं वा बहुं वा अणुय वा थूलं वा सच्चित्तं वा अंचिचं वा मज्झ-

ज्यं वा बह्तिथं वा अवि दंतंतरसोहणमित्तं पि शेव सयं अदचं गोष्णि-
जाणो अणोहिं अदत्तं गेण्हाविज्ज अणोहिं अदचं गेष्हिज्जतं पि ण समणु-
मणिज्ज, तस्स भते ! अइचारं पडिकमामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं
वोस्सरामि पुर्व्विचणं भंते ! जं पि मए रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स
वा वसंगदेण सयं अदचं गेण्हदं अणोहिं अदत्तं गेण्हाविदं अणोहिं अदत्तं
गेष्णिज्जंतं पि समणुमण्णिदो तं पि इमस्स णिग्गथस्स पवयणस्स अणुत्तर-
स्स केवलियस्स केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्खाणस्स सच्चाहिट्ठि-
यस्स विणयमूलस्स खमावलस्स अट्टारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चउरासी-
दिगुणसयसहस्सविहूसियस्स खत्रसुवंभचरगुत्तस्स णियदिलक्खणस्स परि-
चागफलस्स उवसमपहाणस्स खंतिमग्गदेसियस्स मुत्तिमग्गपयासयस्स
सिद्धिमग्गपज्जवसाहणस्स..... सम्मणाण सम्मदंसण-सम्मच-
रित्तं च रोचेमि, जं जिणवरोहिं पण्णतो इत्थ जो मए देवसियराईय-पक्खिय
चउमासिय संबच्छरियइरियावहिकेसलोचाइचारस्स संथारादिचारस्स पंथा-
दिचारस्स सव्वाइचारस्स उत्तमड्डस्स सम्मचरित्तं रोचेमि । तदिए मह-
व्वदे अइत्ताणादो वेरमणं उवट्टावणमंडले महत्थ महागुणे महाणुभावे
महाजसे महापुरिसाणुचिण्णे अरहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुसक्खियं
अप्पसक्खियं परसक्खियं देवतासक्खियं उत्तमड्डमिह इद मे महव्वदं सुव्वदं
दढव्वद होदु, णित्थारयं पारयं तारयं आराहियं चावि ते मे भवतु ॥३॥

तृतीय महाव्रतं सर्वेषां व्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वकं दृढव्रतं सुव्रतं समा-
रूढं ते मे भवतु ॥ ३ ॥

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरीयाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूया ॥ ३ ॥

आहावरे चउत्थे महव्वदे सव्वं भंते ! अवंभपच्चक्खामि जावज्जीवं
तिविहेण मणसा वचिया काएण, से देविएसु वा तिरिच्छिएसु वा अचेय-
णिएसु वा कड्डकम्मेषु वा चित्तकम्मेषु वा पोत्तकम्मेषु वा लेप्पकम्मेषु
वा लयकम्मेषु वा सिल्लाकम्मेषु वा गिहकम्मेषु वा भित्तिकम्मेषु वा भेद-
कम्मेषु वा भंडकम्मेषु वा धादुकम्मेषु वा दंतकम्मेषु वा हत्थसंघट्टणदाए

पादसंघट्टणदाए पुग्गलसंघट्टणदाए मणुणामणुणेसु सद्देसु मणुणामणुणेसु
रूवेसु मणुणामणुणेसु गंधेसु मणुणामणुणेसु रसेसु मणुणामणुणेसु फासेसु
सोर्दिदियपरिणामे चर्क्खिदियपरिणामे घार्णिदियपरिणामे जिर्ब्भदिय-
परिणामे फासिंदियपरिणामे खोइदियपरिणामे अगुत्तेण अगुत्तिंदिएण
एव सयं अबंभं सेविज्ज णो अण्णेहिं अबंभं सेवाविज्ज णो अण्णेहिं
अवंभं सेविज्जंतं पि समणुमणिज्ज तस्स भंते ! अइचारं पडिक्कमामि
रिंदामि गरहामि अप्पायां, वोस्सरामि पुन्निचण भंते ! जंपि मए रागस्स
वा दोसस्स वा वसंगदेण सयं अबंभं सेवियं अण्णेहिं अबंभं सेवोविय
अण्णेहिं अबंभं सेविज्जंतं पि समणुमणिज्जं तं पि इमस्स णिग्गंथस्स पव-
वयणस्स अणुत्तरस्स केवलपणत्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स सच्चा-
रिद्धितस्स विणयमूलस्स खमावलस्स अट्टारसलीलसहस्सपरिमंडियस्स
चउरासीदिगुणसयसहस्सविहूसियस्सणवसुवं भचेरगुचस्स णियदिलक्क-
णस्स परिचागफलस्स उवसमपहाणस्स खंतिमग्गदेसयस्स मुक्तिमग्गपया-
सयस्स सिद्धिमग्गपज्जवसाहणस्स सम्मणाणु सम्मदंसण-सम्मच-
रिचं च रोचेमि, जंजिण वरेहिं पण्णो इत्थ जो मए देवसिए-राइय-
पक्खि-चउमासिय संवच्छरिय-इरियावहिकेसलोचाइचारस्स संथारादिचार
स्स पंथादिचारस्स सव्वादिचारस्स उत्तमट्टस्स सम्मचरित्तं च रोचेमि ।
चउत्थे महव्वदे अवंभादो वेरमणं उवट्टवणमंडले महत्थे । महाणुणे महाणु-
भावे महाजसे महापुरिसाणुचिण्णे अरहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुस-
क्खियं अप्पसक्खिय परसक्खियं देवतासक्खियं उत्तमट्टमिहि इदं मे मह-
व्वदं सुव्वदं दिठव्वदं होदु णित्थारयं पारयं तारयं आरहिंयं चावि ते मे
भवतु ॥ ३ ॥

चतुर्थं महान्नतं सर्वेषां व्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वकं दृढव्रतं सुव्रतं समा-
रूढं ते मे भवतु ॥ ३ ॥

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूयां ॥ ३ ॥

आधावरे पञ्चमे महव्वदे सव्वदे सव्व भंते ! दुविहं परिग्गहं पच्चक्खामि

तिविहेण मणसा वचिया काएण । सो परिग्गहो दुविहो अविभतरं परि-
 ग्गहं—मिच्छत्तवेयराया तहेव हस्सादिया य छद्दोसा । चत्तारि तह कसाया
 चउदस अविभतरं गंथा ॥ १ ॥” तत्थ वाहिर परिग्गहं से हिरण्णां वा
 सुवण्णं वा धणं वा खेचं वा खलं वा वत्थुं वा पवत्थुं वा कोसं वा कुठारं
 वा पुरं वा अंतउरं वा बलं वा वाहणं वा सयडं वा जाणं वा जपाणं वा
 जुगं वा गदियं वा रहं वा सदणं वा सिवियं वा दासीदासगोमहिसगवेडयं
 मणिमोत्तियसंखसिप्पिपवालयं मणिभाजणं वा सुवण्णभाजणं वा रजतभाजणं
 वा कंसभाजणं वा लोयभाजणं वा तंबभाजणं वा अंडजं वा वौडजं रोमजं
 वक्कजं वा वम्मजं वा अप्पं वा बहुवा अणुंवा सचित्तं वा अचित्तं वा
 अमुत्थं वा वहित्थं वा अवि वालगगकोडिमित्तं पि एव सयं असमणपाउग्गं
 रिग्गहं गिण्हिज्जखो अण्णेहिं असमणपाउग्गं परिग्गहं गेण्हाविज्ज णो
 अण्णेहिं असमणपाउग्गं परिग्गहं गिण्हज्जं तं पि समणुमण्णिज्ज तस्स
 भंते ! अइचारं पडिक्कमामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं, वोत्तरामि पुव्वि-
 चणं भंते ! जं पि मए रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसंगदेण सयं
 असमणपाउग्गं परिग्गहं गिण्हिज्जं अण्णेहिं असमणपाउग्गं परिग्गहं
 गेण्हावियं, अण्णेहिं असमणपाउग्गं परिग्गहं गेण्जितं पि समणुमण्णिदं
 तं पि इमस्स णिग्गंथस्स पववयणस्स अणुत्तरस्स केवलियस्स केवलपण्णत्त-
 स्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स सच्चाहिड्डित्तस्स विणयमूलस्स खमावलस्स
 अट्टारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चउरासीगुणसयसहस्सविहूसियस्स णवसुवं-
 भचेगुचस्स णियदिलक्खणस्स परिचागफलस्स उवसमपहाणस्स खंतिमग्ग-
 देसयस्स मुत्तिमग्गपयासयस्स सिद्धिमग्गपज्जवसाहणस्स सम्मणाण
 सम्मदंसण सम्मचरिचं च रोचेमि, जं जिणवरेहि पएणत्ते इत्थ जो मए
 देवसिय-राइय पक्खिय-चउमासिय-संवच्छरिय-इरियावहिकेसलोचाइचारस्स
 संथाराइचारस्स पंथाइचारस्स सव्वाइचारस्स उत्तमड्डस्स . सम्मचरित्त
 रोचेमि । पञ्चमे महव्वदे परिग्गहादो वेरमणं उवड्डवणमंडले महत्थे । महा-
 गुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिण्णे अरहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुस-
 क्खियं अप्पसक्खियं परसक्खियं देवतासक्खियं उत्तमड्डमिह इदं मे मह-

व्रदं सुव्रदं दिढव्रदं होदु गित्थारयं पारयं तारयं आरहियं चावि ते मे भवतु ॥ ३ ॥

पञ्चमं महाव्रतं सर्वेषां व्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वकं दृढव्रतं समारूढं ते मे भवतु ॥ ३ ॥

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणां ॥ ३ ॥

आधावरे छट्टे अणुव्वदे सव्वं भंते ! राईभोयणं पच्चक्खामि जावज्जीवं तिविहेण मणसा वचिया काएण, से असणां वा पाणां वा खादियं वा सादियं वा कड्डयं वा कसायं वा आमिलं वा महुरं वा लवणं वा अलवण वा सच्चित्तं वा अच्चित्तं वा तं सव्वं चउव्विहं आहारं णेवसयं रत्तिं भुंजिज्ज णो अण्णेहिं रत्तिं भुंजाविज्ज णो अण्णेहिं रत्तिं भुंजिज्जं तं पि समणुमणिज्ज, तस्स भंते ! अइचारं पडिक्कमामि णिंदामि गरहामि अप्पाणां, वोसिरामि पुण्विचणं भंते ! जं पि मए रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसंगदेण चउव्विहो आहारो सयं रत्तिं भुत्तो अण्णेहिं रत्तिं भुंजाविदो अण्णेहिं रत्तिं भुंजिज्जंतो वि समणुमणिणदो, तं पि इमस्स णिग्गंथस्स पवयणस्स अणुत्तरस्स केवलियस्स केवलिपणत्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स सच्चाहिडियस्स विणयमूलस्स खमावलस्स अट्टारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चउरासीदिगुणसयसहस्सविहूसियस्स णवसुवंभचेरगुत्तस्स णियदिलक्खणस्स परिचागफलस्स उवसमपहाणस्स खतिमग्गदेसियस्स भुत्तिमग्गपयासयस्स सिद्धिमग्गपज्जवसाहणस्स..... सम्मणाण सम्मदंसण-सम्मचरित्तं च रोचेमि, जं जिणवरेहिं पण्णतो इत्थ जो मए देवसिय राइय-पक्खिय-चउमासिय संवच्छरियइरियावहि केसलोचाइयारस्स संथारादिचारस्स पंथादिचारस्स सव्वाइचारस्स उत्तमदुस्स सम्मचरित्तं च रोचेमि, छट्टे अणुव्वदे राईभोयणादो वेरमणं उवट्टावणमंडले महत्थे महागुणे महाणुभावे महाजसे महापुरिसाणचिण्णे अरहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुसक्खियं परसक्खियं देवतासक्खियं उत्तमदुम्हि इद मे अणुव्वदं सुव्वदं दिढव्वदं होदु, गित्थारयं पारयं तारयं आराहियं चावि ते मे भवतु ॥ ३ ॥

षष्ठं अणुव्रतं सर्वेषां व्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वकं दृढव्रतं सुव्रतं समा-
रूढं ते मे भवतु ॥ ३ ॥

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरीयाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सच्चसाह्याणं ॥ ३ ॥

चूलियन्तु पक्खामि भावणा पञ्चविसदी ।

पञ्च पञ्च अणुणादा एकमेवकस्सि महच्चदे ॥ १ ॥

मणगुत्तो वचिगुत्तो इरिया-कायसंयदो

एमणासमिदिसंजुत्तो पढमं वदमस्सिदो ॥ २ ॥

अकोहणो अलोहो य भयहस्सविज्जिदो

अणुवीचिभासकुसलो विदियं वदमस्सिदो ॥ ३ ॥

अदेहयां भावयां चावि उग्गहं या परिग्गहे ।

संतुट्ठो भत्तपाणेषु तिदियं वदमस्सिदो ॥ ४ ॥

इत्थिकहा इत्थिसंसग्गहासखेडपलोयणे ।

णियमम्मि हिदो णियतो य चउत्थं वदमस्सिदो

सचित्ताचित्तदव्वेषु वज्झंभंतरेसु य ।

परिग्गहादो विरदो पञ्चमं वदमस्सिदो ॥ ६ ॥

धिदिमंतो खमाजुत्तो ज्ञाणजोगपरिदुदो ।

परीसहाणउरं देत्तो उत्तमं वदमस्सिदो ॥ ७ ॥

जो सारो सच्चसारेसु सो सारो एस गोयम ।

सारं ज्ञाणांति यामेण सच्चं बुद्धेहिं देसिदं ॥ ८ ॥

इच्चेदाणि पञ्चमहच्चयाणि राईभोयणादो वेरमणच्छुणाणि सभावणाणि
समाउग्गपदाणि सउत्तरपदाणि सम्मं धम्मं अणुपालइत्ता समणा भय-
वंता णिग्गंथादोओण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणियंति सच्चदुक्खा
णमंतं करंति परिविज्जाणांति । तं जहा —

पाणादिवादं चहि मोसगं च अदत्तमेहुण्णपरिग्गहं च ।

वदाणि सम्मं अणुपालइत्ता णिव्वाणमग्गं विरदा उव्वंति ॥ ९ ॥

जाणि काणि वि सल्लाणि गरहिदाणि जिणसासणे ।

ताणि सन्त्राणि चोसरित्ता णिसल्लो विहारदे सया मुणी ॥ २ ॥
उप्पण्णःपुप्पणा माया अणुपुच्चं सो णिहंतच्चा ।

आलयण पडिकमणं णिंदणगगहणदाए ॥ ३ ॥
अब्भुद्धिदकरणदाए अब्भुद्धिददुक्कड णिराकरणदाए ।

भवं भावपडिककमणं सेसा पुण दव्वदो भणिदा ॥ ४ ॥
एसो पडिकमणविही पणत्तो जिणवरेहिं सव्वेहिं !

संजमतवड्ढिदाणं णिग्गंथादाणं महरिसीण ॥ ५ ॥
अक्खरपयत्थहीणं मराहीणं च जं भवे एत्थ ।

तं खमउ णाणदेवय ! देउ समहिं च वोहिं च ॥ ६ ॥
काऊण णमोक्कारं अरहंताणं तहेव सिद्धाणं ।

आइरिय—उवज्झायाणं लोयम्मि य सव्वसाहूणं ॥ ७ ॥
इच्छामि भंते ! पडिककमणमिदं, सुत्तस्स मूलपदाणं उत्तरपदाण-

मच्चासणदाए । तं जहा—

णामोक्कारपदे अरहंतपदे सिद्धपदे आइरियपदे उवज्झापदे साहूपदे
मङ्गलपदे लोगतोत्तमपदे सरणपदे सामाइयपदे चउवीमत्तित्थयरपदे वंदण-
पदे पडिककमणपदे पच्चक्खाणपदे काउसग्गपदे असीहियपदे निसीहियपदे
अंगंगेसु पुच्चंगेसु पइण्णएसु पाहुडेसु पाहुडपाहुडेसु कदकम्मसेसु वा भूद-
कम्मसेसु वा णाणस्स अइक्कमणदाए दसणस्स अइक्कमणदाए चरित्तस्स
अइक्कमणदाए तवस्स अइक्कमणदाए वीरियस्स अइक्कमणदाए, से अक्ख-
रहीणं वा पदहीणं वा सहीण वा चंजणहीणं वा अत्थहीणं वा गंथहीणं
वा थएसु वा थुईसु वा अट्टक्खाणेसु वा अणियोगेसु वा अणियोगहारेसु वा
जे भाव पणत्ता अरहंतेहिं भयवंतेसिं तित्थयरेहिं आदियरेहिं तिलोण-
हेहिं तिलगवुद्धेहिं तिलोगदरसीहिं ते मद्दहामि ते पत्तियामि ते रोचेमि ते
फासेमि, ते मद्दहंतस्स ते पत्तयंतस्स ते रोचयंतस्स ते फासयंतस्स जो मए
देवसिओ राईयो पत्तिवओ संवत्तरिओ अदिककमो वदिककमो अइचारो
अणाचारो आभोगो अणाभोगो अकाले सज्झाओ कओकाले वा परिहा-
विदो अत्थाकारिद मिच्छामेलिदं वा मेलिद अण्णहादिण्णं अण्णहापडि-

च्छदं आवसएसु पडिहीणदाए तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।

अह पडिवादाए विदिए तदिए चउत्थीए पञ्चमीए छट्ठीए सत्तमीए
अट्ठमीए णवमीए एयारसीए वारसीए तेरसीए चउद्दसीए पुण्णमासीए
पण्णरसदिवसाणं पण्णरसराईणं, छउण्हं मासाणं अट्ठण्हं पक्खाणं वीसुत्त-
रसयराईणं, वारसण्हं मासाणं चववीसण्हं पक्खाणं तिण्हं छावट्टिसयदिव-
साणं तिण्हं छावट्टिसयराईणं, पञ्चवरिसादो परदो अन्विभंतरदो वा दोण्हं
अट्ठरुद्दसंकिलेपरिणामाणं तिण्हं अप्पसत्थसंकिलेसपरिणामाणं तिण्हं दंडाणं
तिण्हं लस्साणं तिण्हं गुत्तीणं तिण्हं गारवाणं तिण्हं सल्लाणं चउण्हं सण्णाणं
चउण्हं कसायाण चउण्णं उवसग्गाण पञ्चण्हं महव्वयाण पञ्चण्हं इन्दियाणं
पञ्चण्हं समिदीणं पञ्चण्हं चरित्ताणं छण्हं आवासयाणं सत्तण्हं मयाणं
सत्तविहससाराणं अट्ठण्हं मयाणं अट्ठण्हं सुद्धीणं अट्ठण्हं कम्माणं अट्ठण्हं
पवयणमाउयाणं णवण्हं वंभचेरगुत्तीण णवण्हं णोकसायाणं दसविहम्युडाणं
दसविहसमणधम्माणं दसविहधम्मज्झाणं वारसण्हं संजमाणं वारसण्हं
तवाणं वारसण्हं अंगाण तेरसण्हं किरियाणं चउदसण्ह पुव्वाण्हं पण्णर-
सण्हं पमायाणं सोलसण्हं कसायाणं पणवीसाएकिरियासु पणवीसाए भाव-
णासु चावीसाए परिसहेसु अट्ठारसीलसहस्सेसु चउरासीदिगुणसयसहस्सेसु
मूलगुणेसु उचारगुणेसु अदिकम्मो वदिकम्मो अइचारो अणाचारो
आभोगो अणाभोगो तस्स भंते ! अइचारं पडिक्कमामि पडिक्कंतं कदो
वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिणदं तस्स भंते ! अइचारं पडिक्कमामि
णिंदामि गरहामि अप्पारणं वोस्सरामि जाव अरहंताणं भयवंताणं णमो-
क्कारं करेमि पज्जुवासं करेमि ताव कायं दुच्चरियं वोस्सरामि ।

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाण णमो आइरियाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं ॥ १ ॥

पढमं ताव सुदं मे आउस्संतो ! इह खल्लु समणैण भयवदा महदि-
महावीरेण महाकस्सवेण सव्वण्हणाणेण सव्वलोयदरसिणा सावयाणं
सावियाणं खुड्डयाण खुड्डियाणं कारणेण पञ्चाणुव्वदाणि तिण्णि गुणव्व-
दाणि चचारि सिक्खावदाणि वाग्गसविहं गिहत्थधम्मं सम्मं उवदेसियाणि ।

तत्थ इमाणि पञ्चाणुव्वदाणि पढमे अणुव्वदे थूलयडे पाणादिवादादो वेर-
मणं, विदिए अणुव्वदे थूलयडे मुसावादादो वेरमणं, तदिए अणुव्वदे थूल-
यडे अदत्तादाणादो वेरमणं, चउत्थे अणुव्वदे थूलयडे सदारसंतोसपरदा-
रागमणवेरमणं कस्स य पुणु सव्वदो विरदी, पंचमे अणुव्वदे थूलयडे
इच्छाकदपरिमाणं चेदि, इच्चेदाणि पञ्च अणुव्वदाणि ।

तत्थ इमाणि तिण्णि गुणव्वदाणि, तत्थ पढमे गुणव्वदे दिसिविदिसि
पच्चक्खाणं, विदिए गुणव्वदे विविधअणत्थदंडादो वेरमणं, तदिए गुण-
व्वदे भोगोपभोगोपरिसंखाणं चेदि, इच्चेदाणि तिण्णि गुणव्वदाणि ।

तत्थ इमाणि चत्तारि सिक्खावदाणि, तत्थप ढमे सामाइयं, विदिए
पोसहोवासयं, तदिए अतिथिसंविभागो, चउत्थे सिक्खावदे पच्छिमसल्ले-
हणामरणं, तिदियं अब्भोवस्साणं चेदि ।

से अभिमद जीवाजीव-उवलद्धपुण्यपाव-आसबबंधसंचरणिज्जर-
मोक्खमहिकुसले धम्माणुरायरत्तो पि माणुरागरत्तो अट्ठिमज्जाणुरायरत्तो
मुच्चिदट्ठे गिहिदट्ठे विहिदट्ठे पालिदट्ठे सेविदट्ठे णिगंगथपावयणे अणुत्तरे
सेअट्ठे सेवणुट्ठेणिसंक्रियणिचकंखिय णिन्विदिगिंछी य असूढदिट्ठी य ।
उवगूहणं द्विदिकरणं वच्छल्लपहावणा य ते अट्ठा ॥ १ ॥

सव्वेदाणि पञ्चाणुव्वदाणि तिण्णि गुणव्वदाणि चत्तारि सिक्खाव-
दाणि बारसविहं गिहत्थधम्ममणुपालइत्तादंसण वय सामाइय पोसह सचिच
राइभत्तेय ।

बंभारंभ परिग्गह अणुमणमुदिट्ठ देसविरदो य ॥ १ ॥ यहुपंसमज्ज-
जूआ वेसादिविवज्जणासीलो ।

पंचाणुव्वयजुत्तो सत्तेहि सिक्खावएहि संपुण्णो ॥ २ ॥

जो एदाइं वदाइं धरेइ सावया सिवियाओ वा खुड्डय खुड्डियाओ वा
अट्ठदहभवणवासियवाणं वितरजोइसियसोहम्मीसाणदेवीओं वदिककमिचउ-
वरिमअणणदरमहड्ढियासु देवेषु उववज्जंति ।

तं जहा - सोहम्मीसाणसणक्कुमारमार्हिंदवंभवंभुत्तरलांतवकापिट्टसु
क्कमहासुक्कसतारसहस्सारआणतपाणतआरणअच्चुतकप्पेषु उववज्जन्ति ।

अडयंवरसत्थधरा कडयंगदवद्धनउडकयसोहा ।

भासुरवरबोहिधरा देवा य महद्विया होंति ॥ १ ॥

उक्कस्सेण दोतिण्णभवगहणाणि जहण्णे सत्तडुभवगहणाणि तदो
समणुसुत्तादो सुदेवत्तं सुदेवत्तादो सुमाणुसत्तं तदो साइहत्था पच्छा
णिगंगथा होऊण सिञ्झन्ति बुज्झंति मुंचंति परिणिव्वाणयंति सव्वदुक्खा-
णमंतं करेति । जाव अरहंताणं भयंतताणं णमोकारं करेमि पज्जुवासं
करेमि ताव कायं पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि ।

—*—

(अनन्तरं साधवः “थोस्सामि” इत्यादि दंडकं पठित्वा स्मरिणा सहिताः
“वदसमिदिदियरोधो” इत्यादिकं चाधीत्य वीरस्तुतिं कुर्युः)

वीरभक्तिः

यः सर्वाणि चराचराणि विविधद्रव्याणि तेषां गुणान् । पर्यायानपि
भूतभाविभवतः सर्वान् सदा सर्वदा ॥ जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः
सर्वज्ञ इत्युच्यते । सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः ॥ १ ॥
वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधाः संश्रिताः । वीरेणाभितः स्वकर्म-
निचयो वीराय भक्त्या नमः ॥ वीराचीर्थमिदं प्रवृत्तिमतुलं वीरस्य घोरं
तपो । वीरे श्री-द्युति कांति-कीर्ति-धृतयो हे वीर ! भद्रं त्वयि ॥ २ ॥
ये वीरपादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्ताः । ते वीतशोका
हि भवन्ति लोके संसारदुर्गं विषयं तरंति ॥ ३ ॥ व्रतसमुदयमूलः संय-
मस्कन्धबन्धो यमनियमपयोभिर्वर्धितः शीलशाखः । समितिकलिकभारो
गुप्तिगुप्तप्रवालो गुणकुसुमसुगंधिः सत्तपश्चित्रपत्रः ॥ ४ ॥ शिवसुखफल-
दायी यो दयाछाययोद्यः । शुभजनपथिकानां खेदनोदे समर्थः ॥ दुरितर-
विजतापं प्रापयन्नन्तभावं । स भवविभवहान्यै नोऽस्तु चारित्रवृक्षः ॥ ५ ॥
चारित्रं सर्वजिनैश्चरितं प्रोक्तं च सर्वशिष्येभ्यः । प्रणमामि पञ्चभेदं
पञ्चमचारित्रलाभाय ॥ ६ ॥ धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चि-

न्वते । धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः ॥ धर्मान्नास्त्यपरः
सुहृद्भवभृतां धर्मस्य मूलं दया । धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म ! मां
पालय ॥ ७ ॥ धम्मो मंगलमुक्किहुं अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तरुस
पणमंति जस्स धम्मो सया मणो ॥ ८ ॥

अंचलिका

इच्छामि भंते ! पडिक्कमणादिचारमालोचेउं, सम्मणाण-सम्मदसण
सम्मचारित्त-तव-वीरियाचारेसु जम-णियम-संजम सील-मूलुत्तरगुणेषु सव्व-
मईचारं सावज्जजोगं पडिविरदोमि असंखेज्जलोगअज्झवसायठाणाणि अप्प-
सत्थजोगसण्णाणिदियकसायगारवकिरियासु मणवयणकायकरणदुप्पणि-
हाणाणि परिचिंतियाणि किएहणीलकाउलेस्साओ विकहापलिकुंचिएण
उम्मगहस्सरदिअरदिसोयभयदुगछवेयणविज्जंभजंभाइआणि अट्टरुहसंकि
लेसपरिणामाणि परिणामदाणि अणिहुदकरचरणमणवयणकायकरणेण
अक्खित्तवहुलपरायणेण अप्पडिपुरणेण वासरक्खरावयपरिसंघायपडि-
वत्तिए वा अच्छाकारिदं मिच्छा मेलिदं आमेलिदं वा मेलिदं वा अण्णहा-
दिणं अण्णहापडिच्छदं आवासएसु परिहीणदाए कदो वा कारिदो वा
कीरंतो वा समणुमण्णदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।

वदसमिदिदियरोधो लोचो आवासयमचेलमणहाण । खिदिसयणमदं-
तवण ठिदिभोयणमेयभत्तं च ॥ १ ॥ एदे खलु मूलगुणां समणाणंजिण-
वरेहिं पण्णत्ता । एत्थ पमादकदादो अइचारादो णियत्तो हं ॥ २ ॥ छेदो-
वट्ठावणं होदु मज्झं ।

इति वीरभक्तिः

निर्वाणकाराड (गाथा)

अट्ठावयम्मि उसहो, चम्पाए वासुपुज्यजिणणाहो ।
उज्जंते णेमिजिणो, पावाए णिब्बुदो महावीरो ॥ १ ॥

वीसं तु जिणवरिंदा अमरासुर-वंदिदा धुदकिलेसा ।
 सम्मेदे गिरिसिहरे, णिन्वाण गया णमो तेसिं ॥ २ ॥
 वरदत्तो य वरंगो, सायरदत्तोय तारवरणयरे ।
 आहुट्टयकोडीयो, णिन्वाण गया णमो तेसिं ॥ ३ ॥
 णेमिस्सामि पजुण्णो, संबुकुमारो तहेव अणिरुद्धो ।
 वाहत्तरिकोडीओ, उज्जंते सत्तसया सिद्धा ॥ ४ ॥
 रामसुआ वण्णि जणा, लाडणरिंदाण पञ्चकोडीओ ।
 पावागिरिवरसिहरे, णिन्वाण गया णमो तेसिं ॥ ५ ॥
 पंडुसुआ तिण्णिजणा, दविडणरिंदाण अट्टकोडीओ ।
 सत्तुंजे गिरिसिहरे, णिन्वाण गया णमो तेसिं ॥ ६ ॥
 संते जे वलभद्दा, जदुवणरिंदाणि अट्टकोडीओ ।
 गजपंथ गिरिसिहरे, णिन्वाण गया णमो तेसिं ॥ ७ ॥
 रामहणसुग्गीओ, गवयगवक्खो य णीलपहणीलो ।
 णवणवदीकोडीओ, तुंगिगिरीणिव्वुदे वंदे ॥ ८ ॥
 णंगाणंगकुमारा, कोडीपञ्चद्वमुणिवरा सहिया ।
 सवणागिरिवरसिहरे, णिन्वाण गया णमो तेसिं ॥ ९ ॥
 दहमुहरायस्स सुआ, कोडीपञ्चद्वमुणिवरा सहिया ।
 रेवाउहयतडग्गे, णिन्वाण गया णमो तेसिं ॥ १० ॥
 रेवाणइये तीरे, पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूटे ।
 दो चक्की दहकप्पे, आहुट्टयकोडिणिव्वुदे वंदे ॥ ११ ॥
 वडवाणीवरणयरे, दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे ।
 इंदजीदकुंभयणो, णिन्वाण गया णमो तेसिं ॥ १२ ॥
 पावागिरिवरणयरे, सुवणभद्दाइमुणिवरा चउरो ।
 चलणाणईतडग्गे, णिन्वाण गया णमो तेसिं ॥ १३ ॥
 फलहोडीवरगामे, पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे ।
 गुरुदत्ताइ मुणिंदा, णिन्वाण गया णमो तेसिं ॥ १४ ॥
 णायकुमारमुणिंदो, वालि महावालि चैव अज्जेया ।

अट्टावयगिरिसिहरे, णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ १५ ॥
 अच्चलपुरवरणयरे, ईसाणे भायमेढगिरिसिहरे ।
 आहुट्टयकोडीओ, णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ १६ ॥
 वंसत्थलम्मि णयरे, पच्छिमभायम्मि कुंथगिरिसिहरे ।
 कुलदेसभूषणमुणी; णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ १७ ॥
 जसहररायस्स सुआ, पचसयाइं कल्लिगदेसम्मि ।
 कोडिसिला कोडिमुणी, णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ १८ ॥
 पासस्स समवसरणे, गुरुवरदत्त पचरिसिपमुहा ।
 रेसिंदीगिरिसिहरे, णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ १९ ॥
 जे जिणु जित्थु तत्था, जे दु गया णिव्वुदिं परमं ।
 ते बंदामि य णिव्वं, तियरणसुद्धो णमंसामि ॥ २० ॥
 सेसाणं तु रिसीणं, णिव्वाणं जम्मि जम्मि ठाणम्मि ।
 ते ह बंदे सव्वे, दुक्खक्खयकारणट्टाए ॥ २१ ॥
 पासं तह अहिणंदण, णायद्दहि मङ्गलाउरे बंदे ।
 अस्सारंभे पट्टणि, मुणिसुव्वओ तहेव बंदामि ॥ १ ॥
 बाहूबलि तह-बंदमि, पोदनपुर हत्थिनापुरे बंदे ।
 संतीकुन्थुव अरिहो, वाराणसिए सुपास पासं च ॥ २ ॥
 माहुरए अहिच्छित्ते, वीरं पासं तहेव बंदामि ।
 जंबुमुण्णिंदो बंदे, णिव्वुइपत्तोवि जंबुवणगहणे ॥ ३ ॥
 पञ्चकल्लाणठाणइ, जाणिवि संजादमच्चलोयम्मि ।
 मणवयणकायसुद्धो, सव्वे सिरसा णमंसामि ॥४॥
 अग्गलदेवं बंदमि, वरणयरे णिवडकुण्डणी बंदे ।
 पासं सिरिपुरि बंदमि, होला गिरिसंखदेवम्मि ॥ ५ ॥
 गोम्मटदेवं बंदमि, पंचसयं धणुहउच्चं तं ।
 देवा कुणंति बुट्टी, केसरकुसुमाण तस्स उवरिम्मि ॥ ६ ॥
 णिव्वाणठाण जाणिवि, अइसयठाणाणि अइसये सहिया ।
 संजादमिच्च लोए, सव्वे सिरसा णमंसामि ॥ ७ ॥

जो जण पठइ तियालं, णिब्बुइकंडंपि भावसुद्धीय ।
भुंजदि णरसुरसुखं, पच्छा सो लहइ णिच्चायां ॥ ८ ॥

अंचलिका

इच्छामि भंते ! परिणिव्वाणभंतिकाउत्सग्गो कओ तस्सा लोचेउं ।
इमम्मि अवसप्पिणीए चउत्थ समयस्स पच्छिमे भाये, आहुट्टुमासहीणे
वासचउक्कम्मिसेसकम्मि पावाए णयरीयकत्तियमासस्स किण्हचउद्दसिए
रत्तीए सादीए णक्खत्ते पच्चूसेभयवदो महदिमहावीरो वड्ढमाणो
सिद्धिगदो, तिसुवि लोएसु भवणवासिय वाणर्वितर जोयिसिय कप्पवासि-
यत्ति चउव्विहा देवा सपरिवारा दिव्वेण, गंधेण, दिव्वेण पुप्फेण,
दिव्वेण धूवेण, दिव्वेण, चुण्णेण, दिव्वेण वासेण, दिव्वेण ष्हाणेण
णिच्चकालं अच्चंति, पूजंति, वंदंति, णमंसंति, परिणिव्वाणमहाकल्लाण-
पुज्जं करेति, अहमवि इह सन्तो तत्थ संताइं णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि,
वंदामि, णमंसामि, दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं समा-
हिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

गराधरवल्लयः

जिनान् जितारातिगणान् गरिष्ठान् देशावधीन् सर्वपरावर्धींश्च ।
सत्कोष्ठबीजादिपदानुसारीन् स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्यै ॥ १ ॥ संभि-
न्नश्रोत्रान्वितसन्मुनीन्द्रान् प्रत्येकसम्बोधितबुद्धधर्मान् । स्वयंप्रबुद्धांश्च विमु-
क्तिमार्गान् स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्यै ॥ २ ॥ द्विधामनःपर्ययचि-
त्प्रयुक्तान् द्विपञ्चसप्तद्वयपूर्वसक्तान् । अष्टाङ्गनैमित्तिकशास्त्रदक्षान् स्तुवे
गणेशानपि तद्गुणाप्त्यै ॥ ३ ॥ विकुर्वणाख्यद्विमहाप्रभावान् विद्याधरां-
श्चारणप्रद्विप्राप्तान् । प्रज्ञाभितान्नित्यखगामिनश्च स्तुवे गणेशानपि तद्-
गुणाप्त्यै ॥ ४ ॥ आशीर्विषान् दृष्टिविषान्मुनीन्द्रानुग्रातिदीप्तोत्तमतप्त-
तप्तान् । महातिघोरप्रतपःप्रसक्तान् स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्यै ॥ ५ ॥

वन्द्यान् सुरैर्घोरगुणांश्च लोके पूज्यान् बुधैर्घोरपराक्रमांश्च । घोरादिसंसद्-
गुणत्रह्ययुक्तान् स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्यै ॥ ६ ॥ आमर्द्धिखेलर्द्धि-
प्रजल्लुचिर्त्प्रसर्वर्द्धिप्राप्तांश्च व्यथादिहतृन् । मनोवचःकायबलोपयुक्तान्
स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्यै ॥ ७ ॥ सत्क्षीरसर्पिर्मधुरामृतद्वीन् यतीन्
वराक्षीणमहानसांश्च । प्रवर्धनांस्त्रिजगत्प्रपूज्यान् स्तुवे गणेशानपि तद्गु-
णाप्त्यै ॥ ८ ॥ सिद्धालयान् श्रीमहतोऽतिवीरान् श्रीवर्द्धमानर्द्धिविबुद्धिद-
क्षान् । सर्वान् मुनीन् मुक्तिवराभूषीन्द्रान् स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्यै
॥ ९ ॥ नृसुरखचरसेव्या विश्वश्रेष्ठर्द्धिभूषा विविधगुणसमुद्रा मारमातङ्ग-
सिंहाः । भवजलनिधिपोता वंदिता मे दिशन्तु मुनिगणसकलान् श्रीसिद्धिदाः
सदृपीन्द्रान् ॥ १० ॥

इति गणधरवलयः ।

अथ वीतरागस्तोत्रम् ।

शिवं शुद्धबुद्ध परं विश्वनाथं । न देवो न बधुर्न कर्मा न कर्ता ।
न अंगं न संगं न चेच्छा न कामं । चिदानंदरूपं नमो वीतरागम् ॥ १ ॥
न वंधो न मोक्षो न रागादिदोषः । न योगं न भोगं न व्याधिर्न शोकं ।
न कोपं न मानं न माया न लोभं । चिदानंद० ॥ २ ॥ न हस्तौ न पादौ
न घ्राणं न जिह्वा । न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा । न स्वामी न भृत्यं
न देवो न मर्त्यः ॥ चिदानंद० ॥ ३ ॥ ना जन्ममृत्यु न मोहं न चिन्ता ।
न क्षुद्रो न भीतो न काश्यं न तंद्रा । न स्वेदं न खेदं न वर्णं न मुद्रा ।
चिदानंद० ॥ ४ ॥ त्रिदण्डे त्रिखण्डे हरे विश्वनाथं । हृषीकेश विश्वस्त-
कर्मादिजालं । न पुण्यं न पापं न चाक्षादि गात्रं । चिदानंद० ॥ ५ ॥ न
वालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढो । न स्वेदं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेहः ।
न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तंद्रा । चिदानंद० ॥ ६ ॥ न आद्यं न मध्यं

न अंतं न मन्या । न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न मानः । शिष्यो गुरुर्नापि
हीन न दीनं ॥ चिदानंद० ॥ ७ ॥ इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी । न पूर्णं
न शून्यं न चैत्यस्वरूपो । न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकम् ॥ चिदा-
नंद० ॥ ८ ॥ आत्मारामगुणाकरं गुणनिधिं चैत्यन्यरत्नाकरं । सर्वे भूतगता
गते सुखदुःखे ज्ञाते त्वया सर्वगे । त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा ध्यायंति
योगीश्वराः । वंदे तं हरिवंशेर्हर्षहृदय श्रीमन् हृदाभ्युद्यताम् ॥ ९ ॥

अथ तीर्थंकरस्तुतिः

स्वस्त्यैव नः स्याद्बृषभो जिनेन्द्रः । स्वस्तिप्रदो नस्त्वजितो जिनेन्द्रः ।
श्रीसंभवो नोऽस्तु सदैव स्वस्ति । स्वस्त्यैव मूयादमिनंदनो जिनः ॥ १ ॥
स्वस्तिप्रबृद्धो सुमतिस्तु नोऽस्तु । पद्मप्रभो नः प्रतनोतु स्वास्ति । सुपार्श्व-
नामाति जिनोऽस्तु स्वास्ति । चन्द्रप्रभो नो दिशतां च स्वास्ति ॥ २ ॥
श्रीपुष्पदंतो विदधातु स्वास्ति । सुस्वस्तिदायी मम शीतलोऽस्तु । श्रेयांस
स्वस्त्यैव ममैव भूयात् श्रीवासुपूज्योऽपि जिनोऽस्तु स्वास्ति ॥ ३ ॥ स्व-
स्तिप्रदो नो विमलो जिनोऽस्तु । स्वस्ति त्वंनतोऽपि ममास्तु नित्यं ।
धर्मोऽपि मां स्वस्तिकरः सदास्तु । श्रीशांतिनाथोस्तु ममैव स्वास्ति । कुन्धु-
स्तुभूयान्मम स्वस्तिकारी । जिनस्त्वरः स्वस्तिकरश्च नोस्तु । स्वस्त्यैव
माल्लिस्तु जिनोस्तु नित्यं । स्वस्तिप्रदो नो मुनिसुव्रतोऽस्तु ॥ ५ ॥ नमि-
र्जिनः स्वस्तिकृदस्तु नित्यं । स्वस्त्यैव नेमिर्जिन मेऽस्तु नित्यं । श्री पार्श्व-
नाथो मयि स्वास्तिदोऽस्तु । श्रीस्वस्तिदो वीरजिनः सदास्तु ॥ ६ ॥

इति तीर्थंकरस्तुतिः ।

अथ रत्नकरं उ श्रावकाचार ।

नमः श्रीवर्द्धमानाय निर्भृतकलिलात्मने । सालोकानां त्रिलोकानां
 यद्विद्या दर्पणायते ॥ १ ॥ देशयामि समीचीनं धर्म कर्मनिवर्हणम् । संसा-
 रदुःखतः सस्वान् यो धर्त्युत्तमे सुखे ॥ २ ॥ सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म
 धर्मैवरा विदुः । यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ ३ ॥
 श्रद्धानं परमार्थानामाज्ञागमतपोभृताम् । त्रिसूढापोढमष्टांगं सम्यग्दर्शनम-
 स्यम् ॥ ४ ॥ आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना । भवितव्यं नियो-
 गेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् ॥ ५ ॥ क्षुत्पिपासाजरातङ्कजन्मांतकभय-
 स्याः । न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ॥ ६ ॥ परमेष्ठी परंज्यो-
 तिर्विरागो विमलः कृती । सर्वज्ञोऽनादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलान्यते
 ॥ ७ ॥ अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम् । ध्वनन्
 शिल्पिकरस्पर्शान्मुरजः किमपेक्षते ॥ ८ ॥ आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यमदृष्टेष्टविरो-
 धकम् । तत्रोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनम् ॥ ९ ॥ विपयाशावशा-
 तीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः । ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥
 इदमेवेदृशमेव तत्रं नान्यन्न चान्यथा । इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्मार्गेऽसंशया
 रुचिः ॥ ११ ॥ कर्मपरवशे सान्ते दुःखैरन्तरितोद ये । पापबीजे सुखे-
 ऽनास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता ॥ १२ ॥ स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रय-
 पवित्रते । निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥ १३ ॥ कापथे
 पथि दुखानां कापथस्थेप्यसम्मतिः । असंपृक्तिरनुत्कीर्तिरमूढा दृष्टिरुच्यते
 ॥ १४ ॥ स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वालाशक्कजनाश्रयाम् । वाच्यतां यत्प्रमा-
 र्जति तवदंत्युपगूहनम् ॥ १५ ॥ दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलेः ।
 प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते ॥ १६ ॥ स्वयुध्यान्प्रति सद्भावस-
 नाथापेतकैतवा । प्रतिपत्तियथायोग्यं वात्सल्यमभिलप्यते ॥ १७ ॥ अज्ञा-
 नतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम् । जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्र-

भावना ॥ १८ ॥ तावदंजनचौरोंऽगे ततोऽनंतप्रती स्मृता । उदायनस्तृ-
 तीयेऽपि तुरीये रेवती मता ॥ १९ ॥ ततो जिनेन्द्रभक्तोऽपि वारिषेणस्ततः
 परः । विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ ॥ २० ॥ नांगहीन-
 मलं छेत्तुं दर्शनं जन्मसंततिम् । न हि मन्त्रोऽक्षरन्यूनो निहंति विषवेदनां
 ॥ २१ ॥ आपगासागरस्नानमुच्चयः सिक्रताश्मनाम् । गिरिपातोऽग्निपा-
 तश्च लोकमूढ निगद्यते ॥ २२ ॥ वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसाः ।
 देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥ सग्रंथारभंहिंसानां संसारावर्त्त-
 वर्तिनाम् । पाखंडिनां पुररकारो ज्ञेयं पाखंडिमोहनम् ॥ २४ ॥ ज्ञानं पूजां
 कुलं जार्तिं बलमृद्धिं तपो वपुः । अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्वयमाहुर्गतस्त्रयाः
 ॥ २५ ॥ स्वयेन योऽन्यान त्येति धर्मस्थान् गर्विताशयः । सोऽत्येति
 धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना ॥ २६ ॥ यदि पापनिरोधोऽन्येसंपदा
 किं प्रयोजनं । अथ पापस्रवोऽस्त्यन्यसंपदा किं प्रयोजनं ॥ २७ ॥ सम्य-
 ग्दर्शनसंपन्नमपि मातंगदेहजम् । देवा देवं विदुर्भस्मगूढांग रांतरौजसम्
 ॥ २८ ॥ श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्मकिल्बिषात् । कापि नाम
 भवदेन्या संपद्धर्माच्छरारिणां ॥ २९ ॥ भयाशास्त्रहलोभाच्च कुदेवागमलिं-
 गिनां । प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः ॥ ३० ॥ दर्शनं ज्ञान-
 चारित्रात्साधिमानमुपाश्नुते । दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गं प्रचक्षते ॥ ३१ ॥
 विद्यावृत्तस्य संभृतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः । न संत्यसति सम्यक्ते वीजा-
 भावे तरोरिव ॥ ३२ ॥ गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।
 अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥ ३३ ॥ न सम्यक्त्वसमं
 किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि । श्रेयोऽधेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभृतां
 ॥ ३४ ॥ सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्गनपुंसकस्त्रीत्वानि । दुष्कुलविकृता-
 ल्पायुर्दरिद्रतां च व्रजंति नाप्यव्रतिकाः ॥ ३५ ॥ आजैस्तेजोविद्यावार्थ्य-
 यशोवृद्धिविजयविभवसनाथाः । महाकुला महार्था मानवतिलका भवंति
 दर्शनपूताः ॥ ३६ ॥ अष्टगुणपुष्टितुष्टा दृष्टिविशिष्टाः प्रकृष्टशोभा-
 जुष्टाः । अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमंते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्गे ॥ ३७ ॥
 नवनिधिसप्तद्वयरत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रं । वर्त्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट-

दृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणाः ॥ ३८ ॥ अमरासुरनरपतिभिर्मधरपतिभि-
 श्वनूतपादांभोजाः दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवंति लोकशरण्याः
 ॥ ३९ ॥ शिवमजरमरुजमक्षयमव्याघाधं विशोकभयशंकं काष्ठागतसुख-
 त्तिद्याविभवं विमलं भजंति दर्शनशरणाः ॥ ४० ॥ देवेंद्रचक्रमहिमानम-
 मेयमानं राजेंद्रचक्रमवनीन्द्राशिरोऽर्चनीयम् । धर्मेंद्रचक्रमधरीकृतसर्वलोकं
 लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्यः ॥ ४१ ॥

अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात् निःसंदेहं वेद
 यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ ४२ ॥ प्रथमानुयोगमर्थारख्यानं चरितं पुरा-
 णमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधतिबोधःसमीचीनः ॥ ४३ ॥ लोका-
 लोकविभक्तेर्युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च । आदर्शमिव तथा मतिरिवैति कर-
 णानुयोगं च ॥ ४६ ॥ गृहमेध्यनगाराणां चारित्र्योत्पत्तिवृद्धिरक्षांगम् ।
 चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥ ४५ ॥ जीवाजीवसुतत्वे पुण्या-
 पुण्ये च बन्धमोक्षौ च । द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥ ४६ ॥

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः । रागद्वेषनिवृत्त्यै चरणं
 प्रतिपद्यते साधुः ॥ ४७ ॥ रागद्वेषनिवृत्तेर्हिंसादिनिवर्चना कृता भवति
 अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन् ॥ ४८ ॥ हिंसानृतचौर्ये-
 म्यो मैथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च । पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारि-
 त्रम् ॥ ४९ ॥ सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानां । अनगा-
 राणां विकलं सागाराणां ससंगानां ॥ ५० ॥ गिहिणां त्रेधा तिष्ठत्य णुगु-
 णशिक्षावृत्तात्मकं चरणं । पचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम् ॥ ५१ ॥
 प्राणातिपातवितथव्याहारस्तेयकाममूर्च्छेभ्यः । स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्यु-
 परमणमणुव्रतं भवति ॥ ५२ ॥ संकल्पात् कृतकारित्तमनुनाद्योगत्रयस्य
 चरसत्त्वान् । न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणाः ॥ ५३ ॥
 छेदनबंधनपीडनमतिभारारोपणं व्यतीचाराः । आहारवारणापि च स्थू-
 लवधाद् व्युपरतेः पंच ॥ ५४ ॥ स्थूलमलीकं न वदति न परान् वाद-
 यति सत्यमपि विपदे । यत्तद्भदति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणं ॥ ५५ ॥
 परिवादरहोभ्याख्यापैशून्यं कूटलेखकरणं च । न्यासापहारितापि च

व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्या ॥ ५६ ॥ निहतं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा पर-
स्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणं ॥ ५७ ॥ चौर-
प्रयोगचौरार्थादानविलोपसदृशसन्मिश्राः । हीनाधिकावीभिमानं पंचस्तेये
व्यतीपाताः ॥ ५८ ॥ न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च
पापभीतेर्यत् । सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोषनामापि ॥ ५९ ॥ अन्य-
विवाहाकरणानंगक्रीडाविटत्वविपुलतृषः इत्वरिकागमनं चास्मरस्य पंच
व्यतिचाराः ॥ ६० ॥ धनधान्यादिग्रंथं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता
परिमितपरिग्रहः स्याद्विच्छापपरिमाणनामापि ॥ ६१ ॥ अतिवाहनाति-
संग्रहविस्मयलोभातिभास्वहनानि । परिमितपरिग्रहस्य च विपेक्षाः पंच
लक्ष्यंते ॥ ६२ ॥ पंचाणुव्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकं यत्रा-
वधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यंते ॥ ६३ ॥ मातंगो घनदवेश्च चारि-
पेणस्ततः परः । नीली जयश्च संग्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम् ॥ ६४ ॥ धन-
श्रीसत्यघोषौ च तापसारक्षकावपि । उपारख्येयास्तथा श्मश्रुनवनीतो यथा-
क्रमम् ॥ ६५ ॥ मद्यमांसमधुत्यागैः सहाणुव्रतपंचकम् । अष्टौ मूलगुणा-
नाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥ ६६ ॥ दिग्ब्रतमनर्थदंडव्रतं च भोगोपभोग-
परिमाणम् । अनुवृंहणाद् गुणानामारुह्यंति गुणव्रतान्यार्याः ॥ ६७ ॥
दिग्ब्रलयं परिगणितं कृत्वातोऽहं बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्ब्रत-
मामृत्युपापविनिवृत्त्यै ॥ ६८ ॥ मकराकरसरिदटवीगिरिजनपदयोजनानि
मर्यादा ! ग्राह्युर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥ ६९ ॥ अवधेर्वहि-
रणुपापप्रतिविरतेर्दिग्ब्रतानि धारयतां । पंचमहाव्रतपरिणतिमणुव्रतानि प्रप-
द्यंते ॥ ७० ॥ प्रत्याख्यानतदुत्त्वान्मंदतराश्चरणमोहपरिणामाः । सत्त्वेन
दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यंते ॥ ७१ ॥ पंचानां पापानां हिंसादीनां
मनोवचःकायैः । कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महतां ॥ ७२ ॥
ऊर्ध्वाधस्तिचर्यग्व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनां । विस्मरणं दिग्ब्रतेरत्याशाः
पंच मन्यंते ॥ ७३ ॥ अभ्यंतरं दिगवधेरपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः । विर-
मणमनर्थदंडव्रतं विदुर्ब्रतधराग्रण्यः ॥ ७४ ॥ पापोपदेशहिंसादानापध्या-
नदुःश्रुतीः पंच । ग्राह्युः प्रमादचर्यामनर्थदण्डानदण्डधराः ॥ ७५ ॥ तिर्य-

कृक्लेशवणिज्याहिंसारंभप्रलंभनादीनाम् । कथाप्रसंगप्रसवः स्मर्त्तव्यः पापो-
 पदेशः ॥ ७६ ॥ परशुकृपाणखनित्रज्वलनायुधशृगिशंखलादीनां । वधहे-
 तूनां दानं हिंसादानं त्रुवंति बुधाः ॥ ७७ ॥ बधबंधच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च
 परकलत्रादेः । आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥ ७८ ॥
 आरंभसंगसाहसमिथ्यात्वद्वेषरागमदमदनैः । चेतः कलुषयतां श्रुतिरवधीनां
 दुःश्रुतिर्भवति ॥ ७९ ॥ क्षितिसलिलदहनपवनारंभं विफलं वनस्पतिच्छेदं ।
 सरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाणते ॥ ८० ॥ कंदर्पं कौत्कुच्यं मौख-
 र्यमतिप्रसाधनं पंच । असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोऽनर्थदडकृद्विरतेः
 ॥ ८१ ॥ अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणं । अर्थवतामप्य-
 वधौ रागरतीनां तनूकृतये ॥ ८२ ॥ भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा
 पुनश्च भोक्तव्यः । उपभोगोऽशनवसनप्रभृतिः पञ्चेंद्रियो विषयः ॥ ८३ ॥
 त्रसहतिपरिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये । मद्यं च वर्जनियं जिन-
 चरणौ शरणमुपयातैः ॥ ८४ ॥ अल्पफलबहुविधातान्मूलकमाद्राणि शृंग-
 वेराणि । नवनीतनिंवकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् ॥ ८५ ॥ यदनिष्टं तद
 ब्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात् । अभिसंधिकृता विरतिर्विषयाद्योग्याद्
 ब्रतं भवति ॥ ८६ ॥ नियमो यमश्च विहितौ द्वेषा भोगोपभोगसंहारे ।
 नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो ध्रियते ॥ ८७ ॥ भोजनवाहनश-
 यनस्नानपवित्रांगरागकुसुमेषु । तांबूलवसनभूषणमन्मथसंगीतगीतेषु ॥ ८८ ॥
 अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयन वा । इति कालपरिच्छित्या
 प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः ॥ ८९ ॥ विषयविषतोऽनुपेक्षानुस्मृतिरतिलौन्य-
 मतिवृषानुभवः । भोगोपभोगमाव्यतिक्रमाः पञ्च कथ्यन्ते ॥ ९० ॥

देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषधोपावासो वा । वैयावृत्यं शिक्षा-
 व्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥ ९१ ॥ देशावकाशिकं स्यात्कालपरिच्छेदनेन
 देशस्य । प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ॥ ९२ ॥ गृहहरिग्रा-
 माणां क्षेत्रनदीदावयोजननां च । देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीमां तपो-
 वृद्धाः ॥ ९३ ॥ संवत्सरमृतुरयनं मासचतुर्मासपक्षमृक्षं च । देशावकाशि-
 कस्य ग्राहुः कालावधिं ग्राज्ञाः ॥ ९४ ॥ सीमान्तानां परतः स्थूलेतर-

पंचपापसंत्यागात् । देशावकाशिकेन च महात्रतानि प्रसाध्यंते ॥ ९५ ॥
 प्रेषणशब्दानयनं रूपामिव्यक्तिं पुद्गलक्षेपौ । देशावकाशिकस्य व्यपदि-
 श्यंतेऽत्ययाः पंच ॥ ९६ ॥ आसमयमुक्तिं मुक्तं पंचावानामशेषभावेन ।
 सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शसंति ॥ ९७ ॥ मूर्धरूहमुष्टिवा-
 सोबंधं पर्यकबंधनं चापि । स्थानमुपवेशनं वा समयं जानंति समयज्ञाः
 ॥ ९८ ॥ एकाते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च । चैत्यालयेषु
 वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥ ९९ ॥ व्यापारवैमनस्याद्विनिवृत्यामं-
 तरात्मविनिवृत्या । सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकमुक्ते वा ॥ १०० ॥
 सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं । व्रतपञ्चकपरिपूरणकार-
 णमवधानयुक्तेन ॥ १०१ ॥ सामयिके सारंभाः परिग्रहा नैव संति सर्वे-
 ऽपि । चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम् ॥ १०२ ॥ शीतो-
 ष्णदंशमशकपरीपहमुपसर्गमपि च मौनधराः । सामयिकं प्रतिपन्ना अधि-
 क्तुर्वीरन्नचलयोगाः ॥ १०३ ॥ अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमाव-
 सामि भवम् । मोक्षस्तद्धिपरीतात्मेति ध्यायतु सामयिके ॥ १०४ ॥ वाक्का-
 यमानसानां दुष्प्रणिधानान्यनादरास्सरणे । सामयिकस्यातिगमा व्यज्यंते
 पञ्च भावेन ॥ १०५ ॥ पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । चतु-
 रभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः ॥ १०६ ॥ पञ्चानां पापानाम-
 लंक्रियारंभगंधपुष्पाणाम् । स्नानांजननस्यानामुपवासे परिहर्ति कुर्यात्
 ॥ १०७ ॥ धर्माभूत सतृषणः श्रवणाभ्यां पिवतु पाययेद्धान्यान् । ज्ञान-
 ध्यानपरो वा भवतृपत्रसन्नतंद्रालुः ॥ १०८ ॥ चतुराहारविसर्जनमुपवासः
 प्रोषधः सकृद्भुक्तिः । स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति ॥ १०९ ॥
 ग्रहणविसर्गास्तिरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादरास्सरणे । यत्प्रोषधोपवासव्यतिलङ्घ-
 नपचकं तदिदं ॥ ११० ॥ दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये ।
 अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥ १११ ॥ व्यापत्तिव्यपनोदः
 पदयोः संवाहनं च गुणरागात् । वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संय-
 मिनां ॥ ११२ ॥ नवपुण्यैः प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन । अप-
 सन्नारंशाणामार्याणामिष्यते दानम् ॥ ११३ ॥ गृहकर्मणापि निश्चितं कर्म

विमार्ष्टि खलु गृहविमुक्तानां । अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते-
वारि ॥ ११४ ॥ उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनान्पूजा । भक्तेः
सुंदररूपं स्तवनात्कीर्निस्तपोनिधिषु ॥ ११५ ॥ क्षितिगतमिव वटवीजं
पात्रगतं दानमल्पमपि काले । फलतिच्छायाविभव बहुफलमिष्टं शरीर-
भृतां ॥ ११६ ॥ आहारौषधयोरप्युपकरणावाप्तयोश्च दानेन । वैयावृत्यं
ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः ॥ ११७ ॥ श्रीषेणवृषभसेने कौंडेशः शूक-
रश्च दृष्टांताः । वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मतव्याः ॥ ११८ ॥ देवा-
धिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणम् । कामदुहि कामदाहिनि परिचि-
नुयादादृतो नित्यम् ॥ ११९ ॥ अर्हच्चरणसपर्यामहानुभावं महात्मनाम-
वदत् । भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥ १२० ॥ हरितपिवान-
निधाने ह्यनादरास्सरणमत्सरत्वानि । वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पंच
कथ्यन्ते ॥ १२१ ॥

उपसर्गे दुर्भिक्षे जरस्त्रि रुजायां च निष्प्रतीकारे । धर्माय तनुविमो-
चनमाहुः सल्लेखानामार्याः ॥ १२२ ॥ अंतक्रियाधिकरणं तपःफलं सक-
लदर्शिनःस्तुवते । तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ॥ १२३ ॥
स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः । स्वजनं परिजनमपि च
ज्ञान्त्वा क्षमयेत्प्रियैर्वचनैः ॥ १२४ ॥ आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितम-
नुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि निश्शेषम् ॥ १२५ ॥
शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा । सत्त्वोत्साहमुदीर्य च
मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः ॥ १२६ ॥ आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विव-
द्धयेत्पानं । स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत्क्रमशः ॥ १२७ ॥ खर-
पानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंचनमस्कारमनास्तनुं त्य-
जेत्सर्वयत्नेन ॥ १२८ ॥ जीवितमरणांशसे भयमित्रस्मृतिनिदाननामानः ।
सल्लेखनातिचाराः पंच जिनेन्द्रैः समदिष्टाः ॥ १२९ ॥ निश्चेयसमभ्युदयं
निस्तीरं दुस्तरं सुखांबुनिधिं । निष्पिवति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीढः ॥ १३० ॥
जन्मजरामयमरणैः शोकैर्दुःखैर्भयश्चैः परिमुक्तम् । निर्वाणम् शुद्धसुखं निःश्रे-
यसमिष्यते नित्यं ॥ १३१ ॥ विद्यादर्शनशक्तिस्वास्थ्यप्रह्लादतृप्तिशुद्धियुजः ।

निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखं ॥ १३२ ॥ काले कल्पश-
तेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या । उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलो-
कपञ्चातिकरणपटुः ॥ १३३ ॥ निःश्रेयसमधिपन्नास्त्रिलोक्यशिखामणिश्रियं
दधते । निष्कट्टकालिकाच्छविच भीकरभासुरात्मानः ॥ १३४ ॥ पूजा-
र्थाङ्गैश्चर्यैबलपरिजनकामभोगभूयिष्ठैः । अतिशयितभुवनमद्भुतमभ्युदयं
फलति सद्धर्मः ॥ १३५ ॥ श्रावकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु ।
स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धः ॥ १३६ ॥ सम्यग्दर्शनशुद्धः
संसारशरीरभोगनिर्विण्णः । पञ्चगुरुचरणशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्यः
॥ १३७ ॥ निरति क्रमणमणुव्रतपञ्चकमपि शीलसप्तकं चापि । धारयते
निःशल्को योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः ॥ १३८ ॥ चतुरावर्त्तत्रितयश्चतुः
प्रमाणः स्थितो यथाजातः सामयिको द्विनिषद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसंध्यमभिवन्दी
॥ १३९ ॥ पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य । प्रोषधनि-
यमविधायी प्रणिधिपरः प्रोषधानशनः ॥ १४० ॥ मूलफलशाकशाखा-
करीरंकदप्रसूनबीजानि । नामानि योऽस्ति सोऽयं सचित्तविरतो दयामूर्तिः
॥ १४१ ॥ अन्नं पानं खाद्यं लेह्यं नाश्नाति यो विभावर्या । सच रात्रि-
भुक्तिविरतः सत्त्वेष्वनुकंपमानमनाः ॥ १४२ ॥ मलवीजं मलयोर्नि गल-
न्मलं पूतिगधि धीभत्सं । पश्यन्नंगमनंगाद्भिरमति यो ब्रह्मचारी सः
॥ १४३ ॥ सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखादारंभतो व्युपारमति प्राणातिपातहे-
तोर्योऽसावारंभविनिवृत्तः ॥ १४४ ॥ बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य
निर्ममत्वरतः । स्वस्थः संतोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्विरतः ॥ १४५ ॥
अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसु वा । नास्ति खलु यस्य समधी-
रनुमतिविरतः समंतव्यः ॥ १४६ ॥ गृहतो मुनिवन्मित्वा गुरूपकंठे व्रतानि
परिगृह्य । भैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्रेलखंडधरः ॥ १४७ ॥ पापमरातिर्धमो
बंधुर्जावस्य चेति निश्चिन्वन् । समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति
॥ १४८ ॥ येन स्वयं वीतकलंकविद्यादृष्टिक्रियारत्नकरंडभावं । नीतस्तमा-
याति पतीच्छयेव सर्वार्थसिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु ॥ १४८ ॥ सुखयतु सुखभूमिः
कामिनं कामिनीव, सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु । कुलमिव

गुणभूषा कन्यका संपुनीताग्जिनपतिपदपद्मप्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मीः ॥१५०॥

इति रत्नकरणदश्रावकाचार समाप्त ।

अथ द्रव्यसंग्रह

जीवमजीवं द्रव्यं, जिणवरवसहेण जेण णिदिट्ठं । देविंदविंदवंदं, वंदे तं सच्चदा सिरसा ॥ १ ॥ जीवो उवओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेह-परिमाणो । भोचा संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोड्ढगई ॥ २ ॥ तिकाले चदु पाणा इंदिय बलमाउ आणपाणो य । ववहारा सो जीवो णिच्चयण-यदो दु चेदणा जस्स ॥ ३ ॥ उवओगो दुवियप्पो दंसणं चदुधा । चक्खु अचक्खु ओही दंसणमध केवलं णेयं ॥ ४ ॥ णाणं अट्टवियप्पं मदिसुद-ओही अणाणणाणाणि । मणपज्जय केवलमवि पञ्चक्खपरोक्खभेयं च ॥ ५ ॥ अट्टचदुणाणदंसण सामण्णं जीवलक्खणं भणियं । ववहारा सुद्ध-णया सुद्धं पुण दंसणं णाणं ॥ ६ ॥ वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ट णिच्चया जीवे । णो संति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति वंधादो ॥ ७ ॥ पुग्गलकम्पादीण कत्ता ववहारदो दु णिच्चयदो । चेदणकम्माणादा सुद्ध-णया सुद्धभावाणं ॥ ८ ॥ ववहारा सुहदुक्खं पुग्गलकम्मफलं पभुंजेदि । आदा णिच्च यणयदो चेदण भावं खु आदस्स ॥ ९ ॥ अणुगुरुदेहपमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेदा । असमुहदो ववहारा णिच्चयणयदो असंखदेसो वा ॥ १० ॥ पुढविजलतेउवालु वणप्फदी विविहथाबरेइंदी । विगतिगच-दुपंचक्खा तसजीवा होंति संखादी ॥ ११ ॥ समणा अमणा णेया पंचे-दिय णिम्मणा परे सवे । वादर सुहुमेइंदी सच्चे पज्जच इदरा य ॥ १२ ॥ मग्गणगुणठाणेहिं य चउदसहिं हवंति तह असुद्धणया । विण्णेया संसारी सच्चे सुद्धा हु सुद्धणया ॥ १३ ॥ णिकम्मा अट्टगुणा, किंचूणा चरम-देहदो सिद्धा । लोयग्गठिदा णिच्चा उत्पादवयेहिं संजुत्ता ॥ १४ ॥ पय-डिड्ढिदिअणुभागप्पदेसबंधेहिं सच्चदो मुक्को । उड्ढं गच्छदि सेसा विदि-सावज्जं गर्दि जंति ॥ १५ ॥ अज्जीवो पुण णेओ पुग्गल धम्मो अध-

म्म आयासं । कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति सेसा दु ॥१६॥
 सहो बंधो सुहमो थूलो संठाणभेदतमच्छाया । उज्जो दादवसहिया पुग्गल-
 दव्वस्स पज्जाया ॥ १७ ॥ गइपरिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसह-
 यारी । तोयं जह मच्छाणं अच्छंता शेव सो णेई ॥ १८ ॥ ठाणजुदाण
 अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी । छाया जह पहियाणं गच्छंता णेव
 सो धरई ॥ १९ ॥ अवगासदाणजोग्गं जीवादीणं वियाण आयासं । जेण्हं
 लोगागासं अल्लोगागासमिदि दुविहं ॥ २० ॥ धम्माधम्मा कालो पुग्गल-
 जीवा य संति जावदिये । आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोमुत्तो
 ॥ २१ ॥ दव्वपरिवट्टरूवो जो सो कालो हवेइ ववहारो । परिणामादी-
 लक्खो वट्टणलक्खो य परमट्टो ॥ २२ ॥ लोयायासपदेसे इक्केक्के जे
 ठिया-हु इक्केक्का । रयणाणं रासीमिव ते कालाणू असंखदव्वाणि ॥२३॥
 एवं छब्भेयमिदं जीवाजीवप्पभेददो दव्वं उचं कालविजुरं णायव्वा पंच
 अत्थिकाया दु ॥ २४ ॥ संति जदो तेणेदे अत्थीति भयांति जिणवरा
 जम्हा । काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य ॥ २५ ॥ होंति
 असंखा जीवे धम्मा धम्मे अणंत आयासे । मुत्ते तिविह पदेसा कालस्सेगो
 ण तेणं सो काओ ॥ २६ ॥ एयपदेसो वि अणू णाणाखंधप्पदेसदो होदि ।
 बहुदेसो उवयारा तेण य काओ भयांति सव्वाण्हू ॥ २७ ॥ जावदियं
 आयासं अविभागी पुग्गलाणुवट्टद्धं । तं खु पदेसं जाणे सव्वाणुट्टाण दाण-
 रिहं ॥ २८ ॥ आसवबंधणसंवर णिज्जरमोक्खा सपुण्णपावा जे । जीवा-
 जीवविसेसा ते वि समासेण पभणामो ॥ २९ ॥ आसवदि जेण कम्मं
 परिणामेणप्पणो स विण्णेओ । भावासवो जिणुत्तो कम्मासवरं परो होदि
 ॥ ३० ॥ मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोहादओऽथ विण्णेया । पण पण
 पणदह तिय चट्टु—, कमसो भेदा दु पुव्वस्स ॥ ३१ ॥ णाणावरणादीणं
 जोग्गं जं पुग्गलं समासवदि । दव्वासवो स णेओ अणेयभेदो जिणक्खादो
 ॥ ३२ ॥ वज्जदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबंधो सो । कम्मादप-
 देसाणं अण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥ ३३ ॥ पयडिडिदिअणुभाग,—प्पदेसभेदा
 दु च्चट्टुविधो बंधो । जोगा पयडिपदेसां ठिदिअणुभाग कसायदो-होंति

॥ ३४ ॥ चेदणपरिणामो जो कम्मस्सामवणिरोहणे हेऊ । सो भावसंवरो
 खलु दब्बासवरोहणे अण्णो ॥ ३५ ॥ वदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपिहा
 परीमहजओ य । चारित्तं बहुभेयं णायव्वा भावसंवरविसेसा ॥ ३६ ॥
 जहकालेण तवेण य भुत्तमं कम्मपुग्गल जेण । भावेण सडदि शेया
 तम्मडणं चेदि णिज्जग दृचिहा ॥ ३७ ॥ सव्वस्स कम्मणो जो खयहेदू
 अप्पणो हु परिणामो । शेओ स भावमोक्खो दब्बविमोक्खो य कम्मपुध-
 भावो ॥ ३८ ॥ मुहअमुहभावजुन्ता पुएणं पावं हवंति खलु जीवा । सादं
 मुहाउ णाम गोदं पुएणं पराणि पावं च ॥ ३९ ॥ सम्मदंसण णाणं
 चणं मोक्खस्स कारणं जाणे । ववहारा णिच्चयदो तत्तियम इओ णिओ
 अप्पा ॥ ४० ॥ ग्यणन्तयं ण वट्टइ अप्पाण सुयत्तु अणणदवियहि । तह्मा
 तत्तियमइओ होदि हु मोक्खणम्म कारणं आदा ॥ ४१ ॥ जीवादीसदहणं
 सम्पत्तं रुवमप्पणो तं तु दुरभिणिवेसविमुक्कं णाणं सम्मं खु होदि सदि
 जहि ॥ ४२ ॥ संयविमोहविब्भमविवज्जियं अप्पपरसरुवस्स । गहणं
 सम्मं णाणं सायाम्मणेयभेयं च ॥ ४३ ॥ जं सामण्णं गहणं भावाणं येव
 कट्टुमायारं । अविसेसिदूण अट्टे दंसणमिदि भण्णये समये ॥ ४४ ॥
 दंसणपुच्चं णाणं उदत्थाणं ण दुण्णिण उवओंगा । जुगवं जह्मा केवलि,
 णाहे जुगव तु ते दो वि ॥ ४५ ॥ असुहादो विणिविची सुहे पवित्ती य
 जाण चारिचं । वदसमिदिगुत्तिरुव । ववहारणया डु जिणभणियं ॥ ४६ ॥
 वहिम्भंतरकिरिया रोहो भवकारणप्पणासट्ट । णाणिस्स जं जिणुत्तं तं
 परमं सम्मचारित्तं ॥ ४७ ॥ दुविहपि मोक्खहेउं भाणे पाउणदि जं मुणी
 णियमा । तह्मा पयत्तचिन्ता जूयं ज्झाणं सट्टभसह ॥ ४८ ॥ मा मुज्झह
 मा रज्जह मा दुस्सह इट्टणिट्टअत्थेसु । थिरमिच्छहि जइ चित्त विचित्तभा-
 णप्पसिद्धीये ॥ ४९ ॥ पणतीस सोल छप्पण चदु दुगमेगं च जवह
 भाएह । परमेट्टिवाचयाण अण्णं च गुरुवदेसेण ॥ ५० ॥ णट्ट चदुघाह
 क्रम्मो दंसणसुहणायवीरियमईओ । सुहदेहत्यो अप्पा सुद्धो अरिहो विचि-
 तिज्जो ॥ ५१ ॥ णट्टकम्मदेहो लोयालोयस्स जाणओ दडा । पुरिसायारो
 अप्पा सिद्धो ज्झाएह लोयसिहरत्थो ॥ ५२ ॥ दमणणायपहाणे वीरिय-

चारित्रवरतवायारे । अप्पं परं च जुंजइ सो आइरियो मुणी ज्जेओ
 ॥ ५३ ॥ जो रयणचयजुत्तो णिच्चं धम्मोवएसणे णिरदो । सो उवभाओ
 अप्पा जदिवरवसहो णमो तस्स ॥ ५४ ॥ दंसणणाणसमग्गं मग्गं मोक्ख-
 स्स जो हु चारिचं । साधयदि णिच्च सुद्धं साहू स मुणी णमो तस्स ॥ ५५ ॥
 जं किंचि वि चिंतंतो णिरीहविची हवे जदा साहू । लद्धूणय एयत्तं तदा
 हु तं तस्स णिच्चयं उभत्तंणं ॥ ५६ ॥ मा चिद्धह मा जंपह, मा चित्तह
 किंचि जेण होइ थिरो । अप्पा अप्पह्नि रओ इणमेव परं हवे ज्जाणं
 ॥ ५७ ॥ तवसुदवदवं चेदा उभाणरहधुरधरो हवे जह्मा । तह्मा तत्तिय-
 णिरदा तल्लद्धीए सदा होह ॥ ५८ ॥ दन्वसंगहमिणं मुणिणाहा दोससंच-
 यच्चुदा सुदपुण्णा । सोधयंतु तणुसुत्तधरेण णेमिचंदमुणिणा भणियं जं
 ॥ ५९ ॥

अथाष्टकस्तोत्रम् ।

अद्य मे सफलं जन्म नेत्रे च सफले मम । त्वामद्राक्षं यतो देव
 हेतुमक्षयसम्पदः ॥ १ ॥ अद्य संसारगम्भीरपारावारः सुदुस्तरः । सुतरो-
 ऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ २ ॥ अद्य मे क्षालितं गात्रं नैत्रे च
 विमले कृते । स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ३ ॥ अद्य मे
 सफलं जन्म प्रशस्तं सर्वमंगलम् । संसारार्णवतीर्णोऽहं जिनेन्द्र तव दर्श-
 नात् ॥ ४ ॥ अद्य कर्माष्टकज्वालं विधूतं सकषायकम् । दुर्गतेर्विनिवृत्तो-
 ऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ५ ॥ अद्य सौम्या ग्रहा सर्वे शुभाश्चैकादश
 स्थिताः । नष्टानि विघ्नजालानि जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ६ ॥ अद्य नष्टो
 महाबन्धः कर्मणां दुःखदायकः । सुखसंगमसमापन्नो जिनेन्द्रं तव दर्श-
 नात् । अद्य कर्माष्टकं नष्टं दुःखोत्पादनकारकम् । सुखाम्भोधिनिमग्नोऽहं
 जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ८ ॥ अद्य मिथ्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिवाकरः ।
 उदितो मच्छिरीरेऽस्मिन् जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ९ ॥ अद्याहं सुकृती

भूतो निर्धृताशेषकन्मषः । भुवनत्रयपूज्योऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ १० ॥
 अद्याष्टकं पठेद्यस्तु गुणानन्दितमानसः । तस्य सर्वार्थसंसिद्धिर्जिनेन्द्र तव
 दर्शनात् ॥ ११ ॥

अथ दृष्टाष्टकस्तोत्रम्

दृष्टं जिनेन्द्रभवनं भवतापहारि, भव्यात्मनां विभवसंभवभूरिहेतुः ।
 दुग्धाब्धिफेनधवलोज्वलकूटकोटि-नद्धध्वजप्रकरराजिविराजमानम् ॥ १ ॥
 दृष्टं जिनेन्द्रभवनं भुवनैकलक्ष्मीधामर्द्धिवर्द्धितमहासुनिसेव्यमानम् । विद्या-
 धरामरवधूजनमुक्तदिव्य-पुण्याञ्जलिप्रकरशोभितभूमिभागम् ॥ २ ॥ दृष्टं
 जिनेन्द्रभवनं भवनादिवाम-विख्यातनाकगणिकागणगीयमानम् । नाना-
 पणिप्रचयभासुररश्मिजाल-व्यालीढनिर्मलविशालगवाक्षजालम् ॥ ३ ॥
 दृष्टं जिनेन्द्रभवनं सुरसिद्धयक्ष-गन्धर्वकिन्नरकरार्पितवेणुवीणा । संगीत-
 मिश्रितनमस्कृतधीरनादै-रापूरिताम्बरतलोरुदिगन्तरालम् ॥ ४ ॥ दृष्टं
 जिनेन्द्रभवनं विषलद्विलोल-मालाकुलालितलितालक विभ्रमाणम् । माधु-
 र्यवाद्यलयनृत्यविलासिनीनां, लीलाचलद्वलयनूपुरनादरम्यम् ॥ ५ ॥ दृष्टं
 जिनेन्द्रभवनं मणिरत्नहेमसारोज्वलैः कलशचामरदर्पणाद्यैः । सन्मंगलैः
 सततमष्टशतप्रभेदै-र्विभ्राजित विमलमौक्तिकदामशोभम् ॥ ६ ॥ दृष्टं जिने-
 न्द्रभवनं वरदेवदारु-कर्पूरचन्दनतरुस्कसुगन्धिधूपैः । मेघायमानगगने पव-
 नाभिघात-चञ्चलद्विमलकेतनतुङ्गशालम् ॥ ७ ॥ दृष्टं जिनेन्द्रभवनं
 ध्रुवलातपत्र-च्छायानिमग्नतनुयक्षकुमारवृन्दैः । दोधूयमानसितचामरपक्ति-
 भासं, आमंडलद्युतियुतप्रतिमाभिरामम् ॥ ८ ॥ दृष्टं जिनेन्द्रभवनं विवि-
 धप्रकार-पुष्पोपहाररमणीयसुरत्नभूमि । नित्यं वसंततिलकश्रियमा दधानं
 सन्मंगलं सकलचन्द्रमुनीन्द्रवन्द्यम् ॥ ९ ॥ दृष्टं मयाद्य मणिकाञ्चनचित्र-
 तुङ्गसिंहासनादिजिनविम्बविभूतिमुक्तम् । चैत्यालयं यदतुलं परिकीर्तितं
 मे, सन्मंगलं सकलचन्द्रमुनीन्द्रवन्द्यम् ॥ १० ॥

अथ परमानन्दस्तोत्रम्

परमानन्दसंयुक्तं, निर्विकारं निरामयम् ॥ ध्यानहीना न पश्यन्ति,
निजदेहे व्यवस्थितम् अनंतसुखसंपन्नं, ज्ञानामृतपयोधरम् ॥ अनंतवीर्य-
सम्पन्नं, दर्शनं परमात्मनः ॥ २ ॥ निर्विकारं निराबाधं, सर्वसंगविवर्जि-
तम् । परमानन्दसम्पन्नं, शुद्धचैतन्यलक्षणम् ॥ ३ ॥ उत्तमा स्वात्मचिंता
स्यात्, मोहचिंता च मध्यमा । अधमा कामचिंता स्यात्, परचिंताधमाधमा
॥ ४ ॥ निर्विकल्पसमुत्पन्नं, ज्ञानमेव सुधारसम् । विवेकमंजलिं कृत्वा,
तं पिबन्ति तपस्विनः ॥ ५ ॥ सदानंदमय जीवं, यो जानाति स पंडितः ।
स सेवते निजात्मानं, परमानंदकारणम् ॥ ६ ॥ नलिनाच्च यथा नीरं भिन्नं
तिष्ठति सर्वदा । सोऽयमात्मा स्वभावेन, देहे तिष्ठति निर्मलः ॥ ७ ॥ द्रव्य-
कर्ममलैर्मुक्तं, भावकर्मविवर्जितम् । नोकर्मरहितं सिद्धं, निश्चयेन चिदा-
त्मकम् ॥ ८ ॥ आनंदं ब्रह्मणो रूपं, निजदेहे व्यवस्थितम् । ध्यानहीना न
पश्यन्ति, जात्यन्धा इव भास्करम् ॥ ९ ॥ सद्ध्यानं क्रियते भव्यो, मनो
येन विलीयते । तत्क्षणं दृश्यते शुद्धं, चिच्चमत्कारलक्षणम् ॥ १० ॥ ये
ध्यानलीना मुनयः प्रधानाः, ते दुःखहीना नियमाद्भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं
परमात्मतत्त्वं, व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव ॥ ११ ॥ आनंदरूपं परमात्मतत्त्वं
समस्तसंकल्पविकल्पमुक्तम् । स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं, जानाति योगी
स्वयमेव तत्त्वं ॥ १२ ॥ निजानंदमयं शुद्धं, निराकारं निरामयम् । अनंत-
सुखसम्पन्नं सर्वसंगविवर्जितम् ॥ १३ ॥ लोकमात्रप्रमाणोयं, निश्चये न
हि संशयः । व्यवहारे तनुमात्रः, कथितः परमेश्वरैः ॥ १४ ॥ यत्क्षणं
दृश्यते शुद्धं, तत्क्षणं गतविभ्रमः । स्वस्थचित्तः स्थिरीभूत्वा, निर्विकल्प-
समाधितः ॥ १५ ॥ स एव परमं ब्रह्म, स एव जिनपुंगवः । स एव परमं
तत्त्वं, स एव परमो गुरुः ॥ १६ ॥ स एव परमं ज्योतिः स एव परमं
तपः । स एव परमं ध्यानं, स एव परमात्मकः ॥ १७ ॥ स एव सर्व-

कल्याणं, स एव सुखभाजनम् । स एव शुद्धचिद्रूपं स एव परमं शिवः
 ॥ १८ ॥ स एव परमानन्दः, स एव सुखदायकः । स एव परमज्ञानं स
 एव गुणसागरः ॥ १९ ॥ परमाह्लादसंपन्नं, रागद्वेषविवर्जितम् । सोहं तं
 देहमध्येषु यो जानाति स पंडितः ॥ २० ॥ आकाररहितं शुद्धं, स्वस्व-
 रूपे व्यवस्थितम् । सिद्धमष्टगुणोपेतं, निर्विकारं निरंजनम् ॥ २१ ॥ तत्स-
 दृशं निजात्मानं, यो जानाति स पंडितः । सहजानन्दचैतन्यप्रकाशाय मही-
 यसे ॥ २२ ॥ पापाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृतम् । तिलमध्ये
 यथा तैलं, देहमध्ये तथा शिवः ॥ २३ ॥ काण्ठमध्ये यथा वह्निः, शक्ति-
 रूपेण तिष्ठति । अयमात्मा शरीरेषु, यो जानाति स पंडितः ॥ २४ ॥

श्रावक-प्रतिक्रमणम् ।



जीवे प्रमादजनिताः प्रचुराः प्रदोषा यस्मात्प्रतिक्रमणतः प्रलयं प्रया-
 न्ति । तस्मात्तदर्थममलं मुनिबोधनार्थं वक्ष्ये विचित्रभक्तकर्मविशोधनार्थम्
 ॥ १ ॥ पापिष्ठेन दुरात्मना जडधिया मायाविना लोभिना रागद्वेषमलीम-
 सेन मनसा दुष्कर्म यन्निर्मितम् । त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र ! भवतः श्रीपाद-
 मूलेऽधुना निन्दापूर्वमहं जहामि सततं वर्वर्तिषुः सत्पथे ॥ २ ॥ खम्भामि
 सव्वजीवाणंसव्वे जीवा खमंतु मे । मेत्ती मे सव्वभूदेसु वेरं मज्झंण केणवि
 ॥ ३ ॥ रागबंधपदोसं च हरिसं दीणभावयं । उस्सुगत्तं भयं सोगं रदिम-
 रदिं च वोस्सरे ॥ ४ ॥ हा दुट्ठकयं हा दुट्ठचित्थियं भासियं च हा दुट्ठं ।
 अंतो अंतो उज्झमि पच्छत्तावेण वेयंतो ॥ ५ ॥ दव्वे खेत्ते काले भावे य
 कदावराहसोहणयं । सिंदणगरहणजुत्तो मणवयकाएण पडिकमणं ॥ ६ ॥

एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिय-पंचेदिय-पुठविकाइय-आउकाइय
 -तेउकाइय-चाउकाइय-वणप्फदिकाइय तस्सकाइया, एदेसिं उहावणं परि-
 दावणं विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुपणिंदो

तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।

दंसणवयसामाइयपोसहसच्चित्तरायभत्ते य ।

वंभारंभपरिग्गहअणुमणुमुद्धिट्ठ देसविरदेदे ॥ १ ॥

एयासु जधाकहिदपडिमासु पमादाइकयाइचारसोहणडुं छेदोवट्ठावणं
होदु मज्झं ।

अरहंतसिद्धआइरियउवज्झायसच्चसाहुसक्खियं सम्मत्तपुव्वगं सुव्वदं
दिढव्वदं, समारोहियं मे भवदु मे भवदु मे भवदु ।

देवसियपडिक्कमणाए सव्वाइचारविसोहिणिमित्तं पुव्वाइरियकमेण अलो-
यणसिद्धभत्तिकाउस्सग्गं करेमि

सामायिकदण्डकः—

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणां णमो आइरियाणं ।

णमो उवज्झायाणां णमो लोए सव्वसाहूणं ॥ ३ ॥

चत्तारि मंगलं—अरहंत मंगलं, सिद्ध मंगलं, साहु मंगलं, केवलि
पण्णत्तो धम्मो मंगलं ।

चत्तारि लोगोत्तमा—अरहंतलोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवलि-
पण्णत्तो धमो लोगोत्तमा ।

चत्तारि सरणं पव्वजामि—अरहंत सरणं पव्वजामि, सिद्ध सरणं
पव्वजामि, साहु सरणं पव्वजामि, केवलिपण्णत्तो धम्मो सरणं पव्वजामि ।

अड्ढाइज्जदीवदोसमुद्देसु पण्णारसकम्मभूमीसु जाव अरहंताणं भय-
वंताणं आदियराणं तित्थयराणं जिणाणं जिणोत्तमाणं केवलियाणं, सिद्धाणां
बुद्धाणं परिणिव्वुदाणं अंतयडायां पारयडाया, धम्माइरियाणं, धम्मदेसयाणं,
धम्मणायगाणं, धम्मवरचाउरंगचक्कवट्ठीणं देवाहिदेवाणा, णाणाणं दंसणाणं
चरित्तायां सदा करेमि किरियम्मं ।

करेमि भंते ! सामाइय सच्चं सावज्जजोगं पच्चक्खामि, जावजीवं
तिविहेण मणसा वच्चिया काएण ण करेमि ण कारेमि अण्णां करंतं पि ण
समणुमणामि । तस्स भंते ! अइचारं पडिक्कामि, सिंढामि, गरहामि
अप्पाणं, जाव अरहंताया भयवंताणं पज्जुवासं करेमि ताव कायां पावक-

म्मं दुच्चरियं वोस्मरामि ।

शामोकार ६ गुणिया । कायोत्सर्गं उच्छ्वास २७।

चतुर्विंशतिस्तवः—

थोस्सामि हं जिणवरे तित्थयरे केवलीअणंतजिणें । एरपवरलोयम-
हिए विहुयरयमले महापण्णे ॥ १ ॥ लोयस्सुज्जोययरे धम्मंतित्थंकरे
जिणे वंदे । अरहंते कित्तिस्से चउवीसं. चेव केवलियो ॥ २ ॥ उसहमजियं
च वंदे संभवमभिणांदणं च सुमइं च । पउमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं
वंदे ॥ ३ ॥ सुविहं च पुप्फयंतं सीयल सेयंस वासुपुज्जं च । विमलपणंतं
भयवं धम्मं संतिं च वंदामि ॥ ४ ॥ कुन्थुं च जिणवरिंदं अरं च मल्लिं च
सुच्चयं च णमिं । वंदामि रिट्ठणेमिं तहपासं वड्ढमाणं च ॥ ५ ॥ एवं मए
अमित्थुआ विहुयरयमला पहीणजरमरणा । चउवीसं पि जिणवरा तित्थ-
यरा मे पसीयंतु ॥ ६ ॥ कित्तिय वंदिय महिया एए लो गोत्तमा जिणा
सिद्धा । आरोग्गणाणलाहं दिंतु समाहिं च मे बोहिं ॥ ७ ॥ चंदेहि णिम्म-
लयरा आइच्चेहिं अहियं पयासंता । सायरमिच गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम
दिसंतु ॥ ८ ॥

धीमते वर्धमानाय नमो नमितविद्धिषे ।

यज्ज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोष्पदायते ॥ १ ॥

सिद्धभक्तिः—

तवसिद्धे णयसिद्धे संयमसिद्धे चरित्तसिद्धे य ।

णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥ २ ॥

इच्छामि भंते ! सिद्धभक्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं, सम्मणाण-
सम्मदंसण सम्मचरित्तजुत्ताणं अट्ठविहकम्मसुक्काणं अट्ठगुणसंपण्णाणं
उड्ढलोयमत्थयम्मि पइट्ठियाणं तवसिद्धाणं णयसिद्धाणं चरित्तसिद्धाणं
सम्मणाण-सम्मदंसण सम्मचरित्तसिद्धाण अदीदाणागदवड्ढमाणकालत्तय-

सिद्धाणं सव्वसिद्धाणं शिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि णमंसामि दुक्ख-
क्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति
होउ मज्झं ।

आलोचना --

इच्छामि भते ! देवसियं आलोचेउं । तत्थ-पंचुवरसहियाइं सत्त वि
वसणाइं जो विवज्जेइ । सम्मत्तविसुद्धपई सो दंसणसावओ भणियो ॥ १ ॥
पञ्च यं अणुव्वयाइं गुणव्वयाइं हवंति तह तिण्णि । सिक्खावयाइं चत्तारि
जाण विदियम्मि ठाणम्मि ॥ २ ॥ जिणवयणधम्मचेइयपरमेट्टिजिणयाल-
याण णिच्चं पि । जं वंदणं तियालं कीरइ सामाइयं तं खु ॥ ३ ॥ उच-
ममज्झेजंहणं तिविहं पोसहविहाणमुद्धिं । सगसत्तीएं मासम्मि चउसु पव्वेसु
कायव्वं ॥ ४ ॥ जं वज्जिजंदि हरिदं तयपत्तपवालकंदफलवीयं । अप्पा-
सुगं च सलिलं सच्चित्तणिव्वत्तिमं ठाण ॥ ५ ॥ एणवयणकायकदकारि-
दाणुमोदेहिं मेहुणं णवधा । दिवसम्मि जो विवज्जेदि गुणम्मि सो सावओ
छट्ठो ॥ ६ ॥ पुव्वुत्तणवविहाणं णि मेहुणं संव्वदा विवज्जतो । इत्थि-
कहादिणिवित्ती सत्तमगुणव्रंभचारी सो ॥ ७ ॥ जं किंपि गिहारंभ बहु-
थोवं वा सया विवज्जेदि । आरंभणिवित्तपदी सो अट्टमसावओ भणिओ
॥ ८ ॥ मोत्तूण वत्थमिचं परिग्गहं जो विवज्जदे सेसं । तत्थ वि मुच्छ ण
करदि वियाण सो सावओ खवमो ॥ ९ ॥ पुट्ठो वा पुट्ठो वा णियगेहिं परेहिं
सग्गिहकज्जे । अणुमंगणं जो ण कुणदि वियाण सो सावओदसमो ॥ १० ॥
एवकोडीसु विसुद्धं भिक्खायरणेण भुंजदे भुंजं । जायणरहियं जोग्गं एया-
रस सावओ सो दु ॥ ११ ॥ एयारसम्मि ठाणे उक्किट्ठो सावओ हवे
दुविहो । वत्थेयधरो पढमो कोवीणपरिग्गहो विदिओ ॥ १२ ॥ तववयणि-
यमावासयलोचं कारेदि पिच्छ गिण्हेदि । अणुवेहाधम्मझाणं करपत्ते एय-
ठाणम्मि ॥ १३ ॥

इत्थ मे जो कोई देवसिओ अइचारो अणाचारो तस्स भते ! पडिके-
मामि पडिकम्मंतस्स मे सम्मत्तमरणं समाहिमरणं पंडियमरणं वीरियमरणं
दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुण-

संपत्ति होउ मज्झं ।

दंसणेवयसामाइयपोसहंसच्चित्तरायभत्ते य ।

वंभारंभपरिग्गहअणुपणुमुद्धिद्ध देसविरदेदे ॥ १ ॥

एयासु जधाकहिदपडिमासु पमादाइकयाइचारसोहणं छेदोवट्टावणं
होदु मज्झं ।

प्रतिक्रमणभक्तिः--

श्रीपडिक्कमणभक्ति काउस्मग्गं करेमि-

णमो अरहंताणमित्यादि-थोस्सामीत्यादि ।

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सच्चसाहूणं ॥ ३ ॥

णमो जिणाणं ३, णमो णिस्सहीए ३, णमोत्थु दे ३, अरहंत !
सेद्ध ! बुद्ध ! खीरय ! खिम्मल ! सममण ! सुभमेण ! सुसमत्थ ! सम-
त्तोग ! समभाव ! सल्लघट्टाणं ! सल्लघत्ताण ! णिब्भय ! णिराय ! णिद्दोस !
णिम्मोह ! णिम्मम ! णिस्संग ! णिस्सल ! माणमायमोसमूरण ! तव-
प्पहावण ! गुणरयण ! सीलसायर ! अणंत ! अप्पमेय ! महदिमहावीर-
वट्टमाण ! बुद्धिरिसिणो चेदि णमोत्थु दे णमोत्थु दे णमोत्थु दे ।

ममं मज्झलं अरहंता य सिद्धा य बुद्धा य जिणा य केवलिणो ओहि-
ओहिणाणिणो मणपज्जयणाणिणो चउदसपुव्वंगामिणो सुदसमिदिसमिद्धा
य, तवो य वारसविहो तवसी, गुणा य गुणवंतो य महारिसी तित्थं
तित्थकरा य, पवयणं पवणी य, णाणं णाणी य, दंसणं दंसणी य, संजमो
संजदा य, विणओ विणीदा य, वंभचेरवासो वंभचारी य, गुत्तीओ चैव
गुत्तिमंतो य, मुत्तीओ चैव मुत्तिमंतो य, समिदीओ चैव समिदिमंतो य,
ससमयपरसमयविद्, खंति खवगा य, खीणमोहा य खीणवंतो य, बोहि-
यवुद्धा य बुद्धिमंतो य, चेईयरुक्खाय चेईयाणि ।

उद्धमहतिरियलोए सिद्धायदणाणि णमंसामि सिद्धिणिसीहियाओ
अट्टावपव्वे य सम्मेदे उज्जंते चंपाये पावांए मज्झिमाए हत्थिवालियसहाए

जाओ अण्णाओ का वि णिसीहियाओं जीवलोयम्मि ईसिपब्भारतलगयाणं
सिद्धाणं बुद्धायां कम्मचकमुक्काणं णीरयाणं णिम्मलाणं गुरुआइरियउवज्झा-
याण पव्व-तित्थेर-कुलयराणं चाउवण्णाय समणसंघा य भरहेरावएसु दससु
पंचसु महाविदेहेसु जे लोए संति साहवो संजदा तवसी एदे मम मंगलं
पविचं एदे हं मंगलं करेमि भावदो विसुद्धो सिरसा अहिवंदिऊण सिद्धे
काऊण मंजलिमत्थयंमि पडिलेहिय अट्टकत्तरिओ तिविहं तियरणसुद्धो ।

पडिक्कमामि भंते ! दंसणपडिमाए संकाए कंखाए विदिगिंछाए पर-
पासंडाए पसंसाए पसंथुए जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया
काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे
दुक्कडं ॥ १ ॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए पढमे थूलयडे हिंसाविरदिवदे वहेण
वा वंधेण वा छेएण वा अइभारारोहणेण वा अण्णपाणणिरोहणेण वा जो
मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो
वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ २-१ ॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिआए विदिए थूलयडे असच्चविरदिवदे
मिच्छोवदेसेण वा रहोअब्भक्खाणेण वा कूडलेहणकरणेण वा शयापहा-
रेण वा सायारमंत्रमेएण वा जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया
काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे
दुक्कडं ॥ २-२ ॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए तिदिए थूलयडे थेणविरदिवदे
थेणपओगेण वा थेणहरियादारणेण वा विरुद्धरज्जाइक्कमणेण वा हीणा-
हियमाणुम्माणेण वा पडिरूवयववहारेण वा जो मए देवसिओ अइचारो
मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स
मिच्छा मे दुक्कडं ॥ २-३ ॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए चउत्थे थूलयडे अवंभविरदिवदे
परविवाहकरणेण वा इत्तरियागमणेण वा परिग्गाहिदापरिग्गाहिदागमणेण
वा अणंगकीडणेण वा कापतिव्वाभिणिवेसेण वा जो मए देवसिओ अइ-

चारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ २-४ ॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए पंचमे थूलयडे परिग्गहपरिमाणवदे
खेत्तवत्थूणं परिमाणाइक्कमणेण वा धणधाणाणं परिमाणाइक्कमणेण वा दासी-
दासाणं परिमाणाइक्कमणेण वा हिरणसुवण्णाणं परिमाणाइक्कमणेण वा कुप्प-
भांडपरिमाणाइक्कमणेण वा जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण
कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥२-५॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए पढमे गुणव्वदे उड्ढवइक्कमणेण वा
अहोवइक्कमणेण वा वातिरियवइक्कमणेण वा खेत्तउद्धीएण वा सदिअंत-
राधाणेण वा जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा
कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥२-६-१॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए विदिए गुणव्वदे आणयणेण वा
विणिजोगेण वा सहाणुवाएण वा रूवाणुवाएण वा पुग्गलखेवेण वा जो
मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा
कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ २-७-२ ॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए तिदिए गुणव्वदे कंदप्पेण वा कुक्कु-
वेएण वा मोकखरिएण वा असमक्खियाहिकरणेण वा भोगोपभोगाणत्थ-
केण वा जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो
वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ २-८-३ ॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए पढमे सिक्खावदे फासिंदियभोग-
परिमाणाइक्कमणेण वा रसणिंदियभोगपरिणाइक्कमणेण वा घाणिंदिय-
भोगपरिमाणाइक्कमणेण वा सवणिंदियभोगपरिमाणाइक्कमणेण वा जो
मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो
वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ २-९-१ ॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए विदिए सिक्खावदे फासिंदियपरि-
भोगपरिमाणाइक्कमणेण वा रसणिंदियपरिभोगपरिमाणाइक्कमणेण वा
घाणिंदियपरिभोगपरिमाणाइक्कमणेण वा चक्खिंदियपरिभोगपरिमाणा-

इक्कमणेण वा सवणिंदियपरिभोगपरिमाणाइक्कमणेण वा जो मए देव-
सिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा
समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ २-१०-२ ॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए तिदिए सिक्खावदे सच्चित्तणिक्खे-
वेण वा सच्चित्तापिहाणेण वा परउवएसेण वा कालाइक्कमणेण वा मच्छरि-
एण वा जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा
कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ २-११-३ ॥

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए चउत्थे सिक्खावदे जीविदासंसणेण
वा मरणासंसणेण वा मित्ताणुराएण वा सुहाणुबंधेण वा णिदाणेण वा जो
मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो
वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ २-१२-४ ॥

पडिक्कमामि भंते ! सामाइयपडिमाए मणहुप्पणिधाणेण वा वायदु-
प्पणिधाणेण वा कायदुप्पणिधाणेण वा अणादरेण वा सदिअणुवट्टावणेण
वा जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो
वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ३ ॥

पडिक्कमामि भंते ! पोसहपडिमाए अप्पडिवेक्खियापमज्जियोस्सग्गेण
वा अप्पडिवेक्खियापमज्जियादाणेण वा अप्पडिवेक्खियापमज्जियासंधारो-
वक्कमणेण वा आवस्सयाणादरेण वा सदिअणुवट्टावणेण वा जो मए देव-
सिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा
समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ४ ॥

पडिक्कमामि भंते ! सच्चित्तविरदिपडिमाए पुढविकाइया जीवा असं-
खेज्जासंखेज्जा आउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा तेउकाइया जीवा असं-
खेज्जासंखेज्जा वाउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा वणप्फदिकाइया जीवा
अणंताअणंता हरिया वीया अंकुरा छिण्णा मिण्णा एदेसिं उट्टावणं परिदा-
वणं विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स
मिच्छा मे दुक्कडं ॥ ५ ॥

पडिक्कमामि भंते ! रायभत्तपडिमाए एवविहवंभचरियस्स दिवा

जो मये देवसिओ अइचारो अणाचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥६॥

पडिक्कमामि भंते ! वंभपडिमाए इत्थिश्चक्रहायत्तणेण वा इत्थिमणोहरंगणिरक्खणेण वा पुव्वय्याणुरसरणेण वा कामकोवणरसासेवणेण वा सरीरमंडखेण वा जो मए देवसिओ अइचारो अणाचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥७॥

पडिक्कमामि भंते ! आरंभविरदिपडिमाए कसायवसंगएण जो मए देवसियो आरंभो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥८॥

पडिक्कमामि भंते ! परिग्गहविरदिपडिमाए वत्थमेत्तपरिग्गहादो प्रवरम्मि परिग्गहे सुच्छापणिणामे जो मए देवसिओ अइचारो अणाचारो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥९॥

पडिक्कमामि भंते ! अणुमणुविरदिपडिमाए जं किं पि अणुमण्णं पुट्टापुट्टेण कदं वा कारिदं वा कीरंतं वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥१०॥

पडिक्कमामि भंते ! उद्दिट्ठविरदिपडिमाए उद्दिट्ठदोसवहुलं अहोरदियं आहारयं अहारवियं आहारिज्जंतं वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥११॥

इच्छामि भंते ! इमं णिग्गथं पावयणं अणुत्तरं केवल्लयं पडिपुण्णं णेगाइय सामाइय संसुद्ध सल्लघट्टाण सल्लघत्ताणं सिद्धिमाग्गं सेट्ठिमग्गं खत्तिमग्गं मोत्तिमग्गं पमोत्तिमग्गं मोक्खमग्गं पमोक्खमग्गं णिज्जाणमग्गं णिव्याणमग्गं सव्वदुक्खपरिहाणिमग्गं सुचरियपरिणिव्वाणमग्गं अवित्तहमविसंतिपव्वयणमुपमं तं मद्दहामि तं पत्तियामि तं रोचेमि तं फासेमि इदो उत्तरं अण्णं णत्थि भूदं ण भयं ण भविस्सदि णाणेण वा दंसणेण वा चरित्तेण वा सुत्तेण वा इदो जीवा सिज्झति वुज्झति मुच्चति परिणिव्वाणयंति सव्वदुक्खाणमंतं करंति परिवियाणंति समणोमि संजदोमि उवरदोमि

उवसंतोमि उवधिणियडियमाणमायामोसमूरण मिच्छणाणमिच्छदंसणमिच्छ-
चरिचं च पडिविरदोमि सम्मणाणसम्मदंसणसम्मचरिचं च रोचेमि जं जिण-
वरोहिं पणत्तो इत्थ मे जो कोइ देवसिओ अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा
मि दुक्कडं ।

इच्छामि भंते ! वीरभक्तिकाउस्सग्गं करेमि जो मए देवसिओ अइ-
चारो अणाचारो आभोगो अणाभोगो काइयो वाइयो माणासिओ दुच्चरिओ
दुच्चरिओ दुब्भासिओ दुप्परिणामिओ गाणे दसणे चरित्ते सुत्ते सामाइए
एयारसण्हं पडिमाणं विराहणाए अट्टविहस्स कम्मस्स णिग्घादणाए अण्णहा
उस्सासिदेण णिस्सासिदेण वा उम्मिसिदेण णिम्मिसिदेण खासिदेण वा
छिंकिदेण वा जंभाइदेण वा सुहुमेहिं अंगचलाचलेहिं दिट्ठिचलाचलेहिं
एदेहिं सन्वेहिं असमाहिं पत्तेहिं आयारेहिं जाव अरहंताणं भयवंताणं पज्जु-
वासं करेमि तान कायं पाव कम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि ।

दंसणवयसामाइयपोसहसचिचाराइभत्ते य ।

वंभारंभपरिग्गहअणामणुमुद्दिट्ठं सविरदेदे ॥ १ ॥

वीरभक्तिकाउस्सग्गं करेमि—

(णामो अरहंताणमित्यादि, थोस्सामीत्यादि जाप्य ३६ देवा) ।

यः सर्वाणि चराचराणि विधिनाद्द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि
भूतभाविभवातः सर्वान् सदा सर्वदा । जानीते युगपत्प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ
इत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः ॥ १ ॥ वीरः सर्व-
सुरासुरेन्द्रमहितो वीरं ब्रुधाः संश्रिता वीरेणामिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय
भक्त्या नमः वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तामनुलं वीरस्य वीरं तपो वीरे श्री-श्रुति-
कांति-कीर्ति-धृतयो हे वीर ! भद्रं त्वयि ॥ २ ॥ ये वीरमादौ प्रणमन्ति नित्यं
ध्यानास्थिताः संयमयोगयुक्ताः । ते वीतशोका हि भवन्ति लोके संसारदुर्गं
विषयं तरन्ति ॥ ३ ॥ व्रतसमुदयमूलः संयमस्कन्धवन्धो यमनियमपयोभि-
र्वधितः शीलशाखः । समितिकलिकभारो गुप्तिगुप्तप्रवालो गुणाकुसुमसुगंधिः

सत्तपश्चित्रपत्रः ॥ ४ ॥ शिवसुखफलदार्थी यो दयाच्छाययोधः शुभजन-
पथिकानां खेदनोदे समर्थः । दुरितरविजतापं प्रापयन्नन्तभावं स भववि-
भवहान्यैनोऽस्तु चारित्रवृत्तः ॥ ५ ॥ चारित्र सर्वजिनैश्वरितं प्रोक्तं च
सर्वशिष्येभ्यः । प्रणमामि पंचभेदं पंचमचारित्रलाभाय ॥ ५ ॥ धर्मः सर्व-
सुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय
तस्मै नमः । धर्मान्नास्त्यपरः सुहृद्भवभृतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्त-
महं दधे प्रतिदिनं हे धर्म ! मां पालय ॥ ७ ॥ धम्मो मगलमुद्दिट्ठं अहिंसा
संयमो तवो । देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मो सया मणो ॥ ८ ॥

इच्छामि भंते ! पडिकमणाइचारमालोचेउं तत्थ देसासिआ आसणा-
सिआ ठाणासिआ कालासिआ मुहासिआ काओसग्गासिआ पाणामासिआ
आवत्तासिआ पडिककमासिए छसु आवासएसु परिहीणदा जो मए अच्चा-
सणा मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुम-
णिणदो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

दसणवय सामाइय-पोसह-सच्चित्त-रायभत्ते य ।

वंभारंभ परिग्गह-अणुपणमुद्दिट्ठ देसविरदो य ॥ १ ॥

चउवीसतिरथयरभक्तिकाउस्सग्गं करेमि—

(णमो अरहंताणमित्थादि, थोस्सामीत्थादि)

चउवीसं तित्थयरे उअहाइवीरपच्छिमे वंदे । सव्वेसिं गुणगणहरसिद्धे
सिरसा णमंसामि ॥ १ ॥ ये लोकेष्टसहस्रलक्षणधरा ज्ञेयार्णवान्तर्गता ये सम्य-
कभवजालहेतुमथनाश्चन्दार्कतेजोधिकाः । ये साध्विन्द्रसुराप्सरोगणशतै-
र्गीतप्रणुत्यार्चितास्तान् देवान् वृभादिवीरचरमान् भक्त्या नमस्याम्यहम्
॥ २ ॥ नाभेयं देवपूज्यं जिनवरमजितं सर्वलोकप्रदीपं सर्वज्ञं संभवाख्यं
मुनिगणवृषभं नन्दनं देवदेवम् । कर्मारिधनं सुबुद्धिं वरकमलनिभं पद्मपुष्पा-
भिगन्धं क्षान्त दान्तं सुपाश्वं सकलशशिनिभं चन्द्रनामानमीडे ॥ ३ ॥
विख्यातं पुष्पदन्तं भवभयमथनं शीतलं लोकनार्थं श्रेयांसं शीलकोशं प्रव-
रनरगुरु वासुपूज्यं सुपूज्यम् । मुक्तं दान्तेन्द्रियाश्वं विमलमृपिपतिं सिंह-

सैन्यं मुनीन्द्रं धर्मं सद्धर्मकेतुं शमदमनिलयं स्तौमि शान्तिं शरप्यम् ॥४॥
 कुन्थुं सिद्धालयस्थं श्रमणपतिमरं त्यक्तभोगेषु चक्रं महिं विख्यातगोत्रं
 खचरणनुतं सुव्रतं सौख्यराशिम् । देवेन्द्रार्च्यं नमीशं हरिकुलतिलकं
 नेमिचन्द्रं भवान्तं पार्श्वं नागेन्द्रचन्द्रं शरणमहमितो वर्धमानं च भक्त्या ॥५॥

अंचलिका----

इच्छामि भंते ! चउवीसतित्थयरभत्तिकाउस्सगो कओ तस्सालोचेउं
 पञ्चमहाकल्लाणसंपण्णाणं अड्डमहापाडिहेरसहिदाणं चउतीसातिसयविसेस-
 संजुत्ताणं वच्चीसदेर्विदमणिमउडमत्थयमहिदाणं बलदेव-वासुदेव-चकहर-
 रिसिमुण्णिजइअणगारोवगूढाणं शुइसहस्सणिलयाणं उसहाइवीरषच्छिममङ्ग-
 लमहापुरिसाणं णिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि णमंसामि दुक्खक्खओ
 कम्मक्खओ वोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ
 मज्झं ।

दंसण-वय-सामाइय-पोसह-सच्चित्त-रायत्ते य ।

चंभारंभ-परिग्गह-अणुमणमुद्दिट्ट देसविरदो ॥ १ ॥

श्रीसिद्धभक्ति-श्रीप्रतिक्रमणभक्ति-श्रीवीरभक्ति-श्रीचतुर्विंशतिभक्तीः
 कृत्वा तद्धीनाधिकत्वादिदोषविशुद्धयर्थं समाधिभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहं-
 (रामोकार ९ गुणित्वा)

अथेष्टप्रार्थना प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः शास्त्राभ्यासो जिनपति-
 नुतिः संगतिः सर्वदोषैः सद्बृत्तानां गुगगणकथा दोषवादे च मौनम् ।
 सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवभवे याव-
 देतेऽपवर्गः ॥ १ ॥ तव पादौ मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनं ।
 तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावद्यावन्निर्वाणसम्प्राप्तिः ॥ २ ॥ अक्खरपयत्थहीणं
 मत्ताहीणं च जं भए भणियं । तं खमउ णाणदेव य मज्झं वि दुक्खक्खयं
 दिंतु ॥ ३ ॥ दुक्खक्खओ कम्मक्खओ वोहिलाहो सुगइगमणं समाहि-
 मरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

इति श्रीश्रावकप्रतिक्रमण समाप्तम् ।

दीक्षा-नक्षत्राणि -

प्रणम्य शिरसा वीरं जिनेन्द्रममलव्रतम् । दीक्षा ऋक्षाणि वक्ष्यन्ते
सतां शुभफलाप्तये ॥ १ ॥ भरण्याचारफाल्गुन्यौ मघाचित्राविशखिकाः ।
पूर्वाभाद्रपदा भानि रेवती मुनि-दीक्षणे ॥ २ ॥ रोहिणी चोचाराषाढा
उत्तराभाद्रपत्तथा । स्वातिः कृत्तिकया सार्धं वर्ज्यते मुनिदीक्षणे ॥ ३ ॥
अश्विनी-पूर्वाफाल्गुन्यौ हस्तस्वात्यनुराधिकाः । मूलं तथोत्तराषाढा श्रवणः
शतभिषक्तथा ॥ ४ ॥ उत्तराभाद्रपच्चापि दशेति विशदाशयाः । अरि-
काणां व्रते योग्यान्युषन्ति शुभहेतवः ॥ ५ ॥ भरण्यां कृत्तिकयां च
पुष्पे श्लेषार्द्रयोस्तथा । पुनर्वसो च नो द्युरार्यिकाव्रतमुत्तमाः ॥ ६ ॥
पूर्वाभाद्रपदा मूलं धनिष्ठा च विशाखिका । श्रवणश्चैषु दीक्ष्यन्ते लुल्लकाः
शल्यवर्जिताः ॥ ७ ॥

इति दीक्षानक्षत्रपटलम्

-*-

दीक्षा ग्रहणक्रिया

सिद्धयोगिवृहद्भक्तिपूर्वकं लिङ्गमर्प्यताम् ।

लुञ्चाख्यानाग्न्यपिच्छात्म क्षम्यतां सिद्धभक्तिततः ॥

अथदीक्षाग्रहण क्रियायां..... सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोमिः—

('सिद्धानुद्धृत' इत्यादि)

अथ दीक्षाग्रहण क्रियायां..... योगिभक्तिकायोत्सर्गं करोमि
(थोस्सामि गुणधराणां इत्यादि जातिजरोरुोग इत्यादि वा) अनन्तरं
लोचकरण, नामकरण, नाग्न्यप्रदानं, पिच्छप्रदानं च अथ दीक्षा निष्ठा-
पनक्रियायां.....सिद्धभक्ति कायोत्सर्गं करोमि ।

दाक्षादानोत्तरकर्त्तव्यम्—

व्रतसमितीन्द्रियरोधाः पंच पृथक् क्षितिशयो रदाघर्षः ।
स्थितिसकृदशने लुञ्चवश्यकषट्के विचेलताऽस्नानम् ॥

इत्यष्टविंशति मूलगुणान् निक्षप्य दीक्षिते ।
संचेपेण सशीलादीन् गणी कुर्यात्प्रतिक्रमम् ॥

लोचक्रिया

लोचो द्वित्रिचतुर्मासैर्वरो मध्योऽधमः क्रमात् ।

लघु प्राग्भक्तिः कार्यः सोपवास प्रतिक्रमः ॥

अथ लोच प्रतिष्ठापनक्रियायां..... सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोमि-
('तवसिद्धे' इत्यादि)

अथ लोच प्रतिष्ठापनक्रियायांयोगिभक्तिकायोत्सर्गं करोमि
अनन्तरं स्वहस्तेन परहस्तेनापि वा लोचः कार्यः ।

अथ लोच-निष्ठापनक्रियायां.....सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोमि ('तव-
सिद्धे' इत्यादि) अनन्तरं प्रतिक्रमणं कर्तव्यम् ।

बृहद्दीक्षाविधिः

पूर्वदिने भोजनसमये भाजनतिरस्कारविधिं विधाय आहारं गृहीत्वा
चैत्यालये आगच्छेत् । ततो बृहत्प्रत्याख्यानप्रतिष्ठापने सिद्धयोगभक्तिं
पठित्वा गुरुपाश्र्वे प्रत्याख्यानं सोपवासं गृहीत्वा आचार्य-शांति समाधि-
भक्तीः पठित्वा गैरोः प्रणामं कुर्यात् ।

अथ दीक्षादाने दीक्षादातृजनाशांतिक-गणधरबलयपूजादिकं यथा-
शक्तिं कारयेत् । अथ दाता तं स्नानादिकं कारयित्वा यथायोग्यालङ्कार-
युक्तं महामहोत्सवेन चैत्यालये समानयेत् । स देवशास्त्र-गुरुपूजां विधाय
वैराग्यभावनापरः सर्वैः सह क्षयां कृत्वा गुरोरग्रेनिष्ठेत् ।

ततो गुरोरग्रे संवस्याग्रे दीक्षायै च यांचां कृत्वा तदाज्ञया सौभाग्य-
वती-स्त्री-विहितस्वस्तिकोपरि श्वेतवस्त्रं प्रच्छाद्य तत्र पूर्वदिशाभिमुखः
पर्यंकासनं कृत्वा आसते गुरुश्चोत्तराचिमुखो भूत्वा संघाष्टकं संवं च परि-
पृच्छ्य लोचं कुर्यात् ।

अथ तद्विधिः—

बृहद्दीक्षायां लोचस्वीकारक्रियायां पूर्वाचार्येत्यादिकमुच्चार्य सिद्ध-योगि-
भक्तिं कृत्वा—

ॐ नमोऽर्हते भगवते प्रक्षीणाशेषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये श्रीशांति-
नाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्व-
परकृतञ्जुद्रोपद्रवविनाशनाय सर्वक्षामडामरविनाशाय ओ हां हीं हूं हौं हः
अ सि आ उ सा अमुकस्य सर्वं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ।

इत्येनेन मंत्रेण गन्धोदकादिकं त्रिवारं मंत्रयित्वा शिरसि निक्षिपेत् ।
शांतिमंत्रेण गंधोदकं त्रिः परिषिच्य मस्तकं वामहस्तेन स्पृशेत् । ततो
दध्यक्षतगोमयदूर्वां कुरान् मस्तके वर्धमानमंत्रेण निक्षिपेत्—

ॐ नमो भयवदोवड्ढमाणस्स रिसहस्स चक्कं जलंतं गच्छ्ह आयासं
पायाल लोयाणं भूयाणं जये वा विवादे वा थंभणे वा रणंगणे वा रायं-
गणे वा मोहण वा सव्वजीवसत्तायां अपराजिदो भवदु भवदे रक्ख रक्ख
स्वाहा वर्धमान मंत्रः ।

ततः पवित्रभस्मपात्रं गृहीत्वा “ओं णमो अरहंतायां रत्नत्रयपविमिकृ-
चोत्तमांगाय ज्योतिर्मयाय मतिश्रुतावधिमनः पर्ययकेवलज्ञानाय असि आउसा
स्वाहा” इदं मंत्रं पठित्वा शिरसि कर्पूरमिश्रितं भस्मपरिक्षिप्य “ओं हीं श्रीं क्लीं
ऐं अर्हं अ सि आ उ सा स्वाहा अनेन प्रथमं केशोत्पादनं कृत्वा पश्चात् “ओं
हां अर्हद्भ्यो नमः, ओं हीं सिद्धेभ्यो नमः, ओं हूं सूरिभ्यो नमः, ओं
हौं पाठकेभ्यो नमः, ओं हः सर्वसाधुभ्यो नमः” इत्युच्चरन् गुरुः स्वहस्तेन
पंचवारान् केशान् उत्पाटयेत् । पश्चादन्यः कौऽपि लोचावसाने बृहद्दी-
क्षायां लोचनिष्ठापनक्रियायां पूर्वाचार्येत्यादिकं पठित्वा सिद्धभक्तिः (किंत)
कर्तव्या (कुर्यात्) ततः शीर्षं प्रक्षाल्य गुरुभक्तिं कृत्वा वस्त्राभरणयज्ञो-
पवीतादिकं परित्यज्य तत्रैवावस्थाप्य दीक्षा याचयेत् । ततो गुरुः शिरसि
श्रीकारं लिखित्वा “ओं हीं अर्हं अ सि आ उ सा हीं स्वाहा” अनेन
१०८ मंत्रेण जाप्यं दद्यात् । ततो गुरुस्तस्यांजलौ केशरकर्पूरश्रीखंडेन
श्रीकरं कुर्यात् ।

श्रीकारस्य चतुर्दिक्षु—

रयणत्तयं च वंदे चउवीसजिणं तहा वंदे ।

पंचगुरूपं वंदे चारणजुगलं तहा वंदे ॥

इति पठन् अंकान् लिखेत् । पूर्वे ३ दक्षिणे २४

पश्चिमे ५ उत्तरे २ इति लिखित्वा “सम्यग्दर्शनाय नमः सम्यक्चारि-
त्राय नमः” इति पठन् तन्दुलैरञ्जलिं पूर्यत्तदुपरि नालिकेरं पूगीफल च
धृत्वा सिद्धचारित्रयोगिभक्तिं पठित्वा व्रतादिकं दद्यात् ।

तथा हि—

वदसमिर्दियरोधो लोचो, आवासयमचेलमणहाणं ।

खिदिसयणमदतवणं ठिदिभोयणमेयभचं च ॥ २ ॥

इति पठित्वा तद्व्याख्या विधेया कालानुसारेणेति निरूप्य पंचमहा-
व्रत-पंचसमित्यादि पठित्वा सम्यक्त्रपूर्वकं दृढव्रतं सुव्रतं समारूढते भवतु
इति त्रीनवारान् उचार्य व्रतानि दत्वा तथा शांतिभक्तिं पठेत् । ततः
आशोः श्लोक पठित्वा अंजलिस्थं तन्दुलादिकं दात्रे दापयित्वा अथ षोड-
शसंस्कारारोपणं—

अयं सम्यग्दर्शनसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ १ ॥

अयं सम्यग्ज्ञानसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ २ ॥

अयं सम्यक्चारित्रसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ ३ ॥

अयं बाह्याभ्यंतरतपःसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ ४ ॥

अयं चतुर्गवीर्यसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ ५ ॥

अयं अष्टमातृमंडलसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ ६ ॥

अयं शुद्ध्यष्टकावष्टंभसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ ७ ॥

अयं अशोषपरीषहजयसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ ८ ॥

अयं त्रियोगसंगमनिवृत्तिशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ ९ ॥

अयं त्रिकरणसंयमनिवृत्तिशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ १० ॥

अयं दशासंयमनिवृत्तिशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ ११ ॥

अयं चतुःसंज्ञानिग्रहशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ १२ ॥

अयं पंचेन्द्रियजयशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ १३ ॥

अयं दशधर्मधारणशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ १४ ॥

अयं मष्टादशसहस्रशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ १५ ॥

अयं चतुरशीतिलक्षणसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ १६ ॥

इति प्रत्येकमुच्चार्य शिरसि लवंगपुष्पाणि क्षिपेत् 'णमो अरहंताणं'
इत्यादि ओ परमहंसाय परिभेष्टिने हंस हंस हं ह् हं हौं हीं है हः जिनाय
नमः जिन स्थाययामि संवौषट् ऋषिमस्तके न्यसेत् अथ गुर्वावली पठित्वा
अमुकस्य अमुकनामा त्वं शिष्य इति कथयित्वा संयमाद्युपकरणानि दद्यात् ।

णमो अरहंताणं भो अन्तेवासिन् ! षड्जीवनिकायरक्षणाय मार्दनादि-
गुणोपेतमिदं पिच्छिकोपकरणं गृहाण गृहाणेति ।

ओं णमो अरहंताणं मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानाय द्वादशांग-
श्रुताय नमः भो अन्तेवासिन् । इदं ज्ञानोपकरणं गृहाण गृहाणेति ।

कमंडलु वामहस्तेन उद्धृत्य ओं णमो अरहंताणं रत्नत्रयपवित्रकर-
णाय बाह्याभ्यंतरमलशुद्धाय नमः भो अन्तेवासिन् ! इदं शौचोपकरणं
गृहाण गृहाणेति ।

तत्पश्चात् समाधि-भक्तिं पठेत् । ततो नवदीक्षितो मुनिर्भक्त्या गुरुं
प्रणम्य अन्यान् मुनीन् प्रणम्योपविशतियावद् व्रतारोपणं न भवति ताव-
दन्ये मुनयः प्रतिवन्दनां न ददति ततो दातृप्रमुखा जना उत्तमफलानि
अग्रे निधाय तस्मै नमोऽस्तुत्वति प्रणामं कुर्वति ।

ततस्तत्पक्षे द्वितीयपक्षे वा सुमुहूर्ते व्रतारोपणं कुर्यात् । तदा रत्न-
त्रयपूजां विधाय पाक्षिकप्रतिक्रमणपाठः पठनीयः तत्र पाक्षिकनियमग्रह-
णसमयात् पूर्वं यदा वदसमदीत्यादि पठ्यते तदा पूर्वव्रतव्रतादि दद्यात् ।
नियमग्रहण समय यथायोग्यं एकं तपो दद्यात् (पत्न्यविधानादिकम्) दातृ-
प्रभृतिश्रावकेभ्योऽपि एकं एकं तपो दद्यात् ततोऽन्ये मुनयः प्रतिवन्दनां
ददति ।—

अथ मुखशुद्धिं मुक्तकरणे विधिः—

त्रयो दशसु पंचसु त्रिषु वा कच्चोलिकाशु लवंगएलापूगोफलादिकं

निक्षिप्य ताः कच्चोलिकाः गुरोरग्रे स्थापयेत् 'मुखशुद्धिमुक्तकरणपाठक्रिया-
यामित्याद्युच्चार्य सिद्ध योगी आचार्य शांति-समाधि भक्तिर्विधाय ततः
पश्चान्मुखशुद्धिं गृह्णीयात् ।

इति महाव्रतदीक्षा विधिः

क्षुल्लक दीक्षा विधिः

अथ लघुदीक्षायां सिद्ध-योगी-शांति-समाधिभक्तीः पठेत् । "ओं ह्रीं
श्रीं क्लीं ऐं अहं नमः" अनेन मंत्रेण जाप्यं वार २१ अथवा १०८
दीयते ।

अन्यच्च विस्तारेण लघुदीक्षाविधिः

अथ लघुदीक्षानेतृजनः पुरुषः स्त्री वा दाता संस्थापयति । यथा-
योग्यमलंकृतं कृत्वा चैत्यालये समानयेत्, देवं वंदित्वा सर्वे सह क्षपां
कृत्वा गुरोरग्रे च दीक्षां याचयित्वा तदाज्ञया सौभाग्यवतीस्त्री विहितस्व-
स्तिकोपरि श्वेतवस्त्रं प्रच्छाद्य तत्र पूर्वामिमुखः पर्याकासनो गुरुश्चोत्तरा-
मिमुखः संघाष्टं संघं पृच्छय च परिपृच्छय लोचं.....ओं नमोऽहते
भगवते प्रक्षीणाशेषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये शांतिनाथाय शांतिकराय
सर्वविघ्नप्रणाशकाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय ओं ह्रीं ह्रीं हूं ह्रीं हः अ
सि आ उ सा अमुकस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा, अनेन मंत्रेण गंधोद-
कादिकं त्रिवारं शिरसि निक्षिपेत् । शांतिमंत्रेण गंधोदकं पारं त्रि परिषिच्य
चामहस्तेन स्पृशेत् । ततो दध्यक्षतगोमयतद्भस्म दुर्वाकुरान् मस्तके वर्धा-
पनमंत्रेण निक्षिपेत् "ओं णमो भयवदो चङ्ढयमाणस्सेत्यादि वर्धापनमन्त्रः
पूर्वं कथितः । लोचादिविधि महाव्रतं विधाय सिद्धभक्ति योगभक्ति
पठित्वाव्रतं दद्यात् ।—

दंसणवयेत्यादि वारत्रयं पठित्वा व्याख्यायां विधाय च गुर्वावलीं
पठेत् । ततः संयमाद्युपकरणं दद्यात् । ओं णमो अरहंताणं भो क्षुल्लक ! (आर्य-
ऐलक) क्षुल्लके वा षट्जीवनिकायरक्षणाय मार्दवादिगुणोपेतमिदं पिच्छो-

पकरणं गृहाण गृहाण इत्यादि पूर्ववत्कमडण्डु ज्ञानोपकरणादिकं च मंत्र पठित्वा दद्यात् ।

इति लघुदीक्षा विधानं समाप्तम्

-*-

अथोपाध्यायदीक्षादानविधिः

शुभ मूहूर्ते दाता गणधरवल्यार्चनं च कारयेत् । ततः श्रीखंडादिना छटान् दत्त्वा तन्दुलैः स्वस्तिकं कृत्वा तदुपरि पट्टकं संस्थाप्य तत्र पूर्वा-
मिमुखं तमुपाध्यायपदयोग्यं मुनिमासयेत् अथोपाध्यायपदस्थापनक्रियायां
पूर्वाचार्येत्याद्युच्चाय सिद्ध श्रुतभक्तिं पठेत् । तत आह्वानादिमंत्रानुच्चार्य
शिरसि लवंग पुष्पाक्षतं क्षिपेत् तद्यथा-ओं हौं ऋमो उवज्झायाणं उपाध्या-
यपरमेष्ठिन् ! अत्र एहि एहि संवौषट आह्वानन स्थापनं सन्निधिकरणं ।
ततश्च “ओं हौं ऋमो उवज्झायाणं उपाध्यायपरमेष्ठिने नमः” इमं मंत्रं
सहेंदुना चन्दनेन शिरसि न्यसेत् । ततश्च शान्तिसमाधिभक्तीः पठत् ।
ततः स उपाध्यायो गुरुभक्तिं दत्त्वा प्रणम्य दात्र आशिषं दद्यादिति ।

इत्युपाध्यायपदस्थानविधिः

-*-

अथाचार्यपदास्थापनविधिः

सुमुहूर्ते दाता शांतिकं गणधरवल्यार्चनं च यथाशक्ति कारयेत् ।
ततः श्रीखंडादिना छटादिकं कृत्वा आचार्यपदयोग्यं मुनिमासयेत् । आचा-
र्यपदप्रतिष्ठापनक्रियायां इत्याद्युच्चार्य सिद्धाचार्यभक्तिं पठेत् । “ओं
हूं परमसुराभिद्रव्यसन्दर्भपरिमलगर्भतीर्थाम्बुसम्पूर्णसुवर्णकलशपंचकतो-
येन परिषेचयामीति स्वाहा” इति पठित्वा कलशपंचकतोयेन पादौपरि-
सेचयेत् । ततः पंडिताचार्यो “निर्वेद सौष्टीइत्यादि महर्षिस्तवनं पठनपादौ
समंतात्पराभ्युद्युत् कुर्यात् । ततः ओं हूं णमो आइरियाणं आचा-
र्यपरमेष्ठिन् ! अत्र एहि एहि संवौषट आह्वानं स्थापनं सन्निधिकरणं ।
ततश्च “ओं हूं णमो आइरियाणं धर्माचार्याधिपतये नमः” अनेन मंत्रेण

सहेन्दुना चन्दनेन पादयोर्द्वयोस्तिलकं दद्यात् । ततः शान्तिसमाधिभक्ति
कृत्वा गुरुभक्त्या गुरंप्रणम्योपविशति । तत उपासकास्तस्य पादयोरमृत-
मिमिष्टि कुर्वति । यतयश्चै गुरुभक्तिं दत्त्वा प्रणमंति । स उपाककेभ्य
आशीर्वादं दद्यात् ।

इत्याचार्यपददानविधिः

ॐ हां हीं श्रीं अर्हं हं सः आचार्याय नमः आचार्यवचनमंत्रः अन्यच्च-
ॐ हीं श्रीं अर्हं हं सः आचार्याय नमः आचार्यमंत्रः ।

३०२

मुनि एक स्थान पर कितने दिन रह सकते हैं ?

मासं वासोऽन्यदैकत्र योगक्षेत्रं शुचौ व्रजेत् ।

मार्गेऽतीते त्यजेच्चार्थवशादपि न लंघयेत् ॥

अर्थ—चातुर्मासके सिवाय हेमन्तादि ऋतुओंमें मुनिगण एक नगरादि
स्थानमें एक महीने तक ठहर सकता है । आषाढ़के महीने में वह श्रवणसङ्ग
वर्षायोग स्थानको चला जाय और कार्तिकका महीना बीतते ही उस वर्षायोग
स्थानको छोड़दे ।

—क्रियाकलापे पृ० ३२६





महावीर मुद्रणालय (प्रेस) अलीगंज (एटा)

